

# मार्कण्डेय-पुराण ( प्रथम खण्ड ) !

सरल भाषानुवाद सहित

सम्पादक—

वेदमूर्ति तपोनिष्ठ

पं० श्रीराम शर्मा आचार्य

चारों वेद, १०८ उपनिषद्, षट् दर्शन  
२० स्मृतियाँ और अठारह पुराणों के,  
प्रसिद्ध भाष्यकार ।

●  
प्रकाशक—

संस्कृति-संस्थान, बरेली  
( उत्तर-प्रदेश )

प्रकाशक :

संस्कृति-संस्थान

बरेली ।



सम्पादक :

पं० श्रीराम शर्मा आचार्य



सर्वाधिकार सुरक्षित



प्रथम संस्करण

१९६७



मुद्रक,

चुन्दावन शर्मा

जन जागरण प्रेस,

मथुरा ।



मूल्य—सात रुपये

# भूमिका

भारतवर्ष के धार्मिक साहित्य में पुराणों का एक विशिष्ट स्थान है। यों तो हिन्दू धर्म में वेदों की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है और अध्यात्म की दृष्टि से उपनिषदों को समस्त ससार में अद्वितीय माना गया है, पर लोक-प्रियता की दृष्टि से पुराणों का दर्जा बड़ा-चढ़ा है। जिस प्रकार ऊँचे दर्जे का साहित्य थोड़े विद्वानों द्वारा समाहृत होता है, पर सामान्य कोटि की मनोरंजक, तथा रुचिकर पुस्तकों का प्रचार अगणित जनता में होता है, उन्हीं प्रकार वेद और उपनिषदों के गूढ़ तत्वों का विवेचन जहाँ गिने चुने विद्वानों तथा अध्ययनशील व्यक्तियों के काम की चीज होती है, वहाँ पुराणों की कथाओं को गाँवों के अपठ लोग भी सुनते और समझते रहते हैं। यद्यपि कुछ कारणों से पठित ममुदाय में इनके सम्बन्ध में कई प्रकार की भ्रातियों फैली हुई हैं और अनेक आधुनिकता का दावा करने वाले सज्जन इनको सर्वथा कल्पित भी कह देते हैं, पर इसका कारण यही है कि उन्होंने कभी पुराणों के अध्ययन का प्रयत्न नहीं किया।

पुराणों का उद्देश्य  
5 चीन युगों की घटनाओं और परम्परागत ऐतिहासिक कथाओं को सरल तथा  
6 गोरजक शैली में वर्णन करना है। इनमें से कुछ वास्तविक, कुछ अर्ध-वास्तविक  
7 आर कुछ धर्म, पुण्य व सच्चरित्रता की प्रेरणा देने के लिये कल्पित भी होती है।  
8 पुराणों में प्रत्येक विषय को धर्म, सद्वाचार, नीति का पुट देकर लोक-शिक्षा का  
9 अध्ययन बनाने की चेष्टा की गई है। इसके लिये पुराण-लेखकों को घटनाओं के  
10 वर्णन में सशोधन, परिवर्तन तथा कल्पना का आश्रय अवश्य लेना पड़ा है, पर  
11 इसका मूल आधार प्रायः ठीक ही है और यदि हम उनके रूपक, अलंकार,  
12 शायोक्ति, अर्थवाद का विश्लेषण करके अन्तराल में भाँके तो अनेक बहुमूल्य  
13 र कल्याणकारी मणि-मुक्ताओं की प्राप्ति हो सकती है।

दुमरी बात यह भी है कि सब पुराण एक श्रेणी के और समान महत्त्व तथा दृष्टिकोण रखने वाले भी नहीं हैं। उनमें से कुछ का उद्देश्य पाठकों को अध्यात्मयोग, दर्शन, ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा देना है। कुछ किसी विशेष देवता-  
 [redacted] दाय के महत्त्व का प्रतिपादन करके अपने अनुयायियों की श्रद्धा को दृढ़ करने के उद्देश्य से रचे गये हैं। कई पुराणों में सीधी-सादी धार्मिक कथाओं और दृष्टान्तों द्वारा लोगों को उपासना, पूजा, भक्ति व्रत, जप, तप, सदाचार आदि की शिक्षा दी गई है, जिससे सामान्य मनुष्य अपने जीवन को अधिक शुद्ध, पवित्र बनाकर समाज के लिये हितकारी सिद्ध हो सके। फिर पुराणों का प्रचार और प्रभाव देखकर कुछ थोड़ी विद्या बुद्धि के लोगों ने छोटी-छोटी धार्मिक पुस्तक लिख कर उनके नाम में भी 'पुराण' शब्द सम्मिलित कर दिया है। ऐसी स्थिति में जो लोग केवल दोष-दर्शन अथवा विरोध की दृष्टि से ही पुराणों पर विचार करने लगते हैं उनको अपनी रुचि के अनुकूल विपरीत आलोचना, आक्षेप, दोषारोपण का मसाला भी उनमें मिल सकता है, पर हमारी सम्मति में उसकी न तो कोई उपयोगिता है, न प्रशंसा है और न उससे उनकी विद्या और बुद्धि की उत्कृष्टता का ही कोई प्रमाण मिलता है।

यदि पुराणों का गम्भीरता तथा सहानुभूति पूर्वक अध्ययन किया जाय तो मालूम होता है कि उनका मुख्य उद्देश्य वेद, उपनिषद्, दर्शन, स्मृतियों आदि शास्त्र-ग्रंथों में वर्णित धर्म, अध्यात्म, सृष्टिरचना, मानव-सभ्यता के विकास-सम्बन्धी गूढ़ तथ्यों का इस प्रकार विस्तार और व्याख्या सहित वर्णन करना था जिससे साधारण श्रेणी के जन साधारण उनको समझ कर लाभ उठा सके। उनका दूसरा उद्देश्य उन्हें कथा के उपयोगी रूप में बनाना भी था जिससे अनपढ़ लोगों, स्त्रियों और बालकों के सामने उनको बाँच कर उपदेश दे सकना संभव हो। इसी लिये पुराणों को प्रायः आख्यात, उपाख्यान, दृष्टान्त, रूपक, कहानी आदि ऐसी सुगम और सरल शैली में लिखा गया है जिससे सब प्रकार के व्यक्ति उनको प्रेम से सुन सकें और उनसे अपनी बुद्धि तथा स्थिति के अनुकूल लाभ उठा सकें।

पौराणिक साहित्य का एक लक्षण सर्ग ( सृष्टि रचना ) और प्रतिर्ग

(सृष्टि का लय तथा विलीनता) के विषय में विचार करना है। यद्यपि यह एक बहुत जटिल तथा विवादास्पद विषय है, जिसके सम्बन्ध में सप्ताह के बड़े से बड़े विद्वान् और वैज्ञानिक तरह-तरह के मतभेद प्रकट करते रहते हैं, पर पुराणों में इसे देवासुर संग्राम के रूप में ऐसा मनोरंजक बना दिया है कि पाठक कदाती के द्वारा ही सृष्टि-विज्ञान के मोटे तथ्यों को जान लेता है। इसी तरह प्राचीन राज-वशों का वर्णन भी पुराणकारों ने परोपकार, उदारता, त्याग, तपस्या के उदाहरण दिखाने के ढंग से ही किया है। यह आवश्यक नहीं कि राजवशों की ऐसी नामावलियों में प्रत्येक राजा के नाम आ ही जाये, पर उनमें से ऐसे राजाओं को छोट कर उनका विशेष रूप से वर्णन किया गया है जिनके चरित्र और कार्यों से हम किसी प्रकार की सत्शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को ऊँचा उठा सकते हैं।

इस दृष्टि से यदि हम कहे कि पुष्पाण-ग्रन्थ भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, इतिहास के भण्डार हैं तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। एक विद्वान् के कथनानुसार “पुराणों में भारत की सत्य और शाश्वत आत्मा निहित है, इन्हें पढ़े बिना भारत का यथार्थ चित्र सामने नहीं आ सकता, भारतीय-जीवन का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं हो सकता। इनमें आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक सभी विद्याओं का विशद वर्णन है। लोक-जीवन के सभी पक्ष इनमें अच्छे प्रकार प्रतिपादित हैं। ऐसा कोई ज्ञान-विज्ञान नहीं मानव मस्तिष्क का ऐसी कोई कल्पना या योजना नहीं, मनुष्य जीवन का ऐसा कोई अंग नहीं, जिसका निरूपण पुराणों में न हुआ हो। जिन विषयों को अन्य माध्यमों से सम्भलने में बहुत कठिनाई होती है, वे बड़े रोचक ढङ्ग में, मंगल भाषा में, ग्राह्यता आदि के रूप में इनमें वर्णित हुए हैं।” एक अन्य लेखक ने कहा है कि “भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति, सदाचार एवं सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन से सम्बन्धित अनेक विषय पुराणों में आये हैं। वस्तुतः पुराणों की वर्णन-ममृद्धि से स्तब्ध हो जाना पड़ता है। किन्तु इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण अथ वेदों की अध्यात्म ब्रह्मविद्या या सृष्टि विद्या है, जिसे पुराणों ने खुलकर स्वीकार किया है। ‘इतिहास पुराणाभ्यां वेद समुपवृंहयेत्’ यह सूत्र ही मानों पुराणों का रचना बीज बन गया था। इस दृष्टि से वेद-विद्या का ही लोक सुलभ अवान्तरूप पुराण-विद्या है।”

## मार्करडेयपुराण की विशेषता:—

महापुराणों के पाँच मुख्य लक्षण बताये गये हैं—सर्ग, प्रतिसर्ग, वश, मन्वन्तर और वशानुचरित । यद्यपि ये लक्षण थोड़े बहुत अन्तर के साथ सभी प्रसिद्ध पुराणों में पाये जाते हैं, तो भी जिन पुराणों का उद्देश्य किसी विशेष देवता या सम्प्रदाय की पृथि करना है उनका विशेष ध्यान उसी तरफ लग जाता है और इन मूल विषयों के वर्णन को भी उसी रङ्ग में रङ्ग दिया जाता है । पर 'मार्करडेय पुराण' इस बात से अधिकांश में बचा हुआ है और उसमें मुख्य रूप से धर्म, नीति, सदाचार के प्रतिपादन को ही अपना लक्ष्य बनाया है । उसमें ब्रह्म, विष्णु शिव में से किसी देवता को बढ़ाने के लिये दूसरे की हीनता नहीं दिखलाई गई है । इसी प्रकार अग्नि, सरस्वती, सूर्य आदि का भी समान-भाव से स्तवन किया गया है । इम निष्पक्षता की भावना के फलस्वरूप इस पुराण में विभिन्न विषयों का यथार्थ रूप में वर्णन करने की तरफ ध्यान दिया गया है, जिससे उसकी उपयोगिता बढ़ गई है । इस दृष्टि से यह पुराण हिन्दू-धर्म की समन्वयवादी विचारधारा की एक बहुत उत्तम कृति है जिसने पृथक्-पृथक् सम्प्रदायों के भेदभाव को मिटाने का प्रयत्न करते हुए सब देवों की एकता पर जोर दिया है । इसका विचार क्षेत्र इतना उदार है कि केवल हिन्दू सम्प्रदायों को ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन जैसे सर्वथा भिन्न समझे जाने वाले मतों के प्रति भी पृथक्त्व की भावना नहीं रखी है । भगवान् भास्कर की स्तुति करते हुए कहा है—

विस्पष्टा परमा विद्या ज्योतिर्भा शाश्वती स्फुटा ।

कैवल्य ज्ञानमाविर्भूँ प्राकाम्य सविदेव च ॥

बोधश्चावगतिश्चैव, स्मृतिर्विज्ञानमेव च ।

इत्येतानीह रूपाणि तस्य रूपस्य भास्वतः ॥

अर्थात् 'वैदिकों की पराविद्या, ब्रह्मवादियों की शाश्वत ज्योति, जैनो का कैवल्य, बौद्धों की बोधावगति, साख्यों का ज्ञान, योगियों का प्राकाम्य, वेदान्तियों

का सर्वात्, धर्मशास्त्रियों की स्मृति, योगाचार का विज्ञान—ये सब रूप एक ही महाज्योतिष्मान् सूर्य के विभिन्न दर्शन हैं ।’

इसकी दूसरी विशेषता ‘कर्म’ को प्रधानता देना है । अन्य अनेक लेखकों ने जहाँ यज्ञ-हवन आदि को ही धर्म का साधन माना है अथवा गृह त्याग करके तपस्वी या सन्यासी बन जाने को आत्म-कल्याण का मार्ग बतलाया है, वहाँ ‘मार्कण्डेय पुराण’ में ‘देवत्व, इन्द्रत्व और ब्रह्मत्व तक को कर्मों का परिणाम बतलाया है । यहाँ कर्म का तात्पर्य पूजा, पाठ, जप—तप से नहीं वरन् परोपकार और दुखी प्राणियों के कष्ट निवारण से ग्रहण किया गया है । ऐसे कर्म की प्रशंसा करते हुए पुराणकार कहते हैं—

“मनुष्य का जो कर्म करुणा से प्रेरित होता है और जिसमें किसी प्रकार के कष्ट का भाव नहीं होता, उससे मनुष्य को किसी प्रकार का बन्धन नहीं होता और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है ।”

बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव से देश में जब भिक्षु, मुनि, श्रमण आदि की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी और गृहस्थ-धर्म का उत्तरदायित्व पूरा किये बिना ही ‘निर्वाण’ और ‘मोक्ष’ के नाम पर कार्यक्षम व्यक्ति निकम्मा जीवन व्यतीत करने लगे थे तब मार्कण्डेय ने गृहस्थ-आश्रम की श्रेष्ठता प्रतिपादित की और स्पष्ट शब्दों में कहा कि ‘जो गृहस्थ धर्म का पालन करके पूर्वजों तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह गृह त्याग करके भी किसी प्रकार की सुगति किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, इस पर जब विपक्षी यह आक्षेप करते थे कि वेद और उपनिषदों में कर्म—मार्ग को अविद्या कहा है, तो फिर उसका अनुसरण क्यों करना चाहिये, तो मार्कण्डेय का उत्तर था कि ‘वेदों का यह कथन असत्य नहीं है कि ‘कर्म अविद्या है पर साथ ही यह भी कह दिया है कि विद्या तक पहुँचने का मार्ग अविद्या ही है । कर्तव्य-कर्म का पालन न करके जो ‘मयम’ का ढोंग करना है वह उत्थान के बजाय अधोगति के ढगड़े में गिरता है ।’ इस सिद्धान्त का बहुत स्पष्ट समर्थन ‘ईशोपनिषद्’ में से किया गया है जिसमें विद्या और अविद्या का समन्वय करने हुए कहा है—

विद्या चाविद्या च यस्तद वेदोभय ७ सह ।  
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥

अर्थात् 'मनुष्य के लिये विद्या रूप ज्ञान तत्त्व और अविद्या रूप कर्म तत्त्व दोनों का जानना ही आवश्यक है । वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पारकर ज्ञान के अनुष्ठान से अमृतत्व का उपभोग करता है ।' सासारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिये कर्मों में कुशल होने की आवश्यकता है और पारलौकिक जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थिति तक पहुँचने के लिये ज्ञान का होना अनिवार्य है । साथ ही यह भी निश्चित है कि कर्म की कुशलता प्राप्त किये बिना ज्ञान और मोक्ष का दावा करना एक प्रकार की मूर्खता है । गीता में भी 'योग कर्मसु कौशलम्' कहकर इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । शुकदेव और दत्तात्रेय जैसे पूर्व जन्म के सिद्ध योगियों का उदाहरण तो अपवाद स्वरूप है, सामान्य मनुष्यों के लिये जीवन को सार्थक बनाने का कर्म के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है ।

गृहस्थ धर्म के प्रतिपादन के साथ मार्कण्डेय ने नारी के महत्त्व को भी बतलाया है और सामाजिक जीवन में उसे उचित स्थान दिये जाने का समर्थन किया है । यद्यपि बौद्ध-युग में स्त्रियों को भी भिक्षुणी बनने का विधान था, पर गृहस्थी के रूप में उनके दर्जे को बहुत घटा दिया था । उनके कथनानुसार नारी मोक्ष प्राप्ति में एक बड़ी बाधा है इसलिये उसका त्याग और उपेक्षा ही मोक्षाभिलाषी के लिये आवश्यक है । स्वयं बुद्ध भी अपनी स्त्री यशोवरा को आकस्मिक रूप से छोड़कर चले आये थे इससे इस भावना को और भी अधिक बल मिला था । 'मार्कण्डेय पुराण' की इस धारणा को सर्वथा अग्राह्य बनलाकर स्त्रियों के ऐसे उपाख्यान उपस्थित किये जिनमें उनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्ण रूप से सहायिका माना गया । मदालसा उपाख्यान (१९-६६, ७५) में कहा गया है—

“पति को भाय्या की सदा रक्षा और पालना करनी चाहिये । भाय्या भर्ता की सहायिका होने पर मम्यक् प्रकार धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि का



निमित्त होती है। भार्या और भर्ता दोनों ही जब परस्पर में अनुकूल होते हैं तभी धर्म की प्राप्ति होती है। धर्मादि त्रिवर्ग में समाहित होने के कारण पुरुष जिस प्रकार भार्या के बिना कभी धर्म अर्थ का लाभ करने में समर्थ नहीं होता उसी प्रकार भार्या भी स्वामी के बिना धर्म-साधन में समर्थ नहीं होती। ये धर्म, अर्थ आदि दोनों के ही सम्यक् प्रकार में आश्रित रहते हैं। उदाहरण के लिये देवता, पितृ, भृत्य और अतिथियों का मत्कार न होने से धर्माचरण की पूर्ति नहीं होती। यदि पुरुष पर्याप्त धन कमा कर ले आवे पर घर में भार्या न हो अथवा वह कुभार्या हो तो वह सब धन बिना कुछ लाभ पहुँचाये क्षय की ही प्राप्त होता है। इसलिये पुरुष और स्त्री जब समान रूप से धर्म का पालन करते हैं तभी त्रयी धर्म लाभ करने में समर्थ होते हैं।”

### मार्कण्डेय पुराण के पाँच विभागः—

यद्यपि यह पुराण मार्कण्डेय ऋषि के नाम से पाँसद्ध है, पर इसमें वर्णित कथा प्रमद्भो के आधार पर ही यह प्रकट होता है कि यह कई वक्ताओं के मुख से निकल कर पूर्ण हुआ है। हम निम्न रीति से इसे ५ भागों में विभाजित कर सकते हैं।

(१) अध्याय १ से ६ तक जैमिनि ने मार्कण्डेय से महाभारत सम्बन्धी शङ्काओं के चार प्रश्न पूछे हैं। पर मार्कण्डेय ने समयाभाव से उनका उत्तर स्वयं न देकर जैमिनि को विन्ध्याचल पर्वत में रहने वाले धर्म-पक्षियों के पास भेज दिया, जिन्होंने उनकी शङ्काओं का पूर्ण रूप से समाधान किया।

(२) अध्याय १० से ४४ तक प्राणियों के जन्म, मरण, विकार आदि-भाव, तिरोभाव आदि के विषय में प्रश्न किया गया। इसका उत्तर वैसे धर्म-पक्षियों ने दिया, पर इनका वास्तविक वक्ता जड मुमति है, जिसने किसी समय अपने पिता को यही कथा सुनाई थी।

(३) अध्याय ४५ से ८० तक मार्कण्डेय ने अपने शिष्य क्रोष्टुकि के प्रति इम पुराण के मूल विषय का वर्णन किया है।

(४) अध्याय ८१ से ९२ तक देवी की कथा है, जिसे मेधा ऋषि ने कहा है। यह कथा देवी भागवत से मिलती हुई है तथा अन्य पुराणों में भी यह विस्तार के साथ पाई जाती है।

(५) अध्याय ९३ से अंतिम अध्याय तक कुछ विशेष राजाओं का वर्णन किया गया है।

इस पुराण में वर्णित आख्यानों की विविधता और कई वक्ताओं के मुख से इसका कथन देखने हुए स्वभावतः यह अनुमान होता है कि मूल पुराण में कुछ उपयोगी प्रश्नवाद में संग्रह करके सम्मिलित किये गये हैं। तो भी देशी और विदेशी विद्वान् आलोचकों की सम्मति के अनुसार यह अबसे सोलह-सत्रह सौ वर्ष पूर्व वर्तमान रूप में आ चुका था।

### ‘मार्कण्डेय पुराण’ के मुख्य विषय—

इस पुराण का आरम्भ जैमिनि और मार्कण्डेय के सम्वाद के रूप में होता है। जैमिनि व्यासजी के शिष्य थे और उनकी जगत् प्रसिद्ध रचना महा-भारत के बहुत बड़े प्रणसक थे, तो भी स्वतन्त्र चिन्तक होने के कारण उन्हें उसकी कुछ घटनाओं में सन्देह हुआ और मार्कण्डेय जी से उन्होंने उनका समाधान करने की प्रार्थना की। उनके चार प्रश्न इस प्रकार थे—(१) जगत् की सृष्टि, स्थिति, सहार करने वाले वामुदेव निर्गुण होकर भी किस कारण मनुष्यत्व (कृष्णावतार) को प्राप्त हुए ? (२) अकेली द्रौपदी किम प्रकार पाँचों पाण्डवों की महिषी हुई ? (३) महाबलशाली बलरामजी ने किम प्रकार तीर्थ-यात्रा करके ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त किया ? (४) महातेजस्वी पाण्डवों द्वारा द्रौपदी में उत्पन्न पाँचों पुत्र किस कारण अविवाहित अवस्था में ही मारे गये ? इन प्रश्नों पर विचार किया जाय तो प्रथम प्रश्न ही महत्त्व का है, जिसका निराय करने का प्रयत्न अति प्राचीनकाल से आज तक होता आया है। जबकि परमात्मा पूर्णतया अज्ञेय और निराकार है तो वह किस प्रकार सगुण बनकर ससार की रचना की व्यवस्था ही नहीं करता वरन् मनुष्य के रूप में अवतार लेकर दुष्टों से हमकी रक्षा भी करता है, यह प्रश्न सदैव दार्शनिकों तथा विचार-

शील लोगों के मध्य विवाद का विषय बना करता है। अन्य धर्म वालों ने भी अपने बुद्ध, तीर्थङ्कर, ईश्वर-पुत्र आदि को विशेष आत्मा के रूप में बतलाया है, पर पौराणिक सिद्धान्त के अनुसार साक्षात् परब्रह्म का इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होना एक ऐसी घटना है जिसका समाधान सहज में नहीं किया जा सकता ? इसलिये जैमिनि ने उस युग के श्रेष्ठ ज्ञानी समझे जाने वाले मार्कण्डेय के सामने सर्वप्रथम प्रश्न यही रखा कि वे 'निर्गुण या सगुण की समस्या का ठीक ढङ्ग से निर्णय करें।'

अगले अध्याय में उन चार धर्म-पक्षियों की कथा का वर्णन किया गया है जिनके मुख से मार्कण्डेय पुराण कहलवाया गया है। यद्यपि यह कथा मुख्यतः अभिमान से हानि और अतिथि-मत्कार की पराकाष्ठा दिखाने के उद्देश्य ही लिखी गई है पर उसमें स्थान-स्थान पर महत्त्वपूर्ण शिक्षाओं को सन्निवेशित किया गया है। जैसे-जीवन की अस्थिरता का वर्णन करके मनुष्य को प्रत्येक अवसर निर्भय रहकर कठिनाइयों का सामना करने के सम्बन्ध में कहा गया है—

“युद्ध में भागने वालों तथा युद्ध में लड़ने वालों का जीवन उतना ही होता है जितना विधाता द्वारा स्थिर किया रहना है। किसी का भी जीवन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता। कोई अपने घर में रहने पर भी मरता है, कोई भाग कर भी मरता है, कोई खाने-पीते ही मर जाता है। कोई स्वस्थ गरीब से विलास करता हुआ शस्त्रादि से बचकर भी काल के कराल गाल में जा पड़ता है, कोई तपस्या में निरत और कोई योगाभ्यास करते यमालय गया है, किन्तु अमर कोई नहीं हुआ। इसलिये कायरता पूर्वक युद्ध में विमुख होना मनुष्य के लिये सर्वथा अवोभनीय है।

### धर्म-पक्षियों का उपाख्यान—

तीसरे अध्याय में एक सत्य निष्ठ मुकृष नामक मुनि का उपाख्यान है। इनकी परीक्षा लेने के लिये इन्द्र एक बुद्धे गिद्ध का रूप धारण करके आया और उनसे अपने आहार के लिये मनुष्य का माँस माँगा। मुकृष ने पहले अपने चारों पुत्रों को बुला कर गिद्ध का आहार बनने के लिये कहा पर वे भयवश

इसके लिये तैयार न हो सके। तब पिता ने उनको पक्षी की योनि में उत्पन्न होने का शाप दिया और स्वयं गिद्ध का आहार बनने के लिये देह त्याग करने लगा। इस पर इन्द्र ने प्रकट होकर उसकी बड़ी प्रशंसा की और इच्छानुसार वरदान दिया। इस प्रसंग में चारों पुत्रों ने मानव-शरीर की वास्तविकता का जो वर्णन किया है वह बड़ा भावपूर्ण और साथ ही भावित्वमय है। उन्होंने कहा—

“यह मानव-देह एक नगर के समान है जो प्रज्ञा रूपी चहार दीवारी में घिगा हुआ है। हृदयों इमके खम्भे हैं, इसकी दीवारें चमड़े से बनी हैं और रक्त, मांस, चर्बी आदि से लिपी है। नसों का जाल इसे चारों ओर से घेरे हुए है। इम पुत्री के बहुत बड़े नौ दरवाजे हैं जिसके भीतर चैतन्य रूपी पुरुष राज्य करता है। मन और बुद्धि राजा के दो मन्त्री हैं, पर आपस में विरोध रहने के कारण वे एक दूसरे का प्रतिरोध करने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह नामक राजा के चार शत्रु हैं वह मदा राजा के नाश की चेष्टा करते रहते हैं।”

वह राजा जिस समय नौ द्वारों को रोक कर भीतर अवस्थान करता है तब उसकी शक्ति सुगन्धित रहती है और वह निर्भय होकर रहता है। उस समय शत्रुओं का उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। पर जब वह सब द्वारों को खोलकर रहना है तब ‘अनुराग’ नामक शत्रु नेत्रादि से आक्रमण करता है। यह शत्रु सर्वव्यापी और अत्यन्त प्रबल है। उसी समय लोभ, मोह और क्रोध रूपी तीनों शत्रु उसके पीछे-पीछे दौड़ते हैं। वह राग रूपी शत्रु इन्द्रिय रूपी दरवाजों द्वारा पुरी में घुस कर मन और बुद्धि के सग मयुक्त होने की अभिलाषा करता है। यह दुर्द्धर्ष राग ममस्त इन्द्रियों और मन को वशीभूत करके प्रजा रूपी परकोटा को भग्न करता है। बुद्धि भी मनको राग के वशीभूत देखकर तत्काल नष्ट हो जाती है। तब अमात्यहीन तथा प्रजा द्वारा त्यागा हुआ राजा अकेला रह जाता है और शत्रुगण उसको छिद्रों (निर्बल स्थानों) को जानकर उसे नष्ट कर डालते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ रूपी चारों शत्रु स्मृति-शक्ति का नाश कर देते हैं। राग से क्रोध होता है, क्रोध से लोभ

उत्पन्न होता है, लोभ से मोह की उत्पत्ति और उससे स्मृति का नाश होता है ।  
स्मृति नाश से बुद्धि नाश और बुद्धि का नाश होने से सर्वनाश होता है ।

### निर्गुण और सगुण ब्रह्म तथा अवतार—

जैमिनि ने प्रथम प्रश्न के उत्तर में कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप क्यों और कैसे धारण करते हैं पक्षियों ने एक 'चतुर्व्यूहात्मक' सिद्धान्त का वर्णन किया । उन्होंने कहा कि "तत्त्वदर्शी मुनियों के मतानुसार 'नार' जल को कहते हैं । वह 'नार' ही एकमात्र जिमका 'अयन' अर्थात् घर था उसको 'नारायण' कहा जाता है । वही अनन्त लीला निधान भगवान् विभु नारायण सगुण और निर्गुणात्मक द्विविध रूप से चार मूर्तियों में अवस्थित है । उनकी एक मूर्ति जो अनिर्देश्य अर्थात् वाणी से अतीत है, पंडित लोग जिसको शुक्ल वर्ण कहते हैं, जो नित्य रूपिणी मूर्ति तीनों गुणों को अतिक्रम करके दूर और निकट स्थित रहती है, उम प्रधान स्वरूप पहिली मूर्ति का नाम 'वासुदेव' मूर्ति है । इसमें ममता का लेशमात्र भी नहीं है । उसका रूप, वर्ण, नाम जो कुछ कहा जाता है वह सब कल्पनामय है, क्योंकि योगी भी उसका वास्तविक अनुभव नहीं कर सकते, वह मूर्ति सब काल विराजमान परम पवित्र तथा सदा एक रूप है ।

द्वितीय मूर्ति 'शेष' या 'सकर्षण' के नाम से पाताल में निवास करती है और इस पृथ्वी को मस्तक पर धारण किये हुए है । इस मूर्ति ने तामसी होने से तिर्यगयोनि अवलम्बन की है । तीसरी मूर्ति जिसके कारण सम्पूर्ण कर्म सम्यक् प्रकार साश्रित होते हैं, जिमके द्वारा प्रजा पालनादि सब कार्य सम्पादित होते हैं, उस सत्त्वगुण मयी मूर्ति का नाम 'प्रद्युम्न' मूर्ति है । चौथी मूर्ति पन्नग शैया पर जल में गहन करके वाम करती है, वह रजोगुण युक्त है । उमके द्वारा ही सदा सृष्टि कार्य सम्पन्न होता है, इस मूर्ति का नाम 'अनिरुद्ध' मूर्ति है । भगवान् की प्रजापालन कारिणी जो तीसरी प्रद्युम्न मूर्ति है, उमी के द्वारा पृथ्वी में सदा धर्म-सस्थान होता है । धर्म का विनाश करने वाले उद्धत अमुरगण उमी के द्वारा मरते हैं और उनके द्वारा ही धर्म रक्षापरायण प्राणी रक्षित होते हैं ।

मार्कण्डेय पुराण के मतानुसार उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर में निर्गुण और

॥, अमूर्त और मूर्त, पर और अपर इन दोनों का समन्वय पाया जाता है । 'अमूर्त' और 'पर' है उसी को 'अरूप' कहा गया है, एव जो 'मूर्त' और 'र' है वही उस परम आत्मा-नारायण विष्णु का विश्व स्वरूप है । जो लोग मूर्ते हैं कि भगवान् केवल क्षीरमागर में शयन कर रहे हैं अथवा बैकुण्ठ में जमान है, या गोलोक में लीला कर रहे हैं, वे अभी सत्य से दूर हैं । शान् तो एक सर्वव्यापी तत्त्व है और इस विश्व में जहाँ जो कुछ दृष्टि गोचर है वह उन्हीं का रूप है । इस तथ्य को 'विष्णु पुगाण' में भी अत्यन्त स्पष्ट ि में वर्णन किया है—

न तद्दयोग पूजा गक्य नृप चिन्तयितु यत ।  
 तत स्थूल हरेरूप चिन्तयेद्विश्व गोचरम् ॥५५  
 हिरण्य गर्भो भगवान् वासवोऽथ प्रजापतिः ।  
 मारुतो वसवो रुद्रा भास्करोस्तारका ग्रहाः ॥५६  
 गन्धर्वयक्षा देत्याद्या सकला देवयोनय ।  
 मनुष्या पशव शैला समुद्रा सरित द्रुमा ॥५७  
 भूत भूतान्य गेपाणि भूताना ये च हेतव ।  
 प्रधानादि विशेषान्त चेतना चेतनान्तकम् ॥५८  
 एक पाठ द्विपादच बहुपादमपादकम् ।  
 मूर्तमेतत् हरेरूप भावनात्रितयात्मकम् ॥५९  
 एते सर्वमिद विश्व जगदेतच्चराचरम् ।  
 परब्रह्म स्वरूपस्य विष्णो गक्तिसमन्वितम् ॥६०

( ६—७ )

अर्थात् "ये जो विश्व में सर्वत्र दिखलाई पडने वाले पदार्थ हैं वही विष्णु स्थूल रूप हैं । हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, भगवान् वामुदेव, प्रजापति, मरुद्गण, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, गृह, गन्धर्व, यक्ष, दैत्य आदि देव-योनियाँ, मनुष्य, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, वृक्ष सम्पूर्ण भूत और उन भूतों के जितने कारण

प्रधान ( मूल प्रकृति ) से लेकर पच तन्मात्राओं तक हैं और जिसमें चेतन-अचेतन दोनों सम्मिलित हैं, एक पाद, द्विपाद, बहुपाद पर बिना पैरो वाले ( सरीसृपादि ) जितने प्राणी हैं वे सब विष्णु के मूर्त रूप हैं। इसे ही 'इद सर्वम्, या चराचर जगत् कहते हैं। इसकी रचना तीन प्रकार की भावनाओं से हुई है—ब्रह्मभावना, कर्मभावना और आध्यात्मिक भावना। इन्हे क्रमशः सत्त्व, रज और तम भी समझा जा सकता है। परब्रह्म रूप विष्णु जब अपनी शक्ति से सयुक्त होता है तब इन्हीं तीन भावों में अपने को प्रकट करता है।”

भगवान् के निर्गुण और सगुण रूप का विवेचन करते हुए 'ब्रह्म पुराण' में कहा गया है कि 'तत्त्वदर्शी मुनियो ने जल को 'नार' कहा है। वह नार पूर्व काल में भगवान् का 'अयन' ( गृह ) हुआ, इस लिये वे 'नारायण' कहलाये, वे भगवान् नारायण सब को व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही निर्गुण सगुण भी कहे जाते हैं। वे दूर भी हैं और समीप भी हैं। जिनसे लघु और जिनसे महान् दूरा नही है, जिन अजन्मा प्रभु ने सम्पूर्णा जगत् को व्याप्त कर रखा है जो आविर्भाव तिरोभाव, दृष्ट, अदृष्ट से विलक्षण है, सृष्टि और सहार भी जिनका रूप बतलाया जाता है, उन आदि देव परब्रह्म परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। जो एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, स्थूल-सूक्ष्म, व्यक्त-अव्यक्त जिनके स्वरूप हैं, जो जगत् की सृष्टि, पालन और महार के मूल कारण हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है।”

मार्कण्डेय, विष्णु, ब्रह्म आदि सभी पुराण इस विषय में एकमत हैं कि जो निर्गुण-निराकार ब्रह्म अनादि और अरूप कहा जाता है वही सगुण और साकार होकर इस चराचर विश्व को प्रकट करता है। उसको सब से पृथक् किसी अगम्य स्थान में विराजमान मानना निरर्थक है वरन् वह विश्व के प्रत्येक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पदार्थ में व्याप्त है और जिसे इस सर्वव्यापी ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त हो गई है वह प्रत्येक स्थान और प्रत्येक पदार्थ में उसके दर्शन कर सकता है। इसी रहस्य को 'रामायण' में शिवजी ने अत्यन्त सक्षेप में कह दिया है—

हरि व्यापक सर्वत्र समाना ।

प्रेम ते प्रकट होहि मै जाना ॥

### द्रौपदी के पाँच पति और पंचेन्द्र उपाख्यान—

जैमिनि के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए पक्षियों ने कहा कि द्रौपदी कोई सामान्य नारी न थी वरन् वह अग्नि से प्रकट हुई साक्षात् शची थी जो द्रुपद की कन्या के रूप में अवतीर्ण हुई थी। इसी प्रकार पाँचों पाण्डव भी पाँच रूपों में इन्द्र के ही अवतार थे। इन्द्र को समझौते के विरुद्ध त्रिशिरा तथा वृत्रों के वध तथा अहिल्या का सतीत्व भंग करने के अनुराध में अपनी समस्त शक्तियों धर्म, तेज, बल, और रूप से वंचित हो जाना पडा था। वे ही शक्तियों धर्मराज, वायु, स्वयं इन्द्र और अश्विनीकुमारों के द्वारा कुन्ती तथा माद्री के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार द्रौपदी वास्तव में पाँच रूपों को प्राप्त एक मात्र इन्द्र की ही पत्नी थी।

महाभारत में भी पाँचों पाण्डवों को पाँच इन्द्रों का अवतार बतलाया है और कहा है कि “किसी समय वैवस्वत यम ने नैमिषारण्य में होने वाले एक दीर्घकाल व्यापी यज्ञ में दीक्षाली और उम समय प्रजाओं को मारने का काम बन्द कर दिया। इससे मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई और इससे देवताओं को डर पैदा हो गया। तब इन्द्र और अन्य देवता ब्रह्माजी के पास पहुँचे और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्माजी ने उनको वास्तविक कारण बतला कर नैमिषारण्य जाने को कहा। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने गंगाजी में एक स्त्री को रोते देखा जिसके आँसू जल में गिरकर सोने के फूल बनते जाते हैं। इन्द्र ने उससे रोने का कारण पूछा। वह उनको हिमालय पर ले गई जहाँ एक तरुण तथा तरुणी बैठे हुए पासा खेल रहे थे। इन्द्र ने उनको न पहिचान कर कहा— ‘मैं इन्द्र हूँ सब भुवन मेरे वश में है।’ इस पर शिवजी ने क्रुद्ध होकर उसे एक अश्वरी गुफा में भेज दिया जहाँ वैसे ही चार इन्द्र पहले से बन्द थे। जब उन सबने अपने छुटकारे की प्रार्थना की तो भगवान् शिव ने कहा कि तुम्हारा छुटकारा तभी होगा जब तुम पृथ्वी पर मनुष्य-जन्म लेकर पराक्रम के कार्य करके



दिखलाओगे । उस स्त्री से भी शिवजी ने इनके साथ पृथ्वी पर जन्म लेकर इनकी पत्नी बनने को कहा ।”

एक और उपाख्यान भी महाभारत के आदि पर्व में इस सम्बन्ध में पाया जाता है, जिसमें कहा है कि एक ऋषि कन्या ने पति की प्राप्ति के लिए शिवजी की आराधना करके कठिन तप किया था और जब वे वरदान देने को उपस्थित हुए तो उसने ‘पति देहि’ शब्द पाँच बार कहा । शिवजी ने कहा कि तुमने पाँच बार पति के लिये कहा है इससे तुम्हारे पाँच पति होंगे ।

वास्तविक बात यह है कि बहु-पतित्व की प्रथा जो पंजाब के पहाड़ी प्रदेश कुल्लू में अभी तक चली आती है, भारत के शेष भाग में अनैतिक मानी जाती है । इसलिये महाभारत में द्रौपदी के पाँच पतियों का उल्लेख करने के पश्चात् उसे धर्म तथा नीतियुक्त मिद्ध करने के लिये आख्यानो के रूप में उसका कारण समझाना पडा । आध्यात्मिक दृष्टि वाले विद्वानों ने इसका स्पष्टीकरण वैदिक साहित्य में वर्णित ‘पंचेन्द्र’ कल्पना के आधार पर किया है । उनका कथन है कि मानव शरीर में स्थित पाँचो इन्द्रियों का सञ्चालन पाँच प्राणों द्वारा होता है । प्रत्येक ‘प्राण’ को इन्द्र कहा जाता है और उसी के कारण ‘इन्द्रिय’ नाम पड गया है । इन पाँचों के पीछे एक मध्य-प्राण है जो इन पाँचों को प्रदीप्त रखता है । इसको महेंद्र कहा गया है । इस प्रकार एक मुख्य प्राण शक्ति पाँच इन्द्रियों के साथ सहयोग करती है । पुराणों में वैदिक तत्त्वों को उपाख्यानो के रूप में ढाल कर समझाने की शैली अपनाई गई है उसी का परिणाम यह पाँच इन्द्रों द्वारा पाण्डवों की उत्पत्ति का कथानक है ।

द्रौपदी के पाँच पतियों के इस उपाख्यान से एक नैतिक शिक्षा यह भी प्राप्त होनी है कि सदाचार का त्याग करने से इन्द्र जैसा शक्तिमान् देवराज भी उसके कुपरिणाम में नहीं बच सकता । परस्त्री गमन और वचन-भंग के दोष से इन्द्र का पतन हो गया और उसको नरलोक में आकर उसका प्रायश्चित्त करना पडा ।

## चन्द्र का अमर उपाख्यान—

जैमिनि के तीसरे प्रश्न के उत्तर में कि बलराम को ब्रह्महत्या कैसे लगी कम प्रकार उन्होंने तीर्थ यात्रा करके उससे उससे छुटकारा पाया, पक्षियो छोटा-सा उपाख्यान बलराम जी के स्वभाव के सम्बन्ध में कहा है उसमें वेशेपता नहीं है। पर चौथे प्रश्न “द्रौपदी के पाँचों पुत्र अविवाहित अवस्था अनाथ की तरह क्यों मार डाले गये ?” का उत्तर देते हुए पक्षियों ने हरिश्चन्द्र का जो उपाख्यान मुनाया है वह भारतीय धार्मिक-साहित्य की अमर कृति है। इसमें दिखलाया है कि मनुष्य सत्य-व्रत का पालन करते हों तक दृढ़ता रख सकता है और फिर उसी के आधार पर कैसे उच्च से स्थिति प्राप्त कर सकता है।

राजा हरिश्चन्द्र की इस उपाख्यान में जैसी घोर दुर्दशा दिखलाई है विश्वामित्र को जैसे नृशंस रूप में चित्रित किया है उससे इसमें कुछ भाविकता आ गई है और इसकी वास्तविकता में मन्देह होने लगता है, अखक ने इसमें करुण भाव का इतना अधिक समावेश कर दिया है कि उससे ओ की आत्मा विह्वल हो जाती है और उन्हें विचार करने की मुक्ति नहीं कि इसमें कहाँ तक वास्तविकता है और कितना अश कहानी का है। तक करोड़ों व्यक्ति ‘सत्य हरिश्चन्द्र’ के दृष्टान्त से सत्य की महिमा को गार कर चुके हैं। वर्तमान युग के महामानव म० गाँधी ने भी अपनी ‘आत्म में कहा है कि सबसे पहले हरिश्चन्द्र का नाटक देखने से ही उनकी हृदय-में सत्य-प्रेम का पौधा बोया गया था जो ममय और परिस्थितियों से वृद्धि प्राप्त होना हुआ अन्त में समस्त भारतीय समाज को अपनी प्राण-दायक छाया ने में समर्थ हुआ।

## हों का स्वरूप और विवरण—

दमवे से पन्द्रहवें अध्याय तक भार्गव के पुत्र सुमति के मुख से पुनर्जन्म

स्वभाव और सब प्रकार की सुख-सामग्री की तरफ से उदामीन रहने वाला था। जब उसका उपनयन होने का अवसर आया और पिता ने उसे चारों आश्रमों के कर्तव्यों का उपदेश दिया तो उसने हँस कर कहा कि “हे पिता ! आपने इस समय मुझे जो उपदेश दिया है मैंने अनेक बार उसको सुना तथा उसका अभ्यास किया है। अनेक शास्त्रों तथा बहुत प्रकार के शिल्पों का भी मैंने अभ्यास किया है। मैंने अनेक बार दुःख पाया, अनेक बार सुख प्राप्त किया, अनेक बार उच्च दशा का और फिर हीन अवस्था का अनुभव किया। मुझे इन सब बातों का ज्ञान है तो अब वेदाभ्यास का क्या प्रयोजन है ? मेरा अनेक बार शत्रु, मित्र और सम्बन्धियों से मिलाप और वियोग हुआ है, अनेक माता तथा अनेक पिता देखे हैं, हजारों सुख-दुःख सहन किये हैं। मल-मूत्र से भरे स्त्री के जठर में अनेक बार वास किया है, सहस्र-सहस्र रोगों की दारुण यत्रणा भोगी है। मैंने कितनी बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पशु, कीट, मृग और पक्षी की योनि में जन्म ग्रहण किया है। जिस प्रकार इन समय आपके घर में उत्पन्न हुआ हूँ ऐसे अनेक बार राज सेवको और अनेको बार योद्धाओं के घर में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं अनेक बार मनुष्यों का भृत्य और दास बना हूँ और अनेक बार स्वामी तथा प्रधान भी हो चुका हूँ। मैंने अनेक मनुष्यों को मारा है और अनेक बार अन्य मनुष्यों द्वारा मारा गया हूँ। मैंने अनेक बार दान किया है और अनेक कर औरों से ग्रहण भी किया है। हे तात ! इस प्रकार सकटमय ससार चक्र में निरन्तर भ्रमण करते हुए मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि वेदों के कर्मकाण्डों के मार्ग से मैं इस दुःखदायी ससार-चक्र से छुटकारा नहीं पा सकता। जब मैं मोक्ष प्राप्ति के वास्तविक मार्ग को जान चुका हूँ तब मुझे वेदाभ्यास की क्या आवश्यकता है ?”

इस प्रकार सुमति ने पुनर्जन्म के सिद्धान्त का बड़े स्पष्ट रूप से वर्णन किया है और साथ ही सकाम कर्मकाण्ड के मार्ग की अपेक्षा निष्काम भाव से कर्तव्य पालन की श्रेष्ठता भी बतलाई है। साथ ही उस युग में बौद्ध भिक्षुओं तथा हिन्दू-सन्यासियों में ससार के सब बन्धनों को त्याग कर आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म प्राप्ति का जो आदर्श पाया जाता है उसका भी प्रतिपादन किया है।

पर यह पुराणकार का निजी अभिमत अथवा अंतिम निर्णय नहीं है। आगे चल कर उन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किये बिना कर्म त्याग और संन्यास की भर्त्सना भी की है और कहा है कि जो व्यक्ति “आश्रमों के राज-मार्ग को त्याग छलाँग मार कर मुक्ति-पद पर पहुंच जाना चाहता है उसे प्रायः नीचे ही गिरना पड़ता है।”

नरकों का वर्णन प्रायः सभी पुराणों में एक-सा पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के पापों के फल से मरणोपरान्त भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं, पापियों को दण्ड प्रहार करते हुए कुश, काँटे, गड्ढे, पथरीली भूमि पर खींचकर ले जाया जाता है और बारहवें दिन भयंकर आकृति वाले यमराज के सम्मुख खड़ा किया जाता है। वहाँ “मिथ्यावादी, मिथ्या साक्षी देने वाले, मनुष्यों और अन्य प्राणियों की हत्या करने वाले, भूमि, सम्पत्ति तथा स्त्री का हरण करने वाले, अगम्या स्त्रियों से दुराचार करने वाले लोगों को रौरव नरक में डाला जाता है। वह रौरव नरक दो हजार योजन विस्तृत है और उसमें जाँघ की बराबर गहरा गढ़ा है। उस गढ़े में लाल अंगारे भरे रहते हैं जिन पर होकर पापी मनुष्य को चलना पड़ता है। उसके पैर पग-पग पर अग्नि से फटते और नष्ट होते हैं जिससे वह दिन रात में एक बार पैर रखने और उठाने में समर्थ होता है। इसी प्रकार चरण रखते हुए सहस्र योजन पार कर लेने पर वहाँ से छुटकारा पाता है और पाप शुद्धि के लिये उसी के समान दूसरे नरक में जाता है और इसी प्रकार सब नरकों को पार करना पड़ता है।”

नरकों का यह वर्णन बड़ा विस्तृत है और विभिन्न पुराणों में इस प्रकार के वीभत्स विवरण के अध्याय के अध्याय भरे पड़े हैं। तामस नरक में कड़ाके की सर्दो पड़ती और सदैव घोर अन्धेरा छाया रहता है। वहाँ सर्दो से कष्ट पाकर पापी मनुष्य इधर से उधर दौड़ते रहते हैं और ठण्ड को मिटाने के लिये परस्पर लिपटते हैं। ठण्ड की अधिकता से दाँत ऐसे कड़कड़ाते हैं कि वे टूट कर गिर जाते हैं। भूख प्यास भी वहाँ बहुत लगती है पर उसकी निवृत्ति का कोई साधन नहीं होता। ओलों के साथ बहने वाली भयङ्कर हवा शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है और मज्जा तथा रक्त बाहर गिरता है। वे भूखे

प्राणी उसी को खाकर भूख को मिटाते हैं। इस प्रकार अनेक वर्षों तक वे अन्धकार में पड़े कष्ट भोगा करते हैं।

तीसरे 'निकृन्तन' नामक नरक में बहुत से चक्र लगातार घूमते रहते हैं। यमदूत पापी जीवों को उनके ऊपर चढ़ा कर तेज़ी से घुमाते हैं और काल-सूत्र नामक यंत्र से उनके प्रत्येक अङ्ग को बार-बार काटते रहते हैं। पर इससे उन पापियों का प्राण नहीं निकलता वरन् शरीर के सँकड़ो टुकड़े होने पर भी वे फिर जुड़ जाते हैं और उनको पुनः काटे जाने की महाकष्ट कारक प्रक्रिया सहन करनी पड़ती है। चौथे 'अप्रतिष्ठ' नरक में भी वैसे ही कुम्हारों के से चक्र और घटी-यन्त्र होते हैं। पापियों को उन चक्रों पर चढ़ा कर निरन्तर घुमाया जाता है और कभी विश्राम नहीं लेने दिया जाता जिससे उनको अपार कष्ट होता है। इसी प्रकार अन्य पापियों को रहट के समान एक घटीयन्त्र में बाँधकर नीचे ऊपर घुमाया जाता है, जिससे उनके मुख से रक्त, लार गिरती है, आँखों से अश्रु बरसते हैं और वे असह्य कष्ट का अनुभव करते रहते हैं।

पाँचवा 'असिपत्रवन' अत्यन्त भयङ्कर है। जब उसमें पापी मनुष्य गर्मी से व्याकुल होकर हरे-भरे पेड़ों की छाया में भागते हैं तो उनके ऊपर पेड़ों के पत्ते जो तलवारों की तरह होते हैं गिर जाते हैं और उनके अंगों को छिन्न-भिन्न कर डालते हैं। उसी समय कुत्ते रूपी यमदूत वहाँ आकर उनके टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं। छठवाँ 'तप्त कुम्भ' नरक है जिसमें पापियों को खौलते हुए तेल और लोहे के चूर्ण से भरे घड़ों में डालकर घोर कष्ट पहुँचाया जाता है।

इसमें सन्देह नहीं कि नरकों का यह वर्णन हृदय को कँपाने वाला है और उसे सुनकर एक बार घोर पापी व्यक्ति भी सहम जाता है। यह कह सकना तो कठिन है कि इस विश्व के किसी कोने में वास्तव में कोई ऐसा स्थान है या नहीं जहाँ उपर्युक्त प्रकार के अनुभव होते हों, पर यदि हम इस समस्या पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है कि क्रोध, लोभ, अहङ्कार, मोह, कामवासना और मद जो मनुष्य का पतन करने वाले षड्रिपु कहे गये हैं, वे ही नरक रूप हैं और जो व्यक्ति उनके वशीभूत हो जाता है वह उप-

युक्त नरको की सी पीडा इसी दुनियाँ में भोगता रहता है। क्रोध की अग्नि “रौरव” नरक से कम नहीं होती और कितने ही व्यक्ति उसके पजे में पडकर सारा जीवन घोर अशान्ति और मानसिक जलन में ही व्यतीत कर देते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के पीछे लोभ का भूत लग जाता है वह सदा प्रत्येक पदार्थ का अभाव ही अनुभव करता है। उसकी तृष्णा की कभी पूर्ति नहीं होती और इससे उसके उत्साह और आशाओं पर तुषारपात हो जाता है और वह ‘तम’ नरक के कष्टों को इस पृथ्वी पर ही सहन करता रहना है। ‘निकृन्तन’ नर्क का वर्णन किसी अहङ्कार ग्रस्त प्राणी के वर्णन से ही मिलता-जुलता है। अहङ्कारी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को तुच्छ समझ कर बड़े गरूर के साथ अपने बडपन की तरह-तरह की कल्पनाये खडी करता रहता है, पर वे सब वास्तविकता के धरातल पर टुकडे-टुकडे हो जाती हैं। इससे उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और वह असह्य पीडा अनुभव करता है।

‘अप्रतिष्ठ’ नरक मोह का परिणाम होता है। सासारिक पदार्थों के मोह में फँसकर वह एक बार अपने को धन्य और सफल समझने लगता है, पर फिर जब उनका वियोग हो जाना हे तो खेद से भरकर आँसू बहाता रहता है। जल भरने के रहट की तरह वह बार-बार भरता और खाली होता रहता है और इसके परिणाम स्वरूप उसके हृदय में सदैव हलचल मचती रहती है। ‘अमिपत्र वन’ नरक दूषित कामचापना का रूपक है। दुराचार या वधभिचार की वासना यद्यपि दूर से बडी सुन्दर और मनोमोहक जान पडती है, पर उसका परिणाम तलवार या छुरी से आलिंगन करने के समान ही नाशकारी होता है। क्रोधाग्नि के समान कामाग्नि भी बहुत जलाने वाली है। इससे शक्ति का और भी क्षय होता है और मनुष्य का जीवन नष्ट प्राय हो जाता है। छठा नर्क ‘तप्त कुम्भ’ कहा गया है जो ‘मद’ का परिणाम होता है। इसके कारण मनुष्य अपनी छोटी-मोटी सफलताओं या सामान्य वैभव पर बहुत फूलता रहता है, पर जब वह दूसरों को अपने से बढा-चढा देखता है तो उसके भीतर ईर्ष्या द्वेष की ऐसी अग्नि प्रज्वलित होती है कि शरीर का समस्त रस-रक्त खीलने लगता है और हृदय में लोहे के हजारों नुकीले टुकडे चुभने लगते हैं।

मार्कण्डेय पुराण का यह नर्क-वर्णन एक बहुत बड़ा प्रभावशाली रूपक है जिसका आशय यही है कि यदि मनुष्य को सासारिक व्यथाओं, पीडाओं, ज्वालाओं से बचना है तो उसे काम, क्रोध, आदि मानसिक दुष्प्रवृत्तियों से बचकर सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिये। सदाचार और इन्द्रियों का सयम ही स्वर्ग का द्वार है और इसके विपरीत इन्द्रियों का दुरुपयोग, दुराचरण हर प्रकार से कष्टदायक और दुर्गति में ग्रस्त करने वाला है। साथ ही हम यह भी स्वीकार करते हैं कि नर्क-वर्णन में तथ्य का अंश चाहे कितना भी कम या ज्यादा हो, पर सामान्य अशिक्षित जनता पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है और करोड़ों व्यक्ति उससे भयभीत पाप कर्मों से न्यूनाधिक परिणाम में बचते रहते हैं।

### महामानव के लक्षण—

नरको के वर्णन के प्रसंग में विपश्चित्त नामक एक राजा का भी कथा-नक आ गया है, जो थोड़ी देर के लिये नरक दर्शन के लिये लाया गया था और जिसने उस अवस्था में भी परोपकार धर्म को नहीं छोड़ा। अग्रणीत नारकीय जीवों का उसने उसी समय उद्धार किया। उसका सम्पर्क प्राप्त होने से समस्त नर्कवासी जीवों को कुछ सुख मिलने लगा, यह देखकर उसने स्वर्ग-सुख को छोड़ कर वहीं रहने का आग्रह किया और कहा कि उसने जो कुछ पुण्य किया है उसके बदले में इन पापियों का उद्धार कर दिया जाय। वह वहाँ से तभी हटा जब वहाँ पर उपस्थित नरक निवासियों को छुटकारा मिल गया। राजा की इस महामानवता के फलरूप भगवान् विष्णु का विमान उसे लेने आया और उसे स्वर्ग की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होगई।

ऐसा पुराणवान् राजा भी किस कारण नर्क दर्शन के लिये लाया गया इसकी कथा भी बड़ी शिक्षाप्रद है। यमदूतने उसे बताया कि विदर्भ देश की राजकुमारी आपकी पत्नी थी। जब वह ऋतुमती हुई तो आप उसकी उपेक्षा करके केकय देश की रानी के साथ बिहार करते रहे। ऋतुकाल के समय तो स्त्री-पुरुष का समागम एक प्राकृतिक नियम है जिससे प्रजा की उत्पत्ति होती है और सृष्टि-क्रम स्थिर रहता है। इस दृष्टि से उसे दूषित नहीं बतलाया गया है।

पर अन्य समय में स्त्री का उपभोग कामसक्तता का लक्षण है। प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करके विषयासक्तता का आचरण धर्म की दृष्टि से एक पाप कर्म ही है और इसी के फलस्वरूप आपको कुछ क्षणों के लिये नर्क प्रदेश में आना पड़ा। शास्त्र में भी कहा गया है कि जैसे हवन के समय अग्नि घृताहुति की प्रतीक्षा करती है इसी प्रकार ऋतुकाल में स्वयं प्रजापति ऋतुआधान की प्रतीक्षा करता है। दूसरी शिक्षा इस आख्यान से यह भी प्राप्त होती है कि त्याग सबसे बड़ा पुण्य है और इसके द्वारा सामान्य पुण्य भी अनेक गुणा बढ़ जाता है।

**पातिव्रत धर्म की लोकोत्तर महिमा—**

पातिव्रत का आदर्श भारतवर्ष की एक ऐसी विशेषता है जिसका अस्तित्व ससार के अन्य किसी समाज में नहीं पाया जाता। भारतीय धर्म-कथा लेखकों ने पति-पत्नी के सम्बन्ध को अमिट बना दिया है और उसकी शृङ्खला को जन्मान्तर तक विस्तृत कर दिया है। इस सम्बन्ध में जो आख्यान विभिन्न स्थानों में पाये जाते हैं उनमें अतिशयोक्ति से काम लिया गया है, पर उसका उद्देश्य यही है कि लोगों के हृदय में यह तथ्य भली-भाँति जम जाय। मार्कण्डेय पुराण के सोलहवें अध्याय में एक पतिव्रता द्वारा सूर्य का उदय होना रोक देने की कथा ऐसी ही है। ब्राह्मणों का पति कोढ़ी होने पर भी वेद्यागमन के लिये लालायित हुआ, पर मार्ग में उसे माण्डव्य ऋषि द्वारा सूर्योदय होते ही मरने का शाप दे दिया गया। इस पर पतिव्रता ने कहा कि 'अब सूर्य का उदय ही नहीं होगा?' ऐसा होने पर सब प्रकार के यज्ञ, सध्या, श्राद्ध आदि भी रुक गये। तब देवताओं की प्रार्थना पर अत्रि ऋषि की पतिव्रता पत्नी उस ब्राह्मणों के पास गई और उसे राजी करके सूर्योदय कराया और उसके पति की मृत्यु हो जाने पर उसे अपने पतिव्रत के बल से पुनर्जीवित किया। इस आख्यान का उद्देश्य पतिव्रत धर्म की अलौकिक शक्ति का प्रभाव सामान्यजनों के हृदय में स्थापित करना ही है, जो समाज के हित की दृष्टि से एक कल्याणकारी प्रवृत्ति ही मानी जायगी। इसी घटना के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियों ने चन्द्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वास के रूप में अनुसूया के पुत्र होकर जन्म लिया।



## मदालसा का उपाख्यान—

मदालसा का उपाख्यान कई दृष्टियों से धार्मिक जगत् में प्रसिद्ध है और वह भारतीय नारियों की आध्यात्मिक ज्ञान-प्रियता तथा वैराग्य-भावना की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। मदालसा राजकुमार ऋतध्वज की पत्नी थी जो उनको पातालकेतु नामक दैत्य का सहार करते हुए मिली थी। कुछ समय पश्चात् पातालकेतु के एक भाई ने ऋतध्वज के साथ छल करके मदालसा को यह असत्य समाचार सुनाया कि “ऋतध्वज तपस्वियों की रक्षा करते हुए किसी दुष्ट दैत्य के हाथ से मारे गये ?” इसको सुनकर मदालसा ने शोक मग्न होकर उसी समय प्राण त्याग दिये। ऋतध्वज को वापस आने पर इस शोकजनक घटना का हाल विदित हुआ और उसने कहा—“यह वाला धन्य थी जिसने मेरी मृत्यु की बात सुनते ही प्राण त्याग दिये। मैं बड़ा कठोर प्राणी हूँ जो उसके बिना जीवित हूँ। पर यदि मैं जीवन दे डालूँ तो उसका क्या उपकार होगा ? इसलिये मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मदालसा ने मेरे लिये प्राण त्याग दिया तो मैं भी जीवनभर अन्य स्त्री को अपनी सहचारिणी नहीं बनाऊँगा और सदैव उसकी स्मृति को ताजा रखकर परोपकारमय कार्यों में ही लगा रहूँगा।”

कुछ समय पश्चात् ऋतध्वज की दो नाग कुमारों से मित्रता हो गई जो ब्राह्मण के वेश में उसके पास आते थे। उन्होंने ऋतध्वज की मनोव्यथा को जान कर एक दिन उसका जिक्र अपने पिता अश्वतर नाग से किया और कहा कि हमको कोई ऐसा उपाय नहीं सूझता कि जिससे उसका कुछ उपकार किया जा सके। जो मर चुका उसे सिवाय भगवान् के और कौन फिर से जीवित कर सकता है। पिता ने कर्म की महिमा बतलाते हुए कहा—“द्युलोक और पृथ्वी में ऐसा कोई असम्भव कार्य नहीं है जिसे मन और इन्द्रियों के सयम से युक्त मनुष्य सिद्ध न कर सके। कर्म सर्व प्रधान है। चलती हुई चीटी अनेक योजन तक चली जाती है, पर बिना चले शीघ्रगामी गरुडा भी जहाँ का तहाँ पडा रहता है।”

अपने कथन को सत्य सिद्ध करने के लिये अश्वतर ने शिवजी की तपस्या करके मदालसा को जीवित करा दिया और उसे ऋतध्वज को प्रदान करके उसके जीवन को पुनः सरस और सुखी बना दिया । इस प्रकार उन्होंने यह भी दिखला दिया कि मित्रता का अर्थ केवल ऊपरी शिष्टाचार ही नहीं है वरन् मनुष्य को मित्र का मच्चा हित साधन करने के लिये कठिन से कठिन कार्य को अगीकार करने में भी सकोच नहीं करना चाहिये ।

जब मदालसा के प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ और राजा ऋतध्वज ने उसका विक्रान्त नाम रखा तो वह बहुत हँसने लगी । राजा की कल्पना थी कि मेरा पुत्र सभस्त्र शत्रुओं को नष्ट करने वाला महावीर योद्धा बनेगा और बड़े-बड़े वीरता के काम करके वश के नाम को बढ़ायेगा । पर मदालसा उसको अपना दूध पिलाने के साथ शैशवावस्था से ही लोरियो के रूप में अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा देने लगी । वह कहती थी—

“हे तात ! तू तो शुद्ध आत्मा है । तेरा कोई नाम नहीं है । यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है । यह शरीर भी पाँच भूतों का बना है । न वह तेरा है, न तू इसका है । फिर तू किसलिये रोता है ?”

“जैसे इम जगत् में अत्यन्त दुर्बल भूत अन्य भूतों के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थों के पाने से पुरुष के पाच भौतिक देह की पुष्टि होती है ; इससे तुम्हें शुद्ध आत्मा की न तो वृद्धि होती है और न हानि ही होती है ।”

“तू अपने इस देह रूपी चोले के जीर्ण शीर्ण होने पर मोह न करना शुभाशुभ कर्मों के अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है । तेरा यह चोला माँस-मेद आदि से बँधा है, पर तू इससे सर्वथा पृथक् है ।”

“कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता और किसी को प्रिय पत्नी कहते हैं । कोई ‘यह मेरा है’ कहकर अपनाया जाता है और कोई ‘यह मेरा नहीं है’ इस भाव से पराया माना जाता है । इस प्रकार ये भूत समुदाय के ही नाना रूप हैं, ऐसा तुम्हें मानना चाहिये ।”

“यद्यपि समस्त भोग दुःख रूप है तथापि मूढ चित्त मानव उन्हें दुःख दूर करने वाला तथा सुख की प्राप्ति कराने वाला समझ लेता है। पर जो ज्ञानी है और जिनका चित्त मोह से आच्छन्न नहीं हुआ है, वे उन भोगजनित सुखों को भी दुःख ही मानते हैं।”

“स्त्रियों की हँसी क्या है हड्डियों (दाँतों) का प्रदर्शन। जिसे हम अत्यन्त सुन्दर नेत्र कहते हैं वे मज्जा की कलुषता है। कुच आदि अंग माँस की ग्रन्थियाँ हैं। इसलिये पुरुष जिस स्त्री पर मोह के भाव से अनुगम रखता है क्या वह एक प्रकार से हाड-माँस की ढेरी ही नहीं है ?”

“पृथ्वी पर सवारी चलती है, सवारी पर यह शरीर बैठा रहता है। और इस शरीर के भीतर भी एक दूसरा पुरुष बैठा हुआ है। पर हम सवारी और पृथ्वी पर वैसी ममता नहीं रखते जैसी की अपनी इस देह में रखते हैं। यही मूर्खता है।”

इसी प्रकार के सन् उपदेश देकर मदालसा ने अपने प्रथम तीन पुत्रों को अध्यात्म मार्ग का पथिक और सासारिक प्रपच से विरामी बना दिया। तब राजा ने उससे कहा कि अब एक पुत्र को राजधर्म तथा गृहस्थ धर्म की भी शिक्षा देनी चाहिये जिससे वह हमारे उत्तराधिकार को ग्रहण करके राज्य-संचालन कर सके। राजा के आग्रह को स्वीकार करके मदालसा चौथे पुत्र अलर्क को लोरियों सुनाते हुए इस प्रकार उपदेश देने लगी—

“बेटा ! तू धन्य है जो शत्रु रहित होकर चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता रहेगा। पृथ्वी के पालन से तुझे सुख की प्राप्ति हो और धर्म के फलस्वरूप तुझे अमरत्व मिले। पर्वों पर सद् ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करना, बन्धु-बान्धवों की इच्छापूर्णा करना, अपने हृदय में दूसरों की भलाई का ध्यान रखना और पराई स्त्रियों की ओर कभी मनको न जाने देना। अपने मन में सदा भगवान् का चिन्तन करना, उनके ध्यान द्वारा अन्तःकरण के काम, क्रोध आदि दृष्टो शत्रुओं को जीतना, ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करना और जगत् की अनित्यता का विचार करते रहना। धन की आयके लिये राजाओं

पर विजय प्राप्त करना, यश के लिये धन का सद्व्यय करना, परायी निन्दा सुनने से विरत रहना और विपत्ति में पड़े हुए व्यक्तियों का उद्धार करना ।

“बाल्यावस्था में तू भाई बन्धुओं को आनन्द देना, कुमारावस्था में आज्ञा पालन द्वारा गुरुजनो को सन्तुष्ट रखना, युवावस्था में गृहस्थ धर्म का पालन करके कुल को सुशोभित करने वाली पत्नी को प्रसन्न करना और वृद्धावस्था में वनके भीतर निवास करके वहाँ रहने वाले त्यागी तपस्वियों की सहायता करना ।

हे तात ! राज्य करते हुए मित्रों को सुख देना, सज्जनों की रक्षा करते हुए लोकोपयोगी यज्ञों और उत्सवों की परम्परा को स्थिर रखना और देश की रक्षा के लिये आवश्यकता हो तो दुश्मन, शत्रुओं का सामना करके प्राण भी निछावर कर देना ।”

## राजधर्म और राजनीति का आदर्श—

माता द्वारा खेल खेलते हुए ही इस प्रकार के जीवनादर्श के उपदेश प्राप्त करता हुआ अलर्क जब कुछ बड़ा हो गया और उसका उपनयन मस्कार हुआ तो उसने माता को प्रणाम करके कहा कि “लोक और परलोक के सुख तथा जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिये क्या करना चाहिये इसका मेरे प्रति उपदेश करिये ।”

मदालसा ने कहा—“पुत्र-राज्य का सर्वप्रथम कर्तव्य धर्मानुकूल आचरण करते हुए प्रजा की रक्षा और उसे सन्तुष्ट रखना है राजा को उचित है कि वह सातो व्यसन-कटुभाषण, कठोर दण्ड, धन का अपव्यय, मदिरापान, कामासक्ति, आखेट में व्यर्थ समय गँवाना और जुआ खेलना से सदैव बचकर रहे क्योंकि ये मूलोच्छेद करने वाले हैं । अपनी गुप्त मन्त्रणा को कभी प्रकट नहीं होने देना चाहिये, क्योंकि शत्रु सदैव ऐसे मौके की ताक में रहते हैं और गुप्त भेदों का पता लगाकर आक्रमण करके राज्य का नाश करने को तत्पर हो जाते हैं । राजा को अपना गुप्तचर-विभाग बहुत उत्तम रूप से सगठित करके रखना चाहिये जिससे मालूम पडता रहे कि शत्रु उसके राज्य में किस प्रकार की भेदनीति या तोड़ फोड़ की योजना कर रहे हैं और अपने साथियों में से कौन सच्चा है और कौन

शत्रु के बहकावे में आ गया है। सब के साथ प्रेम युक्त व्यवहार करते हुए भी राजा को अपने मित्रों तथा सगे सम्बन्धियों पर भी आँख बन्द करके विश्वास नहीं करना चाहिये, पर आवश्यकता पड़ने पर शत्रु पर भी विश्वास कर लेना चाहिये। उमें युद्ध तथा शान्ति के अवसरों का पूरा ज्ञान रखना चाहिये। सन्धि ( शत्रु से मेल रखना ) विग्रह ( युद्ध छोड़ना ) यान ( आक्रमण करना ) आसन ( अवसर की प्रतीक्षा में रहना ) द्रुंधीभाव ( दुरी नीति से काम लेना ) समाभाव ( किसी बलवान् राजा की शरण लेना )—इन छ उपायों का राजा को पूरा ज्ञान होना चाहिये। राजा को पहले अपनी आत्मा को जीतना चाहिये, फिर मत्रियों को जीते, फिर कुटुम्बीजनो तथा सेवकों के हृदय पर अधिकार करे, फिर समस्त प्रजा को अपना अनुरक्त बनाये और तब शत्रुओं के साथ विरोध करे। जो इन सबको जीते बिना ही शत्रुओं से विरोध कर लेता है वह प्राय असफलता का ही मुख देखता है और अपनी हानि कर लेता है।

“काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्षोन्मत्तता ये मनुष्यों के लिये पतन कराने वाले दोष हैं। राजा तो इनके वशीभूत होकर नष्ट ही हो जाता है। राजा को कौआ, कोयल, भौरा, हिरन, साँप, हंस मुर्गा और लोहे के व्यवहार से भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। जिस प्रकार कौआ सदैव आलस्य रहित रहता है, कोयल दूसरों से अपना काम निकालती है, भौरा सब से रस लाभ लेता रहता है, हिरन निरन्तर चौकन्ना रहता है, साँप फुफकार कर सब को डराता रहता है, हंस नीरक्षीर विवेक रखता है, मुर्गा ब्रह्म मुहूर्त में ही जगकर कर्मरत हो जाता है तथा लोहा सबके लिये अमेद्य और तीक्ष्ण रहता है, वैसा ही आचरण राजा को रखना चाहिये। राजा चीटी की तरह उचित समय पर समस्त आवश्यक, पदार्थों का सग्रह करे। उसे जानना चाहिये कि जिस प्रकार एक छोटी सी आग की चिन्ता बड़े-बड़े वनों को जला डालने की शक्ति रखती है, इसी प्रकार एक छोटा-सा शत्रु अवसर आ जाने पर बहुत अधिक हानि कर सकता है, जिस प्रकार सेमन का छोटा-सा बीज धीरे-धीरे एक बहुत विशाल पेड़ के रूप में परिणत हो जाता है उसी प्रकार कोई सामान्य शत्रु भी बढ़ते-बढ़ते अत्यन्त प्रबल हो सकता है। इस लिये उसे आरम्भ में ही उखाड़ फेंकना चाहिये।

“राजा को सब देवताओं का अन्न कहा गया है और उसे इन्द्र, वायु, सूर्य, चन्द्र एवं यम इन पाँच देवों की तरह पृथ्वी का पालन करना चाहिये, जैसे इन्द्र चार महीने तक वर्षा करता है वैसे ही राज्य को दान दक्षिणा, उपहार द्वारा प्रजा को प्रसन्न करना चाहिये। जैसे सूर्य आठ मास तक सूक्ष्म रूप से जल सोखता रहता है वैसे ही राजा को ऐसे ढंग से कर वसूल करते रहना चाहिये जिससे किसी को कष्ट का अनुभव न हो। जिस प्रकार यमराज समयानुसार भले-बुरे सबको अपने नियन्त्रण में रखता है और सदैव उचित न्याय ही करता है वैसे ही राजा को सज्जन और दुष्ट सबको स्ववश में रखना चाहिये। जैसे वायु अनजान में ही सर्वत्र पहुँचता रहता है, उसी प्रकार राजा को गुप्तचरों द्वारा मित्र-शत्रु सबका पूरा भेद मालूम करते रहना चाहिये। जैसे पूर्ण चन्द्रमा को देख कर सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं वैसे ही राजा को अपने मधुर व्यवहार द्वारा सबको सुखी और प्रसन्न रखना चाहिये। जो कुमार्गगामी और स्वधर्म से विचलित मनुष्यों को उनके धर्म में स्थापित कर देता है वही सच्चा राजा है। सब भूतो-प्राणियों के पालन में ही राजधर्म की सफलता मानी जाती है।”

### गृहस्थ धर्म की विशेषता—

मार्कण्डेय पुराण में गृहस्थ को बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है और स्पष्ट कहा है कि पितृगण, ऋषिगण, देवगण, भूतगण, नरगण, कृमि, कीट, पतंगगण, पक्षिगण और असुरगण—ये समस्त ही गृहस्थाश्रम का अवलम्बन कर जीवन यात्रा निर्वाह करते हैं। ‘गृहस्थ हमको अन्न देगा या नहीं’ यह चिन्ता करके उसी के मुख की तरफ देखते रहते हैं।

आगे चलकर गृहस्थ की उपमा एक गाय से दी है कि “ऋग्वेद जिसकी पीठ, यजुर्वेद मध्य, सामवेद मुख और ग्रीवा, इष्टापूर्त उसका सींग, साधुसूक्त रोम, शान्ति और पुष्टि कर्म उसका मलमूत्र एवं वर्ण और आश्रम ही उस धेनुकर प्रतिष्ठा है। इस धेनुका कभी क्षय नहीं होता। स्वाहा, स्वधाकार, वपट्कार और हन्तकार इस धेनु के थन हैं। इनमें से देवगण स्वाहाकार, पितृगण वषट्कार और मनुष्यगण हन्तकार स्तन का पान करते रहते हैं। जो गृहस्थ इस प्रकार देवता आदि की तृप्ति नहीं करता वह महापापी होता है। इस प्रसंग में एक बहुत महत्त्वपूर्ण श्लोक यह है—

श्रीमत ज्ञातिभासाद्य यो ज्ञातिरवसीदति ।

सीदताय तत्कृत तेन तत्पाप स समश्नुते ॥

“किसी निर्धन और असहाय व्यक्ति के क्षुभार्त होकर प्रार्थना करने पर उसको भी आहार दे । सम्पत्ति होने पर समर्थ पुरुष को उसे भोजन कराना चाहिये । जो जाति वाला श्रीमान् व्यक्ति के समीप होते हुए भी दुखी रहता है और इस कारण कोई पाप-कर्म करता है तो श्रीमान् को भी पाप के अंश का भागी होना पड़ता है ।”

अगर हम वर्तमान समय की विचारधारा और भाषा के अनुसार इस विचार को प्रकट करे तो इसे भारतवर्ष का धार्मिक साम्यवाद कह सकते हैं । अपने आस पास तथा परिचित समाज में कोई व्यक्ति भूखा, नगा, अभाव ग्रस्त न रहे इसका ध्यान रखना सम्पत्तिशाली व्यक्तियों का कर्तव्य है । परिस्थिति वश सम्पत्ति कही भी कम या ज्यादा आती, जाती रहे पर वास्तव में वह समस्त समाज की है और उसका उपयोग उसके हित की दृष्टि से ही किया जाना चाहिये । जो व्यक्ति किसी उपाय अथवा सयोग से सम्पत्ति को पाकर उसे निजी समझकर ताले में बन्द रखने की चेष्टा करता है, उसके स्वाभाविक प्रवाह को रोकता है वह बहुत बड़ा सामाजिक पाप करता है । इस प्रकार अन्य लोगों को जीवन साधनों का अभाव होने से वे जो कुछ चोरी, जमा, ठगी, लूटमार या अन्य पाप कर्म करते हैं उनके उत्तरदायी वास्तव में वे व्यक्ति ही होते हैं जो किसी प्रकार सम्पत्ति के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं ।

आज हम समाज में इसी दूषित प्रणाली को जोरों से फँसता देख रहे हैं । आज चारों तरफ यही दृश्य दिखलाई पड़ रहा है कि ‘धनी दिन पर दिन अधिक धनवान् बनता जाता है और गरीब निरन्तर अधिक गरीब होता जाता है ।’ मानव धर्म की निगाह से यह प्रवृत्ति अत्यन्त जघन्य और कुफल उत्पन्न करने वाली है । इसी के परिणाम स्वरूप समाज में तरह-तरह के विग्रह, फूट, अनेकता और अनुचित विरोध भावों की उत्पत्ति होती है और क्लेश तथा अशान्ति की वृद्धि होती है । इसी लिये शास्त्रों में कदम-कदम पर दान की प्रेरणा दी है । उसका आशय यही है कि मनुष्य को अपनी आवश्यकता से अधिक जो

कुछ मिल जाय उसे दान, धर्म, यज्ञ अतिथि सत्कार आदि के रूप में स्वेच्छा से समाज को ही लौटा देना चाहिये। इसी भाव को कई सौ वर्ष पहले महात्मा कबीर ने एक छोटे दोहे में प्रकट किया था—

पानी बाढ्यो नाव में, घर में बाढ्यो दाम ।  
दोऊ हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥

जिस प्रकार नाव के भीतर पानी जमा हो जाने से वह डूबने लगती है उसी प्रकार एक व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन का भंडार जमा हो जाने से अनेक प्रकार के दोष दुर्गुण उत्पन्न होने लगते हैं। उससे एक तरफ व्यक्तिगत अहंकार, लोभ, निष्ठुरता, दुश्चरित्रता की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं और दूसरी तरफ अभाव ग्रस्तता दीनता, हीन आचरण आदि बढने लगते हैं। इस दूषित परिस्थिति को रोकने के लिये भारतीय शास्त्रकारों ने स्वेच्छा से त्याग का उपदेश दिया था और जब तक समाज उचित रूप से उसका पालन करता रहा तब तक यहाँ शान्ति और सामाजिक एकता कायम भी रही। आज अनेक देशों के शासक या सत्ताधारी दल साम्यवाद के नाम से इसी कार्य को करने की चेष्टा करते रहे हैं, भारतीय संविधान का अन्तिम लक्ष्य भी 'समाजवाद' की स्थापना बतलाया गया है, पर व्यक्तियों की स्वार्थपरता और लोभ की भावनाओं के रहते हुए इन सब प्रयत्नों का परिणाम बहुत कम दिखलाई पड़ रहा है। 'मार्कण्डेय पुराण' के लेखक ने इस सत्य को स्पष्ट शब्दों में प्रकट-करके निस्सन्देह समाज-निर्माण एक बहुत बड़े समाज निर्माण के सिद्धान्त पर प्रकाश डाला है।

**अनासक्त भाव की श्रेष्ठता—**

मदालसा उपाख्यान के अन्त में मनुष्यों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के इन दोषों को मिटाने का एक सीधा उपाय अनासक्त भावना को उत्पन्न करना बताया है। क्योंकि सब प्रकार के सम्पत्ति और चरित्र सम्बन्धी दोष प्रायः तभी बढ़ते हैं जब मनुष्य अपने आत्म-स्वरूप को भूलकर इस पंचभौतिक जगत् को ही सत्य और अपना अन्तिम लक्ष्य समझ बैठता है। इस उपदेश को स्पष्ट रूप से समझाने के लिये पुराणकार ने मदालसा के पुत्र अलर्क की कथा को आगे



बढाते हुए कहा है कि मदालसा के उपदेशानुसार धर्मराज्य करते हुए भी वह अन्तिम अवस्था में सामारिक माया मोह में विशेष फम गया और आत्मोत्थान के वास्तविक लक्ष्य को भूल ही गया। यह देख कर उसके बड़े भाई वनवामी सुबाहु को चिन्ता हुई और उसने एक युक्ति की दृष्टि से काशीराज के पास पहुँच कर उसे अलर्क पर अ क्रमण करने की प्रेरणा दी। इस आक्रमण का सामना न कर सकने के कारण अलर्क की मोह निद्रा टूटी उसने माता की अन्तिम चिह्न स्वरूप अ गूठी के भीतर लिखा हुआ यह उपदेश पढा—

सङ्ग सर्वात्मना त्याज्य स चेत् त्युक्तु न शक्यते ।

स सद्भि सह कर्तव्य सता सङ्गी हि भेषजम् ॥

“मनुष्यो को आसक्ति का पूर्णतया त्याग करना चाहिये, पर यदि वैसा सम्भव न हो तो सत्पुरुषो की सगति ही करनी चाहिये, क्योंकि विषयासक्ति की औषधि सत्सग ही है।”

. इस उपदेश से अलर्क को जो मार्ग दर्शन हुआ तदनुसार वह सत्सङ्ग के उद्देश्य से महात्मा दत्तात्रेय के पाम जा पहुँचा और उनसे अपनी विपत्ति का पूरा वर्णन सुनाकर दुःख दूर करने की प्रार्थना की। दत्तात्रेय ने उसकी बुद्धि पर पड़े पर्दों को देख लिया और सब से प्रथम प्रश्न यही किया कि “तुम अपने मन में अच्छी तरह सोच विचार कर मुझे यह बतलाओ कि तुमको दुःख किस प्रकार का है और वह क्यों उत्पन्न हुआ है ? तुम अपने वास्तविक स्वरूप पर विचार करो, साँसारिक वस्तुओं से उसके सम्बन्ध का निर्याय करो और तब बतलाओ कि किस बात ने तुमको क्यों दुःखी किया है ?” इन शब्दों को सुनकर जब अलर्क राज्य पर आक्रमण सम्बन्धी समस्त घटना पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करने लगे तो उनका सशय बहुत शीघ्र दूर हो गया और वे हँसते हुए कहने लगे—मैं वास्तव में बड़े भ्रम में पडा था कि इन पंच तत्वों को ही जपना मुख्य आधार समझ कर उनके लिए शोक कर रहा था। अगर तात्विक दृष्टि से विचार किया जाय तो मैं न तो भूमि हूँ, न जल हूँ, न अग्नि हूँ न वायु हूँ और न आकाश ही हूँ। इन सब

पदार्थों में न्यूनता अथवा अधिकता होने से ही हम शोक और हर्ष करते हैं पर आत्मा की दृष्टि से यह निरर्थक है। यदि सुख-दुःख का कारण मन और बुद्धि को माने तो आत्मा इनसे भी अलग है। इसलिये वास्तव में मेरा कोई राज्य है, न कोष है, न कोई मेरा शत्रु है। जैसे विभिन्न पात्रों में भरे हुए जल में आकाश का प्रतिबिम्ब अलग-अलग जान पड़ता है, पर वास्तव में वह एक ही होता है उसी प्रकार मैं गलती से काशीराज तथा बड़े भाई सुवाहु को अपने-से पृथक् समझ रहा हूँ। ये लोग मेरे दुःख का कारण नहीं, वास्तव में मेरे दुःख का कारण मेरी ममता है। यदि ममता की भावना को त्यागकर विचार करें तो कहीं दुःख नहीं है। जब बिली किसी गौरैया या चुहिया को पकड़ने जाती है तो हमको कुछ भी दुःख नहीं होता, और जब वह घर में पाले तोता या मुर्ग को खा डालती है तो हम शोक करने लगते हैं। इसलिए आत्मा की दृष्टि से हमको कोई दुःख या सुख नहीं होता। किसी एक भौतिक पदार्थ द्वारा दूसरे भौतिक पदार्थ को उत्पीड़ित देखकर ही हम झूठमूठ सुख-दुःख की कल्पना कर सकते हैं।”

दत्तात्रेय जी ने राजा अलक की भ्राति को इस प्रकार दूर करके उसे दुःख से मुक्त होने का मार्ग बतलाया कि तुम्हारा सोचना युक्तियुक्त है। वास्तव में सब प्रकार के दुःखों का मूल यह ‘मेरा-मेरा’ ही है। जब हम इस ममता को त्याग देते हैं तो दुःख की जड़ स्वयं ही कट जाती है। यह समार कर्मों का एक महावृक्ष है। उसका अकुर ग्रहभाव में से फूटता है। ममता ही उसका भारी तना है। घर-बार का मोह उसकी शाखाएँ हैं, स्त्री-पुत्र धन, सम्पत्ति आदि पत्ते हैं। यह वृक्ष निरन्तर बढ़ता रहता है और तब उस पर पाप-पुण्य के फूल और सुख-दुःख के फल लगते हैं। अज्ञानी लोग उसे लालसा, कामनाओं द्वारा सींचते रहते हैं। यह वृक्ष बन्धन-मुक्ति के मार्ग को रोक कर खड़ा रहता है। जो लोग समार रूपी वन में भ्रमण करते हुए उसका आश्रय लेते हैं उन्हें सच्चा सुख कहाँ मिल सकता है? इसलिए आवश्यकता है कि अपने ज्ञान रूपी कुठार को सत्संग रूपी सान धरने के पत्थर पर तेज करके इस ममता रूपी वृक्ष को

काट डाला जाय । तभी हम आत्म-ज्ञान या ब्रह्म-ज्ञान के शातिदायक उद्यान में पहुँच सकते हैं जहाँ पुनः और काटो का भय नहीं है ।”

इसके पश्चात् दत्तात्रेय ने अलर्क को योग साधन का पूरा विधि-विधान उसके बीच में आने वाले उपसर्ग और प्रलोभनों की चेतावनी दी और योगी के आचार व्यवहार का उपदेश दिया । अन्त में ओंकार की महिमा को समझाते हुए कहा कि उसकी ‘अ’ ‘उ’ ‘म’ तीन मात्राये सत, रज, तम तीनों गुणों अथवा ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन ईश्वरीय शक्तियों के प्रतीक हैं और चौथी ऊर्ध्व मात्रा परब्रह्म की ओर संकेत करती है । जो साधक ओंकार के इस स्वरूप को हृदयगम करके उसका ध्यान करेगा वह केवल इसी साधन से मुक्ति का अधिकारी बन सकता है ।

दत्तात्रेय के आत्मोपदेश से अलर्क कृतार्थ हो गया । उसका शोक, मोह सर्वथा लोप हो गया और उसने स्वयं काशीराज तथा सुबाहु के पास जाकर प्रसन्नतापूर्वक समस्त राज्य अर्पण कर दिया । उसकी इस निस्पृहता को देखकर वे भी बड़े प्रभावित हुए और सुबाहु ने अपना अभीष्ट लक्ष्य पूरा हुआ देखकर उसका राज्य उमी को लौटा दिया । पर अब अलर्क को सच्चा आत्मज्ञान हो चुका था और वह आत्मा के शाश्वत रूप को अनुभव कर चुका था अतः उसी समय पुत्र को राज्य भार देकर वनवास के लिए चला गया ।

### सृष्टि रचना और उसका विकास—

यहाँ तक मदालमा-उपाख्यान के रूप में मानव धर्म तथा अध्यात्म ज्ञान की चर्चा की गई जिसका मनन करने से मनुष्य को लौकिक और पारलौकिक जीवन की सफलता का मार्ग विदित हो जाता है । इसके पश्चात् पुराण का मूल विषय “सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश मन्वन्तर, राज्यवंश” आरम्भ होता है । ये विषय थोड़े बहुत अन्तर के साथ प्रत्येक पुराण में पाये जाते हैं और इसे हम पौराणिक “सृष्टि विद्या” कह सकते हैं । जिस प्रकार वेदों में एक अक्षर-तत्त्व से सत्-रज-तम तीनों गुणों की उत्पत्ति बतला

कर उनसे समस्त सृष्टि का विकास और विस्तार बतलाया है, उसी प्रकार पुराणों में एक निराकार ब्रह्म से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तीन सृजन, पालन तथा सहार करने वाली शक्तियों का उद्भव बतलाकर देव, ऋषि, पितर, एव भूतगणों के वशों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। वास्तव में वेद और पुराणों के वर्णन में कोई सिद्धान्त भेद नहीं है, वरन् पुराणकारों ने वेदों के सूक्ष्म और शुष्क विषय की रूपकों, और दृष्टान्तों की शैली में विस्तृत व्याख्या करके उन्में माधारण बुद्धि के लोगों के लिए भी बोधगम्य बनाने का प्रयत्न किया है। इस सृष्टि-रचना-क्रम का सारांश इन शब्दों में दिया जा सकता है।

इस भौतिक जगत् का जो मूल कारण है उसे 'प्रधान' कहते हैं। उन्में को महर्षियों ने अव्यक्त, सूक्ष्म, नित्य अथवा सदसत्स्वरूप प्रकृति कहा है। सृष्टि के आदि काल में केवल एक ब्रह्म ही था जो अजन्मा अविनाशी, अजर, अप्रमेय और आधार निरपेक्ष है। वह गन्ध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द से रहित है और अनादि तथा अनन्त है। वही सम्पूर्ण जगत् की 'योनि' और तीनों गुणों का कारण है। यह ज्ञान, विज्ञान से अगम्य है। सृष्टि का समय आने पर वही ब्रह्म गुणों की साम्यावस्था रूप प्रकृति को धुव्व करता है जिसके फल स्वरूप महत्त्व का प्राकट्य होता है। महत्त्व में वैज्ञानिक, तैजस, भूतादि अर्थात् सात्त्विक, राजस और तामस इस त्रिविध अहकार का आविर्भाव होता है। तामस अहकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-इन पाँच तन्मात्राओं का उद्भव होता है और इन तन्मात्राओं से क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी तत्व का आविर्भाव होता है। राजस अहकार से श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, रसना और घ्राण इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों तथा वाक्, पाणि, पाद, वायु और उपस्थ इन पाँच कर्मेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। सात्त्विक अहकार से इन दमो इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता तथा ग्यारहवें मनकी उत्पत्ति होती है। फिर महत्त्व से पृथ्वी तत्व पर्यन्त सब तत्व मिलकर पृथ्वी और प्रकृति के सम्बन्ध से एक अण्ड उत्पन्न करते हैं। यह अण्ड धीरे-धीरे बढ़ता है और साथ ही उन्में भीतर प्रतिष्ठित 'ब्रह्मा' नाम से प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ पुरुष भी वृद्धि को प्राप्त होता है।

आवश्यक वृद्धि और विकास हो जाने पर प्रथम शरीरों या साकार ब्रह्मा का प्राकट्य होता है और फिर वही ब्रह्मा उम अण्ड मे समस्त सचराचर जगत् की रचना करते है ।' यह बात मार्कण्डेय पुराण मे बहुत स्पष्ट शब्दों से कही है ।

स वै शरीरी प्रथम स वै पुरुष उच्यते ।

आदि कर्ता च भूताना ब्रह्माग्रं समवर्तत ।

तेन सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥

पर यह 'ब्रह्मा' कोई बाह्य शक्ति या व्यक्ति नहीं है । ससार मे उस परब्रह्म के अनिरीक्त चैतन्य सत्ता का कोई अन्य स्रोत नहीं है, इसलिये ब्रह्म ही विविध रूपों मे प्रकट होकर सृष्टि का विकास करता है । इस तथ्य को 'मनुस्मृति' मे बहुत स्पष्टता से कह दिया गया है—

यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् ।

तद् विसृष्टं स पुरुषो लोके ब्रह्मोति कीर्त्यते ॥

• अर्थात् 'जो अव्यक्त, सदसदात्मक नित्य कारण है वह ब्रह्म है और उमी से विसृष्ट या प्रेरित सृष्टि मे जो अनुप्रविष्ट कारण है वह ब्रह्मा कहा जाता है ।'

इम सबका तात्पर्य यही है कि पुराणों ने ब्रह्मा विष्णु महेश—तीन प्रधान देव और इन्द्र, वरुण, मारुत यम, कुबेर, गरुड आदि सैकड़ों गौण देवता मानने पर भी इम मूल तत्त्व से इनकार नहीं किया है कि इस समस्त विश्व-प्रपञ्च का मूल एक ही है जिसे परमात्मा, परब्रह्म, निराकार ईश्वर आदि किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है । जिम प्रकार पिता अपनी स्त्री के गर्भ मे स्वयं बीज रूप से प्रविष्ट होकर पुत्र बनता है या वृक्ष अपना समावेश बीज के भीतर कर देता है उमी प्रकार निराकार ब्रह्म स्वयं ही अण्ड के भीतर प्रविष्ट होकर साकार देवतत्त्वों का आविर्भाव करते है और बाद मे वे ही सचराचर जगत् के रूप मे अपना विस्तार करते है । इमी दृष्टि से वेदान्त मे प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म स्वरूप ही माना है और मुक्त वश से 'अहं ब्रह्मास्मि' की घोषणा कर दी है ।

यद्यपि ऊपर मे देखने पर अनेक व्यक्तियों को सृष्टि के आदि कारण

का यह विवेचन अनावश्यक अथवा निरर्थक भी मालूम पड सकता है। वे कहेंगे कि इतनी दूर जाने की, ऐसे अज्ञेय क्षेत्र में प्रवेश करके महा कठिन कल्पना करने की क्या आवश्यकता है ? जो कुछ सामने है उसी को यथार्थ मान कर उपयोग और व्यवहार क्यों न किया ? पर यह बहुत सर्कीरुण अथवा अदूरदर्शी दृष्टिकोण है। ऐसे ही विचारों के कारण आज ससार में भौतिकवाद का बोलवाला है और अधिकांश मनुष्य किसी प्रकार स्वार्थ साधन को ही सबसे महत्त्व का काम समझ बैठे हैं। इसका परिणाम घोर व्यक्तिगत स्वार्थपरता, पारस्परिक संघर्ष, दूसरे का नाश करके भी अपना लाभ करने की प्रवृत्ति के रूप में देखने में आता है। यही प्रवृत्ति बढ़ते-बढ़ते आज समग्र ससार को एक साथ नष्ट करने के भय के रूप में उपस्थित हो गई है।

यह सब नाशकारी परिणाम उन मनुष्यों के जीवन के पीछे किसी तरह की उच्च दार्शनिक पृष्ठ भूमि न होने से ही उत्पन्न हुए हैं। पर जो मनुष्य यह विश्वास करता है कि यह समस्त जगत् और तमाम प्राणी एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं और यह एक अविनाशी महाशक्ति का खेल मात्र है, जो कुछ समय बाद फिर उसी एक तत्व में विलीन हो जायगा, तो वह मिट्टी से बने और थोड़े ही समय बाद फिर मिट्टी हो जाने वाले पदार्थों के लिये किसी तरह का हीन, निष्कृष्ट काम करने को तैयार न होगा। इस दार्शनिक दृष्टिकोण के कारण ही पूरब और पश्चिम की मनोवृत्तियों में जमीन-आसमान का अन्तर होगया है जिसका वर्णन एक विनोदी उर्दू कवि ने इन दो लाइनों में किया है।

कहा मसूर ने खुदा हूँ मैं।

डार्विन बोले बूवना हूँ मैं ॥

अर्थात्—‘ मसूर (ईरान के ब्रह्मज्ञानी सत) ने घोषणा की कि मैं खुदा हूँ, (अह ब्रह्मास्मि) और योरोप के विज्ञानी पुरुष डार्विन ने कहा—‘ मैं बन्दर हूँ ।’

जिस व्यक्ति की यह भावना होगी कि मैं इस सगस्त ससार के आदि कारण परब्रह्म का अंग हूँ वह सदा अपनी निगाह बहुत ऊपर रखेगा और

नीचतापूर्ण कार्यों से बचता रहेगा। पर जिमकी धारणा यह होगी कि मैं तो मिट्टी, पानी आदि पचभूतो का पुतला हूँ, जो मौ-पचास वर्ष में फिर उन्हीं में मिल जाऊँगा, उसकी निगाह सोना चाँदी इकट्ठा करके तरह तरह के भोग अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त कर लेने के अतिरिक्त और कहाँ जा सकती है ? इमलिये भारतीय नास्त्रकारो का सबसे पहले सृष्टि के मूल कारण पर विचार करना और मनुष्यो को सदैव अपने सच्चे स्वरूप पर विचार करते रहने की प्रेरणा देना निस्सन्देह व्यक्ति और समाज के लिये परम कल्याणकारी है।

### समाज का निर्माण और विकास—

सृष्टि-विकास के पश्चात् समाज निर्माण पर विचार करना आवश्यक है। पुगणो में भौतिक पदार्थों और जीव-जगत् की उत्पत्ति का जो क्रम बतलाया गया है वह अधिकांश में विज्ञान-मम्मन है, उसे सर्वथा काल्पनिक नहीं कहा जा सकता है। पहले कहा जा चुका है कि महत्तन्त्र से सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहङ्कार पैदा होता है। आगे चलकर सर्वे प्रथम तामस अहङ्कार से 'असज्ज' (चेतना रहित) पदार्थों की उत्पत्ति होती है जैसे मिट्टी, पत्थर, लोहा आदि। फिर राजस अहङ्कार से 'अन्त सज्ज' (सुप्त चैतन्य) पदार्थों की उत्पत्ति होती है जैसे घाम, बेले, वनस्पति, वृक्ष आदि। इनमें प्राण शक्ति प्रकट हो जाती है, पर मन की क्रिया भीतर छिपी रहती है। अन्त में सात्विक अहङ्कार से 'समज्ज' (चैतन्य) जीवधारी सृष्टि होती है जैसे कीट, पतङ्ग, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि। पंच कर्मेन्द्रियाँ, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ और ग्यारहवाँ मन। इस विकार-मार्ग के विकसित होने के कारण समज्ज सृष्टि को 'वैकारिक' भी कहा जाता है।

जीवधारी सृष्टि के सम्बन्ध में बतलाया गया है कि ब्रह्मा ने जो प्राणी प्रथम बनाये वह 'सर्दा-गर्मी' में बहुत कम प्रभावित होकर नदियों, भीलो, समुद्र और पर्वतो के निकट विचरण करते रहते थे। वे उपभोग के विषय में अना-याम नृति लाभ कर लेते थे और उनमें किमी प्रकार विघ्न, द्वेष अथवा मन्सर नहीं था। वे घग् न बना कर पर्वत या समुद्र तट पर निवाम करते एव मदा

निष्कमचारी और प्रमत्तचित्त थे। यह स्पष्टतः उस समय का वर्णन है जिसे हम 'प्रकृति का साम्राज्य' या 'स्टेट आफ नेचर' कहते हैं। उस समय प्राणी अपना निर्वाह घास-पात, फल-फूल से करते हैं और इमलिये उनको किसी प्रकार चिन्ता या सघर्ष की आवश्यकता नहीं होती है। यही वह युग होता है जिसके लिये कथाओं में कहा जाता है कि पशु और पक्षी भी बातें करते हैं और देवता भी उनकी सहायता को आ जाते हैं। वास्तव में जिस समय तक भाषा का अविर्भाव नहीं होता तब तक प्रत्येक प्राणी दूसरे प्राणी के भावों को उसकी आकृति और ध्वनि, चीत्कार आदि से पहचान लेता है। उनका प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा ही सञ्चालन होता है और वे प्रकृति के सकेतो का आशय भी भली प्रकार समझते हैं। इस दृष्टि से उस आदिकाचीन युग में एक प्रकार से देवता ही पृथ्वी पर विचरण करते हैं।

पर परिवर्तनशील सृष्टि-क्रम में यह अवस्था मद्धैव स्थिर नहीं रह सकती थी। क्रमशः जीवों की अनायास नृप्ति हो जाने की 'सिद्धि' समाप्त होने लगी और आकाश से जल रूपी दूध बरसने लगा और लोगों के निवास स्थानों में कल्पवृक्ष उत्पन्न होगये जिनसे उनको आवश्यकता की ममस्त वस्तुएँ प्राप्त हो जाती थी। तत्पश्चात् जब मनुष्यों में कल्पवृक्षों के प्रति राग उत्पन्न होने लगा तो वे नष्ट होगये और चार शाखा वाले अन्य वृक्ष पैदा हुए जिनके प्रत्येक पुट में बिना मक्खियों के ही मधु उत्पन्न होता था और उमी को पीकर लोग जीवन निर्वाह करते थे। यह स्थिति त्रेतायुग में थी। क्रमशः मनुष्य अत्यन्त लोभी होने लगे, उन वृक्षों पर अपना अधिकार जमाने लगे और उनकी जड़ों में अपने रहने के घर बना लिये। इसमें वे वृक्ष भी कुछ काल में नष्ट होगये।

उस समय में सब प्राणी भूख-प्यास से व्याकुल होकर अत्यन्त कातर होने लगे। कुछ समय पश्चात् आकाश से जल की विशेष रूप से वर्षा होने लगी और उसका जल मिट्टी के सयोग से दोष रहित होकर नदियों के रूप में परिणत होगया। नदियों के प्रभाव से पृथ्वी पर तरह-तरह की उत्तम 'अपघियाँ' (वनस्पतियाँ) पैदा हुईं, जिनका उपयोग करने में लोगों का सुखपूर्वक निर्वाह



हाने लगा । पर जब लोग उन वनस्पतियों को भी अधिक से अधिक परिमाण में इकट्ठा कर लेने का लालच करने लगे तो वे भी नष्ट हो गईं काई अन्य उपाय न देवकर लोगो ने भगवान् ब्रह्मार्जा (बुद्धि) की शरण ली तो उन्होंने कुछ बीज उत्पन्न करके लोगो को कृषि-विद्या का उपदेश दिया और सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से उनको चार वर्गों में विभाजित करके प्रत्येक वर्ग को एक-एक कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा । उन्होंने कर्म परायण ब्राह्मणों के लिये प्राजापत्य-स्थान, सग्राम करने वाले क्षत्रियों के लिये ऐन्द्रस्थान, स्वधर्म निरत वैश्यों के लिये माहत्त-स्थान और मवा परायण शूद्रों के लिये गान्धर्व-स्थान की कल्पना की ।”

इस विवेचन में आदिम मानव-समाज और उसके क्रमशः विक्रम पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । वर्तमान युग के अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र के एक बड़े विवेचक कार्ल मार्क्स ने यह मत प्रकट किया है कि मानव-समाज में सब तरह की प्रथाओं और रीति-रिवाजों के उत्पन्न और प्रचलित होने का मूलाधार आर्थिक व्यवस्था ही थी । जिस काल में जीवन-निर्वाह के जैसे साधन प्राप्त थे वैसे ही सामाजिक व्यवस्था भी उस समय बन गई । उपर्युक्त पौराणिक वर्णान में भी यही बातलाया गया है कि जैसे-जैसे जीवन निर्वाह के साधन बदलते गये उसी प्रकार प्राणियों और उनकी जीवन-निर्वाह विधि में भी परिवर्तन होता गया । जब तक लोगो में स्वार्थ बुद्धि की वृद्धि नहीं हुई और वे पशुति दत्त पदार्थों में से आवश्यकतानुसार ही लेकर अपनी भूख मिटा लेते थे तब तक उनका काम बिना किसी विशेष प्रयत्न के जंगल और वनों की स्वाभाविक उपज में होना रहा । पर जैसे-जैसे उनमें सग्रह और परिग्रह की भावना उत्पन्न होने लगी प्रकृति भी अपने दान को सकुचित करने लगी और लोगो को जीवन-निर्वाह की परिश्रम और युक्तिमाध्य विधियों का आश्रय देना पड़ा । इसी में खेती और पृथक् परिवार की प्रथा का जन्म हुआ । आगे चलकर विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों तथा पेशों के बढ़ने में जाति-प्रथा का भी उद्भव हुआ । जिनने ही अधिक लोग विभाजित हुए और अपने उत्पादन का मुश्किल रखकर उसका स्वयं ही उपभोग करने लगें वैसे-वैसे ही मानव-सम्बन्धों में जटिलता आना गई

और क्रमशः शासन, राज्य और राष्ट्र का प्रादुर्भाव होकर मानव-समुदाय आधुनिक सभ्यता, संस्कृति तक पहुँच गया ।

यह तो भौतिक पदार्थों के विभाजन तथा स्वामित्व के कारण उत्पन्न सामाजिक व्यवस्था की एक मोटी रूपरेखा हुई । जब इसके साथ भली-बुरी मनोवृत्तियों, धर्म-अधर्म, कर्तव्य-अकर्तव्य, सत्य-भूँठ, प्रेम-घृणा, मित्रता-शत्रुता आदि भावनाओं का योग होता है तो मानव-व्यवहारों में ऐसी जटिलता आ जाती है कि जिसके निर्णय और कार्य रूप में परिणत करने में बड़े-बड़े समाज शास्त्री तथा न्यायवेत्ता विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है । इसका वर्णन पुराणकार ने अपनी रूपक और अलङ्कारों की विशिष्ट शैली में इस प्रकार किया है—

“जब ब्रह्मा के मानस पुत्रों में सृष्टि का विस्तार न हो सका तो उन्होंने एक पुरुष उत्पन्न करके उसके आधे भाग में एक स्त्री को भी उत्पन्न किया और उनको पति-पत्नी बनाकर प्रजा की उत्पत्ति का आदेश दिया । वे ही सप्तार के प्रथम मानव-प्राणी स्वायम्भुव मनु और शतरूपा थे । उनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद । दो कन्याएँ भी हुई—प्रसूति और ऋद्धि सृद्धि का विवाह रुचि से हुआ जिससे यज्ञ और दक्षिणा नामक दो सन्तानों की उत्पत्ति हुई । दक्ष और प्रसूति के चौबीस कन्याएँ हुईं उन्हें धर्म ने अपनी पत्नी बनाया । इसके साथ ही अधर्म का परिवार भी बढ़ा । उनकी पत्नी हिंसा में अनुर नामक पुत्र और सृष्टि नामक कन्या उत्पन्न हुई । उनसे नरक और भय नामक पुत्र हुए और माया तथा वेदना दो कन्याएँ हुईं । माया से मृत्यु और वेदना से दुःख नामक पुत्र उत्पन्न हुए । मृत्यु के व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध नामक पुत्र हुए । दुःख से जो सन्तति हुई वह सब अधर्म का आचरण करने वाली थी । मृत्यु ने अलक्ष्मी नामक एक और स्त्री से विवाह किया जिसके चौदह पुत्र हुए जो मनुष्यों के मन तथा इन्द्रियों में प्रविष्ट होकर उनको नाश की तरफ ले जाते हैं ।

इन पुत्रों में से एक का नाम दुःसह है जिसको अत्यन्त भयकर बताया

है। कहा है कि वह जन्म लेते ही ऐमा भूखा था कि ममस्त समार के उसके द्वारा नष्ट होने की सम्भावना जान पड़ी। तब ब्रह्मा ने उसके रहने के स्थान नियत कर दिये कि जहाँ बुरे लक्षण, आलस्य, प्रमाद, दारिद्र्य हो वहाँ पर वह निवाम करे। जहाँ देशाचार, जाति-धर्म, लोहाचार का ठीक तरह से आचरण किया जाता है, जप, होम, मंगल, यज्ञ शौच आदि का विविधत्व पालन किया जाता है, उन स्थानों में वह दूर रहे। इस दुसह के 'निर्माष्टि' नाम पत्नी से वन्ताकृष्टि, तथोक्ति, परिवर्त, अङ्गधुक, शकुनि, गड, प्रान्तरति और गर्भहा नामक आठ पुत्र हुए। नियोजिका, विरोधिनी, स्वयहारकरी, भ्रामणी, ऋतुहारिका, स्मृतिहरा, वीजहरा और विद्वेपिणी नामक आठ कन्याएँ भी हुईं। दुसह की इन सोलह मन्तानों ने मनुष्यों के जीवन को महाकष्टमय बना दिया है और जिस पर उनका वग चलता है उसे वे नष्ट करके ही छोड़ते हैं।"

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि दुसह और उनकी मन्तानों का आशय तरह-तरह की दूषित मनोवृत्तियों, नैतिक, सामाजिक और भौतिक दोषों तथा भाति-भाति के रोगों से ही है, जो कर्तव्य विमुख और आलस्य व्यक्तियों पर मवार हो कर उन्हें नष्ट किया करते हैं। पुराणकार ने दुसह के रहने के जितने स्थान बतलाये हैं वे सब दूषित आचरणवालों के ही लक्षण हैं। मदाचारी और कर्तव्यरत व्यक्तियों की तरफ वह अँख उठाकर भी नहीं देखता। अडतालीसवें अध्याय में दुसह के क्रिया-कलापों का विस्तृत वर्णन निस्सन्देह पठने और शिक्षा ग्रहण करने योग्य है।

### रुद्र सृष्टि अथवा अग्नि तत्व की व्याख्या—

अगले अध्याय में कहा गया है कि ब्रह्माजी ने कल्प के आदि में अग्रे समान एक पुत्र का ध्यान किया तो एक नील लोहित कुमार उत्पन्न हुआ। व ब्रह्माजी की गोदी में रोने लगा। ब्रह्माजी ने पूछा—तू क्यों रोता है? उसने कहा "मेरा नाम रखिये।" उसने उत्पन्न होते ही रुदन किया। इस ब्रह्मा ने कहा—तुम्हारा नाम 'रुद्र' हुआ। इस पर वह सात बार और रोया तब ब्रह्मा ने उसके सात नाम और रखे—भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम

श्र और महादेव । तब उसके रहने के लिये आठ स्थान नियत किये—सूर्य, इन्द्र, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण और सोम । उसकी आठ नितियाँ भी बनादी—सुवर्चला, उमा, विकेशी, स्वधा, स्वाहा, दिक्, दीक्षा, लोहिणी । शनैश्चर, शुक्र, लोहिताङ्ग, मनोजव, स्कन्द, मर्ग, सन्तान और बुध को रुद्र के आठ पुत्र बताया गया है ।

यह रुद्र का रूपक वैदिक साहित्य में वर्णित प्राण तत्त्व की कथा के रूप में व्याख्या है । 'गणपथब्राह्मण' में कहा गया है "यो वै रुद्र सोऽग्नि" अर्थात् अग्नि या प्राणतत्त्व का एक नाम रुद्र भी है । पुराण में इसका नाम जो 'नील लोहित कुमार' गया है उसका आशय यही है कि अग्नि की रश्मियों का अथवा सूर्य-रश्मियों का वर्ण एक छोर पर नीला और दूसरे पर लोहित (लाल) ही होता है । 'अथर्व वेद' के एक मूक्त में भी रुद्र के 'नील लोहित अनुप' का उल्लेख मिलता है । अग्नि तत्त्व जब अपने केन्द्र में जागृत होता है तो वह 'रुद्र रूप' में होता है । उसमें वृक्षों की वृत्ति उत्पन्न होती है अर्थात् वह बाहर से कोई पदार्थ अपने पोषण को चाहता है । जब उसे वह पदार्थ मिल जाता है तो वह रचनात्मक अर्थात् 'विव' बन जाता है । रुद्र के जो मान नाम और बतलाये गये हैं वे अग्नि तत्त्व के वे मान रूप हैं जो अव्यक्त पदार्थों को व्यक्त रूप में लाने के साधन बनने हैं । अग्नि या प्राण तत्त्व ही समस्त भौतिक पदार्थों को प्राण या गति-तत्त्व प्रदान करता है अतः वे उसके स्थान हैं । इसी प्रकार स्वधा, स्वाहा आदि आहवनीय अग्नि से सम्बन्धित हैं । शनि, गुरु, बुध आदि सभी ग्रह उपग्रह अग्नि तत्त्व के ही विभिन्न रूप या उनके परिवार की तरह हैं ।

### मन्वन्तर और सप्त द्वीप वर्णन—

इसके पश्चात् स्वायम्भुव व मन्वन्तर और उसमें उत्पन्न राजाओं के शासन-क्षेत्र के रूप में जम्बू, प्लक्ष, शात्मलि, कुस, क्रौञ्च, शाक और पुष्कर इन सप्त द्वीपों का वर्णन आया है । इन सप्त द्वीपों का विस्तार सब मिला

कर पञ्चम कंगोड योजन बतलाया गया है, जिसमे से जम्बू द्वीप की लम्बाई चौड़ाई एक लाख योजन है और भारत वर्ष इसी का एक भाग है ।

स्वादम्भुज मनु के बड़े पुत्र प्रिन्नवत की प्रजावती नामक पुत्री का विवाह प्रजापति कर्दम के साथ किया गया । उसके सात पुत्र हुए जिनमे से अग्नीध्र को जम्बू का, मेधातिथि को प्लक्ष द्वीप का, व युष्मान को शालालि का, ज्योतिष्मान् को कुश का, द्युतिमान् को क्रौञ्च का, भव्य को शाक द्वीपका और सवन को पुष्कर का अधिपति बनाया गया । फिर इनमे से प्रत्येक के भी प्राय सात-सात ही पुत्र हुये जिनके लिये उक्त द्वीपों को सात विभागों मे जिनका नाम वर्ष' रखा गया है, बाँट दिया गया । इनमे से प्रत्येक द्वीप मे सात पर्वत और सात नदियाँ भी थी । इन सब की बड़ी नामावली ग्रनेक पुराणों मे पाई जाती है, पर वह पाठकों के लिये रुचिकर नहीं हो सकती । उनका एकाध नाम दर्तमान इतिहास या भूगोल के नामों से मिलता है, पर उसे अधिक महत्त्व देना ठीक नहीं । एक विद्वान् का इस सम्बन्ध मे यह भी मत है कि ये माओ द्वीप एक समय में एक साथ मौजूद नहीं थे, पर पृथ्वी के उटल फेर के फल स्वरूप विभिन्न कालों मे बने और नष्ट हुये है । वर्तमान समय मे हम पृथिवी के जिस रूप को देख रहे है वह जम्बू द्वीप है और उमी का वर्णन कुछ अगो मे हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है । शेष छ द्वीप भूत काल या भविष्य से सम्बन्धित है । पर पुराणों ने इस विषय पर एक त्रिकाल-द्रष्टा की हैमियत मे विचार किया है और सृष्टि रचना और इसके विलय के नाटक को इस प्रकार लिख लिख दिया है जैसे वह एक ही समय मे उनके नेत्रों के सम्मुख हो रहा हो ।

अधिकांश विद्वानों के मतानुसार जम्बू द्वीप का जो वर्णन पुराणों मे किया गया है उसमे एशिया के एक बड़े भाग का समावेश हो जाता है । पर पूर्विक पुराने समय मे आवागमन के साधन बहुत ही सीमित थे इस लिये सभी लेखकों ने जो भौगोलिक वर्णन किये है उनमे वास्तविकता और कल्पना का सम्मिलन है । पुराणों के वर्णन मे ही नहीं वर्णन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस तथा डटैलियन मार्कोपोलो के वर्णनों मे भी बहुत सी ऐसी बात

पाई जाती है जो इन्होंने दूसरे लोगो से सुन कर ही लिख दी थी और जो अब कल्पनिक सिद्ध हो रही है। इस लिये पुराणो मे पृथ्वी के विभिन्न द्वीपो समुद्रो, खण्डो का जो वर्णन किया गया है वह कथा रूप मे ही ग्रहण किया जाना चाहिये। वास्तव मे पुगणकार भारतवर्ष मे ही रहने थे, यही के निवासियो से उनका पञ्चय और सम्बन्ध था, इस लिये उन्होने यहाँ के नगरो, जनपदो, पर्वतो, नदियो के सम्बन्ध मे जो कुछ लिखा है वही प्रामाणिक और उपयोगी सिद्ध होता है। फिर पुगणो का मुख्य उद्देश्य जन साधारण को धार्मिक और नैतिक शिक्षा देना था। इसी दृष्टि से उनकी महत्ता पर विचार करना चाहिये। इस प्रकार के भौगोलिक वर्णन तो इन्होने कथानको को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से किये है और वे सभी पुराणो मे प्रायः उसी रूप मे लिख दिये गये है जिममे वे परम्परा से चलते आते थे। आधुनिक वैज्ञानिक खोजो के दृष्टि कोण से उनकी आलोचना मे प्रवृत्त होना अपनी 'विद्या' के अहङ्कार का निरर्थक प्रदर्शन ही है।

आग्नीध्र को जम्बू द्वीप दिया गया उसके अपने पुत्रो मे उमने नौ हिस्से कर दिये। इनमे हिम नाम दक्षिणवर्ष नाभि राजा को मिला। नाभि से इमका उत्तराधिकार उनके पुत्र ऋषभ को मिला और ऋषभ अपने पुत्र भरत को राज्म देकर तपस्या करने चले गये। इन्ही भरत के नाम से यह खण्ड भारतवर्ष के नाम मे प्रसिद्ध हुआ। पुराणो के मतानुसार शकुन्तला के पुत्र भरत के नाम के आशय पर इस देश का नाम भारतवर्ष होने की कल्पना ठीक नहीं है। यह भरत भी महायोगी और तपस्वी थे। वे भी कुछ समय पश्चात् अपने पुत्र सुमति को गद्दी पर बिठा कर वन को चले गये। इस प्रकार स्वायम्भुव मनु के पुत्र प्रियव्रत का वंश समस्त पृथ्वी पर बहुत समय तक शासन करना रहा।

इमके पश्चात् अन्य पाँच मन्वन्तरो के सम्बन्ध मे भी तरह-तरह की कथाये दी गई है, जिनसे अनेक प्रकार की शिक्षाये प्राप्त हो सकती है। पर ऐतिहासिक या सामाजिक विकास की दृष्टि से इनमे विशेष तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता।

## सूर्य का तात्त्विक विवेचन:—

सृष्टि-रचना का मुख्य आधार सूर्य है। समार के प्रत्येक पदार्थ में उमी से उष्णता प्राप्त होती है और वही प्राणी रूप बनकर प्रत्येक जीवित प्राणी में गति उत्पन्न करता है। मनुष्यों में निरोगिता, स्वास्थ्य, शारीरिक बल, उत्साह, साहस, पराक्रम आदि गुण भी उसी के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। वही प्रकाश का एक मात्र साधन है। उसके बिना सर्वत्र घोर अन्धकार ही है। प्रकाश के अन्य जितने कृत्रिम माधन मनुष्य ने खोज निकाले हैं वे भी सूर्य की ही देन हैं। सूर्य अग्नि-तत्त्व का प्रतीक है और उसके बिना समस्त ससार जड़ और मृतक ही है।

माकण्डेय पुराण में इस प्राकृतिक तत्त्व को ही सबसे अधिक महत्त्व दिया गया है और उसी को पूजा उपासना के योग्य बतलाया गया है। वैवस्वत मन्वन्तर का आरम्भ सूर्य के पुत्र मनु से ही माना गया है और उसके वर्णन में सूर्य की महिमा पर पर्याप्त प्रशंसा डाला गया है। कथा में कहा गया है कि त्वष्टा ( विश्वकर्मा ) की पुत्री सज्ञा का विवाह सूर्य हुआ था जिसमें वैवस्वतमनु तथा यम, दो पुत्रों तथा एक पुत्री यमुना का जन्म हुआ। उस समय सूर्य का तेज अत्यन्त प्रखर था और सज्ञा उसे सह सकने में अनमर्थ थी। इससे वह अपना एक छायामय शरीर बनाकर गुप्त रूप से अपने पिता के घर चली गई और छाया में कह गई कि तुम इन भेद को कभी प्रकट मत करना। कुछ समय पश्चात् पिता ने सज्ञा को फिर पति गृह जाने की मलाह दी तो वह वहाँ से चली आई और घोड़ी का रूप ग्धकर सूर्य के रूप का मुधार होने के उद्देश्य से तप करने लगी।

कुछ समय पश्चात् सूर्य को छाया के रूप में कृत्रिम सज्ञा का भेद मालूम पड़ गया और उन्होंने विश्वकर्मा के पास जाकर इस सम्बन्ध में पूछा तो मालूम हुआ कि सूर्य के असहनीय तेज के कारण पिता के यहाँ चली आई थी और अब कहीं तप करने चली गई है। यह जानकर सूर्य ने विश्वकर्मा से अपने स्वरूप को काट छोटकर सौम्य बना देने को कहा। उन्होंने सूर्य को

‘मवत्सर’ रूपी खराद पर चढाकर इस प्रकार छोट दिया जिससे उनका स्वरूप बहुत दर्शनीय और लोकोपयोगी बन गया। उनके उस स्वरूप के दर्शन करके देवता उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे—

“हे देव ! तुम ऋग्वेद स्वरूप हो, तुमको नमस्कार है। तुम्हीं यजु स्वरूप हो, तुमको नमस्कार है। तुम्हीं ज्ञान ( प्रकाश ) के एक मात्र आवाह हो, तुम्हीं तम ( अन्वकार ) के नाशक, शुद्ध ज्योति स्वरूप और निर्मल हो, तुमको नमस्कार है ; तुम शङ्ख, चक्र, शार्ङ्ग, पद्म धारण करने वाले विष्णु रूप हो, तुम्हे नमस्कार है। तुम्हीं दग्धि, वरेण्य, पर और परमात्मा हो, तुम ही ममस्त जगत् मे व्यापक हो, आत्म स्वरूप हो तुम्हे नमस्कार है। तुम्हीं ज्ञानी मनुष्यों की निष्ठा, सर्वभूतों के कारण स्वरूप हो। तुम्हीं प्रकाश आत्म रूपी भास्कर, दिनकर हो, तुम्हीं रात्रि के कारण स्वरूप हो, तुम्हीं सध्या और ज्योत्स्नाकारी हो। तुम्हीं भगवान् हो, तुम्हारे द्वारा ही जगत् जागृत और गतिपान होता है। तुम्हारे प्रभाव से ही यह चराचर युक्त अखिल ब्रह्माण्ड भ्रमण करता है। सम्पूर्ण पदार्थ तुम्हांगे किरणों से स्पर्श होकर पवित्र होते है। तुम्हारी किरणों द्वारा ही जलादि की पवित्रता साधित होनी है। हे देव ! जब तक यह जगत् आपकी किरणों के सयोग को प्राप्त नहीं होना तब तक होम दानादि कोई उकारक कर्म भी नहीं हो पाता। आपके अग से जो किरणें निकलती है वे ही ऋक् यजु साम रूपी त्रयी विद्या है। तुम्हीं ब्रह्म रूपी प्रधान और अप्रधान हो। तुम्हीं मूर्तिधारी और अमूर्त हो, स्थूल और सूक्ष्म रूप से तुम्हीं काल रूप हो।”

इस श्रोत्र मे सूर्य का जो वर्णन किया है उससे प्रकट होता है कि इन पक्तियों का लेखक सूर्य को ही परमात्मा का मुख्य स्वरूप मानता है और सप्ताग मे एक मात्र उन्ही को पूजनीय, अर्चनीय, उपासनीय तत्व स्वीकार करता है। वेद मे भी प्रकाश और तम दोनों का कारण सूर्य को ही बतलाया गया है और ब्रह्माण्ड मे जो गति और जगत् मे प्राण तत्व दिखाई पडता है उसका मूल भी सूर्य के अतिरिक्त कोई नहीं। सूर्य को त्रयी विद्या का भी मूल बनलागा



करने से प्रतीत होता है कि वही हिन्दू धर्म की सबसे बड़ी मान्यताओं का मूल स्रोत है। इस सम्बन्ध में एक विद्वान् ने लिखा है—

“ऋक्-यजु-साम का सम्मिलित रूप सूर्य है। अस्तुत यह वैदिक तत्त्वज्ञान का मूलभूत दृष्टिकोण था। विश्व की प्रत्येक रचना सूर्य की ही शक्ति है। त्रयी विद्या को ही यज्ञ कहते हैं, इसलिए सूर्य को यज्ञ-नारायण कहा जाता है। त्रयी विद्या ‘त्रिक’ का ही दूसरा नाम है। भारतीय धर्म, दर्शन, वैदिक और पुगण तत्व सबका मूल त्रयी विद्या या त्रिक है। वेद में अव्यय-पुरुष, अक्षर-पुरुष और क्षर-पुरुष, पुगणों में ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूपी त्रिदेव एवं दर्शन में सत्व, रजु तम नामक तीन गुण त्रयी विद्या के ही रूप हैं। ये ही भू-भुव-स्व नामक तीन व्याहृतियाँ हैं। भारतीय साहित्य में ‘त्रिकों’ को अनेक समानान्तर सूचियाँ हैं। मन-प्राण-वाक् एवं प्राण-अपान व्यान त्रिक के ही रूप हैं। इस प्रकार त्रयी विद्या या ‘त्रिक’ का अपरिमित विस्तार भारतीय साहित्य में पाया जाता है। सूर्य उम विद्या का सर्वोत्तम प्रतीक है।”

‘मार्कण्डेय पुगण’ में इस एक स्थान पर ही नहीं वरन् अनेक प्रसङ्गों में सूर्य को ही सृष्टि का सबसे महान् और रचनात्मक साधन बतलाया गया है। अध्याय ९४ में कहा गया है कि ब्रह्मा ने जब चारों वेदों को, प्रकट किया और उनका तब उत्तम तेज एक होकर ‘अकार’ के श्रेय तेज से संयुक्त हुआ तब सूर्य का सर्वोच्च तेज दृष्टिगोचर होने लगा। यह तेज सृष्टि-रचना में सबसे पहले उत्पन्न हुआ था इसी में ‘आदित्य’ कहा जाता है। पर उस आरम्भिक दशा में यह इतना प्रखर और अनियंत्रित था कि ब्रह्माजी ने देखा कि वे जो कुछ सृष्टि रचेंगे वह सब इसकी तीव्रता से नष्ट हो जायगी। इसका उद्धार जल तत्व को मोख लेगा और पृथ्वी तत्व को भी भस्म रूप कर देगा। इसलिए उन्होंने सूर्य नारायण की स्तुति करते हुए कहा—

“जो सम्पूर्ण विश्व के आत्म स्वरूप है जो इस विश्व रूप में ही वर्तमान है, विश्व ही जिनकी मूर्ति है, योगीगण जिनकी इन्द्रियों से अग्राह्य परम ज्योति का ध्यान करते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ ; जो अचिन्त्य

शक्ति ऋग्वेदमय, यजुर्वेद का आधार सामवेद की उत्पत्ति का कारण है, जो परम ब्रह्म स्वरूप और गुणातीत है, सबसे पहले मैं उन्हीं सर्वकारणरूप, परम पूज्य, परमवेद्य, परम ज्योति, देवात्मता हेतु स्थूल रूपी श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर आदि पुरुष भगवान् भास्वान् को नमस्कार करता हूँ। हे देव ! तुम्हारी शक्ति ही 'आधा' है क्योंकि उसी के द्वारा प्रेरित होकर मैं जल, पृथ्वी, पवन और अग्नि रूपी देवताओं और प्रणवादि की सृष्टि करता हूँ। इसी प्रकार स्थिति और प्रलय भी मैं तुम्हारी शक्ति से प्रेरित होकर ही करता हूँ।

हे भगवन् ! तुम्हीं वह्नि रूप हो। जब तुम पृथ्वी का जल मोचते हो तब मैं जगत् की रचना और अन्नान्नादि को सम्पन्न करता हूँ। तुम्हीं सर्वव्यापी गगन स्वरूप हो और तुम्हीं इस पव भूतात्मक विश्व की रक्षा करते हो। हे विवस्वन् परमात्म तत्त्व के ज्ञाता अखिल यज्ञमय विष्णुरूप मे यज्ञों द्वारा तुम्हारी ही अर्चना करते हे, आत्ममोक्षाभिलाषी जितेन्द्रिय यतिगण परम सर्वेश्वर जानकर तुम्हारा ही ध्यान करते है। तुम्हीं देव रूप हो, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। तुम्हीं योगीजनो द्वारा चिन्तनीय परब्रह्म स्वरूप हो, तुमको प्रणाम करता हू। हे विभो ! तुम अपने तेज को निवृत्त करो, मैं सृष्टि करने को उद्यत हुआ हूँ। तुम्हारा जो प्रखर तेज समूह सृष्टि मे विघ्नकारी होता है उसे समयित करो।”

इसी प्रकार देवमाता अदिति द्वारा और राज्य वर्धन के व्याख्यान मे ब्राह्मणों और राजा द्वारा सूर्य के कई स्तोत्र इस पुराण मे दिये गये है, जिनमे प्रकट होना है कि विष्णु, शिव, राम, कृष्ण आदि पौराणिक प्रतीकों के स्थान पर मार्कण्डेय पुराण के रचयिता ने 'विवस्वान्' (जिनमे आगे चल कर इन्द्र (प्राण) और विष्णु तथा शिव का आविर्भाव होता है) को ही उपामना तथा ध्यान का सर्व श्रेष्ठ और मूल लक्ष्य माना है। पुराण मे देवामुर सग्राम भी जो कथाये भरी पडी है, उसका बहुत कुछ सम्बन्ध भी सौर-शक्ति के अविर्भाव से ही है। वेदो मे जिस वृत्रामुर का प्रसङ्ग आया है और जिसको नष्ट करके इन्द्र 'देवराज' बने थे वह वास्तव मे सौर-शक्ति के अवरोधक अन्वकार तत्त्व के मिटने का ही वर्णन है।

## शक्ति के दो रूप और देवी द्वारा असुरों का पराभव—

७३ से ८५ अध्याय तक देवी के आविर्भाव और उसकी अपार महिमा का वर्णन किया गया है। इसके लिये किसी सुरथ नामक राजा का उपाख्यान दिया गया है कि उसके राज्य को शत्रुओं ने पडयन्त्र करके छीन लिया और उसे विवश होकर सब कुछ छोड़कर वन में चला जाना पडा। पर वहाँ भी उसका ध्यान अपने महल, कोशागार, नगर, हाथी, घोडो में लगा रहा और वह उनके विषय में चिन्ता करता हुआ दुःखी रहने लगा। वही उसकी भेट समाधि नामक एक वैश्य से हो गई जिसको उसके स्त्री-पुत्र आदि ने समस्त धन अपहरण करके घर से निकाल दिया था और जो अब वनवासियों के साथ रहकर जीवन-निर्वाह कर रहा था। पर अब भी उसका घर सम्बन्धी मोह छूटा न था और वह घर वालों के हानि लाभ सुख-दुःख की बात सोचते हुए व्यस्त रहा करता था। इन दोनों ने उसी अरण्य में आश्रम बनाकर रहने वाले मेधा ऋषि से अपनी दुर्दशा और मनोव्यथा के विषय में प्रश्न किया। ऋषि ने उनको मोहजनित भ्रम का रहस्य समझाया और साथ ही देवी की महिमा तथा उपासना की कथा भी सुनाई जिसके द्वारा वे अपनी विपत्ति से छुटकारा पा सकते थे।

देवी का यह उपाख्यान 'दुर्गा सप्तशती' के नाम से प्रसिद्ध है और वह कितने ही स्थानों में थोड़े बहुत अन्तर के साथ कहा गया है। इस महाशक्ति का प्रथम आविर्भाव सृष्टि के आरम्भ होने से भी पूर्व उस समय हुआ जब जगत्कर्ता भगवान् विष्णु मो रहे थे और उनकी नाभि से सृष्टि के रचयिता ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुई थी। उस समय विष्णु के कान के मेल से मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए और ब्रह्माजी को मारने को दौड़े। ब्रह्मा उनका सामना करने में असमर्थ थे अतः उन्होंने परब्रह्म की आदि शक्ति महामाया की स्तुति की। इसमें सन्तुष्ट होकर देवी प्रकट हुई और उसने विष्णु को जगा कर मधु और कैटभ के कुकृत्य का उनको ज्ञान करा दिया। विष्णु उन असुरों से पाँच हजार वर्ष तक बाहु युद्ध करते रहे, पर उनका विनाश न कर सक। तब महामाया ने ही उनको मोहित करके कहलवाया कि 'हे विष्णु

हम तुम्हारे साथ युद्ध करके सन्तुष्ट हुए हैं, हमसे कोई वर माँगो ।” विष्णु ने कहा ‘तुम मेरे वध्य हो, यही वर मैं माँगता हूँ ।’ वचन बद्ध होने से उन्हे वर देना पडा और तब विष्णु ने चक्र से उनका मस्तक काट दिया ।

जब देवलोक का अधिपति इन्द्र को बनाया गया तो महिष नामक असुर ने उनका विरोध किया और अपनी विशाल सेना के द्वारा उनको हरा कर देवलोक पर अधिकार कर लिया । इन्द्र और अन्य देवगण ब्रह्माजी को साथ लेकर विष्णु और महादेव की शरण मे गये और महिषासुर के अत्याचारो की कथा उनको सुनाई । उसे सुनकर वे बडे क्रोधित हुए और उनके मुखो से एक महा तेज निकला । उसी समय ब्रह्मा, इन्द्र तथा अन्य देवगणो से मुख से भी तेज प्रकट हुआ । समस्त देवताओ के उस तेज ने सम्मिलित होकर एक देवी का रूप धारण कर लिया । सब देवताओ ने उसे अपने-अपने सर्वश्रेष्ठ अलङ्कार और अस्त्र-शस्त्र दिये और उसे त्रैलोक्य मे अजेय एक महाशक्ति बना दिया । इस प्रकार वह देवी जब युद्ध के लिये प्रस्तुत होकर गर्जने लगी तो उस महा-शब्द से तीनों लोक काँपने लगे । उमे सुनकर महिषासुर भी अपनी सेना को सजा कर दौडा और दोनो पक्षो मे घोर सग्राम होने लगा । आरम्भ मे महिषासुर के चिक्षुर, चामर, उदग्र, महाहनु, असिलोमा, वाष्कल और विडालाक्ष सेनापतियों से सामना हुआ और एक एक करके वे सब मारे गये । फिर दुर्धर और दुर्मुख आदि महिषासुर के महा पराक्रमी सहयोगी रणभूमि मे उतरे पर देवी के सामने वे भी अधिक देर तक न ठहर सके और सेना सहित मारे गये ।

अपनी सेना और साथियो को इस तरह नष्ट होता देखकर महिषासुर अन्यन्त क्रोधित होकर सामने आया और अपने समस्त अद्भुत साधनो से भयङ्कर सग्राम करने लगा । वह कभी महिष, कभी सिंह और कभी हाथी का रूप धारण करके लडता था । कभी भूमि पर और कभी आकाश मे जाकर शस्त्र वर्षा करता था । उसके भयङ्कर सग्राम से तीनों लोक क्षुब्ध हो गये । तब देवी अपने सिंह से उछाट लेकर महिषासुर के ऊपर कूद पडी और उसे पैर से दबाकर तलवार से उसका मस्तक काट डाला । उसका बध होते ही

भ्रूवत्र हर्ष की लहर उठ गई और समस्त देवता देवी की जय-जयकार करने लगे । इस अवसर पर देवगणों ने देवी की जो स्तुति की वह बड़ी अर्थपूर्ण है । उममें कहा गया है कि देवी ने अपनी शक्ति का समस्त विश्व में विस्तार कर रखा है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसके रहस्य को ज्ञात नहीं कर सकते । वही जगत् का कारण अव्याकृता प्रकृति, देवताओं और पितरों की स्वाहा और सुधा तथा मोक्षभिलाषियों को मोक्ष प्रदान करने वाली परा-विद्या है । देवी ही तीनों वेदों की शब्दमयी मूर्ति, सम्पूर्ण जगत् की रक्षा करने वाली, वार्ता समस्त शास्त्रों का रहस्य प्रकट करने वाली सरस्वती, व सागर में उद्धार करने वाली दुर्गा, विष्णु के हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी और शिव के सिर पर विराजने वाली गौरी है । उमकी शक्ति और बल अपार है ।

तीसरी वार जब शुम्भ और निशुम्भ नामक असुरों ने देवताओं को हराकर भगा दिया तो वे फिर देवी की शरण में पहुँचे । उस समय पार्वती की देह से अम्बिका प्रकट होकर देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से युद्ध करने को असुर हुई । उनकी अनुपम सुन्दरता का वर्णन सुनकर पहले शुम्भ ने अपना दून भेजकर अपना प्रणय सन्देश कहलवाया । पर देवी ने उत्तर दिया कि मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि “जो मुझे युद्ध में जीत सकेगा वही मेरा भर्ता हो सकेगा ।” इस पर शुम्भ ने क्रोधित होकर अपने सेनापति धूम्रलोचन को एक बड़ी सेना के साथ देवी को पकड़ कर ले आने का आदेश दिया । इस असुर सेना के साथ देवी का विकट सग्राम हुआ, और अन्त में सब असुर मारे गये । फिर चण्ड-मुण्ड नामक महावीर असुर लड़ने को आये पर वे भी काली द्वारा मार डाले गये, जिसमें काली का नाम ‘चामुण्डा’ पड गया ।

इसके पश्चात् रक्तवीज नामक असुर रणभूमि में आया । इसमें यह विशेषता थी कि उसके रक्त की जितनी बूँदें पृथ्वी पर गिरती थी उतने ही नये असुर और पैदा हो जाते थे और उनका नाश अमम्भव प्रतीत होता था । तब देवी ने काली में कहा कि जब मैं रक्तवीज पर अस्त्र में प्रहार करूँ तो

तुम उसके रक्त को पी जाओ, एक भी बूँद को भूमि पर मत गिरने दो । काली ने ऐसा ही किया और तब उस महा असुर का बध किया जा सका ।

रक्तबीज के मारे जाने पर स्वयं शुभ और निशुभ सम्पूर्ण सेना सहित रणक्षेत्र में उपस्थित हुए । पहले निशुभ का देवी के साथ घोर संग्राम हुआ और वह मारा गया । फिर शुभ सामने आया और उसने देवी की सहायक सप्त मातृका शक्तियों ब्रह्माणी, मातृश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, नारसिंही और ऐन्द्री की ओर सकेत करके कहा—“तुम दूसरी का आश्रय लेकर युद्ध करती हो और अपने पराक्रम का भूँठमूँठ अभिमान करती हो ।” इस पर देवी ने उन सातों शक्तियों को अपने भीतर समेट लिया और कहा कि ये सब मेरी विभिन्न शक्तियाँ हैं जो मेरी इच्छा से प्रकट होती रहती हैं । अब देख मैं अकेली ही तेरा बध करती हूँ ।” इसके पश्चात् अमुर सेना से देवी का सबसे बड़ा संग्राम हुआ और शुभ तथा उसके समस्त सहयोगी असुरों को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया । इस महान् विजय के पश्चात् देवताओं ने निर्भय और प्रसन्न होकर देवी की जो स्तुति की उसमें उनको ही सृष्टि का कारण बतलाया है । देवताओं ने कहा—

“महामाया ही विपत्ति में पड़े जनों का कष्ट दूर करनी है । वही जगत् की माता और चराचर विश्व की ईश्वरी है । सम्पूर्ण विद्याएँ और समस्त दैवी शक्तियाँ उन्हीं के रूप हैं । जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और सहार उनकी इच्छा से होता है ।”

स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने देवताओं को वरदान देते हुए आश्वासन दिया कि “पृथ्वी पर जब-जब असुरों का उत्पात बढ़ेगा मैं विभिन्न रूपों में अवतीर्ण होकर उनका नाश और तुम्हारी रक्षा करूँगी ।”

‘देवी सप्त शक्ती’ का यह उपाख्यान ‘मार्कण्डेय पुराण’ का एक महत्त्वपूर्ण और प्रसिद्ध अंश है और नवरात्रियों के अवसर पर लाखों भक्त इसका पाठ करते हुए देवी से अपने कल्याण की याचना करते हैं ; एक धार्मिक कथा के रूप में निस्सन्देह यह रचना बड़ी प्रभावशाली और रोचक

है, पर इसके आध्यात्मिक और आविदैविक अर्थ इससे भी अधिक शिक्षा-प्रद है।

आधिभौतिक रूप में तो इसका स्पष्ट तात्पर्य यही है कि ससार में देवी शक्तियों के साथ आसुरी शक्तियों का प्रादुर्भाव तथा सघर्ष सदैव होता है। अमुर या दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति अधिक उग्र, आक्रमणकारी और धूर्त होते हैं और इस कारण प्रायः आरम्भ में देव शक्तियों या सज्जन व्यक्तियों को दबा लेते हैं, उनको पीड़ित करते हैं। पर जब कष्ट मिलने से देवगण सावधान होते हैं, अपनी शक्तियों को एकत्रित और सगठित करते हैं तब वे असुरों के लिए अजेय बन जाते हैं। असुरों का सङ्गठन अहङ्कार, स्वार्थपरता दूसरों के उत्पीड़न की भावना पर आधारित होता है, जब कि देवताओं (सज्जनों) के संगठन में त्याग तपस्या, परोपकार, विद्वकल्याण जैसी उच्च भावनाएँ भी निहित रहती हैं। इसलिए सघर्ष में असुरगण चाहे जैसी माया, छल-बल से काम ले, अन्त में उन्हें परास्त होना ही पड़ता है।

आध्यात्मिक दृष्टि से इस कथा का अर्थ मनुष्य के भीतर उत्पन्न होने वाली सद् और असद् वृत्तियों के सघर्ष और मानसिक हलचल से है। भौतिक लाभ और सुखों को प्रधानता देना और उनके लिए अनुचित ढङ्गों को अपनाना बहुसंख्यक मनुष्यों का स्वभाव होता है। वे इस जीवन का अस्तित्व देह तक ही समझते हैं और उनकी धारणा यही होती है कि हम अपने अन्तकाल तक जो कुछ ऐश्वर्य, वैभव प्राप्त कर लेंगे और उसके द्वारा जितना विषय-सुख भोग लेंगे, वही सार है, क्योंकि देह त्याग के बाद कोई निश्चय नहीं कि क्या हो। इस प्रकार के निकृष्ट विचार मनुष्य में स्वार्थपरता के भावों को भड़काते हैं जिससे अन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने में सकोच नहीं करता।

यह एक प्रकार का तामसी अहंभाव होता है जिससे मनुष्य के अन्तर के सद्विचार धीरे धीरे जाते हैं और वह समाज तथा ससार के लिए भ्रष्टाचारी तथा ध्वंसकारी शत्रु का रूप ग्रहण कर लेता है। ऐसे तामसी और स्वार्थान्धता के विचारों का नाम ही महिषासुर है जो आत्मा की सद्वृत्तियों

को दवाकर दूषित भावनाओं का राज्य स्थापित कर देता है। इस दूषित ग्रहभाव से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को बड़ा प्रयाम और तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए समस्त देव शक्तियों-श्रेष्ठ मनोवृत्तियों को जागृत करके एक लक्ष्य पर एकत्रित करना पड़ता है। तब वह शक्तिरूपा देवी एक-एक करके दुर्विचारों की सेना का सहार करती है। अन्त में दूषित ग्रहभाव विभिन्न रूपों में उसके सामने आता है पर सुदुर्विचारों की पैनी तलवार से उसको निर्जीव कर दिया जाता है।

आधिदैविक दृष्टि से 'देवी सप्तशती' की कथा का आशय सृष्टि के विक्रम के आरम्भिक परिवर्तनों से है। जैसा हमें मालूम है हमारी जानी हुई चराचर सृष्टि का मूल आधार सूर्य है। उसके प्रकाश और उष्णता के कारण ही इन्द्रिय ज्ञानयुक्त जीवों की उत्पत्ति और वृद्धि हो सकी है। पर सृष्टि के आरम्भ में जब सूर्य का आविर्भाव हुआ तब बहुत समय तक तम का आवरण उसके प्रकाश को रोक रहा। जो पदार्थ या शक्ति प्रकाश (देव-भाव) के फैलने में बाधक होती है उसे सृष्टि विज्ञान के ज्ञाता ऋषियों ने 'असुर' के नाम से पुकारा है। प्रकाश की तरह प्राण-तत्व या गति तत्व भी देव-भाव का सूचक है क्योंकि उसी से प्राणि-जगत् का विकास और उत्थान होता है। जब तक सूर्य के तेज का परिपाक नहीं होता और उसके द्वारा प्राण-शक्ति कार्यशील नहीं होती तब तक की तम के आवरण-युक्त अवस्था को वृत्र अथवा महिषासुर का आधिपत्य कहा जाता है। उस समय तक सूर्य या इन्द्र अपने 'राज्य' से वंचित होता है। जब सूर्य की शक्ति का परिपाक हो जाता है और सौर-तेज सर्वत्र व्याप्त होकर सृष्टि-रचना के कार्य को अग्रसर करते हैं तो वही वृत्र या महिष का बध हो जाता है। यह कार्य देव-भाव की शक्ति का सग्रह होने से ही होता है, इसलिये उसे शक्ति या देवी द्वारा सम्पन्न होना कहा जाना ठीक ही है। यह सृष्टि-विकास और रचना के परिवर्तन करोड़ों वर्षों में होते हैं अतएव 'देवासुर संग्राम' उतने समय तक चलता ही रहता है। यह सब वर्णन वेदों में स्थान-स्थान पर पाया जाता है और पुराणकारों ने भी उसे उपाख्यान का रूप देकर अपेक्षाकृत सरल भाषा में लिख दिया है। इस विषय पर प्रकाश



डालते हुए एक विद्वान् ने देवासुर सग्राम का इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है—

“देवों के अधिपति पुरन्दर या इन्द्र का आगम्य सौर-प्राण से है। सूर्य में जागरण-भाव ही है। सूर्य के भीतर सोना (निद्रा) नहीं है। आसुरी-भाव परिधि पर आक्रमण करते हैं, पर सूर्य-मण्डल के भीतर वे प्रवेश नहीं कर पाते। केन्द्र पर देवताओं का ही अधिकार रहता है। अमुर केन्द्र तक कभी नहीं पहुँच सके। इसीलिये ‘शतपथ ब्राह्मण’ में इन्द्र के देवासुर सग्राम को बनावटी कहा है—

न त्व युयुत्से कनमच्चनाहर्न तेऽमित्रोमघवन् कश्चनास्ति ।

मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाद्य शत्रु ननु पुरायुयुत्सु ॥

अर्थात्—“हे इन्द्र ! तुम कभी लडे नहीं, न कोई तुम्हारा शत्रु है। तुम्हारे युद्धों का सब वर्णन माया या बनावटी है। न आज तुम्हारा कोई शत्रु है और न पहले तुमसे लडने वाला कोई था।”

‘वेदों में इन्द्र और वृत्र के युद्धों का विशद वर्णन है। वृत्र के मरने से इन्द्र ‘असपत्न’ (बिना शत्रु के) होगया वही भाषा मार्कण्डेय पुराण में महिपासुर के लिये प्रयुक्त की गई है—‘इन्द्रोऽभून्महिषासुर’ (७५-२) महिपासुर ने इन्द्र को स्वर्ग के सिंहासन से पदच्युत कर दिया और स्वयं इन्द्र बन बैठा। पुन इन्द्र (सूर्य मण्डल का अधिष्ठातृ देवता) देव-भाव की वृद्धि से या देवी की हायता से शक्तिशाली हुए और महिपासुर मारा गया। जो आवरण करने वाला भाव है, जो अपने तम से सौर तेज को ढक देता है वही वृत्र या महिप है। सृष्टि काल के हिसाब से परमेश्वरी को सूर्य-भाव में आने के लिये समय लगा होगा सूर्य के जन्म से लेकर उनके तेज का पूर्ण परिपाक होने तक महिपासुर ही शक्तिशाली रहा होगा अन्त में जब इन्द्र पुन प्रबल हुए तब वही महिप बध हुआ।”

देवसुर सग्राम और देवी के युद्धों की कथाएँ वास्तव में बड़े मुन्द रूपक हैं जिनके माध्यम से पुराणकारों ने आध्यात्मिक और आधिदैविक गृह-तत्वों को सर्व साधारण के बोधगम्य रूप में वर्णन किया है। उनमें तामसिः शक्ति के ऊपर सात्त्विक शक्ति की विजय का भाव दर्शाया गया है जो मनुष्य

को सतोगुण का अवलम्बन करने भी प्रेरणा देता है। उससे प्रकट होता है कि ग्रन्थकार या तम की शक्तियाँ चाहे कुछ समय के लिये प्रकाश—सत्य की शक्ति को आच्छादित करने पर अन्त में विजय सत्य—सतोगुण की होती है।

### चौदह मन्वन्तर—

मन्वन्तरो का वर्णन और विवेचन पुराणों का एक मुख्य लक्षण माना गया है और 'मार्कण्डेय पुराण' में भी इस सम्बन्ध में अनेक रोचक कथाएँ दी गई हैं। उपर्युक्त 'देवी-मत्स्यशती' जिसका सारांश पिछले पृष्ठों में दिया गया है, स्वारोचिष मन्वन्तर के कथानक का ही एक अंश है। मन्वन्तरो की सख्या चौदह बतलाई है जिनमें से स्वायम्भुव, स्वारोचिष, औत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुर—ये छ बीत चुके हैं। सातवाँ वैवस्वत मन्वन्तर वर्तमान समय में चल रहा है। इसके पश्चान् सार्वणि, दक्षसार्वणि, ब्रह्मसार्वणि, धर्ममार्वणि, रुद्र-सार्वणि, रौच्य और भौत्य नाम के सात मन्वन्तर और व्यतीत होंगे। ये चौदह मन्वन्तर ब्रह्मा के एक दिन के अन्तर्गत होते हैं जिसका परिमाण मनुष्यों के ४ अरब ३२ करोड़ वर्षों का बनलाया गया है। ब्रह्मा के इस एक दिन अथवा चौदह मन्वन्तरो की सम्मिलित अवधि को एक 'कल्प' कहा जाता है।

यदि हम मानवीय इतिहास के दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो दस बीस हजार वर्ष का इतिहास ही बहुत अस्पष्ट जान पड़ता है जिसका पता लगाने में बहुत कुछ अनुमान और कल्पना से काम लेना पड़ता है। ऐसी दशा में पुराणकारों का चार अरब वर्ष पहिले का इतिहास नाम-धाम सहित लिख देना विचित्र ही जान पड़ता है। पर इसका कारण यही है कि पुराणकार सृष्टि के निर्माण और प्रलय को एक सामान्य नियम मान कर उसके मुख्य परिवर्तनों ( सर्गों ) की चर्चा करते हैं। यह ठीक है कि वर्तमान मानव-सभ्यता का इतिहास आठ-दस हजार वर्षों से अधिक का विदित नहीं होता और वह भी अधूरा और कुछ अंशों में अनुमानों पर ही आधारित है, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि पृथ्वी की सृष्टि और प्रलय होते रहने में ऐसी सभ्यताएँ हजारों बार बन और बिगड़ चुकी हैं और हजारों ही बार बनें और बिगड़ेंगी। जब देश और बाल अन्त और अनादि हैं और निरन्तर परिवर्तन विश्व का अटल

नियम है तब आजकी दुनिया और मनुष्य जाति को ही सब कुछ समझ लेना या उसके आगे पीछे ससार को शून्य ही मान लेना ज्ञान का बहुत सीमित प्रयोग करना है ।

हम जानते हैं कि पुराणों में विभिन्न मन्वन्तरो के राजाओं, ऋषियों और व्यक्तियों की जो कथाएँ दी गई हैं वह वर्तमान दुनिया के स्वरूप और नमूने के अनुसार ही लिखी गई हैं, पर उसमें किसी तरह की हानि नहीं जान पड़ती । इन वर्णों का मुख्य उद्देश्य पाठकों को सृष्टि की विशालता और अनादिकाल से होते चले आने वाले विविध परिवर्तनों का आभास कराना ही है जिससे वह अपनी वास्तविकता का अनुभव कर सकें और अधर्म तथा अनैतिकता से बचकर अपने धर्म कर्तव्यों पर आरुढ़ रहें । व्यक्तियों के नाम और उनके कथोपकथन तो इस उद्देश्य से लिखे गये हैं जिससे पाठकों को वे स्वाभाविक जान पड़ें और वे उनसे शिक्षा और प्रेरणा प्राप्त कर सकें । हम तो यह भी निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि प्रत्येक मन्वन्तरो में मनुष्यों का आकार प्रकार और शरीर रचना वर्तमान तरह की ही थी और वे इसी प्रकार बोलकर अपना मनोभाव प्रकट करते थे । पर इसमें सन्देह नहीं कि पञ्चभूत, प्राण शक्ति और चेतन-तत्त्व मिल कर इसीमें मिलती-जुलती प्राणियों की रचना और विनाश सदैव करते ही रहते हैं और विविध प्रकार की भली-बुरी घटनाओं का होते रहना प्रकृति का एक स्वाभाविक और अनिवार्य नियम है । यदि किसी काल के मनुष्य चार हाथ पैरों में गमन करने वाले हों या उड़ कर आते-जाते हों तो इससे भी भलाई-बुराई, नैतिकता-अनैतिकता, पाप-पुण्य की शिक्षाओं में कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

पौराणिक कथाओं का मुख्य उद्देश्य लोगों को सदाचरण की सत्-शिक्षा देना ही है । वर्णों के नाम, गाँव, सख्या, कथोपकथन के ज्यों का त्यों होने पर वह सब करना निरर्थक है । रामायण और महाभारत के नायकों के अथवा बुद्ध, ईसा, सिकन्दर, चन्द्रगुप्त, चाणक्य, अशोक आदि ऐतिहासिक व्यक्तियों के जो सम्भाषण उनके जीवन चरित्रों या ऐतिहासिक कथाओं में दिये गये हैं वह भी उस समय किसी 'गार्ट हैण्ड' लेखक ने नहीं लिखे थे । पर घटनाओं को सम्पूर्णता और स्वाभाविकता का रूप देने के ख्याल से कथा

लेखक, कविगण या नाटककार उसे ऐसे रूप में लिखते ही हैं मानो वे घटनायें उनकी आँखों के सामने ही हुई हों। पौराणिक कथाओं की रचना भी इसी प्रकार और ऐसे ही शिक्षा देने के उद्देश्य से की गई है। हम तो उन लेखकों के व्यापक दृष्टिकोण की प्रशंसा ही करेंगे जिन्होंने मानव मात्र को ही नहीं प्राणीमात्र में एक ही सत्ता का अनुभव करके मनुष्यों के सम्मुख सत्य, न्याय, महानुभूति, दया क्षमा के दैवी गुणों के आदर्श ऐसे रूप में उपस्थित किये जो किसी सहृदय व्यक्ति के अन्तःकरण को सहज ही प्रभावित कर सकते हैं।

इस दृष्टि से मार्कण्डेय पुराण का दर्जा बहुत ऊँचा माना जाता है। इसमें मतमतान्तर, सम्प्रदायवाद और विशेष स्वार्थों की भावना से ऊपर उठ कर आत्मोपनिषद्, सच्चरित्रता, परोपकार, दया, क्षमा आदि सद्गुणों की ही शिक्षा दी है। इन तथ्यों को साधारण बुद्धि के मनुष्य भी हृदयगम कर सकें इसके लिये उपाख्यानों की रोचक शैली का अवलम्बन किया है। इसके 'हृत्स्मिन्' और 'मदालसा' के उपाख्यान धार्मिक-जगत् में अमर बन चुके हैं और 'देवी सप्तशती' शाक्त-सम्प्रदाय ही नहीं हिन्दूमात्र का पारायण ग्रन्थ बन चुका है। नरक वर्णन, योग निरूपण, सूर्य तत्त्व विवेचन, पातिव्रत महिमा आदि का हममें ऐसे प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है कि प्रत्येक पाठक को उससे कुछ न कुछ सद्प्रेरणा अवश्य प्राप्त होती है। सृष्टि-रचना, जड और प्राणी-जगत् का क्रमविकास, मानव स्वभाव के दोष और दुरितों का कथन, राजवशों की कथाएँ आदि पौराणिक विषयों के वर्णन में भी मार्कण्डेय पुराण ने अति-शयोक्ति से यथासम्भव बच कर शिक्षा और उपदेश पर अधिक दृष्टि रखी है। इन सब विशेषताओं के कारण सामान्य जनता तथा विद्वानों में भी मार्कण्डेय पुराण का आपेक्षाकृत अधिक मान है और हमारा विश्वास है कि पाठक इसके पारायण से पर्याप्त लाभान्वित हो सकते हैं।

मार्कण्डेय पुराण की श्लोक संख्या अन्य पुराणों के विस्तार को देखते हुए पर्याप्त न्यून है। अतः हममें कोई ख्वास कमी नहीं की गई है। केवल श्राद्ध सम्बन्धी कुछ विषय जो अप्रासंगिक जान पड़ता था छोड़ा गया है। अन्यथा आदि से अन्त तक सम्पूर्ण ग्रन्थ ज्यों का त्यों रखा गया है।

## मार्करण्डेय पुराण की विषय-सूची

१	जैमिनि की महाभारत विषयक चार शकाये और मार्करण्डेय महामुनि द्वारा वपु अप्सरा शाप वर्णन	६५
२	महाभारत-संग्राम मे वपु के तीर लगना और चार पक्षी-शावको का जन्म	७४
३	पक्षियों का शमीक मुनि द्वारा पालन और निज शाप वृत्तान्त कह कर विन्ध्याचल गमन	८३
४	पक्षियों के पाम जैमिनि मुनि का आगमन और पूर्वोक्त चार प्रश्न करना, भगवान् के चतुर्व्यूहावतार का वर्णन	९५
५	इन्द्र के शापग्रस्त होने से उसका द्रौपदी के पाँच पतियों के रूप मे प्रकट होना	१०४
६	बलदेवजी द्वारा मद्य-दोष से ब्रह्म हत्या और प्रायश्चित्त के लिए तीर्थयात्रा वर्णन	१०८
७	द्रौपदी के पाँच पुत्र अविवाहित अवस्था मे ही मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए ?	११३
८	हरिश्चन्द्र और विश्वामित्र का उपाख्यान, हरिश्चन्द्र के सत्य की परीक्षा	१२३
९	विश्वामित्र तथा वशिष्ठ का आडि और वक के रूप मे महासंग्राम और ब्रह्माजी की शान्ति स्थापना	१६२
१०.	पिता-पुत्र सम्बाद रूप मे प्राणियों के जन्मादि और जीव पर आने वाले सकटो का वर्णन	१६७
११	गर्भ-स्थापन होकर प्राणियों की उत्पत्ति और कर्म विपाक	१८०
१२.	पापियों को दण्ड देने के लिए छ नरको का लोमहर्षण स्वरूप वर्णन	१८४
१३	पुत्र के सातवे पूर्व जन्म की कथा और कर्मफल के सम्बन्ध मे राजा विपश्चित्त का यमदूत से सम्बाद	१९१

- १४ विभिन्न पापों के कर्मफल स्वरूप घोर नरक यातनाओं का वर्णन ११४
- १५ कर्मफल भोगने के पश्चात् प्राणियों का नरक से छुटकारा और विविध योनियों में भ्रमण २०६
- १६ पतिव्रता का अपने कोठी पति की रक्षार्थ सूर्योदय को रोक देना और देवताओं का अनसूया की शरण में आना सोम, दत्तात्रेय और दुर्वाणा के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अनसूया के पुत्र रूप में जन्म लेना और कार्तवीर्य अर्जुन का गगन मुनि से दत्तात्रेय की महिमा श्रवण करना २१७
- १७ कार्तवीर्य अर्जुन का दत्तात्रेय की शरण जाना और महान् वर लाभ करना २४२
- १८ ऋतध्वज को कुवलय नामक देवी अश्व की प्राप्ति और उसका कुवलयाश्व नाम होना २४७
- १९ कुवलयाश्व का पाताललोक गमन, मदालसा से विवाह और पातालकेतु दैत्य का सेना सहित सहार २५५
- २० तालकेतु दैत्य का माया द्वारा कुवलयाश्व की मृत्यु की मिथ्या समाचार और मदालसा का मरण २६९
- २१ कुवलाश्व का चरित्र सुनकर नागराज अश्वतरका तपस्या द्वारा मदालसा का जीवित कराना । २७६
- २२ कुवलयाश्व को नागराज अश्वतर के यहाँ जाना और मदालसा की पुनः प्राप्ति २९३
- २३ मदालसा द्वारा प्रथम तीन पुत्रों को आत्मज्ञान का उपदेश देकर ससार से विरक्त बना देना और फिर राजा के आग्रह से चौथे पुत्र अलर्क को गृहस्थ धर्म का उपदेश २९९
२४. अलर्क के प्रश्न करने पर मदालसा का राजधर्म और राजनीति कथन ३०८
- २५ वर्णाश्रम धर्म कीर्तन ३१३
- २६ गृहस्थ धर्म वेद विद्या का महत्त्व तथा धनिक कर्तव्य वर्णन ३१९

२७	सदाचार, शिष्टाचार, और नागरिक कर्तव्यों का वर्णन	३२५
२८	अलर्क को राज्यभार और रहस्यमय अँगूठी देकर मदालसा का पति सहित वन गमन	३४२
२९	अलर्क को मातारिक विषयो मे आसक्त देखकर उसके बडे भाई सुवाहु द्वारा काशी नरेश को आक्रमण के लिए प्रेरित करना तथा अलर्क का आत्मानुभूति प्राप्त होकर दत्तात्रेय के निकट जाकर योग का उपदेश ग्रहण करना	३४४
३०	दत्तात्रेय का ममता का रूप और उससे हीने वाले बन्धनो का वर्णन	३५०
३१	दत्तात्रेय का अलर्क को अष्टाङ्ग योग का उपदेश तथा योग-मार्ग मे आने वाले विघ्नो का वर्णन	३५३
३२	पाँच उपसर्ग, सात भाव तथा अष्ट सिद्धियो का वर्णन करके योग सिद्धि तथा मुक्ति की प्राप्ति कथन	३६२
३३	योगी के आहार-विहार के नियम और अनामक्त रागविहीन ध्यान की श्रेष्ठता	३६८
३४	अहंकार के स्वरूप और प्रणवकी महिमा कथन	३७२
३५	जीवन के अन्त होने पर मृत्यु सूचक अरिष्टो का वर्णन और उनसे सावधान होने का उपदेश	३७४
३६	अलर्क का आत्मज्ञान प्राप्त करके काशीराज के पास जाना राज्य की पुन प्राप्ति तथा पुत्र को राज्य देकर तपस्या के लिये वन जाना	३८६
३७	मार्कण्डेय और क्रौष्टुक का सम्बाद, ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और विकास का वर्णन	३९३
३८	प्रकृति से जगत् की उत्पत्ति, एक ही ईश्वरका ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप मे प्राकट्य, ब्रह्मा का दिन, मन्वन्तर और ब्रह्मा की आयु का वर्णन	४०३

पाद्यकल्प के पश्चात् बाराह कल्प मे नारायण द्वारा पृथिवी का उद्धार और ब्रह्माजी द्वारा नौ प्रकार की वैकृत ओर प्राकृत सृष्टि कथन	४०६
ब्रह्मा द्वारा देवकाल, वेद, मनुष्य, प्रकाश और जगत् के विभिन्न पदार्थों का निर्माण	४१४
ब्रह्मा से मातृविक, राजस, तामस, नर नारियो की उत्पत्ति, मिथुन-सृष्टि, मनुष्यो के निवास स्थान, नाप और गणना का आरम्भ जीविका-प्रणाली, कृषिकला का विकास समाजसगठन कथन	४२०
ब्रह्मा के आठ मानस पुत्र, स्वायम्भुव मनु और शतरूपा, दक्ष और रुचि प्रजापतियो की सन्तति का वर्णन	४३२
कलि की कन्या के दुःख देने वाले परिवार और भीष्मकर्मा दुःमह की उत्पत्ति और उमके रहने के स्थानो के रूप मे मनुष्य के भले बुरे कार्यों का उल्लेख	४४६
रुद्र सृष्टि और मार्कण्डेय ऋषि की उत्पत्ति का वर्णन	४६३
स्वायम्भुव मनु के वश का पिस्तार और मर्यादा, ऋषभ पुत्र भरत का चित्र कथन	४६८
पृथ्वी का विस्तार, सप्त द्वीप और जम्बू द्वीप मे भारतवर्ष का वर्णन	४७४
जम्बू द्वीप के प्रमुख पर्वत, नदी और भारतवर्ष का महत्त्व कथन	४७८
गङ्गा की अनेक धाराओ और किम्पूरुप आदि देशो का वर्णन	४८२
भारतवर्ष का विस्तार और वहाँ के विभिन्न स्थानो का वर्णन	४८६
कूर्म सस्थान के रूप भारत मे के विभिन्न प्रदेशो का परिचय	४९४





# मारकण्डेय पुराण

॥ प्रकर्ण-१ महाभारत विषयक चार शंकायें ॥

यद्योगिभिर्भवभयार्तिविनाशयोग्यमामाद्यवदिनमतीवविविक्तचि  
 त्तद्र पुनानुहरिपाद सरोजयुग्ममाविर्भवत्क्रमविलघित भूर्भुवःस्व  
 पायात्सव सकलकल्मपभेददक्ष क्षोरोदकुक्षफणिभोगनिविष्टर्मा  
 श्वासावधूनसलिलोत्करिणा कराल सिन्धु प्रनृत्यामवयम्यकरोतिसग।  
 नारायणनमस्कृत्यनरचैवनगोतामम्॥ देवीमरस्वती व्यासततो जयमुदीरयेत्॥  
 तप स्वाध्याय निरतमार्कण्डेयमहामुनिम् ॥

व्यास शिष्यो महातेजा जमिनि पर्यपृच्छत् ॥१॥

ससार के भय और दुःख के नाशक, एकान्त चित्त योगियो और  
 मन्यासियो द्वारा ध्यान योग्य तथा बदनीय, भू भुव और स्वर्लोक का  
 वामन रूप से अतिक्रमण करने वाले, नारायण के पद-पद्म आपको  
 पवित्र करे ॥१॥ जो शेषगायी, श्वास से जल के कराल कण को कम्पा-  
 यमान करने वाले, जिससे समुद्र नर्तन करता-सा प्रतीत होता है, वह  
 अविनाशी नारायण तुम्हारे रक्षक हो ॥२॥ नर नागयण, नरोत्तम तथा  
 देवी सरस्वती को प्रणाम करके जय कीर्तन एवं पुराण आदि का पाठ  
 करे ॥३॥ एक समय की बात है महर्षि वेदव्यास के शिष्य महा तेजस्वी  
 जैमिनि ने, वेदादि के अध्ययन में परायण, महा तपस्वी मार्कण्डेयजी से  
 प्रश्न किया ॥१॥

भगवन् भारताख्यानव्यासेनोक्त महात्मना ॥  
 पूर्णमस्तमलै शुभ्रैर्नानाशास्त्रसमुच्चय ॥२॥  
 भ्रातृगुणद्विममायुक्तसाधुशब्दोपगोभिनम् ॥  
 पूर्वपक्षोक्तिसिद्धान्तपरनिष्ठासमन्वितम् ॥३॥  
 त्रिदशानायथाविष्णुद्विपदाब्राह्मणो यथा ॥  
 भूपणानाचनर्वेयायथाचूडामणिवर ॥४॥  
 यथायुधानाकुलिशाः ।न्द्रियाणायथामन ॥  
 अथेहसवशास्त्राणामहाभारतमुत्तमम् ॥५॥  
 प्रवार्थश्चैवधर्मश्चकामोमोक्षश्चवर्ण्यते ॥  
 परस्परानुबन्धाच्चमानुबन्धाश्चतेपृथक् ॥६॥  
 धर्मशास्त्रमिदश्रेष्ठमर्थशास्त्रमिदपरम् ॥  
 कामशास्त्रमिदचार्यु मोक्षशास्त्रतथोत्तमम् ॥७॥  
 चतुराश्रमधर्मिणामचार्यस्थितिसाधनम् ॥  
 प्रोक्तमेतन्महाभागवेदव्यासेनधीमता ॥८॥

हे भगवन् ! महात्मा वेदव्यास जी ने जिस 'भारत'  
 ग्रन्थ को कहा है, वह अनेक शास्त्रों के मर्मार्थ वाता ॥२॥ पवित्र शब्द  
 से युक्त, छन्दानकारों से सम्पन्न, कानों को सुखप्रद है तथा उसमें वर्णित  
 यथार्थ प्रश्नों का उत्तर मन्त्रिविष्ट है ॥३॥ जैसे देवगण में विष्णु, मनुष्यों  
 में ब्राह्मण और आभूषणों में चूडामणि ॥४॥ अस्त्रों में वज्र तथा इन्द्रियों  
 में मन प्रमुख है, वैसे ही सम्पूर्ण शास्त्रों में एक मात्र महाभारत ही  
 है ॥५॥ इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का पारस्परिक सम्बन्ध है तथा  
 वे प्रकट और पृथक-पृथक कहे गये हैं ॥६॥ इसलिये यही धर्मशास्त्र, अर्थ-  
 शास्त्र, कामशास्त्र, और मोक्षशास्त्र है ॥७॥ हे महाभाग ! महर्षि वेदव्यास ने  
 इसमें चारों आश्रम, उनका आचार, अवस्थान तथा साधन, सभी कुछ  
 विशेष रूप से कहा है ॥८॥

तथातातकृतह्येतद्व्यासेनोदारकर्मणा ॥  
 यथा व्यास महाशास्त्र विरोधैर्नाभिभूयते ॥१५॥  
 व्यासवाक्यजलौघेनकुतर्कतरुहारिणा ॥  
 वेदशैलावतीर्णैर्ननीरजस्कामहीकृता ॥१०॥  
 कलशब्दमहाहसमहाख्यानपराम्बुजम् ॥  
 कथाविस्तीर्णसलिलकाष्णं वेदमहा हृदम् ॥११॥  
 तदिदं भारताख्यानबह्वर्थश्रुतिविस्तरम् ॥  
 तत्त्वतोज्ञातुकामोहभगवस्त्वामुपस्थित ॥१२॥  
 कस्मान्मानुपताप्राप्तोनिर्गुणोऽपिजनादत्त ॥  
 वासुदेवोजगत्सूतिस्थितिसयमकारणम् ॥१३॥  
 कस्मान्नपाण्डुपुत्राणामेकसाद्रुपदात्मजा ॥  
 पञ्चानामहिषीकृष्णमह्यत्रनशशयोमहात् ॥१४॥

उन उदारकर्मी व्यासजी ने इस महाशास्त्र को इस प्रकार रचा है कि  
 उसके अत्यन्त विस्तृत होने पर भी इसमें कोई स्थल, किमी भी स्थल  
 का परस्पर विरोधी नहीं है ॥१५॥ वासुदेव की वचन रूप जल राशि  
 वेद रूप पर्वत से प्रवट हुई और उसने कुतर्क रूप पेड़ों को उखाड़ कर  
 भूमि को रजहीन बना दिया ॥१०॥ यह पंचम वेद, रूप जलाशय महा-  
 शब्द रूप हंसों और महानाख्यान रूप अरविदों से सुशोभित तथा विस्तीर्ण  
 कथन नरों के द्वारा परिपूर्ण हुआ है ॥११॥ हे प्रभो ! जो महाभारत  
 शास्त्र वेदार्थ और श्रुतियों से सम्पन्न है, उसका यथाथ जानने के निमित्त  
 हो आपके निकट उपस्थित हुआ हूँ ॥१२॥ विश्व सृष्टि, स्थिति और  
 संहारकर्ता जनार्दन वासुदेव निर्गुण होते हुए भी मनुष्यत्व को किम लिए  
 प्राप्त हुए ॥१३॥ द्रुपद मुता द्रौपदी एक ही पाँच पाण्डवों की तनी कैसे हुई  
 इस विषय में मुझे अत्यन्त शका है ॥१४॥

भेपजब्रह्महत्यायाबलदेवीमहाबल ॥  
 तीर्थयात्राप्रसङ्गेनकस्माच्चक्रे हलायुध ॥१५॥  
 कथंचद्रौपदेयास्तेऽकृतदारामहारथा ॥  
 पाण्डुनाथामहात्मानोवधमापुरनाथवन् ॥१६॥  
 एतत्सर्वं विस्तरगाम्माख्यातुमिहार्हसि ॥  
 भवन्तोमूढबुद्धीनामद्रवोधकरा सदा ॥१७॥  
 इतितस्यवचनंश्रुत्वामार्कण्डेयो नहामुनि ॥  
 दशाष्टदोपरहितोवक्तुसमुचक्रमे ॥१८॥  
 क्रियाकालोऽयमस्माकसप्राप्तो मुनिसत्ताम ॥  
 विस्तरेचापि वक्तव्येनैपकालप्रशस्यते ॥१९॥  
 येतुवक्ष्यन्तिवक्ष्येऽद्यतानहजंमिनेतव ॥  
 तथाचनष्टसन्देहत्वाकारिष्यन्तिपक्षिण ॥२०॥  
 पिङ्गाक्षश्चविबोवश्चमुपुत्रसुमुखस्तथा ॥  
 द्रोणपुत्राग्वगश्रेष्ठास्तत्त्वज्ञाशास्त्रचिन्तका ॥२१॥

तथा महाबली बलदेवजी ने तीर्थ यात्रा के प्रसंग में कैसे ब्रह्म-हत्या का प्रायश्चित्त किया ? ॥१५॥ पाण्डवों से रक्षित द्रौपदी के महारथी पुत्रों ने अनाथ के समान ही अविवाहाहनावस्था में ही कैसे प्राण छोड़ दिये? ॥१६॥ यह सब मेरे प्रति विस्तार सहित कहिये, क्योंकि आप ही अज्ञानियों को जानोत्पन्न करने में समर्थ हैं ॥१७॥ योगशास्त्र में वर्णित अठारह दोषों से बचे हुए महर्षि मार्कण्डेयजी ने मुनि श्रेष्ठ जैमिनी के यह वचन सुनकर कहा ॥१८॥ मार्कण्डेयजी बोले—यह समय मेरे सध्या वन्दनादि का है, विस्तार सहित कुछ कहने का नहीं है ॥१९॥ परन्तु, इस विषय को तुम्हारे प्रति जो पक्षी कहेगा और तुम्हारा सदेह नष्ट करेगा, उनका वर्णन तुम्हारे प्रति कहना हूँ ॥२०॥ पिगाक्ष विबोध, मुपुत्र और सुमुख इत्यादि द्रोण-पुत्र पक्षी श्रेष्ठ, सब शास्त्रों का तत्व जानने वाले हैं ॥२१॥

वेदशाम्बार्थत्रिज्ञानेयेनागव्याहनामति ॥  
 विन्ध्यकन्दरमध्यस्थास्तानुपास्यत्रपृच्छच्च ॥२२॥  
 एवमुक्तस्तदातेनमार्कण्डेयेनभीमता ॥  
 अत्युवाचपिण्डार्दूलोविस्मयोत्फुल्ललोचन ॥२३॥  
 अत्यद्भुतमिदब्रह्मन्खगवागिवमानृषी ॥  
 यत्पक्षिणस्तेविज्ञानमापुरत्यन्तदुर्लभम् ॥२४॥  
 तिर्यग्योन्यायदिभवस्तेपाज्ञानकुतोऽभवत् ॥  
 कथंचद्रोगतनया प्रोच्यन्तेतेपतत्रिण ॥२५॥  
 कश्चदोरा प्रविख्यातोयस्यपुत्रचतुष्टयम् ॥  
 जातगुणवनातेपाधर्मज्ञानमहात्मनाम् ॥२६॥  
 शृणुष्ववावहितो भूत्वायद्वृत्त नन्दनेपुरा ॥  
 शक्रस्याप्सरसाचैवनारदस्यचसगमे ॥२७॥

वे विंध्याचल की कन्दरा मे निवाम करने है उनकी बुद्धि वेदशाम्ब के अर्थ मे कभी अवरुद्ध नहीं होती, उन्ही उपासन करके प्रश्न करोगे तो मन्मूर्ख त्रिपय का ज्ञान तुम्हे हो सता ॥ २२ ॥ मेधावी मार्कण्डेयजी के यह वचन सुनकर उन मुनि शार्दूल जैमिनि ने विस्मय से विस्फारित हुए नेत्रों से प्रश्न किया ॥२३॥ जैमिनि बोले—प्रथम तो यह आश्चर्य की बात है कि पक्षी भी मनुष्य के समान वार्ता कह सकते हैं कि अत्यन्त आश्चर्य यह है कि उन्हें अलभ्य शान्त्र ज्ञान प्राप्त हो चुका है ॥२४॥ उनका जन्म यदि तिर्यग्योनि मे हुआ है तो ऐम ज्ञान की उपलब्धि उन्हें कह से हुई और वे द्रोगपुत्र किस प्रकार कहे जाते है ? ॥२५॥ वह द्रोग कौन है जिसके पुत्र यह चार पक्षी है तथा इन गुणज्ञ एव महात्मा पक्षियों को धर्मज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हुई ? ॥२६॥ मार्कण्डेयजी ने कहा—हे जैमिनि प्राचीन काल मे इन्द्र, नारद तथा अप्सराओं के नन्दन वन मे एकत्र मिल होने पर जो घटना हुई, उसे एकाग्र मन होकर श्रवण करो ॥२७॥

]

[ मार्कण्डेय पुराण ]

नारदोनन्दनेऽपश्यत्पु श्रुत्वा गणमध्यगम् ॥  
 शक्र मुराधिराजानतन्मुखासक्तलोचनम् ॥२८॥  
 सतेर्नर्षवरिष्ठेनदृष्टमात्र शचीपति ॥  
 समुत्तस्थौस्वक्रचास्मैददावासनमादरान् ॥२९॥  
 तदृष्टात्रलवृत्रघ्नमुत्थितत्रिदशाङ्गना ॥  
 प्रणेमुस्ताश्रुदेवपिबिनयावनता स्थिता ॥३०॥  
 ताभिरभ्यार्चित सोऽथ उपविष्टेशतक्रतौ ॥  
 यथार्हं कृतसंभाषकथाश्रक्रमेनोरमाः ॥३१॥  
 तत कथान्तरेशक्रस्तमुवाचमहामुनिम् ॥  
 देह्याज्ञानृत्यतामासातवयार्भिमतेतिवै ॥३२॥  
 गम्भावाकर्कशावाथ उवश्यथ तिलोत्तमा ॥  
 धृताचीमैनकावापियत्रवाभवतौरुचि ॥३३॥  
 एतच्छ्रुत्वाद्विजश्रेष्ठोवाचशक्रस्यनारद ॥  
 विचिन्त्याप्सरम प्राह्विनयावनता स्थिता ॥३४॥

एक दिन नारदजी ने वहाँ पहुँचकर देखा कि दवराज इन्द्र अनेक वाराङ्गनाओं से घिरे हुए उनके ही मुख को देव रहे हे ॥२८॥ शचीपति इन्द्र महर्षि श्रेष्ठ नारद को देखने ही उठे और अत्यन्त आदरपूर्वक उनके निमित्त अपनी आसन दिया ॥२९॥ इन्द्र को उठना हुआ देखकर उन वाराङ्गनाओं ने भी उठकर महर्षि नारद को प्रणाम किया और विनयपूर्वक नतमस्तक हुई खड़ी रही ॥३०॥ उनके द्वारा इस प्रकार पूजित हुए नारदजी इन्द्र के महित बैठ कर परस्पर अनेक प्रकार की बातें करने लगे ॥३१॥ इसी मध्य उन महर्षि से इन्द्र बोले—हे महाभाग ! यदि आपकी इच्छा हो तो नृत्यगान की आज्ञा दीजिये ॥३२॥ रमा, मिश्रकेशी, तिलोत्तमा उर्वशी, धृताची या मेनका में से जिसे आप चाहें उसी को नृत्य करने का आदेश दे ॥३३॥ द्विजोत्तम नारद जी ने इन्द्र की यह बात सुनी तो कुछ समय विचार कर उन्होंने विनय से भुकी हुई उन अप्सराओं से कहा ॥३४॥

युष्माकमिहसर्वोसा रूपौदार्यगुणाधिकम् ॥  
 आत्मानमन्यतेयातुसानृत्यतुममाग्रत ॥३५॥  
 गुणरूपविहीनाया सिद्धिर्नाट्यस्यनास्तिवे ॥  
 चार्वाधिष्ठानवन्नृत्यनृत्यमन्यद्विडम्बनम् ॥३६॥  
 तद्वाक्यसमकालचण्कैकास्तानतास्तत ॥  
 अहगुणाधिकानत्रनत्वचान्याब्रवीदिदम् ॥३७॥  
 तासामभ्रमालोक्य भगवान्पाकशासन ॥  
 पृच्छयतामुनिरित्याहवक्त्रायावोगुणाधिकाम् ॥३८॥  
 शक्रच्छन्दानुयाताभि पृष्टस्ताभि सनारद ॥  
 प्रोवाचयत्तदावाक्यजैमिनेनन्निबोधमे ॥३९॥  
 तपस्यतनगेन्द्रस्थयाव.क्षोभयनेबलात् ॥  
 दुर्वाससमुनिश्रेष्ठ तावोमन्येगुणाधिकाम् ॥४०॥  
 तस्यतद्वचनश्रुत्वासावविपितकन्धरा ॥  
 अशक्यमेतदस्माकमितिताश्रुत्किरेकथा ॥४१॥

देखो, तुम्हारे मध्य जो भी अधिक रूपवती हो, तथा जो अपने में उदारता आदि गुणों को पाती हो, वही मेरे समक्ष नृत्य करे ॥३५॥ क्योंकि नाट्यशास्त्र में रूपवती और गुणवती नारी के अतिरिक्त किसी अन्य की सिद्धि नहीं तथा हाव, भाव, कटाक्ष, विक्षेपादि से सम्पन्न नृत्य ही नृत्य कहा जाता है ॥३६॥ मार्कण्डेयजी ने कहा—नारदजी की यह बात सुनकर अम्भराणें परस्पर में विवाद करने लगी—सब गुणों से विभूषित विशिष्ट मैं ही हूँ, तुम नहीं हो ॥३७॥ उनमें इस प्रकार विवाद होना देख कर इन्द्र बोले—इन मुनि से ही पूछो कि तुम में से गुणावती कौन-सी है ? इस बात को यही कह सकते हैं ॥३८॥ हे जैमिने ! इन्द्र की इच्छा पर उद्यत रहने वाली अप्सराओं द्वारा पूछने पर उस समय नारदजी ने जो कुछ कहा, वह कहता हूँ ॥३९॥ नारदजी ने कहा—पर्वत पर मुनिवर दुर्वासा तप करते हैं, तुम में से जो कोई उन्हें मोहित कर सकेगी, वहां अधिक गुणवती होगी ॥४०॥ मार्कण्डेयजी ने कहा—

उनकी बात मुनिकर सब अप्सराओं का मस्तक घूम गया और वे बोली कि हम इस कार्य में समर्थ नहीं हैं ॥४१॥

तत्राप्सरावपुर्नामभुगेक्षोभरागवितः ॥  
 प्रत्युवाचानुयास्यामियत्रासौमस्थितोमुनिः ॥४२॥  
 अद्यतदेह्यन्तारप्रयुक्तेन्द्रियवाजिनम् ॥  
 स्मरशस्त्रगलद्रश्मिकरिष्यामिकुसारथिम् ॥४३॥  
 ब्रह्माजनार्दनोवापियदिवानीललोहित ॥  
 तमप्यद्यकरिष्यामिकामबाणक्षतान्तरम् ॥४४॥  
 इत्युक्त्वाप्रजगामाथप्रालेयार्द्रवपुस्तदा ॥  
 मुनेस्तप प्रभावेणप्रशान्तश्वापदाश्रमम् ॥४५॥  
 सापुस्कोकिलमाधुर्यायत्रास्तेसमहामुनि ॥  
 क्रोशमात्र स्थितातस्मादगायतचराप्सरा ॥४६॥  
 तद्गीतध्वनिमाकर्ण्यमुनिविस्मितमानस ॥  
 जगामतत्रयत्राम्नेसाबालरुचिरान् ॥४७॥  
 ताहृष्ट्वाचारुसर्वाङ्गीमुनि सस्तभ्यमानमम् ॥  
 क्षोभणायागताज्ञात्वाकोपामर्षसमन्वित ॥४८॥

परन्तु, उनमें वपु नाम की एक अप्सरा अनेक मुनियों का तप भंग कर चुकी थी, इसलिये उनमें सगर्व कहा कि आप मुझे आज्ञा करें, दुर्वासाजी जहाँ निवास करते हैं, मैं वहाँ जाने को उद्यत हूँ ॥४२॥ मैं उनकी मन रूप लगाम को काम बाण से कट कर इन्द्रिय रूप अश्वों को उग्टी दिशा में फेर कर देह रूप रथ को बुद्धि रूप सारथी से विहीन कर डालूँगी ॥४३॥ यदि ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव भी हों, तो भी मैं उनके अन्तर को काम बाण से अवश्य ही जर्जर कर डालूँगी ॥४४॥ यह कह कर वह अप्सरा हिमावत में पहुँची, वहाँ दुर्वासा के तप के प्रभाव से आश्रम के हिमक जीव भी अत्यन्त शान्त रहते थे ॥४५॥ जहाँ दुर्वासा रहते थे, वहाँ में एक कोश दूर रह कर वह अप्सरा श्रेष्ठ वपु अपने कोकिल कंठ से गायन करने लगी ॥४६॥ जहाँ पर वह



कोकिल कठी गारही थी, वहाँ उम गान को मुन कर ग्राच्यन्वित हुए दुर्वासा पहुँचे ॥४७॥ और उन्होंने उन सर्वाङ्गमुन्दगी को देखकर मन को रोकते हुए सोचा कि यह मेरी तपस्या में विघ्न रने को उपस्थित हुई है और क्रोध में भर कर बोले ॥४८॥

उवाचेदतनोवाक्य महर्षिस्तामहातपा ॥४९॥

यस्माद् खार्जितस्येहतपमोविघ्नकारणान् ॥

आगतासिमदोन्मत्तेममदुस्वायखेचरि ॥५०॥

तस्मात्मुपगर्गगोत्रेत्व मत्क्रोधकलुपीकृता ॥

जन्मप्राप्स्यसिदुष्ट-ज्जेयावद्वर्पाणिपोडश ॥५१॥

निजरूपपरित्यज्यपक्षिणीरूपधारिणी ॥

चत्वारस्तेचतनयाजनिष्यन्तेऽधमाप्सरा ॥५२॥

अप्राप्यतेषुचप्रीतिगच्छपुतापुनर्दिवि ॥

वाममाप्स्यसिवक्तव्यनोत्तरतेकथचन ॥५३॥

इति वचनममह्य नोपसरक्तदृष्टिश्रलकलव नयातामानिनी श्राच्यित्वा ।  
तरलतरतरङ्गागापरित्यज्यविप्र प्रथितगुणगणौघासप्रयातः वगङ्गाम् ॥

उन महा तपस्वी महर्षि ने उमके प्रति कहा ॥४९॥ अरी मदोन्मत्त खेचरी ! कष्टों से उपाजित मेरे इस तप में विघ्न करने के लिये ही तू यहाँ आई है ॥५०॥ हे दुर्बुद्धि वाली ! तू मेरे क्रोध में कलुषित होकर पक्षि-कुल में जन्म लेकर सोलह वर्ष तक रहेगी ॥५१॥ अरी अधम अप्सरे ! तू अपने इस रूप को छोड़ कर पक्षी का रूप धारण करेगी, उस समय तेरे चार पुत्र होंगे ॥५२॥ तू पुत्रोत्पत्ति की प्रीति में वचित रहेगी और शस्त्र के आघात से पापी से छूट कर पुनः स्वर्ग को प्राप्त होगी, अब इसमें किसी प्रश्नोत्तर की आवश्यकता नहीं है ॥५३॥ विप्र श्रेष्ठ दुर्वासा क्रोधपूर्ण रक्त नयनों से, मनोरम ककण को धारण करने वाली मानवती वपु से इतना कह कर पृथ्वी को त्याग कर, प्रसिद्ध गुणों वाली आकाश नगा को चले गये ॥५४॥

## ॥ प्रकरण २—सहाभारत सग्राम में पक्षी शावको का जन्म ॥

अरिष्टनेमिपुत्रोऽभूद्गरुडोनामपक्षिराट् ॥  
 गरुडस्याभवत्पुत्र सम्पातिरितविश्रुत ॥१॥  
 तस्याप्यासीत्सुत शून् सुपाश्वर्षोवायुविक्रम ॥  
 सुपाश्वर्षत नय कुन्ति कुन्तिपुत्र प्रलोलुप ॥२॥  
 तस्यापितनयावास्ताकङ्क कन्धर एव च ॥३॥  
 कङ्क कैलासशिखरेविद्युद्रूपेतिविश्रुताम् ॥  
 ददर्शाम्बुजपत्राक्षराक्षम धनदानुगाम् ॥४॥  
 आपानासक्तममलम्रदामाम्बर धारिणाम् ॥  
 भार्यासहायमासीनशिनापट्टेऽमलेशुभे ॥५॥  
 तदृष्टमात्र कङ्कनेरक्ष क्रोधममन्वितम् ।  
 प्रोवाचकस्मादायातस्त्वमितोह्यण्डजाधम ॥६॥  
 स्त्रीसन्निकर्षेतिश्रन्तकस्मान्मामुपसर्पमि ॥  
 नैषधर्मं सृष्टुद्धिनामितोनिष्पाद्यवस्तुषु ॥७॥

मार्कण्डेयजी ने कहा—अरिष्टनेमि के पुत्र पक्षिराज गरुड हुए तथा  
 गरुड का पुत्र सम्पाति हुआ ॥१॥ उस सम्पाति का अत्यन्त बली एव वायु के  
 समान विक्रम वाला पुत्र सुपाश्वर्ष हुआ, सुपाश्वर्ष का पुत्र कुन्ति और कुन्ति का  
 पुत्र प्रलोलुप हुआ ॥२॥ प्रलोलुप के कक और कन्धर नाम के दो पुत्र  
 हुए ॥३॥ कक एक दिन कैलाश पर्वत में गया और वहाँ उसने कमलपत्र के  
 सम न विनाल नेत्र वाले कुवेर-किंकर विद्युद्रूप नाम के राक्षस को देखा ॥४॥  
 वह राक्षस उस समय स्वच्छ माला और श्रेष्ठ वस्त्र धारण किये एक स्वच्छ  
 शिला पर अपनी पत्नी के सहित बैठा हुआ मद्य पी रहा था ॥५॥ कक को  
 देखते ही वह राक्षस अत्यन्त क्रोधपूर्वक बोला—रे पक्षिय अधम ! तू यहाँ  
 किसलिये उपस्थित हुआ है ? ॥६॥ मैं इस समय अपनी भार्या के साथ बैठा

हू, अब तू मेरे पास क्यों आया है ? रहस्य कार्य में बुद्धिमानों का ऐसा आवरण उचित नहीं है ॥७॥

साधारणोऽयमैलेन्द्रोयथातवतथामम ॥

अन्येषाचैवजन्तूनामता भवतोऽत्रका ॥८॥

ब्रुवाणमित्थखङ्गेनकङ्कचिच्छेदराक्षस ॥

क्षरत्क्षतजवोमत्सविस्फुरन्तनचेतनम् ॥९॥

कङ्कविनिहतश्रुत्वाकन्धरक्राधमूर्छित ॥

विद्युद्रूपवधायाशुमनश्चक्रेण्डजेश्वर ॥१०॥

सगन्वाशलगिखरकङ्कोयत्रहतस्थित ॥

तस्य सकलनचक्रेभ्रातुर्ज्येष्ठस्यखेचर ॥

कोपामर्षविवृत्ताक्षोनागेन्द्रइवनिश्वसन् ॥११॥

जगामाथसयत्रास्तेभ्रातृहातस्यराक्षस ॥

पक्षवातेनमहताचालयन्भूवरान्वरान् ॥२॥

वेगात्पयोदजालानिविक्षिपन्क्षतजेक्षग ॥

क्षगात्क्षयितशत्रुसपक्षाभ्याक्रान्तभूधर ॥१३॥

पानासक्तमतित्रतददर्शनशाचरम् ॥

आताम्रवक्रनयनहेमपर्यङ्कमाश्रितम् ॥१४॥

कक बोला—इस पर्वत पर सभी का समान अधिकार है, जैसा तुम्हारा अधिकार है, वैसा ही मेरा तथा अन्य-अन्य जीवों का है, फिर तुम्हें इसके प्रति इतना ममत्व क्यों है ? ॥८॥ मार्कण्डेयजी ने कहा—कक की यह बात सुनकर अत्यन्त क्रोधित हुए उस राक्षस ने खड्ग से उसका शीश काट डाला, उस समय अधिक रक्त गिरने से अति भयानक कार्य हुआ और कक की मृत्यु होगई ॥९॥ फिर पक्षिय श्रेष्ठ कन्वर ने कक का मरण सुना तो अत्यन्त क्रोधित होकर उसने विद्युद्रूप राक्षस को मार डालने का विचार किया ॥१०॥ फिर कक के उस ज्येष्ठ भ्राता कधर ने कैलाश में जहाँ कक की मृत्यु हुई थी वहाँ पहुँच कर उसकी अन्त्येष्टि की और विस्फारित नेत्रों से सर्प के समान वाम लेने लगा ॥११॥ और जहाँ कक का हत्यारा वह विद्युद्रूप राक्षस था,

वहाँ पहुँचा । उसके जाने समय उनके पत्नी जो हृग के वेग में बड़े बड़े पर्वत हिलने लगे ॥१२॥ और समुद्र का जल भी उग्र उग्र फेरने लगा । परमेश्वर पत्नी के बल से ही कथर ने पर्वत पर आक्रमण किया ॥१३॥ उसने कहा जाकर देखा कि सुवर्णमय जैय्या पर स्थित यह राक्षस मद्यमान कर रहा है ॥१४॥

स्रग्दामापूरितशिखहृचिन्दनभूपितम् ॥

केतकोपन्नगर्भाभैर्दन्तैर्घोरतराननम् ॥१५॥

वामोरुमाश्रिताचास्यददगयितलोचनाम् ॥

पत्नीमदनिकानामपु मकोकिनाकनस्यनाम् ॥१६॥

ततोरोगपरीतात्माकन्धर कन्दरस्थितम् ॥

तमुवाचमुदुष्टात्मन्ने हियुध्यम्बवेमया ॥१७॥

यस्माज्ज्येष्ठोममभ्रानातिप्रवोधातिरन्त्रया ॥

तस्मात्त्वामदससक्त नयिष्येमसादनम् ॥१८॥

विश्वस्तघातिनालोकायेब्रह्मीबालघातिनाम् ॥

यास्यसे निरयान्सर्वास्तास्त्वमद्यमयाहत ॥१९॥

इत्येवपतगेन्द्रेणप्रोक्तस्त्रीरन्निधौतदा ॥

रक्ष क्रोधसमाविष्ट प्रत्यभापतपक्षिणम् ॥२०॥

जिमका मुख मण्डल और दोनो नेत्र रक्त वर्ण के हो रहे है, उसके मस्तक में माला पड़ी है तथा वह सर्वाङ्ग चन्दन से चर्चित है और उसके मुख-मण्डल केतकी पुष्प के गर्भ पत्र के तुल्य श्वेत दन्त-पक्ति में सुशोभित है ॥१५॥ तथा उसने यह भी देखा कि एक सर्वाङ्ग सुन्दरी, कोकिलकण्ठ वाली नागी उसके निकट बैठी है उसके दोनो नेत्र विगल है, वह उसकी पत्नी है, जिसका नाम मदनिका है ॥१६॥ फिर पक्षिय श्रेष्ठ कन्धर ने पर्वत कन्दरा में स्थित उस राक्षस को क्रोधपूर्वक बुला कर कहा—अरे दुष्ट आत्मा वाले ! तू शीघ्र यहाँ आकर मुझमें संग्राम कर ॥१७॥ तू ने मदोन्मत्त होकर मेरे भाई की हत्या की है, इसलिये मैं तुझे अवश्य ही यम सदन को भेज दूंगा ॥१८॥ जिन नरको को विश्वासघात करने वाले, स्त्री और बालको के हनाने प्राप्त होने है, उन्ही नरको में तुझे भी मेरे हाथ में प्राणत्याग करना पड़ेगा ॥१९॥

साहण्डेयर्जा ने कहा — कधर के तेम वचन सुनकर वह राक्षस अत्यन्त क्रोध-पूर्वक उस पतिराज से कहने लगा ॥२०॥

यदितेनिहतश्रुतायौरुप तद्विदग्धितम् ॥  
 त्वानप्यद्य हनिष्ये हृदयं ज्ञानानेन खेचर ॥२१॥  
 तिष्ठस्य ग नात्र जीदन् रतनाधम प्रास्यसि ॥  
 इत्युक्त्वा ज्वनपुञ्ज भविमलखङ्गमादेद ॥२२॥  
 तत पतगराजस्य यक्षाधिपभटस्य च ॥  
 वभूव युद्धमनुलयथागरुडशक्रयो ॥२३॥  
 तत भराक्षस क्रोधात् खङ्गमाविधप्रवेगवत् ॥  
 चिक्षेप पतगेन्द्राय निर्वाणाङ्गारवर्चमम् ॥२४॥  
 पतगेन्द्रश्च तखङ्ग किञ्चिदुत्प्लुत्य भूतलात् ॥  
 वक्रो राजग्राहतदागरण पन्नग यथा ॥२५॥  
 वक्रपादतलैर्भेदक्त्वा च क्रोक्षाभमथाण्डज ॥  
 तस्मिन् भग्ने तत खङ्गे बाहुयुद्धमवर्तत ॥२६॥

अरे तेरे भाई की मृत्यु मे मेरा पौरुष ही प्रकट हुआ है, इमलिये अब इम खड्ग द्वारा तेरा भी पध करूंगा ॥२१॥ अरे अधम ! तू क्षण भर ठहर, मेरे पास मे अत्र तू जीवित कदापि नहीं जा सकता । यह कहकर उस राक्षस ने निर्मल खड्ग को हाथ मे ग्रहण किया ॥२०॥ और जिस प्रकार प्राचीन काल मे इन्द्र-गरुड का तुमुल मग्राम हुआ था, उसी प्रकार इस राक्षस मे और कधर मे युद्ध होने लगा ॥२२॥ फिर अत्यन्त क्रोध मे भर कर उस राक्षस ने अपिन के समान चमचमाते हुए उस खड्ग को वेग पूर्वक कधर के ऊपर चलाया ॥२४॥ परन्तु, जिम प्रकार गरुड सर्पों को चोच मे दबा लेता है, उसी प्रकार कधर ने कुछ कूद कर खड्ग का बोच मे दबा लिया ॥२५॥ तथा उस खड्ग को पाव से प्रहार से तोड़कर अत्यन्त क्रोधित हुआ और अब उन दोनो मे बाहु युद्ध होने लगा ॥२६॥

तत पतगराजेनवक्षस्याक्रम्यराक्षस ॥  
 हस्तपादकरैराग्निरसाच्चवियोजित ॥२७॥  
 तस्मिन्विनिहतेसास्त्रीखगजरणमभ्रगात् ॥  
 किञ्चित्मञ्जातसन्त्राणाप्रहोस्त्रभार्याभवामिते ॥२८॥  
 तामादायवगश्रेष्ठस्वकगृहमगात्पुन ॥  
 गत्वासनिष्कृतिभ्रातुर्विद्युद्रूपनिपातनात् ॥२९॥  
 कन्धरस्यचसावेशमप्राप्येच्छारूपधारिणी ॥  
 मेनकातनयामुभ्रुमौपर्णा रूपमाददे ॥३०॥  
 तस्यासजनयामासतार्क्षी नामसुतानदा ।  
 मुनिशापाग्निविप्लुष्टावपुमप्सरसावराम् ॥  
 तस्यानामतदाचक्रेतार्क्षीमिति वहगम ॥३१॥  
 मन्दपालसुताश्रासश्रत्वारोऽमितवुद्दय ॥  
 जरितारिप्रभृतयोद्रोणान्ताद्विजसत्तामा ॥३२॥  
 तेषाजघन्योधर्मात्मावेदवेदागपारग ॥  
 उपयेमेसतातार्क्षीकन्धरानुमतेशुभाम् ॥३३॥

फिर वह राक्षस कधर के द्वारा वक्षस्थल में चोट मारे जाने से  
 जर्जर होगया और उसकी नाडी, हाथ, पाव, मस्तक शरीर में अलग  
 होगये ॥२७॥ उस राक्षस की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी भय में व्याकुल  
 होकर कधर की गणना में गई और बोली कि 'मैं आपकी पत्नी होती हूँ' ॥२८॥  
 पक्षिवर कधर राक्षस को मार कर भाई के शोक से निवृत्त होगये  
 और मदनिका को साथ लेकर अपने घर पहुँचे ॥२९॥ वह राक्षसी मदनिका  
 इच्छानुसार रूप ग्रहण करने वाली मेनका की पुत्री थी, वह कधर के घर में  
 पक्षिवर रूप धारण कर रहने लगी ॥३०॥ दुर्वासा की शापाग्नि में पीड़ित  
 वपु नाम की अप्सरा ने इसी के उदर में जन्म पाया और कधर ने उसका  
 नाम तार्क्षी रखा ॥३१॥ हे ब्रह्मन्<sup>१</sup> मन्दपाल नामक एक ब्राह्मण था, उसके  
 चार पुत्र थे, उनमें बड़े का नाम जितारि और छोटे पुत्र का नाम द्रोण था,

वे सभी अत्यन्त मेधावी थे ॥३०॥ वेद वेदान्तों के तत्त्वज्ञाना द्रोग के साथ पक्षी जन्म की अनुमति में वह सर्वाङ्ग सुन्दरी तार्क्षी विवाही गयी थी ॥३१॥

कस्यचित्त्रथकालस्यतार्क्षीर्भगवापह ॥  
 सप्तपक्षाहितेगर्भेकुरुक्षेत्रजगाममा ॥३४॥  
 कुरुपाण्डवयोर्युद्धे वर्तमानेसुदारुणे ॥  
 भावित्वाञ्चैवकार्यस्यरथमध्येविवेशसा ॥३५॥  
 तत्रापश्यतयुद्धसासर्वेपापृथिवीक्षिताम् ॥  
 शरशक्त्यृष्टिभिर्भीमयथादेवासुरररगम् ॥३६॥  
 तत्रापश्यत्तदायुद्धभगदत्तकिरीटनो ॥  
 निरन्तरशरैरासीदाकाशशलभैरिव ॥३७॥  
 पार्थकोदण्डनिर्मुक्तमामन्नमतिवेगवत् ॥  
 तस्याभल्लमहिश्यामत्त्रचच्छेदजाठरीम् ॥३८॥  
 निन्नेकोट्रेशशाङ्काभभूभावण्डचतुष्टयम् ॥  
 आयुषमावशेषत्वात्तूलराशाविवापत् ॥३९॥  
 तत्पातसमकालचसुप्रतीकाद्गजोत्तमात् ॥  
 पपातमहतीघण्टाबाणसच्छिन्नबन्धना ॥४०॥

कुछ समय व्यतीत होने पर तार्क्षी गर्भवती हुई, गर्भ धारण के दिन से सात खवारे व्यतीत होने पर तार्क्षी कुरुक्षेत्र गई ॥३४॥ उस समय वहाँ कौरव पाण्डवों का भीषण संग्राम चल रहा था, परन्तु भवितव्य को कोई नहीं मिटा सकता, इसीलिये तार्क्षी उस संग्राम भूमि में पहुँच गई ॥३५॥

वहाँ जाकर उसने देखा कि भगदत्त और अर्जुन में घोर युद्ध होरहा है और उनके द्वारा निरन्तर छोड़े जाने वाले बाणों से व्योम टीढ़ी दल के समान व्याप्त है ॥३६॥३७॥ पार्थ के धनुष से वेग पूर्वक निकले हुए एक बाण ने तार्क्षी के जठर की त्वचा भीषण दी ॥३८॥ उसकी कोष्ठ विदीर्ण होने पर चन्द्रमा के समान बुध्न चार अण्डे ऊपर से गिर कर भी आयु होने के कारण हई के समान सुख पूर्वक पृथिवी में आ गिरे ॥३९॥ उसी समय भगदत्त के सुप्रतीक नामक हाथी के कण्ठ का घण्टा बाण से कट कर भूमि पर गिरा ॥४०॥

समसमन्तात्प्राप्तातुर्निभन्नधरणीतला ॥  
 छादयन्तीखमण्डानिस्थगनिपिशितापरि ॥४१॥  
 हृतेचतस्मिन्नृपतौभगदत्तेनरेश्वरे ॥  
 बहून्यहान्यभूद्युद्ध कुरुपाण्डवसैन्यो ॥४२॥  
 वृत्नोयुद्धे धर्मपुत्रेगतेशान्तनवान्तिकम् ॥  
 भीष्मस्यगदतोऽशेषाञ्श्रोतु वर्णान्महात्मन ॥४३॥  
 घण्टागतानितिष्ठन्तियत्राण्डानिद्विजोत्तम ॥  
 आजगामतमृद्वे शशमीकोलामसयमी ॥४४॥  
 सतत्रशब्दमश्रुणोच्चिचीकुचीतिवाशताम् ॥  
 वाल्यादम्फुटवाक्यानाविज्ञानेऽपि परेसति ॥४५॥  
 अथर्षि शिष्यसहितोघण्टामुत्पाटयविस्मित ॥  
 अमातृपितृपक्षार्णशिशुकानिददर्शह ॥४६॥

यद्यपि दोनो एक समय ही पृथ्वी पर गिरे थे, परन्तु दैववश  
 मांस पिण्ड के सब अण्डो को चारो ओर ऊपर से ढकता हुआ वह घण्टा ढक्कन  
 से समान होगया ॥४१॥ राजाओ मे श्रेष्ठ भगदत्त के वध होने पर भी कौरव  
 पाण्डव सेनाओ मे बहुत समय तक युद्ध चचना रहा ॥४२॥ जब युद्ध समाप्त  
 होगया, तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर अनेक प्रकार के धर्म विषयक उपदेश सुनने के  
 लिये शान्तनु पुत्र भीष्म के पास गये ॥४३॥

फिर सपम चित्त वाले विप्र श्रेष्ठ शमीक मुनि, जहा घटे से ढँके हुए  
 पक्षी के बालक थे, वहाँ सहसा जा पहुचे ॥४४॥ और उन्होंने घटे के भीतर  
 उन बालको का 'चिचा कुची' शब्द सुना । यद्यपि बालको को बहुत ज्ञान  
 होगया था, फिर भी वह बाल्यावस्था के कारण समझ मे न आने वाले शब्द  
 ही बोल रहे थे ॥४५॥ फिर शिष्यो सहित उन ऋषि ने पक्ष बालको का  
 शब्द सुनकर आश्चर्य सहित घटे को भूमि से उठाया तब उन्हें माता, पिता  
 तथा पक्षो मे रहित वे बालक दिखाइ दिये ॥४६॥ उन शमीक मुनि ने पृथिवी  
 पर उन बालको को यथावत् देखकर आश्चर्य सहित अपने साथी ब्राह्मणो से



तानितत्रतथाभूमौशमीकोभगवान्मुनि ।  
दृष्ट्वासविस्मयाविष्ट प्रोवाचानुगतान्द्विजान् ॥४७॥  
सम्यगुक्त द्विजाग्र्येणशुक्रेणोशनसास्वयम् ।  
पलायनपरदृष्ट्वादैत्यसैन्यमुरादितम् ॥४८॥  
नगन्तव्यनिवर्तध्वकस्माद्ब्रजतकातरा ॥  
उत्सृज्यशौर्य्यशमीक्वगतानमरिष्यथ ॥४९॥  
नश्यतोयुध्यतोवापिता वद्भ्रवतिजीवितम् ।  
यावद्धातामृजत्पूर्वनयावन्मनसेप्सितम् ॥५०॥  
एकेऽभियन्तेस्वगृहेपलायन्तोऽपरे जना ।  
भुञ्जन्तोऽन्न तथैवापि वन्तोनिधनगता ॥५१॥  
विलासिनस्तथैवायेकामयानानिरामया ।  
अविक्षतागा शस्त्रैश्चप्रेतराजवशगता ॥५२॥  
अन्येतपस्यभिरतानीता प्रेतनृपानुगै ।  
योगाभ्यासेरताश्चान्येनैवप्रापुरमृत्युताम् ॥५३॥  
शम्बरायपुराक्षिप्त वज्र कुलिशपाणिना ।  
हृदयेऽभिहतस्तेनतथापिनमृतोसुर ॥५४॥  
तेनैवखलुवज्रे णतेनैवेन्द्रेणदानवा ।  
प्राप्ते कालेहतादैत्यास्तत्क्षणात्तन्धनगता ॥५५॥  
विदित्वैवनसत्रास कर्तव्योविनिवर्तत ।  
ततो निवृत्तास्तेदैत्यास्त्यक्त्वामरणजभयम् ॥५६॥

कहा ॥४६॥ हे ब्राह्मणो ! पुराकाल मे देवताओ द्वारा ताडित दैत्य सेना के इधर-उधर भागने पर द्विजोत्तम शुक्राचार्यजी ने उससे स्वय ही कहा था ॥४७॥ हे दैत्यो ! तुम मत भागो, रुको, इस प्रकार कातर होकर क्यों भागते हो ? शौर्य और यश को छोड़ कर कहा जाओगे ? क्या तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी ? जिस विधाता ने तुम्हे उत्पन्न किया है, उसकी जब तक इच्छा न हो, तब तक मत भागो, सग्राम करो, इससे तुम किसी भी प्रकार मृत्यु को प्राप्त न होगे ॥४८॥ घर रहते हुए भी कोई मर जाता है, कोई भाग कर भी मर

है ॥५०॥ कोई काम का अनुगत होकर, कोई स्वस्थ रह कर, कोई दिव्य भोग विलास करता हुआ, कोई शस्त्र आदि से घायल न होने पर भी काल के कराल गाल में जा पड़ता है ॥५१॥ कोई तपस्या में रत रहता हुआ तथा कोई योगाभ्यास करता हुआ ही यमपुर को प्राप्त होगया, परन्तु अमर कोई भी नहीं हो सका ॥५२॥ पुराकाल में वज्रपाणि इन्द्र ने शब्द पर वज्र से आघात किया और हृदय विदीर्ण हो जाने पर भी वह असुर नहीं मर सका ॥५३॥ उसी इन्द्र ने उमी वज्र से सब असुरों पर आघात किया और उनका काल था, इसलिए वे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए ॥५४॥ इसलिए यह सब जानकर भी तुम त्रास क्यों करते हो ? उसमें निवृत्त होओ, तब सुन कर दैत्यों ने मृत्यु भय त्याग दिया और वे भागने से रुक गये ॥५५॥ हे ब्राह्मणो ! पक्षी के इन बालको ने शुक्राचार्यजी के वे वचन सत्य कर दिये । अहो, इस अद्भुत युद्ध में भी इनके प्राण नहीं गये ॥५६॥

इतिशुक्रवच सत्यकृतमेभि खगोत्तमै ।

येयुद्धे ऽपिनसप्राप्ता पञ्चत्वमतिमानुषे ॥५७॥

काण्डानापतनविप्रा ववघण्टापतनसमम् ।

क्वचमासवसारक्तैर्भू मेरास्तरणक्रिया ॥५८॥

केऽत्येतेसर्वथाविप्रनैतेसामान्यपक्षिण ।

दैवानुकूलतालोके महाभाग्यप्रदर्शिनी ॥५९॥

एवमुक्त्वासतान्वीक्ष्यपुनर्वचनमब्रवीत् ।

निवर्तताश्रमयातगृहीत्वापक्षिबालकान् ॥६०॥

मार्जाराखुभययत्रनैषामण्डजजन्मनाम् ।

श्येनतोनकुलाद्वापिस्थाप्यतातत्र पक्षिण ॥६१॥

द्विजा किवातियत्नेनमार्यन्तेकर्मभि स्वकै ।

रक्ष्यन्तेचाखिलाजीवायथैतेपक्षिबालका ॥६२॥

तथापियत्न कर्तव्योनरै सर्वेषुकर्मसु ।

कुर्वन्पुरुषकारतुवाच्यतायातिनोसताम् ॥६३॥

इतिमुनिवरचोदितास्ततस्तेमुनितनया परिगृह्यपक्षिण स्तान् ।

तरुविटपसमाश्रितालिसघययुरथतापसरम्यमाश्रमस्वम् ॥६४॥

सचापिवन्यमनसाभिकामितप्रगृह्यमूलकुसुमफलकुशान् ।

चकारचक्रायुधरुद्रवेधसासुरेन्द्रवैवस्वतजातवेदसाम् ॥६५॥

अपापतेर्गीष्पतिवित्तरक्षिणो समीरणस्यापितथाद्विजोत्तम ।

धातुर्विधातुस्त्वथवैश्वदेविका श्रुतिप्रयुक्ताविविधास्तुसत्क्रिया ॥६६॥

कितने आश्चर्य का विषय है कि कहाँ तो सब अण्डो का पृथ्वी पर गिरना और उसी समय घटे का गिरना और कहाँ मांस, रक्त और वसा से पृथिवी का ढका जाना, यह सब परस्पर भिन्न होने हुए भी, एक ही समय में होगया ॥५७॥ हे ब्राह्मणो ! यह कौन है ? प्रतीत होता है कि सामान्य पक्षी तो नहीं है, क्योंकि दैव की अनुकूलता से भाग्य भी अनुकूल होता है ॥५८॥ इतना कह कर महर्षि शमीक उन्हें देख कर पुन कहने लगे—हे ब्राह्मणो ! निवृत्त होकर पक्षि-बालको को ले लो और आश्रम में जाओ ॥५९॥ जहाँ बिल्ली, मूषक, नकुल, बाज आदि का भय न हो, इन पक्षि-शावको को वही रखो ॥६०॥ हे ब्राह्मणो ! अधिक यत्न की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव अपने कर्म से ही अवध्य और रक्षित होता है, यह वालक यहाँ किसके द्वारी रक्षित हुए थे ? ॥६१॥ फिर भी सब कार्यों में मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, यदि पुरुषार्थ न किया जाय तो माधु जनो के समक्ष निन्दनीय होना होता है ॥६२॥ महर्षि के वचन सुनकर मुनि-बालको ने पक्षि के उन बच्चो को उठा लिया और वे वृक्ष-शाखो में गुजारते हुए भ्रमरो से युक्त अपने रमणीय आश्रम को गये ॥६३॥ इधर महर्षि शमीक ने उनके फल, मूल, पुष्प और कुश लेकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, गम और अग्नि का पूजन किया । वरुण, बृहस्पति, कुबेर, पवन, धाता और विधाता का पूजन तथा वेदोक्त विधान से हवन आदि कर्म किये ॥६४-६६॥

### प्रकरण ३—पक्षियों का शाप वृत्तान्त

अहन्यहनिविप्रेन्द्रसतेषामुनिसत्तम ।

चकाराहारपयसातथागुप्त्याचपोषणम् ॥ १ ॥

मासमात्रेणजग्मुस्तेभानो. स्यन्दनवर्त्मनि ॥

कौतूहलविलोलाक्षैर्दृष्ट्वामुनिकुमारकै ॥ २ ॥

दृष्ट्वा महीसनगरासाम्भोनिधिसरिद्वराम् ।

रथचक्रप्रमाणातेपुनराश्रममागता ॥ ३ ॥  
 श्रमक्लातातरात्मानोमहात्मानोवियोनिजा ।  
 ज्ञानच प्रकटीभूत तत्रतेषाप्रभावत ॥ ४ ॥  
 ऋपे शिष्यानुकम्पार्थवदतोर्धर्मनिश्चयम् ।  
 कृत्वाप्रदक्षिणसर्वेचरणावभ्यवाद्यन् ॥ ५ ॥  
 ऊचुश्चमरणाद्धोरान्मोक्षिता स्मस्त्वयामुने ।  
 आवासभक्ष्यपयसात्वनोदातापितागुरु ॥ ६ ॥  
 गर्भस्थानामृतामातापित्रानैवापिपालिता ।  
 त्वयानोजीवितदत्त शिशवोयेनरक्षिता ॥ ७ ॥

मार्कण्डेयजी ने कहा—हे विप्रेन्द्र ! मुनिवर शमीक नित्यप्रति उन पक्षि  
 शावको की आहार देकर रक्षा एव पोषण करने लगे ॥१॥ मुनि के द्वारा  
 इस प्रकार पोषण को प्राप्त हुए, वे बालक एक माम के भीतर ही आकाश  
 मार्ग में उड़ने लगे और कौतूहल में भर कर मुनि बालक उनको देखने लगे  
 ॥२॥ वे तिर्यक् योनि में उत्पन्न हुए महात्मा पक्षी नद, नदी, सागर, नगर  
 आदि में रथ-चक्र के समान घूमने हुए पृथिवी को देखते और थकने पर आश्रम  
 में लौट आते । तभी मुनि के ज्ञान प्रभाव वश उन्हें क्रमशः ज्ञान प्राप्त हुआ  
 ॥३-४॥ एक समय अपने शिष्यों पर कृपा करके महर्षि शमीक धर्मोपदेश कर  
 रहे थे, तभी उन पक्षियों ने प्रदक्षिणा करके मुनि-चरणों में प्रणाम किया ॥५॥  
 और कहने लगे—हे मुने ! आपने घोर मृत्यु के कष्ट से हमारी रक्षा की है,  
 आपने ही हमको निवास, आहार, और जल प्रदान किया है, इसलिए आप ही  
 हमारे पिता एव गुरु हैं ॥६॥ हमारी माता की गर्भवास के समय ही वेहान्त  
 हो गया और पिता द्वारा भी हमारा पालन नहीं हो सका, आपने ही हमारी  
 उस समय से अब तक रक्षा की है ॥७॥

क्षितावक्षततेजास्त्वकृमीणामिवशुष्यताम् ।  
 गजघटासमुत्पाट्यकृतवान्दु खरेचनम् ॥ ८ ॥  
 कथवद्धैरुबला खस्थान्द्रक्षयाम्यहकदा ।  
 कदाभूमेर्द्रुमप्राप्तान्द्रक्षयेवृक्षातरगताम् ॥ ९ ॥  
 कदामेसहजाकान्ति पासुनानाशमेष्यति ।

एषापक्षानिलोत्थेनमत्समीपविचारिणाम् ॥१०॥

इतिचिन्तयतातातभवताप्रतिपालिता ।

तेसाप्रतप्रवृद्धा स्म प्रवृद्धा करवामकिम् ॥११॥

इत्यृषिर्वचनतेपाश्रुत्वासस्कारवत्स्फुटम् ।

शिष्यै परिवृत सर्वे सहपुत्रेणशृङ्गिणा ॥१२॥

कौतूहलपरोभूत्वारोमाचपटसवृत ।

उवाचतत्वतोब्रूतप्रवृत्ते कारणगिर ॥१३॥

कस्य शापादियप्राप्ताभवद्भिर्विक्रियापरा ।

रूपस्यवचसश्चैवतन्मेवक्तुमिहार्हथ ॥१४॥

हे अक्षय तेज वाले मुनिवर ! जब पृथिवी मे पडे हुए हम कृमि के समान सूख रहे थे, तभी आपने घटा उठा कर हमारा सकट दूर कर दिया ॥८॥ यह दुर्बल पक्षि शायक किस प्रकार बुद्धि को प्राप्त हो, कब पृथिवी से वृक्ष पर पहुँचे और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाँय तथा आकाश मे उडने लगे ॥९॥ तथा मेरे पास विचरण करते हुए कब उडेगे और कब इनके पङ्ख चलाने से निकली हुई वायु से उडी हुई धूलि द्वारा मेरी सहज कान्ति नष्ट होगी ॥१०॥ आपने इस प्रकार विचार करते हुए हमारा पालन किया है, अब हम बडे हो गए और आपकी कृपा से हमे ज्ञान भी प्राप्त होगया है, अब हम क्या करे, यह आज्ञा करिये ॥११॥ शिष्यो सहित महर्षि शमीक उनके इस प्रकार सस्कारमय वचन सुन कर अपने पुत्र शृङ्गी सहित अत्यन्त आश्चर्यान्वित हुये ॥१२॥ और अत्यन्त कुतूहल से पुलकायमान शरीर होकर उन पक्षियो के प्रति बोले ॥१३॥ हमे सत्य बताओ कि तुमने ऐसे स्पष्ट वचनो का उच्चारण किस प्रकार किया है ? किस के शाप से तुम्हारे रूप और वाणी की ऐसी विक्रिया हुई है ॥१४॥

विपुलस्वानितिख्यात प्रागासीन्मुनिसत्तम ।

तस्यपुत्रद्वयजज्ञेसुकृषस्तु बुरुस्तथा ॥१५॥

सुकृष स्यवयपुत्राश्चत्वार सयतात्मन ।

तस्यर्षेर्विनयाचारभक्तिनम्रा सदैवहि ॥१६॥

यथाभिमतमस्माभिस्तदातस्योपपादितम् ॥१७॥  
 समित्पुष्पादिकसर्वयच्चैवाभ्यवहारिकम् ।  
 एवतत्राथवसतातस्यास्माकचकानने ॥१८॥  
 आजगाममहावर्ष्माभग्नपक्षोजरान्वित ।  
 आताम्रनेत्र सस्तात्मापक्षीभूत्वामुरेश्वर ॥१९॥  
 सत्यशौचक्षमाचारमतीवोदारमानसम् ।  
 जिज्ञासुस्तमृषिभ्रं उमस्मच्छापभवायच ॥२०॥  
 द्विजेन्द्रमाक्षुधाविष्टपरित्रातुमिहार्हसि ।  
 भक्षणार्थीमहाभागगतिर्भवममातुला ॥२१॥

पक्षियो ने कहा—हे पुनिश्रेष्ठ ! पुराकाल मे विपुलस्वान् नामक एक मुनि थे, उनके सुकृष्ट और तुम्बरु नामक दो पुत्र हुए ॥१५॥ उन जितेन्द्रिय महात्मा सुकृष्ट के हम पुत्र है, हम सदा विनय, आचार, भक्ति और नम्रता पूर्वक ही उनके पास रहते थे ॥१६॥ जब वे सयतचित्त से तपस्या मे लगे रहते, तब हम उनकी स्वेच्छा के अनुसार वस्तु ला देते थे ॥१७॥ हम ही उनके लिये समिधा, पुष्प तथा भोजन की सम्पूर्ण सामग्री ले आते थे, इस प्रकार वह हमारे साथ वन मे रहते थे ॥१८॥ एक दिन देवराज इन्द्र एक विशालकाय पक्षी के रूप मे हमारे पास आये, उनके सभी पङ्ख द्रुटे हुए तथा नेत्र ताम्रवर्ण के हो रहे थे और उनका आत्मा शिथिल हो रहा था ॥१९॥ वह उन सत्य, शौच, क्षमा और आचार युक्त मुनि से कोई बात पूछने लगे, हम समझते है कि वे हमारे प्रति पितृ-शाप होने के कारण ही वहाँ उनका आगमन हुआ था ॥२०॥ पक्षी ने कहा—हे द्विजेन्द्र ! मै क्षुधा से अत्यन्त आतुर एव नितान्त भक्षणार्थी हूँ, आप ही मेरी गति है अत मेरी रक्षा कीजिये ॥२१॥

विन्ध्यस्यशिखरेतिऽन्पत्रिपत्रेरितेनवै ।  
 पतितोऽस्मिमहाभागश्वसनेनातिरहसा ॥२२॥  
 सोहमोहसमाविष्टोभूमौसप्ताहमस्मृतिः ।  
 स्थितस्तत्राष्टमेनाह्लाचेतनाप्राप्तवानहम् वर३॥  
 प्राप्तचेता क्षुधाविष्टोभवतशरणगत ।

तत्कुरुष्वामलमतेमत्त्राणायाचला मतिम् ।  
 प्रयच्छभक्ष्यविप्रर्षेप्राणयात्राक्षममम ॥२५॥  
 यएवमुक्त प्रोवाचतमिन्द्र पक्षिरूपिणम् ।  
 प्राणसन्धारणार्थायदास्येभक्ष्यतवेप्सितम् ॥२६॥  
 इत्युक्त्वापुनरप्येनमपृच्छत्सद्विजोत्तम ।  
 आहार कस्तवार्थायउपकल्प्योभवेन्मया ।  
 सचाहनरमासेनतृप्तिर्भवतिमेपरा ॥२७॥

हे महाभाग ! मैं विध्याचल के शिखर चूडा मे रहता हूँ और पक्षिराज गरुड के पङ्क्तो की वायु के वेग से यहाँ गिर कर मूर्च्छित हो गया था ॥२२॥ उसी अवस्था मे पडे हुए मुझे एक सप्ताह होगया और आठवे दिन मूर्च्छा नष्ट होकर चैतन्यता प्राप्त हुई ॥२३॥ कुछ देर मे जब स्वस्थ हुआ, तब भूख से आतुर होकर आपकी शरण मे आगया । मेरा हृदय भूख से अत्यन्त कातर होने के कारण सम्पूर्ण आनन्द का हरण किये लेता है ॥२४॥ हे ब्रह्मर्षे ! मेरी रक्षा का प्रयत्न करिये, जिससे मेरी भूख मिट सके, ऐसा भोजन मुझे दीजिये ॥२५॥ पक्षी रूप धारी इन्द्र की ऐसी बात सुन कर उन महर्षि ने उनमे कहा—हे खग ! तुम अपने प्राण-धारण के लिए उपयोगी किस आहार को चाहते हो, मैं तुम्हारे भोजनार्थ किस द्रव्य को उपस्थित करूँ ? ॥२६॥ हे ब्रह्मन् ! इतना कह कर उन मुनि ने पुन कहा—कहो, क्या भोजन करोगे ? तुम्हारे लिए किस आहार को लाऊँ ? इस पर उसने उत्तर दिया कि मेरी परम तृप्ति मनुष्य का माँस खाने से ही होगी ॥२७॥

कौमारतेव्यतिक्रातमतीतयौवनचते ।  
 वयस परिणामस्तेवर्ततेनूनमडज ॥२८॥  
 यस्मिन्नराणासर्वेषामशेषेच्छानिवर्त्तते ।  
 सकस्माद्बृद्धभावेऽपिसुनृशसात्मकोभवान् ॥२९॥  
 क्वमानुषस्यपिशितक्ववयश्चरमतव ।  
 सर्वथादुष्टभावानाप्रथमोनोपपद्यते ॥३०॥  
 अथवाकिमयैतेनप्रोक्तेनास्तिप्रयोजनम् ।

इत्युक्त्वा तसविप्रेन्द्रस्तथेति कृतनिश्चय ।  
 शीघ्रमस्मान्समाहूय गुणतोऽनुप्रशस्य च ॥३२॥  
 उवाच क्षुब्धहृदयो मुनिर्वाक्यसुनिष्ठुरम् ।  
 विनया वनतान्सर्वान्भक्तियुक्तान्कृताजलीन् ॥३३॥  
 कृतात्मानो द्विजश्रेष्ठ ऋणैर्युक्ता मया सह ।  
 जातश्रेष्ठमपत्यवो यूयममयथा द्विजा ॥३४॥  
 गुरुपूज्यो यदिमतो भवता परमपिता ।  
 तत कुरु तमेवाक्यनिर्व्यलीकेन वेतसा ॥३५॥

ऋषि ने कहा—तुम्हारी कौमारावस्था जाकर युवावस्था आई और वह भी व्यतीत होकर वृद्धावस्था आ गई है ॥२८॥ जिसमें सभी वासनाएँ अशेष हो जाती हैं, फिर भी तुम वृद्धावस्था को प्राप्त होकर इतने नृशस क्यों हो ? ॥२९॥ मनुष्य मांस के भक्षण और वृद्धावस्था दोनों में बहुत अन्तर है, तो भी दुष्ट जीवों की दुराशा नहीं मिट पाती ॥३०॥ परन्तु मुझे इस सब की आलोचना क्यों करनी चाहिए ? अङ्गीकृत विषय का दान अवश्य करना चाहिए, ऐसा मोचना ही ठीक है ॥३१॥ उस पक्षी से इतना कह कर निश्चय को कार्यरूप देने वाले मुनि ने तुरन्त हमें बुलाकर हमारे गुणों की प्रशंसा की ॥३२॥ तथा हमारे विनय और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ खड़े होने पर अत्यन्त क्षोभ सहित हमारे पिता ने यह निष्ठुर वचन कहे ॥३३॥ तुम सब विद्वान् हो, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तथा सन्नानोत्पत्ति द्वारा मेरे समान ही ऋण-मुक्त हो चुके हो, जैसे श्रेष्ठ तुम मेरे पुत्र हो, वैसे ही श्रेष्ठ पुत्र तुम्हारे हो चुके हैं ॥३४॥ मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम यदि मुझे बड़ा और पूज्य मानते हो, तो कपट रहित हृदय से मेरे वचनों का पालन करो ॥३५॥

तद्वाक्यसमकालचप्रोक्तमस्माभिरादृतै ।  
 यद्वक्ष्यति भवास्तद्वै कृतमेवावधार्यताम् ॥३६॥  
 मामेष शरणप्राप्तो विहगक्षुत्तृषान्वित ।  
 युष्मन्मासेनयेनास्यक्षणतृप्तिर्भवेत वै ॥३७॥  
 तृष्णाक्षयश्चरक्तेन तथा शीघ्रविधीयताम् ।  
 ततो वयप्रव्यथिता प्रकम्पोद्भूतसाधवसा ।



कष्टकष्टमितिप्रोच्यनैतत्कर्मैतिचाब्रुवन् ॥३८॥  
 कथपरशरीरस्यहेतोर्देह स्वकबुध ।  
 विनाशयेद्घातयेद्वायथाह्यात्मातथासुत ॥३९॥  
 पितृदेवमनुष्याणायान्युक्तानिऋणानिवै ।  
 तान्यपाकुस्तेपुत्रोनशरीरप्रद सुत ॥४०॥  
 तस्मान्नैतत्करिष्यामोनीचीर्णयत्पुरातनै ।  
 जीवन्भद्राण्यवाप्नोतिजीवन्पुण्यकरोतिच ॥४१॥  
 मृतस्यदेहनाशश्चधर्माद्यु परतिस्तथा ।  
 आत्मानसर्वतोरक्ष्यमाद्दुर्धर्मविदोजना ॥४२॥

यह सुनकर हमनेभी आदर सहित कहा-आपकी जो आज्ञा होगी, उसका सपादन हमारे द्वारा हुआ ही समझिये ॥३६॥ तब उन्होने कहा—पुत्रो ! यह पक्षी भूख-प्यास से आतुर होकर यहाँ आया है, इस समय तुम्हारे माँस का आहार करके इसकी क्षुधा ॥३७॥ तथा रक्त पान द्वारा प्यास की निवृत्ति होगी, इसलिए शीघ्र ही ऐसा करो, यह सुन कर हम भय से काँप उठे और बोले कि यह अत्यन्त कष्टप्रद कार्य हमसे होना संभव नहीं है ॥३८॥ कौन-सा मनुष्य विद्वान् होकर पराये शरीर की पुष्टि के लिए अपने जीवन का नाश करेगा ? क्योंकि आत्मा की भी मन्तान के समान रक्षा करनी उचित है ॥३९॥ शास्त्र मे जिम पितृ ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण का आदेश है, उसी को सन्तान चुकाती है, परन्तु शरीर-दान नहीं किया जा सकता ॥४०॥ इसलिए यह कार्य हमारे द्वारा संभव नहीं है, पहिले भी कभी किसी के द्वारा ऐसा आचरण नहीं मिलता, जीवन है तो पुण्यादि के आचरण द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ॥४१॥ मर जाने पर शरीर नष्ट हो जाने से धर्माचरण आदि नष्ट हो जाते हैं, इसीलिये धर्मज्ञाता पंडितो ने आत्मा की सदा रक्षा करने का उपदेश दिया है ॥४२॥

इत्थश्रुत्वावचोऽस्माकमुनि क्रोधादिवज्वलन् ।  
 प्रोवाचपुनरप्यस्मान्निर्देहन्निवलोचनै ॥४३॥  
 प्रतिज्ञातवचोमह्य यस्मान्नैतत्करिष्यथ ।

एवमुक्त्वा तदा सोऽस्मास्त विहगममब्रवीत् ।  
 अन्त्येष्टिमात्मन कृत्वा शास्त्रतश्चौर्ध्वदैहिकम् ॥४५॥  
 भक्षयस्व सुविश्रब्धो मामत्र द्विजसत्तम ।  
 आहारीकृतमेत्ते मया देहमिहात्मन ॥४६॥  
 एतावदेव विप्रस्य ब्राह्मणत्वप्रचक्ष्यते ।  
 यावत्पतगजात्यग्र्यस्वसत्यपरिपालनम् ॥४७॥  
 नयज्ञैर्दक्षिणावद्भिस्तत्पुण्यप्राप्यते महत् ।  
 कर्मणान्येनवा विप्रैर्यत्सत्यपरिपालनात् ॥४८॥

हमारे इन वचनो को सुन कर मुनि श्रेष्ठ क्रोधानल से दग्ध होने लगे  
 और क्रोध से हुए लाल नेत्रो से जैसे हमको भस्म करना चाहते हो, देखते हुए  
 पुन कहने लगे ॥४३॥ अरे दुर्वृत्तो ! मैंने इससे प्रतिज्ञा की है, और तुम मेरा  
 वचन पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए मेरे शाप से भस्म होकर तिर्यग् योनि को  
 प्राप्त हो जाओगे ॥४४॥ हे द्विजोत्तम ! इतना कह कर ही उन्होंने शास्त्र विधिसे  
 अपनी ऊर्ध्वदैहिक अन्त्येष्टि क्रिया का सम्पादन किया और पक्षी से बोले ॥४५॥  
 हे पक्षी ! तुम विश्रस्त चित्त से मेरा भक्षण करो, मैंने अपना ही शरीर तुम्हारे  
 आहार के निमित्त दिया ॥४६॥ हे खग श्रेष्ठ ! जब तक ब्राह्मण अपने सत्य के  
 पालन में दृढ है, तभी तक वह ब्राह्मण कहलाता है ॥४७॥ जितना पुण्य सत्य  
 के प्रतिपालन में होता है, उतना दक्षिणा वाले यज्ञ के अनुष्ठान से अथवा किसी  
 अन्य कर्म के द्वारा भी नहीं होता ॥४८॥

इत्यृषेर्वचनश्रुत्वा सोऽन्तर्विस्मयनिर्भर ।  
 प्रत्युवाच मुनिशक्रपक्षिरूपधरस्तदा ॥४९॥  
 योगमास्थाय विप्रेन्द्रत्यजेदस्वकलेवरम् ॥  
 जीवञ्जतु हिविप्रेन्द्रनभक्षामिकदाचन ॥५०॥  
 तस्य तद्वचनश्रुत्वा योगयुक्तोऽभवन्मुनि ।  
 ततस्य निश्चयज्ञात्वा शक्रोऽप्याह स्वदेहभृत् ॥५१॥  
 भो भो विप्रेन्द्र युध्यस्व बुद्ध्या बोध्यं बुधात्मक ।  
 जिज्ञासार्थं मयाऽयते अपराधकृतोऽनघ ॥५२॥

पालनात्सत्यवाक्यप्रीतिर्मेपरमात्वयि ॥५३॥

अद्यप्रभृतिज्ञानमैन्द्र प्रादुर्भविष्यति ।

तपस्यथनथाधर्मेनतेविघ्नोभविष्यति ॥५४॥

इत्युक्त्वानुगतेशक्रेपिताकोपसमन्वित ।

प्रणम्यशिरसास्माभिरिदमुक्तोमहामुनि ॥५५॥

ऋषिवर के यह वचन सुन कर उन खग रूपी इन्द्र ने अत्यन्त आश्चर्य चकित होकर उनसे कहा ॥४९॥ हे ब्रह्मन् ! आप पहिले योग के अबलम्बन से अपने शरीर का त्याग कर दे, तब मैं आपके माँस को खाऊँगा, क्योंकि जीवित प्राणी के माँस का मैंने कभी आहार नहीं किया ॥५०॥ पक्षी की यह बात सुन कर मुनि ने योग का अबलम्बन किया और उनको अपने सकल्प मे दृढ देख कर इन्द्र ने अपना देह धारण करके कहा ॥५१॥ हे पण्डितो मे अग्रणी ब्रह्मर्षे ! ज्ञातव्य विषय को बुद्धि से जानिये, हे पाप-रहित ! आपको भले प्रकार जानने के लिए ही मैंने आपके प्रति यह अपराध किया है ॥५२॥ हे स्वच्छ-चित्त ! मुझे क्षमा कीजिये, आपकी जो अभिलाषा हो वह मेरे प्रति कहिए, सत्य वचन के प्रतिपालनार्थ आपके प्रति मुझको अत्यन्त प्रीति हुई है ॥५३॥ अब आपको ऐन्द्रज्ञान की उत्पत्ति होगी और तपस्या के आचरण मे कभी भी विघ्न उपस्थित न होगा ॥५४॥ देवराज इन्द्र के इस प्रकार कह कर वहाँ से चले जाने पर हमने उन क्रोधयुक्त महामुनि, अपने पिता-श्री के चरणो मे प्रणाम करके कहा ॥५५॥

बिभ्यतामरणात्तातत्वमस्माकमहामते ।

क्षन्तुमर्हसिदीनानांजीवितप्रियताहिन. ॥५६॥

त्वगस्थिमाससंघातेपूयशोणितपूरिते ।

कर्त्तव्यानरतिर्यत्रतत्रास्माकमियरति ॥५७॥

श्रूयतांचमहाभागयथालोकोविमुह्यति ।

कामक्रोधादिभिर्दोषैरवश प्रबलारिभि ॥५८॥

प्रज्ञाप्राकारसयुक्तमस्थिस्थूणंपरमहत् ।

चर्मभित्तिमहारोध्रमासशोणितलेपनम् ॥५९॥

नृपश्चपु रूपस्तत्रचेतनावानवस्थित ॥६०॥  
 मत्रिणौतस्यबुद्धिश्चमनश्चैवविरोधिनौ ।  
 यतेतेवैरनाशायतावुभावितरेतरम् ॥६१॥  
 नृपस्यतस्यचत्वारोनाशमिच्छतिविद्विष ।  
 काम क्रोधस्तथालोभोमोहश्चान्यस्तथारिपु ॥६२॥  
 यदानुसन्नुपस्तानिद्वाराण्यावृत्यतिष्ठति ।  
 सदासुस्थवलश्चैवनिरातकश्चजायते ॥६३॥

हे पिता, हे महामुने ! मृत्यु के भय से अत्यन्त डर कर हमने अपने  
 जीवन के प्रति मोह करके ऐसा कहा था, इसलिए हमको क्षमा कर दीजिए  
 ॥५६॥ यह शरीर, हड्डी, मांस, त्वचा, रक्त आदि से भरा हुआ है, इसके  
 प्रति किञ्चित् भी मोह न करे, परन्तु उसी शरीर के प्रति हमारा मोह बढ़ा  
 हुआ है ॥५७॥ हे महाभाग ! प्रबल शत्रु रूप काम क्रोधादि दोषों के द्वारा ही  
 सब लोक मोहित हुए सुने जाते हैं ॥५८॥ हे पिता ! प्रज्ञा रूप प्राचीरो वाली  
 इस देह-नगरी का अस्थि ही स्तम्भ है, जो चर्म रूप भित्ति से रुद्ध ओर रक्त  
 मांस रूप कीचड़ से लिप रही है ॥५९॥ उसे नस चारों ओर से घेरे हुये हैं,  
 उसके नो बडे द्वार हैं और चैतन्य रूपी पुरुष उसमें राज्य करता है ॥६०॥  
 उस राजा के दो मन्त्री मन बुद्धि रूपी हैं, परन्तु वे परस्पर विरोधी होने के  
 कारण एक दूसरे के विनाश के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं ॥६१॥ काम,  
 क्रोध, लाभ, मोह नामक चार शत्रु उस राजा को नष्ट करने की चेष्टा में लगे  
 रहते हैं ॥६२॥ जब वह राजा नौ द्वारों को रोक कर स्थित होता है, तब वह  
 अत्यन्त स्वस्थ और आतङ्क रहित होता है ॥६३॥

जातानु रागोभवतिशत्रुभिर्नाभिभूयते ॥६४॥  
 यदानुसर्वद्वाराणिविवृतानिसमु चति ।  
 रागोनामतदाशत्रुर्नेत्रादिवारमृच्छति ॥६५॥  
 सर्वव्यापीमहायाम पञ्चद्वारप्रवेशन ।  
 तस्यानुमार्गविशतितद्वैघोररिपुत्रयम् ॥६६॥  
 प्रविश्याथसवैतत्रद्वारैरिन्द्रियसज्ञकै ।  
 राग सश्लेषमायातिमनसाचसहेतरै ॥६७॥

इन्द्रियाणिमनश्चैववशेकृत्वादुरासद ।  
 द्वाराणिचवशेकृत्वाप्राकारनाशयत्यथ ॥६८॥  
 मनस्तस्याश्रितदृष्ट्वाबुद्धिर्नश्यतितत्क्षणात् ।  
 अमात्यरहितस्तत्रपौरवर्गोज्झितस्तथा ॥६९॥  
 रिपुभिर्लब्धविवर सनृपोनाशमृच्छति ।  
 एवरागस्तथामोहोलोभ क्रोधस्तथैवच ॥७०॥  
 प्रवर्ततेदुरात्मानोमनुष्यस्मृतिनाशका ।  
 रागात्क्रोध प्रभवतिक्रोधात्लोभोऽभिजायते ॥७१॥

तथा उम समय उमके प्रीतिमान् होने के कारण उमके शत्रु उसे अभि-  
 भूत करने मे समर्थ नहीं होते ॥६४॥ वह जब सभी द्वारो को खोल कर अव-  
 स्थान करता है, तब नेत्रादि सब द्वारो पर अनुराग नामक शत्रु आक्रमण कर  
 देता है ॥६५॥ यह अत्यन्त बलवान् शत्रु सर्वत्र व्यापी है, जब यह अनुराग रूप  
 शत्रु चक्षु आदि द्वारो मे प्रविष्ट होता है, तब उसके पीछे-पीछे लोभ, मोह और  
 क्रोध रूप तीनों शत्रु दौड पडते है ॥६६॥ अनुराग रूप वह शत्रु इन्द्रियादि सब  
 द्वारो से पुरी मे प्रवेश करके मन और बुद्धि से सगति करने की इच्छा करता  
 है ॥६७॥ वह इन्द्रियो को और मन को अपने वश मे करके बुद्धि रूपी परकोटे  
 को तोड डालता है ॥६८॥ मन को उसके आश्रित हुआ देख कर बुद्धि भी  
 तत्काल नाश को प्राप्त होती है, इस प्रकार मत्रियो और प्रजावर्ग से हीन हुआ  
 ॥६९॥ वह राजा शत्रुओ के आक्रमण से विवर होने के कारण नष्ट हो जाता  
 है, तब काम, क्रोध, लोभ, मोह रूप ॥७०॥ दुरात्मा उस पुरी मे वास करने  
 लगेते है । उम समय मनुष्य की स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, अनुराग मे  
 क्रोध और क्रोध से लोभ की उत्पत्ति होती है ॥७१॥

लोभाद्भवतिसम्मोह सम्मोहात्स्मृतिविभ्रम ।  
 स्मृतिभ्र शाद्बुद्धिनाशोबुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥७२॥  
 एवप्रणष्टबुद्धीनारागलोभानुवर्तिनाम् ।  
 जीवितेचसलोभानाप्रसादकुरुमत्तम ॥७३॥  
 योऽयशापोभगवतादत्त सनभवेत्तथा ।  
 नतामसीगतिकष्टाव्रजेत्समुनिसत्तम ॥७४॥

यन्मयोक्तनतन्मिथ्याभविष्यतिकदाचन ॥  
 नमेवागनृतप्राह्यावदद्ये त्पुत्रका ॥७५॥  
 दैवमालपरमन्येधिक्षपौरुषमनर्थकम् ।  
 अकार्यकारितोयेनबलादहमचिन्तितम् ॥७६॥  
 यस्माच्चयुष्माभिरहप्रणिपत्यप्रसादित ॥  
 तस्मात्तिर्य्यक्त्वमापन्ना परज्ञानमवाप्स्यथ ॥७७॥  
 ज्ञानदर्शितमार्गाश्चनिर्धूतक्लेशकल्मषा ।  
 मतप्रसादादसन्दिग्धा परासिद्धिमवाप्स्यथ ॥७८॥

लोभ से मोह उत्पन्न होता और मोह स्मृति को नष्ट कर देता है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती और बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है ॥७२॥ राग और लोभ के वश मे पड कर ही हमारी बुद्धि नष्ट हो गयी, इसलिए जीवन के प्रति इतना मोह हममे है, अत आप प्रसन्न हो ॥७३॥ आपका दिया हुआ शाप हम पर फलित न हो, हम पर प्रसन्न होकर ऐसा ही करे, जिससे हमको यह कष्ट देने वाली गति न मिलेगी ॥७४॥ ऋषि ने कहा— हे पुत्रो ! मेरा कथन कभी मिथ्या नहीं होगा, मेरे मुख से कभी भी कोई मिथ्या वचन नहीं निकला ॥७५॥ अनर्थक पौरुष को धिक्कार है, मैं समझता हूँ कि दैव बलवान् है, उसी ने मुझे इस प्रकार के अकार्य मे प्रवृत्त किया है ॥७६॥ तुमने जिस प्रकार प्रणामादि से मुझे प्रसन्न किया है, उससे तिर्यक् योनि मे उत्पन्न होकर भी अत्यन्त ज्ञानी होगे ॥७७॥ मेरे अतुग्रह से ज्ञान के द्वारा तुम सन्मार्ग को देखते हुये अपने पापो को नष्ट करते हुए असन्दिग्ध चित्त के द्वारा प्रधान सिद्धि को पा सकोगे ॥७८॥

एवंशप्ता स्मभगवन्पित्रादैगवशात्पुरा ।  
 तत कालेनमहतायोन्यन्तरमुपागता ॥७९॥  
 जाताश्चरणमध्येवैभवतापरिपालिता ।  
 वर्यमित्थद्विजश्रेष्ठखगत्वसमुपागता ॥८०॥  
 नास्त्यसाविहससारेयोनिदिष्टेनवाध्यते ।  
 सर्व्वेषामेवजन्तूनादैवाधीनहिचेष्टितम् ॥८१॥  
 इतितेषावच श्रुत्वाशमीकोभगवान्मुनि ।

प्रत्युवाचमहाभाग समापस्थायिनोद्विजान् ॥८२॥  
 पूर्वमेवमयाप्रोक्तं भवतासन्निधाविदम् ।  
 सामान्यपक्षिणो नैतेकेऽयेतेद्विजसत्तमा ।  
 येयुद्धेऽपिनसंप्राप्ता पचत्वमतिमानुषे ॥८३॥  
 तत प्रीतिमतातेनतेऽनुज्ञातामहात्मना ।  
 जग्मु शिखरिणाश्रेष्ठविध्यद्रुमलतायुतम् ॥८४॥  
 यावदद्यस्थितास्तस्मिन्नचलेधर्मपक्षिण ।  
 तप स्वाध्यायनिरता समाधौकृतनिश्चया ॥८५॥  
 इतिमुनिवरलब्धसत्क्रियास्तेमुनितनयाविहगत्वमभ्युपेता ।  
 गिरिवरगहनेऽतिपुण्यतोयेयतमनसोनिवसन्तिविन्ध्यपृष्ठे ॥८६॥

हे भगवन् ! पुराकाल मे दैववश बमारे पिता ने हमको इस प्रकार शाप दिया था तथा कुछ समय व्यतीत होने पर हमने पक्षि-योनि मे जन्म लिया ॥७९॥ हे द्विजोत्तम ! हमारा जन्म रणभूमि मे हुआ, आपने यहाँ लाकर हमारा पालन किया और अब हम आकाश मार्ग मे विचरण करने योग्य हो गए है, ॥८०॥ हे मुने ! विश्व मे ऐसा जीव कोई भी नहीं है, जो प्रारब्ध के वश मे न हो, प्राणियो की जितनी भी चेष्टाएँ है, वह सब दैवाधीन ही है ।८१। मार्कण्डेयजी ने कहा—पक्षियो की यह बात सुन कर षड्गुण सम्पन्न महर्षि वर शमीक ने अपने पास बैठे हुए ब्राह्मणो से कहा ॥८२॥ हे ब्राह्मण ! मै पहिले ही कह चुका हूँ कि जब यह युद्ध भूमि मे भी मृत्यु मुख मे नहीं जा सके, तो यह सामान्य पक्षी नहीं, अवश्य ही कोई ब्राह्मण पुत्र है ॥८३॥ फिर वह पक्षी प्रसन्न हुये महर्षि शमीक की आज्ञा पाकर वृक्ष-लता आदि से परिपूर्ण विध्याचल पर्वत को चले गये ॥८४॥ वह धर्मखग उस पर्वत मे रहते हुए वेदपाठ मे निरत रहकर समाधि मे रहने के लिए तत्पर हुये ॥८५॥ शमीक मुनि ने समस्त क्रिया का उपदेश ग्रहण करके, उनकी आज्ञा से वह खग रूपी मुनि कुमार उस अत्यन्त स्वच्छ जल मे परिपूर्ण गिरि-शिखर पर आनन्द सहित रहने लगे ॥८६॥

### प्रकरण-४--भगवान् का चतुर्व्यूहावतार

एकतेद्रोणतनया.पक्षिणोज्ञानिनोऽभवन् ।

वसन्तिह्यचलेविन्ध्येतानुपास्वचपृच्छच ॥१॥

इत्यृषेर्वचनश्रुत्वामार्कण्डेयस्यजैमिनि ।  
 जगामविन्ध्यशिखरयत्रतेधर्मपक्षिण ॥२॥  
 तन्नगासन्नभूतश्चक्षुश्रावपठताध्वनिम् ।  
 श्रुत्वाचविस्मयाविष्टश्चिन्तयामामजैमिनि ॥३॥  
 स्थानसौष्ठवसम्पन्नजितश्वासमविश्रमम् ।  
 विस्पष्टमपदोपंचपठ्यतेद्विजसत्तमै ॥४॥  
 वियोनिमपिसंप्राप्तानेतान्मुनिकुमारकान् ।  
 चित्रमेतदहमन्येनजहातिसरस्वती ॥५॥  
 बन्धुवर्गस्तथामिन्नयच्चेष्टमपरगृहे ।  
 त्यक्त्वागच्छतितत्सर्वनजहातिसरस्वती ॥६॥  
 इतिसचिन्तयन्नेवविवेशगिरिकन्दरम् ।  
 प्रविश्यचददर्शासौशिलापट्टगतान्द्विजान् ॥७॥

मार्कण्डेयजी ने कहा—हे जैमिने ! वह सब ज्ञानवान् पक्षी इस प्रकार  
 द्रोणपुत्र हुये और अब वह विध्याचल में निवास करते हैं, तुम उनकी उपासना  
 करके प्रसन्न करो ॥१॥ मुनिवर मार्कण्डेय के वचन सुनकर मर्षि जैमिनि उस  
 धर्मपक्षियो के निवास स्थान विध्य पर्वत को चले ॥२॥ विध्य पर्वत के समीप  
 पहुँचते ही उनको पक्षियो द्वारा वेदपाठ करने का शब्द सुनाई पडा, तब वे  
 अत्यन्त आश्चर्य पूर्वक विचार करने लगे ॥३॥ अहो, कैसा आश्चर्य है कि विप्र-  
 गण पक्षी होकर भी स्थान की श्रेष्ठता से श्वास को जीत कर दोष-रहित, विश्राम  
 रहित एव स्पष्ट रूप वेदपाठ करते हैं ॥४॥ इन बालको को तिर्यक् योनि प्राप्त  
 होने पर सरस्वती ने उनको नहीं छोडा, यह आश्चर्य की बात है ॥५॥ इससे  
 प्रतीत होता है कि बन्धु, मित्र या घर की सभी इच्छित वस्तुएँ त्याग कर चली  
 जाती हैं, परन्तु सरस्वती कभी भी त्याग नहीं करती ॥६॥ ऐसा विचार करते  
 करते मुनिवर जैमिनी पर्वत की कन्दरा में घुमे और उन्होंने वहाँ देखा कि वे  
 ब्राह्मण पाषाण-शिला पर विराजमान हैं ॥७॥

पठतस्तान्समालोक्यमुखदोषविवर्जितान् ।  
 सोऽथशोकेनहर्षेणसर्वानेवाभ्यभाषत ॥८॥  
 स्वस्त्यस्तुवोद्विज श्रेष्ठाजैमिनिमग्निबोधत ।



व्यासशिष्यमनुप्राप्तभवतादर्शनोत्सुकम् ॥६॥  
 मन्युर्नखलुकर्तव्योयत्पित्रातीवमन्युना ।  
 शप्ता खगत्वमापन्ना सर्वथादिष्टमेवतत् ॥१०॥  
 स्फीतद्रव्येकुलेकेचिज्जाता किलमनस्विन ।  
 द्रव्यनाशेद्विजेन्द्रास्तेशबरेणसुसान्त्वता ॥११॥  
 दत्वायाचन्तिपुरुषाहत्वावध्यन्तिचापरे ।  
 पातयित्वाचपास्यन्तेतएवतपस क्षयात् ॥१२॥  
 एतद्दृष्टसुवहुशोविपरीततथामया ।  
 भावाभावसमुच्छेदैरजस्र व्याकुलजगत् ॥१३॥  
 इतिसच्चिन्त्यमनसानशोक कर्तुंमर्हथ ।  
 ज्ञानस्यफलमेतावच्छोकहर्षैरधृष्यता ॥१४॥

उन सब दोपो मे रहित पक्षियो को वेदपाठ करते देख कर हर्ष-शोक मिश्रित कहा ॥८॥ हे श्रेष्ठ द्विजो ! तुम्हारा कल्याण हो, मैं व्यास गिष्य जैमिनि तुम्हारे दर्शन की इच्छा से इस स्थान मे उपस्थित हुआ हूँ ॥९॥ तुम्हे अत्यन्त कुपित पिता के शाप वश पक्षि रूप ग्रहण करना पडा, परन्तु इसके प्रति शोक न करना चाहिए क्योकि यह सब प्रारब्ध का ही परिणाम है ॥१०॥ धन, सम्मान आदि युक्त ऐश्वर्य सम्पन्न उत्तम वश मे कोई महात्मा जन्म लेता है, और द्रव्यादि के नष्ट होने पर भीलो के द्वारा उमी को मान्त्वना प्राप्त होती है ॥११॥ कोई दानी भी भिखारी हो जाता है, कोई हत्या करके भी अवध्य रहता है, कोई दूसरे की मृत्यु से रक्षा करके भी दूसरो के द्वारा मारा जाता है, तप के क्षीण होने पर ऐसी ही घटनाएँ होती रहती है ॥१२॥ मैं अनेक बार ऐसी घटनाएँ देख चुका हूँ, इस प्रकार भाव अरु अभाव की परम्परा से सम्पूर्ण विश्व निरन्तर व्याकुल है ॥१३॥ ऐसा विचार कर शोक मत करो, क्योकि हर्ष या शोक से अभिभूत न होना ही तप का फल है ॥१४॥

ततस्तेजैमिनिसर्वपाद्याध्याभ्यामपूजयन् ।  
 अनामयचपप्रच्छु प्रणिपत्यमहामुनिम् ॥१५॥  
 अथोचु खगमा सर्वेव्यासशिष्यंतपोनिधिम् ।  
 सुखोपविष्ट विश्रातपक्षानिलहतक्लमम् ॥१६॥

अद्यन सफलजन्मजीवित चसुजीवितम् ।  
 यत्पश्याम सुरैर्वन्द्यतवपादाम्बुजद्वयम् ॥१७॥  
 पितृकोपाग्निरुद्धूतोयोनोदेहेषुवर्त्तते ।  
 सोद्यशान्तिगतोविप्रयुष्मदर्शनवारिणा ॥१८॥  
 कच्चित्तेकुशलब्रह्मन्नाश्रमेमृगपक्षिषु ।  
 वृक्षेष्वथलतागुल्मत्वक्सारतृणजातिषु ॥१९॥  
 अथवानैतदुक्तहिसभ्यगस्माभिरादृतौ ।  
 भवतासंगमोयेषातेषामकुशलकुत ॥२०॥  
 प्रसादचकुरुष्वान्नब्रूह्यागमनकारणम् ।  
 देवानामिवससर्गोभवतोऽभ्युदयोमहान् ।  
 केनास्मद्भ्राग्यगुरुणाआनीतोदृष्टिगोचरम् ॥२१॥

इसके पश्चात् उन धर्मपक्षियो ने पादार्घ्य आदि से महामुनि का पूजन किया तथा प्रणाम के पश्चात् कुशल-प्रश्न किया ॥२५॥ उनके पङ्क्तो की हवा से व्यास शिष्य जैमिनि का श्रम दूर हुआ और वे सुखपूर्वक बैठे, तब वे पक्षि-गण उनसे बोले ॥१६॥ पक्षियो ने कहा—हे महाभाग ! हमारा जन्म और जीवन अब सफल हो गया है, क्योंकि देवताओ द्वारा पूजित आपके चरणारविन्दो का हमे दर्शन प्राप्त हुआ है ॥१७॥ हे ब्रह्मन् ! हमारे पिता की जो क्रोधाग्नि हमारे शरीरो मे अत्यन्त प्रबल रूप से रहती है, वह आपके दर्शन रूप जल से शान्त होगई है ॥१८॥ हे विप्र ! आपके आश्रम के मृग, पक्षिवृन्द, वृक्ष, लतादि सब कुशल पूर्वक तो है ॥१९॥ अथवा हमारा यह प्रश्न ही उचित नहीं है, क्योंकि आपके समीप निवास करने वालो के लिए अमङ्गल ही कसा ? ॥२०॥ अब आप यहाँ किसलिये पधारे है, यह हमको कृपा पूर्वक बताइये, आपका आगमन और देवताओ का समर्ग यह समान ही है, यह समझ मे नहीं आता कि भाग्य की किस प्रबलता से आपका दर्शन प्राप्त हो सका है ॥२१॥

श्रुयताद्विजशादूला कारणयेनकन्दरम् ।  
 विन्ध्यस्येहागतोरम्यरेवावारिकणोक्षितम् ।  
 सन्देहान्भारतेशास्त्रे तान्प्रष्टु गतवानहम् ॥२२॥  
 मार्कण्डेयमहात्मानपूर्वभृगुकुलोद्वहम् ।

तमहृष्टवान्प्राप्यसन्देहान्भारतप्रति ॥२३॥  
 सचपृष्टोमयाप्राहसन्तिविन्ध्येमहाचले ।  
 द्रोणपुत्रामहात्मानस्तेवक्ष्यन्त्यर्थविस्तरम् ॥२४॥  
 तद्वाक्यचोदितश्च ममागतोऽहमहागिरिम् ।  
 तच्छृणुध्वमशेषेणश्रुत्वाव्याख्यातुमर्हथ ॥२५॥  
 विषयेसतिवक्ष्यामोनिर्विशङ्क शृणुष्वतत् ।  
 कथतन्नवदिष्यामोयदस्मद्बुद्धिगोचरम् ॥२६॥  
 चतुर्ष्वपिहिवेदेषुधर्मशास्त्रेषुचैवहि ।  
 समस्तेषुतथाङ्गेषुयच्चान्यद्वेदसमितम् ॥२७॥  
 एतेषुगोचरोऽस्माकबुद्धेर्ब्राह्मणसत्तम ।  
 प्रतिज्ञानुसमावोढुं तथापिनहिशक्नुम ॥२८॥

जैमिन ने कहा—रेवा नदी जलकणो द्वारा मीचे हुए इस विध्य पर्वत की मनोहर कन्दरा मे, मै जिम लिए उपस्थित हुआ हूँ, वह सुनो । हे विप्रगण । महाभारत शास्त्र मे अनेक सदेह होने के कारण उनके समाधानार्थ ॥२२॥ मै महात्मा मार्खण्डेयजी के पास गया था और उनसे महाभारत के प्रति सदेह-प्रश्न किये थे ॥२३॥ उन्होने कहा कि विध्य पर्वत मे महात्मा द्रोण के पुत्र रहते है, वहाँ जाकर उनसे ही यह बात पूछो, इन प्रश्नो का सविस्तार वर्णन वही करेगे ॥२४॥ उन्ही के आदेश से मै इस महापर्वत मे उपस्थित हुआ हूँ, मेरे उन प्रश्नो को भले प्रकार सुनकर उनकी व्याख्या करदो ॥२५॥ पक्षी बोले—यदि कहने योग्य होगा तो अवश्य कहेगे, आप शका रहित चित्त से कहे, जो हमारी बुद्धि मे आयेगा, उसे क्यो न बतायेगे ? ॥२६॥ चारो वेद, सभी धर्मशास्त्र, वेदाङ्ग अथवा अन्य कोई भी वेद सम्मत शास्त्र ॥२७॥ यद्यपि हमारी बुद्धि के लिए गोचर है, फिर भी हम इसकी प्रतिज्ञा नही करेगे ॥२८॥

तस्माद्बदस्वविश्रब्धसन्दिग्धयद्धिभारते ।  
 वक्ष्यामस्तवधर्मज्ञनचेन्मोहोभविष्यति ॥२९॥  
 सन्दिग्धानीहवस्तुनिभारतप्रतियानिमे ।  
 शृणुध्वममलास्तानिश्रुत्वाव्याख्यातुमर्हथ ॥३०॥  
 कस्मान्मानुषताप्राप्तोनिर्गुणोऽपिजनार्दन ।

वासुदेवोऽखिलाधार सर्वकारणकारणम् ॥३१॥

कस्माच्चपाण्डुपुत्राणामेका साद्रुपदात्मजा ।

पञ्चानामहिषीकृष्णासुमहानत्रसशय ॥३२॥

भेषजब्रह्महत्यायाबलदेवोमहाबल ।

तीर्थयात्राप्रसङ्गेनकस्माच्चक्रेहलायुध ॥३३॥

कथंचद्रौपदेयास्तेऽकृतदारामहारथा ।

पाण्डुनाथामहात्मानोवधमापुरनाथवत् ॥३४॥

एतत्सर्वकथ्यतामेसन्दिग्धभारत प्रति ।

कृतार्थोऽहसुखयेनगच्छेयनिजमाश्रमम् ॥३५॥

इसलिए आपको महाभारत के प्रति जो शङ्का है, उसे व्यक्त कीजिए, हे धर्मज्ञ ! यदि मोह न हुआ तो उसे आपके प्रति अवश्य ही कहेंगे ॥२९॥ जैमिनि ने कहा—हे स्वच्छ चित्त खगगण ! महाभारत के जिन स्थलो में मुझे सदेह हुआ है, उन्हें सुनो और व्याख्या करो ॥३०॥ मेरी शका है कि सम्पूर्ण कारणों के कारण और समस्त ब्रह्माण्ड के आधार जनार्दन वासुदेव गुण-रहित होकर भी मनुष्य किस कारण हुए ॥३१॥ तथा द्रुपद की एक ही कन्या पाँच पाण्डवों की महिषी किस प्रकार हुई, यह अत्यन्त सशय है ॥३२॥ महाबली बलरामजी नीर्थयात्रा के प्रसंग में ब्रह्महत्या के पाप से किस प्रकार मुक्त हुए थे ? ॥३३॥ तथा युधिष्ठिर आदि पाँचों पाण्डव द्वारा रक्षित द्रौपदी के अविवाहित पुत्र अनाथ के समान मृत्यु को किस प्रकार प्राप्त हुए थे ॥३४॥ इन सब विषयों के प्रति मुझे अत्यन्त सदेह है, इन सदेहों का अपने उत्तर से समाधान करके मुझे कृतार्थ करो तो मैं सुख पूर्वक अपने आश्रम को लौट सकूँगा ॥३५॥

नमस्कृत्यसुरेशायविष्णवेप्रभविष्णवे ।

पुरुषायाप्रमेयायशाश्वतायाव्ययायच ॥३६॥

चतुर्व्यूहात्मनेतस्मैत्रिगुणायामृतायच ।

वरिष्ठायगरिष्ठायवरेण्यायामृतायच ॥३७॥

यस्मादणुतरनास्तियस्मान्नास्तिवृहत्तरम् ।

येनविश्वमिदव्याप्तमजेनजगदादिना ॥३८॥

आविर्भावतिरोभावदृष्टादृष्टविलक्षणम् ।  
 वदन्तियत्सृष्टमिदन्तथैवान्तेचसहृतम् ॥३८॥  
 ब्रह्मणेचादिदेवायनमस्कृत्यसमाधिना ।  
 ऋक्सामान्युद्गिरन्वक्त्रैर्यं पुनातिजगत्त्रयम् ॥४०॥  
 प्रणिपत्यतथैशानमेकबाणविनिर्जितै ।  
 यस्यामुरगणैर्यज्ञाविलुप्यन्तेनयज्विनाम् ॥४१॥  
 प्रवक्ष्यामोमतकृत्स्नव्यासस्याद्भुतकर्मण ।  
 येनभारतमुद्दिश्यधर्माद्या प्रकटीकृता ॥४२॥

पक्षियो ने कहा—जो देवताओ के अधीश्वर, सर्वव्यापी, अत्यन्त प्रभाव शाली, आत्मा, अप्रमेय, शाश्वत एव अव्यय स्वरूप है ॥३६॥ तथा जो वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप है, जो त्रिगुण अथवा निर्गुण है, जो उस्तम, गरिष्ठ, वरेण्य एव अमृत है ॥३७॥ जो यज्ञाङ्ग तथा चराचर विश्वात्मक है, वेदान्त शास्त्र मे जिनके स्वरूप का सक्षिप्त वर्णन हुआ है, सम्पूर्ण ससार मे जिनके समान सूक्ष्मतर या बृहत्तर नही है, सम्पूर्ण जगत् जिससे व्याप्त है, जो जगत् के आदि तथा अजन्मा है ॥३८॥ जिन भगवान् विष्णु के द्वारा आविर्भाव, तिरोभाव, दर्शन, अदर्शन आदि सभी कार्य सम्पन्न होते है, और जो उनसे अतीत, सृष्टिकर्ता और सहारकर्ता कहलाते है ॥३९॥ जो आदिदेव है तथा अपने चारो मुखो से चारो वेद प्रकट करके त्रैलोक्य को पवित्र करते है, उन ब्रह्माजी को ध्यान पूर्वक नमस्कार है ॥४०॥ जिनके एक बाण से ही सम्पूर्ण असुर परास्त होकर याज्ञिको के यज्ञ को नष्ट करने मे असमर्थ होते है, उन देवाधिदेव महादेव के चरणारविन्दो मे प्रणाम करके ॥४१॥ अद्भुत कर्म युक्त महर्षि बादरायण द्वारा महाभारत रूप से प्रकट हुए धर्मादि को महर्षि व्यास के मतानुसार सम्पूर्ण विषय आपको कहेगे ॥४२॥

आपोनाराइतिप्रोक्तामुनिभिस्तत्त्वदर्शिभि ।  
 अयनतस्यता पूर्वतेननारायण स्मृत ॥४३॥  
 सदेवोभगवान्सर्वव्याप्यनारायणोविभु ।  
 चतुर्धासस्थितोब्रह्मन्सगुणोनिर्गुणस्तथा ॥४४॥  
 एकामूर्तिरनिर्देश्याशुक्लापश्यन्तिताबुधाः ।

ज्वालामालोपरुद्धागीनिऽसायोगिनापरा ॥४५॥

दूरस्थाचान्तिकस्थाचविज्ञेयासागुणातिगा ।

वासुदेवाभिधानोऽसौनिर्ममत्वेनदृश्यते ॥४६॥

रूपवर्णादियस्तस्यानभावा कल्पनामय ।

अस्त्येवसासदाशुद्धासुप्रतिष्ठैकरूपिणी ॥४७॥

द्वितीयापृथिवीमूर्ध्नाशेषाख्याधारयत्यध ।

तामसीसासमाख्यातातिर्यक्त्वसमुदाश्रिता ॥४८॥

तृतीयाकर्मकुरुतेप्रजापालनतत्परा ।

सत्वोद्विक्तातुसाज्ञेयाधर्मसस्थानकारिणी ॥४९॥

चतुर्थीजलमध्यस्थाशेतेपन्नगतल्पगा ।

रजस्तस्यागुण सर्गसाकरोतिसदैवहि ॥५०॥

तत्त्वदर्शी मुनियो ने कहा—‘नार’ का अर्थ जल है, वह जल ही जिसका एक मात्र ‘अयन’ अर्थात् गृह है, इसलिए वे नारायण कहे जाते हैं ॥४३॥ हे भगवन् ! अनन्त लीलामय भगवान् नारायण सगुण तथा-निर्गुण दोनो प्रकार से चार मूर्ति से अवस्थित है ॥४४॥ उनकी जो एक मूर्ति वाणी से परे है उसे ज्ञानीजन शुक्लवर्ण कहते हैं, जो योगियो का एक मात्र आश्रय है तथा चन्द्र सूर्य आदि सम्पूर्ण तेजोमय पदार्थ स्वरूप ज्वालमाल से जिसके सब अङ्ग आच्छादित है ॥४५॥ जो नित्य मूर्ति तीनों गुणों का अतिक्रम करके दूर तथा समीप स्थित रहती है उम प्रधान मूर्ति का नाम वासुदेव है, इसमें ममता किञ्चित् भी नहीं है ॥४६॥ उमके रूप, वर्ण आदि कल्पनात्मक है, वह सर्व काल में विराजमान, एक रूप तथा परम पवित्र है ॥४७॥ जो मूर्ति पाताल में निवास करके पृथिवी को अपने मस्तक पर धारण करती है, उस दूसरी मूर्ति को सकर्षण कहते हैं, तामसी होने के कारण यह मूर्ति तिर्यग् योनि वाली है ॥४८॥ नारायण के जिस मूर्ति से सभी कर्म भले प्रकार से साध्य होते हैं और प्रजापालन आदि सब कार्य सम्पादन होते हैं तथा जो धर्म की रक्षा करने वाली सतो गुणी मूर्ति है, उसे प्रद्युम्न कहते हैं ॥४९॥ चौथी मूर्ति जल में पन्नगशय्या पर शयन करती है, वह रजोगुणी है, उसी के द्वारा सृष्टिकार्य

यातृतीयाहरेर्मूर्ति प्रजापालनतत्परा ।  
 सातुधर्मव्यवस्थानकरोतिनियतभुवि ॥५१॥  
 प्रोद्धूतानसुरान्हन्तिधर्मविच्छित्तिकारिणा ।  
 पातिदेवान्सतश्चान्यान्यधर्मरक्षापरायणान् ॥५२॥  
 यदायदाहिधर्मस्यग्लानिर्भवतिजैमिने ।  
 अभ्युत्थानमधर्मस्यतदात्मानसृजत्यसौ ॥५३॥  
 भूत्वापुरावराहेणतुण्डेनापोनिरस्यच्च ।  
 एकयादष्टयोत्खातानलिनीववसुधरा ॥५४॥  
 कृत्वानृसिहरूपचहिरण्यकशिपुर्हंत ।  
 विप्रचित्तिमुखाश्चान्येदानवाविनिपातिता ॥५५॥  
 वामनादीस्तथैवान्यान्यसख्यातुमिहोत्सहे ।  
 अवताराश्चतस्येहमाथुर साप्रतत्वयम् ॥५६॥  
 इतिसासात्विकीमूर्तिरवतारान्करोतिवै ।  
 प्रद्युम्नेतिचसाख्यातारक्षाकर्मण्यवस्थिता ॥५७॥  
 देवत्वेष्वमनुष्यत्वैतिर्यग्योनौचसस्थिता ।  
 गृह्णाति तत्स्वभावचवासुदेवेच्छयासदा ॥५८॥  
 इत्येतत्समाख्यातकृतकृत्योऽपियत्प्रभु ।  
 मानुषत्वगतोविष्णु शृणुष्वस्योत्तरपुन ॥५९॥

प्रजा का पालन करने वाली तीसरी मूर्ति के द्वारा ही पृथिवी में सदैव धर्म सस्थापन कार्य होता है ॥५१॥ धर्म को नष्ट करने वाले असुरगण उसी मूर्ति के द्वारा नाश को प्राप्त होते हैं तथा उसी के द्वारा धर्म रत साधुओं की रक्षा होती है ॥५२॥ हे जैमिने ! जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब यह मूर्ति धर्म के अभ्युत्थानार्थ प्रकट होती है ॥५३॥ प्राचीन समय में इसी मूर्ति ने वराह रूप धारण करके दाँतो के अग्र भाग से जल को हटा कर केवल दाढ़ों से पृथिवी को निकाला और पहिले के समान स्थिर किया ॥५४॥ उसी ने नृसिह रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का सहार किया और उसी ने विप्रचित्ति इत्यादि दैत्यों को मारा ॥५५॥ उसके वामनादि अन्यान्य बहुत से अवतार हुए जिनकी गणना नहीं कर सकते, इस समय वह

मूर्ति श्रीकृष्ण के रूप में उत्पन्न हुई है ॥५६॥ इस प्रकार उस सतोगुणी मूर्ति के उद्भूत होने पर उसकी रक्षा प्रद्युम्न मूर्ति करती है ॥५७॥ वह देवत्व, मनुष्यत्व अथवा तिर्यक् आदि योनियों में अवस्थान कर वासुदेव की इच्छानुसार उसके स्वभाव का अबलम्बन करती है ॥५८॥ आपके प्रति हमने यह सब कहा, अब भगवान् विष्णु ने मनुष्य शरीर जिस लिए धारण किया, उसे कहते हैं ॥५९॥

\* इति \*

### ५—द्रौपदी के पाँच पति

त्वष्ट्रपुत्रेहतेपूर्वब्रह्मन्निन्द्रस्यतेजस ।  
 ब्रह्महत्याभिभूतस्यपराहानिरजायत ॥१॥  
 तद्धर्मप्रविवेशाथशाक्रतेजोऽपचारत ।  
 निस्तेजाश्चाभवच्छक्रोद्धर्मतेजसिनिर्गते ॥२॥  
 तत पुत्रहतश्रुत्वत्वष्ट्राक्रुद्ध प्रजापति ।  
 अवलुच्यजटामेकामिदवचनमब्रवीत् ॥३॥  
 अद्यपश्यन्तुमेवीर्यत्नयोलोका सदेवता ।  
 सचपश्यतुदुर्बुद्धिर्ब्रह्माहापाकशासन ॥४॥  
 स्वकर्माभिरतोयेनमत्सुतोविनिपातित ।  
 इत्युक्त्वाकोपरक्ताक्षोजटामग्नौजुहावताम् ॥५॥  
 ततोवृत समुत्तस्थौज्वालामालीमहासुर ।  
 महाकायोमहादष्टोभिन्नाञ्जनचयप्रभ ॥६॥  
 इन्द्रशत्रुरमेयात्मात्वष्ट्रुतेजोपवृंहित ।  
 अहन्यहनिसोऽवर्द्धदिषुपातमहाबल ॥७॥

पक्षियों ने कहा—हे ब्रह्मन्<sup>१</sup> प्रजापति त्वष्टा का पुत्र त्रिशिरा अधो-मुख होकर तप कर रहा था, उसके तप से डर कर इन्द्र ने उसे मार डाला, उसके मारने से ब्रह्महत्या से उत्पन्न पातक से इन्द्र का तेज नष्ट होगया ॥१॥ अधर्म का आचरण करने से इन्द्र के तेज ने धर्म में प्रवेश किया और इस कारण इन्द्र निस्तेज होगये ॥२॥ त्रिशिरा की मृत्यु का वृत्तान्त सुनकर त्वष्टा अत्यन्त



क्रोधित हुए और उन्होंने अपने मस्तक की एक जटा उखाड़ कर कहा ॥३॥ देवगण सहित स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले सभी लोग इस समय मेरे तेज को देखे तथा मेरे पुत्र का हत्यारा दुर्बुद्धि वाला इन्द्र भी मेरे विक्रम को देखे ॥४॥ जिसने अपने कर्म में लगे हुए मेरे पुत्र का बध किया है, यह कह कर उन्होंने रक्त नेत्र किये हुए क्रोध पूर्वक उस जटा को अग्नि में हीम दिया ॥५॥ तब तत्काल ज्वालमाला युक्त विशालकाय, विशाल दृष्टाओं से युक्त, अजनपिण्ड जैसा रूप धारण किये वृत्र नामक एक घोर असुर अग्नि से प्रकट हुआ ॥६॥ त्वष्टा के तेज से उत्पन्न हुआ वह शक्रारि वृत्र, धनुष से छूटे हुए बाण की ऊँचाई के समान नित्य वृद्धि को प्राप्त होने लगा ॥७॥

वधायचात्मनोदृष्ट्वावृत्रशक्रोमहासुरम् ।

प्रेषयामाससप्तर्षीन्सन्धिमिच्छन्भयातुर ॥८॥

सख्यचक्रुस्ततस्तस्यवृत्रेणसमयास्तथा ।

ऋषय प्रीतमनस सर्वभूतहिते रता ॥९॥

समयस्थितिमुल्लङ्घयदाशक्रैराघातित ।

वृत्रोहत्याभिभूतस्यतदाबलमशीर्यत ॥१०॥

तच्छक्रदेहविभ्रष्ट बलमास्तमाविशत् ।

सर्वव्यापिनमव्यक्त बलस्यैवाधिदैवतम् ॥११॥

अहल्याचयदाशक्रोग्रैतमरूपमास्थित ।

धर्षयामासदेवेन्द्रस्तदारूपमहीयत ॥१२॥

अङ्गप्रत्यङ्गलावण्ययदतीवमनोरमम् ।

विहायदुष्ट देवेन्द्र नासत्यावगमत्तत ॥१३॥

धर्मेणतेजसात्यक्त बलहीनमरूपिणम् ।

ज्ञात्वासुरेशदैत्यास्तज्जयेचक्रु रूद्यमम् ॥१४॥

अपने बध के लिए उस घोर असुर वृत्र को उत्पन्न हुआ देख कर इन्द्र भय से अत्यन्त आतुर हुए और उन्होंने उससे सधि करने के उद्देश्य से मरीच्यादि से सप्त ऋषियों को उसके पास भेजा ॥८॥ सब जीवों की कल्याण-कामना वाले सप्त ऋषियों ने इन्द्र और वृत्रासुर के मध्य परस्पर प्रतिज्ञा करा के, मित्रता करायी ॥९॥ प्रतिज्ञा की मर्यादा का उल्लंघन करके जब वृत्रासुर

इन्द्र के द्वारा वध को प्राप्त हुआ, तब उसी ब्रह्महत्या से उत्पन्न पाप के कारण इन्द्र का बल नष्ट हो गया ॥१०॥ वह बल इन्द्र के देह से निकल कर बल के एक मात्र अधिदेव सर्व व्यापी एव अव्यक्त पवन देवता मे प्रविष्ट होगया ॥११॥ और जब इन्द्र ने गौतम का रूप धारण कर अहिल्या से सगति की, तब भी उसका स्वरूप श्री हीन होगया ॥१२॥ उस समय उस दुरात्मा इन्द्र के अङ्ग प्रत्यङ्ग का सम्पूर्ण लावण्य उसका त्याग करके दोनो अश्विनी कुमारो मे प्रवेश कर गया ॥१३॥ उस समय इन्द्र को धर्म और तेज के द्वारा त्यागा हुआ तथा बल और रूप से भी हीन समझ कर दैत्यो ने उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया ॥१४॥

राज्ञामुद्रिक्तवीर्याणादेवेन्द्रविजिगीषव ।

कुलेष्वतिबलादैत्याअजायन्तमहामुने ॥१५॥

कस्यचित्त्वथकालस्यधरणीभारपीडिता ।

जगाममेरुशिखरसदोयत्नदिवौकसाम् ॥१६॥

तेषासाकथयामासभूरिभारावपीडिता ।

तनुजात्मजदैत्योत्थखेदकारणमात्मन ॥१७॥

एतेभवद्भिरसुरानिहता पृथुलौजस ।

तेसर्वेमानुषेलोकेजातागेहेषुभूभृताम् ॥१८॥

अक्षौहिण्योहिबहुलास्तद्भ्रातृत्वात्रिजाम्यध ।

तथाकुरुध्वत्त्रिदशायथाशातिर्भवेन्मम ॥१९॥

तेजोभागैस्ततोदेवावतेरुद्विवोमहीम् ।

प्रजानामुपकारार्थंभूभारहरणायच ॥२०॥

हे महामुने ! महान् बल वाले दैत्यो ने इन्द्र पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा से बल, वीर्य और मद युक्त राजाओ के वश मे जन्म लिया ॥१५॥ फिर कुछ समय व्यतीत होने पर दैत्यो के भार से पृथिवी बोझिल हो गई और वह सुमेरु पर्वत मे देवताओ की सभा मे पहुँची ॥१६॥ और वह अत्यन्त बोझ की पीडा वाली देवी वसुन्धरा दैत्य-दानवो के कारण होने वाले अपने दुख का सम्पूर्ण कारण वहाँ कहने लगी ॥१७॥ हे देवगण ! तुमने जिन अत्यन्त बली असुरो का सहार किया था, उन्होने अब मर्त्यलोक के राजवश

मे जन्म धारण किया है ॥१८॥ वे दैत्य असख्य अक्षौहिणी सख्यक है, इसलिए उनके भार से अत्यन्त पीडित हुई मैं नीचे की ओर झुकी जा रही हूँ, हे देव-गण ! मुझे जिस प्रकार शान्ति मिल सके, वही करो ॥१९॥ पक्षियो ने कहा— हे मुनिवर ! इसके पश्चात् प्रजा के उपकार और पृथिवी के भार हरणार्थ देवताओ ने अपने-अपने तेजाँश से भू मण्डल पर जन्म लिया ॥२०॥

यदिन्द्रदेहजन्तेजस्तन्मुमोचस्वयवृष ।

कुन्त्याजातोमहातेजास्ततोराजायुधिष्ठिर ॥२१॥

बलमुमोचपवनस्ततोभीमोव्यजायत ।

शक्रवीर्यार्धतश्चैवजज्ञेपार्थोधनजय ॥२२॥

उत्पन्नौयमलौमाद्रचाशक्ररूपौमहाद्युती ।

पञ्चधाभगवानित्थमवतीर्ण शतक्रतु ॥२३॥

तस्योत्पन्नमहाभागापत्नीकृष्णाहुताशनात् ॥२४॥

शक्रस्यैकस्यसापत्नीकृष्णानान्यस्यकस्यचित् ।

योगीश्वरा शरीराणि कुर्वति बहुलान्यपि ॥२५॥

पचानामेकपत्नीत्वमित्येतत्कथिततव ।

श्रूयताबलदेवोऽपियथायात सरस्वतीम् ॥२६॥

तब इन्द्र के शरीर से उत्पन्न उस तेज को स्वय धर्म ने कुन्ती के गर्भ में स्थापित किया, उसी से अत्यन्त तेजस्वी राजा युधिष्ठिर की उत्पत्ति हुई ॥२१॥ और देवताओ मे श्रेष्ठ वायु ने इन्द्र के जिस तेज को कुन्ती के गर्भ मे स्थापित किया उससे भीमसेन और इन्द्र के आधे बल से कुन्ती के गर्भ से ही पार्थ अर्जुन उत्पन्न हुए ॥२२॥ इन्द्र के लावण्य को धारण करने वाले दोनो अश्विनी कुमारी ने माद्री मे गर्भ धारण कर दो ( यमल ) कुमारी को उत्पन्न किया, इस प्रकार इन्द्र ही इन पाँच रूपो मे प्रकट हुए ॥२३॥ तथा उन्ही इन्द्र की भार्या शची यज्ञभाग एव याज्ञ सेना रूप से अग्नि के द्वारा उत्पन्न हुई ॥२४॥ इससे निश्चय हुआ कि द्रौपदी केवल एक इन्द्र की ही महिषी थी क्योकि महात्मा एव योगीश्वर अपने देह के अनेक विभाग करने मे समर्थ है ॥२५॥ जैसे वह द्रौपदी पाँच व्यक्तियो की एक ही पत्नी हुई वह कारण बता दिया अब बलदेवजी जिस प्रकार सरस्वती मे पहुँचे, वह श्रवण करो ॥२६॥

## ६—बलदेव द्वारा ब्रह्महत्या

राम पार्थेपराप्रीतिज्ञात्वाकृष्णस्यलाङ्गली ।  
 चिन्तयामासबहुधाकिकृतसुकृतभवेत् ॥१॥  
 कृष्णेनहिविनानाह्यास्येदुर्योधनान्तिकम् ।  
 पाण्डवान्वासमाश्रित्यकथदुर्योधननृपम् ॥२॥  
 जामातरतथाशिष्यघातयिष्येनरेश्वरम् ।  
 तस्मान्नपार्थयास्यामिनापिदुर्योधननृपम् ॥३॥  
 तीर्थेष्वप्लावयिष्यामितावदात्मानमात्मना ।  
 कुरूणापाण्डवानाचयावदन्तायकल्पते ॥४॥  
 इत्यामत्र्यहृषीकेशपार्थदुर्योधनावपि ।  
 जगामद्वारकाशौरि स्वसैन्यपरिवारित ॥५॥  
 गत्वाद्वारवतीरामोहृष्टपुष्टजनाकुलाम् ।  
 श्वागन्तव्येषुतीर्थेषुपपौपानहलायुध ॥६॥  
 पीतपानोजगामाथरेवतोद्यानमृद्धिमत् ।  
 हस्तेगृहीत्वासमदारेवतीमप्सरोपमाम् ॥७॥

पक्षियो ने कहा—अर्जुन के प्रति श्रीकृष्ण की अत्यन्त प्रीति देख कर बलरामजी क्या करने से मगल होगा, इस विषय पर अनेक प्रकार विचार करने लगे ॥१॥ श्री कृष्ण को साथ लिए बिना ही मैं एकाकी दुर्योधन के पास नहीं जाऊँगा, इन पाण्डवों का पक्ष लेकर ॥२॥ अपने ही जामाता और शिष्य राजा दुर्योधन का किस प्रकार बध करूँ ? अतएव मैं राजा दुर्योधन और अर्जुन दोनों में से किसी के पास नहीं जाऊँगा ॥३॥ इसलिए कौरव-पाण्डवों का जब तक नाश न हो जाय तब तक इकला ही तीर्थ-यात्रा करता हुआ अपने आत्मा को पवित्र करूँ ॥४॥ ऐसा निश्चय करके बलरामजी ने हृषीकेश, अर्जुन और दुर्योधन को आमन्त्रण करते हुए अपनी सेना से घिरे हुए, द्वारका को प्रस्थान किया ॥५॥ जब वे हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों वाली द्वारका नगरी में पहुँचे तब तीर्थ यात्रा का विचार करते हुए उन्होंने ताडी का रस पान किया ॥६॥ रस पीने के उपरान्त अप्सरा के समान गवित रेवतीजी का कर ग्रहण

करते हुए अनेक वैभवो से युक्त रैवत उद्यान मे पहुँचे ॥७॥

स्त्रीकदम्बकमध्यस्थोययौमत्त पदास्खलन् ।

ददर्शचवनवीरारमणीयमनुत्तमम् ॥८॥

सर्वर्तु फलपुष्पाढ्य शाखामृगगणाकुलम् ।

पुण्यपद्मवनीपेतसल्वलमहावनम् ॥९॥

सशृण्वन्प्रीतिजननान्बहून्मदकलाञ्छुभान् ।

श्रोत्ररम्यान्सुमधुराञ्शब्दान्खगमुखेरितान् ॥१०॥

सर्वर्तु फलभाराढधान्सर्वर्तु कुसुमोज्ज्वलान् ।

अपश्यत्पादपास्तवविहगैरनुनादितान् ॥११॥

आम्नानाम्रातकान्भव्यान्नारिकेलान्सतिन्दुकान् ।

आबिल्वकास्तथाजीरान्दाडिमान्बीजपूरकान् ॥१२॥

पनसाल्लकुचान्मोचान्नीपाश्चातिमनोहरान् ।

पारावताँश्रकङ्कोलान्नलिनानम्लवेतसान् ॥१३॥

भल्लातकानामलकास्तिन्दुकाश्चमहाफलान् ।

इ गुदान्करमदाश्चहरीतकविभीतकान् ॥१४॥

एतानन्याश्चसत्तरून्ददर्शयदुनन्दन ।

तथैवाशोकपुन्नागकेतकीबकुलानथ ॥१५॥

मद्यपान से उन्मत्त होने के कारण स्त्रियो से घिरे रह कर क्रीडा रत होने पर उनके पाँव डगमगाने लगे, फिर स्वस्थ होकर उन्होने उस अत्यन्त रमणीय रैवत वन को देखा ॥८॥ वह समस्त ऋतुओ मे उत्पन्न होने वाले फलो, पुष्पो से सुशोभित, बदरो से व्याप्त, कमल वन से सम्पन्न तथा छोटे सरोवर और महावन से सम्पन्न था ॥९॥ रेवतीजी के साथ उस वन मे प्रविष्ट होकर बलरामजी आह्लाद उत्पन्न करने वाले तथा कानो को सुख देने वाले विभिन्न प्रकार के पशु-पक्षियो का मधुर कूजन सुनने लगे ॥१०॥ वहाँ वृक्षो मे सब ऋतुओ के फल लगे है, उन वृक्षो पर प्रसन्न पक्षी चहचहा रहे है तथा सभी ऋतुओ के पुष्प प्रफुल्लित हो रहे है और सभी रङ्गो के फल शोभा दे रहे है ॥११॥ आम, अम्रातक, नारियल, तिन्दु, बेल, अजीर, अनार, निम्बु ॥१२॥ कटहल, बडहल, मोचरस, कदम्ब, पारावत, ककोल, नलनि, अम्ल-

वेत ॥१३॥ भिलावा, तिल, तैदू, हिंगोट, करौदा, हरड, बहेडा ॥१४॥ वहाँ  
इन सब वृक्षो को बलरामजी ने देखा तथा अशोक, पुन्नाग, केतकी, मौलश्री  
॥१५॥

चम्पकान्सप्तपर्णाश्चकिरिणकारान्समालतीन् ।

पारिजातान्कोविदारान्दाराञ्चबदरास्तथा ॥१६॥

पाटलान्पुष्पितान्म्यान्देवदारुमास्तथा ।

सालास्तालास्तमालाश्चकिशुकान्बजुलान्वराम् ॥१७॥

चक्रोरै पातपत्रैश्चभृगराजैस्तथाशुकै ।

कोकिलै कलविकैश्चहारीतैर्जीवजीवकै ॥१८॥

प्रियपुत्रैश्चातकैश्चतथान्यैर्विविधै खगै

श्रोत्रम्यंसुमधुरं कृजद्विश्चाप्यधिष्ठितम् ॥१९॥

स्मरासिचमनोज्ञानिप्रसन्नसलिलानिच ।

कुमुदै पुण्डरीकैश्चतथानीलोत्पलै शुभै ॥२०॥

कल्लारै कमलैश्चापिआचितानिसमतत ।

कादम्बैश्चक्रवाकैश्चतथैवजलकुक्कुटै ॥२१॥

कारण्डवै प्लवहंसै कूर्मैर्दग्भिरिवच ।

एभिश्चान्यैश्चकीर्णानिसमन्ताञ्जलचारिभि ॥२२॥

चम्पा, कन्नेर, सप्तपर्ण, पारिजात, मालती, कोविदार, मन्दार, बेर

॥१६॥ पाटल, देवदार, सुबुआ, ताल, तमाल, पलाश और वजुल आदि

उत्तमोत्तम फल-पुष्पो से सम्पन्न वृक्षो से वह वन सुशोभित है ॥१७॥ उन वृक्षो

पर चकोर, जातपत्र, भृङ्गराज, शुक, सारिका, कोकिला, हरैल, जीवजीवक

॥१८॥ प्रियपुत्र तथा चातक आदि विभिन्न प्रकार के पक्षी, सुनने में मनोहर

शब्द करते हुए, इन सब वृक्षो की शाखाओ के आश्रय में निवास करते हैं

॥१९॥ उस रैवतक वन में स्वच्छ जल वाले सरोवर सुशोभित हैं, जिन्हें देखते

ही चित्त प्रसन्न होता है, कुमुद, पुण्डरीक, नीलपद्म ॥२०॥ कल्लार और

कमल आदि पुष्पो से सर्वत्र शोभायमान तथा कलहस, चक्रवा और जल कुक्कुट

॥२१॥ प्लव, हंस तथा कारण्डव आदि जलचर आदि के सहित अत्यन्त सुशो-

भित है ॥२२॥

क्रमेणेत्यवनशौरिर्वीक्ष्यमाणोमनोरमम् ॥  
जगामानु गत स्त्रीभिर्लतागृहमनुत्तमम् ॥२३॥  
सददर्शद्विजास्तत्रवेदेवेदागपारगान् ॥  
कौशिकान्भार्गवाश्चैवभरद्वाजान्सगौतमान् ॥२४॥  
विविधेषुचसभूतान्वशेषुद्विजसत्तमान् ॥  
कथाश्रवणबद्धोत्कानुपविष्टान्महत्सुच ॥२५॥  
कृष्णाजिनोत्तरीयेषुकुशेचुषुचवृसीषुच ॥  
सूतचतेषामध्यस्थकथयानकथा शुभा . ॥२६॥  
पौराणिकी सुरर्षीणामाद्यानाचरिताश्रया ॥  
दृष्ट्वारामद्विजा सर्वेमधुपानारुणेक्षणम् ॥२७॥  
मत्तोऽयमितिमन्वाना समुत्तस्थुस्त्वरान्विता ॥  
पूजयन्तोहलधरमृतेतसूतवशजम् ॥२८॥

उस वन को देखते हुए बलराम जी स्त्रियो के सहित एक अत्यन्त श्रेष्ठ लतागृह मे पहुचे ॥ २३ ॥ वहाँ उन्होने देखा कि अनेको वेदेवेदाङ्ग ज्ञाता ब्राह्मण, कुशिक वशी, भृगुवशी, तथा भारद्वाज और गौतम के वशधर ॥ २४ ॥ तथा अन्यान्य वशो के पवित्र ब्राह्मण और श्रेष्ठ मनुष्य बैठे हुए कथा श्रवण कर रहे है ॥ २५ ॥ कोई मृगचर्म पर, वस्त्र पर, कोई कुशाओ पर और कोई घास पर ही बैठे है तथा उनके मध्य मे मुराण की कथा कहने वाले सूतजी कल्याणमयी कथा कह रहे है ॥ २६ ॥ उस कथा मे देवताओ और ऋषिओ का वर्णन था । उसी समय उन ब्राह्मणो ने मदिरा के लाल दुए नेत्रो वाले बलराम जी को देखा ॥ २७ ॥ सब मुनियो ने उन्हे मदोन्मत्त देखा उस समय सूतजी के अतिरिक्त अन्य सभी ने उठ कर अत्यन्त आदर पूर्वक बलराम जी का पूजन किया ॥ २८ ॥

तत क्रोधसमाविष्टोहलीसूत महाबलः ॥  
निजधानवृत्ताक्ष क्षोभिताशेषदानव ॥२८॥  
अध्यास्यतिपदब्राह्म तस्मिन्सूतोनिपातिते ॥  
निष्क्रान्तास्ते द्विजा सर्वेवनात्कृष्णाजिनाम्बरा ॥३०॥  
अवधूततथात्मानमन्यमानोहलायुध ॥

चिन्तयामाससुमहन्मयापापमिदकृतम् ॥३१॥  
 ब्राह्म स्थानगतोह्येषयत्सूतोविनिपातित ॥  
 तथाहिमेद्विजा सर्वमामवेक्ष्यविनिर्गता ॥३२॥  
 शरीरस्यचमेगन्धोलोहस्येवासुखावह ॥  
 आत्मानचावगच्छामिब्रह्म घ्नमिवकुतिसतम् ॥३३॥  
 धिगमर्षतथामह्यमतिगानमभीरुताम् ॥  
 यैराविष्टेनसुमहन्मयापापमिदकृतम् ॥३४॥  
 तत्क्षयार्थंचरिष्यामिव्रतद्वादशवार्षिकम् ।  
 स्वकर्मख्यापनकुर्वन्प्रायश्चित्तमनुत्तमम् ॥३५॥  
 अथयेयसमारब्धातीर्थयात्रामयाधुना ।  
 एतामेवप्रयास्यामिप्रतिलोमासरस्वतीम् ॥३६॥  
 अतोजगामरामोऽसौप्रतिलोमासरस्वतीम् ।  
 तत परश्रृणुष्वेमपाण्डवेयकथाश्रयम् ॥३७॥

फिर दानवो के हन्ता महान् पराक्रमी बलरामजी ने सूतजी के द्वारा अपना तिरस्कार हुआ समझ कर अत्यन्त क्रोध से लाल नेत्र कर सूतजी को मार डाला ॥ २९ ॥ पुराणवेत्ता सूतजी के मर-कर स्वर्ग में पहुँच जाने पर मृगछालाओ पर बैठे हुए सभी ब्राह्मण वहाँ से उठकर चले गए ॥ ३० ॥ तब जिन बलरामजी की देह पर मद् प्रतीत हो रहा था, वह चिन्ता और पश्चात्ताप करने लगे कि मैं ऐसा घोर पाप क्यों कर बैठा ? ॥ ३१ ॥ मैंने जिन सूतजी को मारा, वह ब्रह्मस्थान को प्राप्त हुए और सभी ब्राह्मण मुझे देखते ही चले जाते हैं ॥ ३२ ॥ मेरे देह से असुरत्व प्रदर्शित करने वाली लौह तुल्य गध निकल रही है और आत्मा भी ब्रह्महत्या से उत्पन्न पाप से क्लुषित प्रतीत होती है ॥ ३३ ॥ अरे अमर्ष ! तुझे धिक्कार है, अरे मद्य ! तुझे भी धिक्कार है, अत्यन्त सम्मान और साहस को भी धिक्कार है, क्योंकि इन्हीं के वशीभूत होकर मैं ऐसा घोर पातक कर बैठा ॥ ३४ ॥ अब इस ब्रह्महत्या से उत्पन्न महा पातक को दूर करने के लिए बारह वर्ष तक व्रत करता हुआ अपने पाप को सर्वत्र विख्यात करके इसका प्रायश्चित्त करूँगा ॥ ३५ ॥ अथवा जिस तीर्थ यात्रा का जो उद्यम मैं कर रहा हूँ, उसी यात्रा में प्रतिलोमा सरस्वती



द्रौपदी के पाँच पुत्रों की मृत्यु ]

[ ११३ ]

मे जाऊँगा ॥ ३६ ॥ हे मनु ! ऐसा कह कर यदुकुल धुरधर बलरामजी प्रतिलोमा सरस्वती को जाकर प्राप्त हुए, अब तुम्हारे प्रति पाण्डव पुत्रों का वृत्तान्त कहते हैं, उसे श्रवण करो ॥ ३७ ॥

### ७—द्रौपदी के पाँच पुत्रों की मृत्यु

हरिश्चन्द्रे तिरार्जषिरासीत्त्रेतायुगेपुरा ।  
धर्मात्मापृथिवीपाल प्रोल्लसत्कीर्तिरुत्तम ॥१॥  
नदुर्भिक्ष नचव्याधिर्नाकालमरणनृणाम् ।  
नाधर्मरुचय पौरास्तस्मिन्शासतिपार्थिवे ॥२॥  
बभूवुर्नतथोन्मत्ताधनवीर्यतपोमदै ।  
नाजायन्तस्त्रियश्चैवकाश्चिदप्राप्तयौवना ॥३॥  
सकदाचिन्महाबाहुरण्येऽनुसरन्मृगम् ।  
शुश्रावशब्दमसकृत्त्रायस्वेतिचयोषिताम् ॥४॥  
सविहायमृगराजामाभैषीरित्यभाषत ।  
मयिशासतिदुर्मेधा कोऽयमन्यायवृत्तिमान् ॥५॥  
तत्क्रन्दितानुसारिचसर्वारम्भविघातकृत् ।  
एतस्मिन्नन्तरेरौद्रोविघ्नराट्समचिन्तयत् ॥६॥  
विश्वामित्रोऽयमतुलतपआस्थायवीर्यवान् ।  
प्रागसिद्धाभवादीनाविद्या साधयतिव्रती ॥७॥

धर्मात्मा पक्षियो ने कहा—हे जैमिनि ! पुराकाल मे, त्रेता मे हरिश्चन्द्र नाम के एक धार्मिक नरेश हुए, वह अत्यन्त कीर्ति से युक्त, पृथ्वी का पालन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष थे ॥ १ ॥ उनके शासन-काल मे दुर्भिक्ष नही पडा और प्रजा को रोग, अकाल मृत्यु का फल तथा अधर्म-फल नहीं भोगना पडता था ॥ २ ॥ उनकी प्रजा भी धन, बल या धर्म के मद से उन्मत्त नही होती थी, स्त्रियों भी यौवनावस्था प्राप्त किये बिना सन्तानवती नही होती थी ॥ ३ ॥ एक समय की बात है वह आखेट के लिए वन मे गए, उसी समय उन्होने अनेक स्त्रियों के कठ से 'रक्षा करो, रक्षा करो' का शब्द सुना ॥ ४ ॥ तब राजा मृगया छोड कर 'डरो मत' कहते हुए बोले कि मेरे शासनकाल मे कौन दुर्बुद्धि अन्याय का आचरण करता है ? ॥ ५ ॥ यह कह कर उन्होने

उस करुण स्वर का अनुसरण किया, उसी समय सब कार्यो को नष्ट करने वाला भयकर विघ्नराज सोचने लगा ॥ ६ ॥ इस वन मे जिन साधनो को पहिले कोई नही साध सजा उन्हे भवादि सम्पूर्ण विद्याओ का साधन ब्रतालम्बन एव घोर तप द्वारा महामुनि विश्वमित्रजी कर रहे है ॥ ७ ॥

साध्यमाना क्षमामौनचित्तसयमिनाऽमुना ।

तावैभयार्त्ता क्रन्दन्तिकथकार्यमिदमया ॥८॥

तेजस्वीकौशिकश्चेष्टोवयमस्यसुदुर्बला ।

क्रोशन्त्येतास्तथाभीतादुष्पारप्रतिभातिमे ॥९॥

अथवायनृप प्राप्नोमाभैरितिवदन्मुहु ।

इममेवप्रविश्याशुसाधयिष्येयथेप्सितम् ॥१०॥

इतिसचिन्त्यरौद्र णविघ्नराजेनवैतत ।

तेनाविष्टोनृप कोपादिदवचनमब्रवीत् ॥११॥

कोऽयब्रध्नातिवस्त्रान्तेपावकपापकृन्नर ।

बलोष्णतेजसादीप्तेमयिपत्यावुपस्थिते ॥१२॥

सोऽद्यमत्कामुं काक्षेपविदीपितदिगन्तरै ।

शरैर्विभिन्नसर्वागोदीर्घनिद्राप्रवेक्ष्यति ॥१३॥

विश्वामित्रस्तत क्रुद्ध श्रुत्वातनृपतेर्वच ।

क्रुद्धेचर्षिवरेतस्मिन्नेशुर्विद्या क्षणेनता ॥१४॥

क्षमा, मौन और चित्त के सयम द्वारा वे मुनिवर जिन विद्याओ के साधन मे अहर्निश श्रद्धा से रत है, वे विद्याएँ अत्यन्त भयभीत हो नारी रूप मे 'रक्षा करो' कहती हुई रोती है, अब मुझे क्या कर्त्तव्य है ? ॥ ८ ॥ क्योंकि विश्वामित्रजी अत्यन्त तेजस्वी है और मैं इनके समक्ष अत्यन्त दुर्बल हूँ और यह विद्याएँ भी भय से रुदन कर रही है, इस प्रकार अत्यन्त कठिन वार्त्ता उपस्थित है ॥ ९ ॥ अथवा मुझे किसी प्रकार चिन्तित नही होना चाहिए, क्योंकि राजा हरिश्चन्द्र 'डरो मत' कहता हुआ आ पहुँचा है, इसलिए इस राजा के देह मे धुस कर ही अपनी इच्छा पूर्ण करता हूँ ॥ १० ॥ उस समय भयकर विघ्नराज ने इस प्रकार विचार कर राजा के देह मे प्रवेश किया, तब राजा ने और भी क्रोध पूर्वक कहा ॥ ११ ॥ यह कौन पापी,

वस्त्र में अग्नि को बाँध रहा है ? जब मैं माक्षात् बल रूप, अत्यन्त तेजस्वी भूपति हरिश्चन्द्र यहाँ आ गया हूँ ॥ १२ ॥ इस समय कौन मूर्ख धनुष से छूट कर दिशाओ में प्रकाश करने वाले मेरे वाणों से छिद कर योग निद्रा को प्राप्त होगा ॥ १३ ॥ तब राजा हरिश्चन्द्र के यह अहंकारमय वचन सुन कर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध करने ही सब विद्या नष्ट हो गई ॥ १४ ॥

सचापिराजातदृष्ट्वा विश्वामित्रतपोनिधिम् ।

भीत प्रावेपतात्यर्थसहसाश्वत्थपर्णवत् ॥१५॥

सदुरात्मन्नितियदामुनिस्तिष्ठेतिचाब्रवीत् ।

तत सराजाविनयात्प्रणि पत्याभ्यभाषत ॥१६॥

भगवन्नेषधर्मोमेनापराधोममप्रभो ।

नक्रोद्धुमर्हसिमुनेनिजधर्मरतस्यमे ॥१७॥

दातव्यक्ष तव्यचधर्मज्ञेनमहीक्षिता ।

चापचोद्यम्ययोद्धव्यधर्मशास्त्रानुसारत ॥१८॥

दातव्यकस्यकेरक्षया कैर्योद्धव्यचतेनृप ।

क्षिप्रमेतत्समाचक्ष्वयद्यधमेभयतव ॥१९॥

दातव्यविप्रमुख्येभ्योयेचान्येकृशवृत्तय ।

रक्ष्याभीता सदायुद्ध कर्तव्यपरिपन्थिभि ॥२०॥

यदिराजाभवान्सम्यग्राजधर्ममवेक्षते ।

निर्वेष्टुकामोविप्रोऽहृदीयतामिष्टदक्षिणा ॥२१॥

सहसा तपोनिधि विश्वामित्रजी को देख कर राजा हरिश्चन्द्र अत्यन्त भयभीत होकर पीपल-पत्र के समान काँपने लगे ॥ १५ ॥ उसी समय मुनिवर विश्वामित्र ने कहा 'दुरात्मन् ! ठहर' यह सुन कर राजा ने उनको प्रणाम किया और विनय पूर्वक बोले ॥ १६ ॥ हे भगवन् ! मेरा धर्म यही है, आप मेरे अपराध को न मानिये, मैंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया है, इसलिए मेरे प्रति क्रोध न करिये ॥ १७ ॥ धर्मज्ञ नरेशों का कर्तव्य ही धर्मानुसार दान, रक्षा और धनुष धारण करके युद्ध करना है ॥ १८ ॥ विश्वामित्र बोले—राजन् ! यदि तुम्हें अधर्म से भय है तो यह बताओ कि

दान किमको करना चाहिए, किमकी रक्षा और किम के युद्ध साथ करना उचित है ? ॥ १९ ॥ हरिश्चन्द्र बोले—जो सदैव व्रत अनुष्ठान में तत्पर और ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी के लिए दान करे, भयभीत की रक्षा करे और शत्रुओं के साथ युद्ध करे ॥ २० ॥ विश्वामित्र ने कहा कि राजन् ! यदि तुम्हें सम्पूर्ण राजधर्म का ज्ञान है तो मैं मुमुक्षु ब्राह्मण हूँ, मुझे इच्छित दक्षिणा प्रदान करो ॥ २१ ॥

एतद्राजावच श्रुत्वाप्रहृष्टेनान्तरात्मना ।  
 पुनर्जातमिवात्मानमेनेप्राह चकौशिकम् ॥२२॥  
 उच्यताभगवन्यत्त दातव्यमविशङ्कितम् ।  
 दत्तमित्येवतद्विद्वियद्यपिस्यात्सुदुर्लभम् ॥२३॥  
 हिरण्यवासुवर्णवापुत्रस्त्रियकलेवरम् ।  
 प्राणाराज्यपुरलक्ष्मीर्यदभिप्रेतमात्मन ॥२४॥  
 राजन्यतिगृहीतोऽप्ययस्तेदत्त प्रतिग्रह ।  
 प्रयच्छप्रथमतावद्दक्षिणाराजसूयिकीम् न२५॥  
 ब्रह्म स्तामपिदास्यामिदक्षिणाभवतोह्यहम् ।  
 त्रियताद्विजशर्दूलयस्तवेष्ट प्रतिग्रह ॥२६॥  
 ससागराधरामेतासभूद्ग्रामपत्तनाम् ।  
 राज्यचसकलवीररथाश्वगजसकुलम् ॥२७॥  
 कोष्ठागारचकोशचयज्ञान्यद्विद्यतेतव ।  
 विनाभार्याचपुत्रचशरीरचतवानघ ॥२८॥  
 धर्मचसर्वधर्मज्ञयोन्यन्तमनुगच्छति ।  
 बहुनावाकिमुक्तेनसर्वमेतत्प्रदीयताम् ॥२९॥

पक्षियो ने कहा कि हे जैमिने ! राजा हरिश्चन्द्र ने यह बात सुन कर आह्लाद और प्रफुल्लता युक्त होकर अपना नया जन्म समझते हुए मुनि से कहा ॥ २२ ॥ हे भगवन् ! आप अपनी अभिलाषा कहे, मैं उसे देने के लिए तत्पर हूँ तथा प्रतिज्ञा करता हूँ कि कठिन से कठिन बात को भी पूरी करूँगा ॥ २३ ॥ आपको स्वर्ण, रत्न, पुत्र, स्त्री, देह, प्राण, राज्य, ग्राम, धन जिस वस्तु की इच्छा हो वही बतलाइये ॥ २४ ॥ विश्वामित्र ने कहा—आप जो

देगे, वही मैंने ग्रहण कर लिया समझो, परन्तु अब प्रथम राजसूय यज्ञ की दक्षिणा मुझे दो ॥ २५ ॥ राजा बोले—ब्रह्मान् ! यह देने को मैं तत्पर हूँ, राजसूय यज्ञ की दक्षिणा के रूप में आपकी जो इच्छा हो सो आज्ञा करे ॥ २७ ॥ विश्वामित्र ने कहा—समस्त नगर, ग्राम, पर्वत, सागर आदि से युक्त पृथिवी एव रथ, अश्व, हाथी सहित सम्पूर्ण राज्य ॥ २७ ॥ अन्तर्गृह, राजकोश आदि तुम्हारी सभी वस्तुएँ, बिना भार्या, पुत्र तथा अपने शरीर के ॥ २८ ॥ तथा धर्मशास्त्र के अनुसार तुम्हारे सभी अनुगत अथवा तुम्हारे पास जो कुछ है, सब कुछ मुझे दे दो ॥ २९ ॥

प्रहृष्टेनैवमनसासोऽविकारमुखोनृप ।

तस्यर्षेर्वचनश्रुत्वातथेत्याहकृताञ्जलि ॥३०॥

सर्वस्वयदिमेदत्त राज्यमुर्वीबलधनम् ।

प्रभुत्वकस्यराजर्षेराज्यस्थेतापसेमयि ॥३१॥

यस्मिन्नपिमयाकालेब्रह्मन्दत्तावसुन्धरा ।

तस्मिन्नपिभवान्स्वामीकिमुताद्यमहीपति ॥३२॥

यदिराजस्त्वयादत्ताममसर्वावसुन्धरा ।

यत्रमेविषयेस्वाम्यतस्मान्निष्क्रान्तुमर्हसि ॥३३॥

श्रोणीसूत्रादिसकलमुक्त्वाभूषणसग्रहम् ।

तरुवल्कलमाबध्यसहपत्न्यासुतेनच ॥३४॥

तथेतिचोक्त्वाकृत्वाचराजा गन्तु प्रचक्रमे ।

स्वपत्न्याशौब्ययासार्धाबालकेनात्मजेनच ॥३५॥

पक्षियो ने कहा—मुनि के वचन सुन कर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़ कर 'जो आज्ञा, ऐसा ही होगा' मुख से कहा ॥ ३० ॥ विश्वामित्र ने कहा—तुमने पृथिवी, बल, धन इत्यादि सर्वस्व ही मुझे अर्पण कर दिया है, तब तपस्वी होकर राज्य करने से किसका प्रभुत्व रहेगा ? ॥ ३१ ॥ हरिश्चन्द्र बोले—ब्रह्मान् ! जब से मैंने यह वसुधरा आपको दे दी, तभी से आप इसके स्वामी हैं, फिर आप प्रभुत्व का प्रश्न क्यों करते हैं ॥ ३२ ॥ विश्वामित्र ने कहा—राजन् ! तुमने जब यह वसुधरा मुझे दे दी और मेरा स्वामित्व हो गया तो तुम अब इस राज्य से चले जाओ ॥ ३३ ॥ कटि-

भूषण आदि तुम्हारी भार्या और पुत्र के देह में है, उन सब को उतार कर वृक्षों छाल धारण करके पत्नी पुत्र सहित मेरे राज्य से निकल जाओ ॥ ३४ ॥ पक्षियों ने कहा—राजा हरिश्चन्द्र ने मुनि विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार देश के कार्य किये और अपनी भार्या शैब्या और पुत्रके सहित जाने लगे ॥ ३५ ॥

ब्रजत सततोरुद्धापन्थानप्राहतनृपम् ।

क्वयास्यसीत्यदत्त्वामेदक्षिणाराजसूयिकीम् ॥३६॥

भगवन्सराज्यमे तत्तदत्तो निहतकण्टकम् ।

अवशिष्टमिदब्रह्मन्नद्यदेहत्रयमम ॥३७॥

तथापिखलुदातव्यात्वयामेयज्ञदक्षिणा ।

विशेषतो ब्राह्मणानाहन्यदत्त प्रतिश्रुतम् ॥३८॥

यावत्तोषोराजसूयेब्राह्मणानाभवेन्नृप ।

तावदेवतुदातव्यादक्षिणाराजसूयिकी ॥३९॥

प्रतिश्रुत्यचदातव्ययोद्धव्यचाततायिभि ।

रक्षितव्यास्तथाचार्त्ता स्त्वयैवप्राक्प्रतिश्रुतम् ॥४०॥

भगवन्साम्प्रतनास्तिदास्येकालक्रमेणते ।

प्रसादकुरुविप्रर्षेसद्भावमनुचिन्त्यच ॥४१॥

किप्रमाणोमयाकाल प्रतीक्ष्यस्तेजनाधिप ।

शीघ्रमाचक्ष्वशापाग्निरन्यथात्वाप्रधक्ष्यति ॥४२॥

तभी विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोका और कहने लगे—हे राजन् !

राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दिये बिना कहाँ जा रहे हो ? ॥ ३६ ॥ हरिश्चन्द्र ने कहा—हे भगवन् ! मैंने आपको अपना सम्पूर्ण राज्य निष्कटक रूप से आपको दे दिया है, अब इन तीन प्राणियों के शरीर के अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है ॥ ३७ ॥ विश्वामित्र बोले—यदि इन तीन शरीरों के अतिरिक्त कुछ और नहीं है तो भी यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही होगी, क्योंकि ब्राह्मण में कही हुई वस्तु न थने से सब कुछ नष्ट हो जाता है ॥ ३८ ॥ हे नरेश ! राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण जिस वस्तु से सतुष्ट हो वही उसकी यज्ञ दक्षिणा है ॥ ३९ ॥ तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि अ गीकृत दान, आततायी से युद्ध और आर्त्ता पुरुष की भले प्रकार रक्षा करनी चाहिए ॥ ४० ॥ हरिश्चन्द्र

बोले—हे ब्रह्मर्षे ! आप साधुत्व का अवलम्बन करके प्रसन्न हों, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, काल क्रम से आपको दूँगा ॥ ४१ ॥ विश्वामित्र ने कहा—हे राजन् ! मैं कब तक प्रतीक्षा करूँ ? मुझे शीघ्र बताओ, नहीं तो शापानल में भस्म हो जाओगे ॥ ४२ ॥

मासेनतव विप्रर्षेप्रदास्येदक्षिणाधनम् ।

साम्प्रतनास्तिमेवित्तमनुज्ञादातुमर्हसि ॥४३॥

गच्छगच्छ नृपश्रेष्ठस्वधर्ममनुपालय ।

शिवश्रुतेऽवाभवतुमासन्तुपरिपन्थिन ॥४४॥

अनुज्ञात सगच्छेतिजगामवसुधाधिप ।

पद्भ्यामनुचितागन्तुमन्वगच्छच्चत्त प्रिया ॥४५॥

तसभार्यनृपश्रेष्ठ निर्यान्तससुतपुरात् ।

दृष्ट्वाप्रचुक्रुशु पौराराज्ञश्चैवानुयायिन ॥४६॥

हानार्थकिजहास्यस्मान्नित्यार्त्तिपरिपीडितान् ।

त्वधर्मतत्परोराजन्पौरानुग्रहकृत्तथा ॥४७॥

नयास्मानपिराजर्षेयदिधर्ममवेक्षसे ।

मुहूर्त्ततिष्ठराजेन्द्रभवतोमुखपङ्कजम् ॥४८॥

पिवामोनेत्रभ्रमरै कदाद्रक्ष्यामहेपुन ।

यस्यप्रयातस्यपुरोयान्तिपृष्ठेचपार्थिवा ॥४९॥

तस्यानुयातिभार्येय गृहीत्वाबालकसुतम् ।

यस्यभृत्या प्रयातस्ययान्त्यग्रेकुञ्जरस्थिता ॥५०॥

सएषपद्भ्याचाराजेन्द्रोहरिश्चन्द्रोद्यगच्छति ।

हाराजकुमारतेसुभ्रुसुत्वचमुन्नसम् ॥५१॥

हरिश्चन्द्र ने कहा—हे ब्रह्मन् ! मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, एक

मास में आपकी दक्षिणा उपस्थित कर दूँगा, इसलिए आज्ञा दोजिये ॥ ४३ ॥

विश्वामित्र ने कहा—हे भूपश्रेष्ठ ! जाओ, अपने धर्म के पालनार्थ गमन करो

तुम्हारे विघ्न दूर हो और तुम्हारा कल्याण हो ॥ ४४ ॥ पक्षियो ने कहा—

हे मुनिश्रेष्ठ जमिने ! फिर वह राजर्षि हरिश्चन्द्र मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र द्वारा

जाने की अनुमोदन प्राप्त कर चल दिये, रानी शैब्या भी उनके पीछे-पीछे

चली ॥ ४५ ॥ इधर नगर मे रहने वाले प्रजाजन पुत्रादि के सहित राजा को जाते देख कर ऊँचे स्वर से रोते हुए उनके पीछे चलने लगे ॥ ४६ ॥ हे महाराज ! यदि आप धर्म मे लगे रहने वाले और अनुग्रह पूर्वक प्रजा के पालन मे तत्पर रहने वाले है तो अपनी प्रजा का किस लिए त्याग कर रहे है ? ॥ ४७ ॥ हे राजर्षि ! यदि आप धर्म की ओर देखे तो हमको भी साथ ले चले, हे राजेन्द्र ! घुछ समय के लिए तो ठहरिये हम एक वार आपके मुखारविद को ॥ ४८ ॥ भौरे के समान पान कर सके फिर कब आपका दर्शन हो सकेगा ? जिनके चलते समय भूमडल के सभी नरेश आगे-पीछे गमन करते थे ॥ ३९ ॥ उन्ही राजा हरिश्चन्द्र की पत्नी आज अपने बालक को लिए हुए उनका अनुगमन कर रही है । जिनके चलते समय सभी भृत्य हाथियो के मस्तक पर चढ कर आगे-आगे दौडते थे ॥ ५० ॥ आज वे राजेन्द्र स्वय पदयात्रा कर रहे है ॥ ५१ ॥

पथिपासुपरिक्लिष्ट मुखकीदृग्भविष्यति ।

तिष्ठतिष्ठनृपश्चेष्टस्वधर्ममनुपालय ॥५२॥

आनृशस्यपरोधर्म क्षत्रियाणाविशेषत ।

किदारै-किसुतैर्नाथिधनैर्धान्यैरथापिवा ॥५३॥

सर्वमेतत्परित्यज्यच्छायाभूतावयतव ।

हानाथहामहाराजहास्वामिन्किजहासिन ॥५४॥

यत्रत्वत्रहिवयतत्सुखयत्रवैभवान् ।

नगरतद्भवान्यत्रसस्वर्गोयत्रनोनृप ॥५५॥

इतिपौरवच श्रुत्वा राजाशोकपरिलुप्त

अतिष्ठत्सदा मार्गतेषामेवानुकम्पया ॥५६॥

आपका यह शोभायमान मुख मडल मार्ग मे धूल धूसरित हो जायगा, उस समय कितनी शोचनीय अवस्था होगी ? इसलिए आप मत जाइये, यही रह कर अपना धर्म-पालन कीजिए ॥ ५२ ॥ क्षत्रियो का मुख्य धर्म दया है, हमको पुत्र, धन अथवा धान्यादि किसी वस्तु की भी आवश्यकता नहीं है ॥ ५३ ॥ हम भी सर्वस्व त्याग कर आपके साथ छाया के समान रहेगे, इस-लिए हे प्रभो आप हमारा त्याग न कीजिये ॥ ५४ ॥ जहाँ आप जाँयगे, वही



हम जायेंगे, जहाँ आपको सुख है, वही हमको भी होगा, जहाँ आप रहेंगे, वही हमारा नगर है, जहाँ राजा का निवास हो, वही स्वर्ग है ॥ ५५ ॥ प्रजा के इस प्रकार के वचन सुनकर राजा हरिश्चन्द्र शोक मग्न होगए और उनकी दया धेख कर कुछ समय मार्ग में ही खडे रहे ॥ ५६ ॥

विश्वामित्रोऽपितदृष्ट्वापौरवाक्याकुलीकृतम् ।

रोषामर्षविवृत्ताक्ष समागम्यवचोऽब्रवीत् ॥५७॥

धिक्त्वादुष्टसमाचारमनृतजिह्वाभाषिणम् ।

ममराज्यचदत्त्वाय पुन प्राक्रष्टुमिच्छसि ॥५८॥

इत्युक्त परुषतेनगच्छामीतिसवेपथु ।

ब्रुवन्नो वययौशीघ्रमाकर्षन्दयिताकरे ॥५९॥

कर्षतस्ताततोभार्या सुकुमारीश्रमातुराम् ।

सहसादण्डकाष्ठे नताडयामासकौशिक ॥६०॥

तातथाताडितादृष्ट्वाहरिश्चन्द्रोमहीपति ।

गच्छामीत्याहदु खार्तो नान्यत्किञ्चिदुदाहरत् ॥६१॥

अथविश्वे तदादेवा पचप्राहु कृपालव ।

विश्वामित्र सुपापोऽयलोकान्कान्समवाप्स्यति ॥६२॥

येनाययज्वनाश्रेष्ठ स्वराज्यादवरोपित ।

कस्यवाश्रद्धयापूतसुतसोममसाध्वरे ।

पीत्वावयप्रयास्यामोमुदमन्त्रपुर सरम् ॥६३॥

तभी प्रजा के वचनो से राजा को आकुल हुआ देख कर विश्वामित्रजी आ पहुँचे और रोष पूर्वक घूरते हुए कहने लगे ॥ ५७ ॥ ये दुष्ट ! मिथ्या-वादिन् ! इस सम्पूर्ण राजत्व को अब पुन मुझसे ले लेना चाहता है, तुझे धिक्कार है ॥ ५८ ॥ इस प्रकार विश्वामित्र के वचन सुन कर 'जाता हूँ' कहते हुए राजा हरिश्चन्द्र कम्पित गात से चलने को उद्यत हुए और उन्होंने शैब्या का हाथ खीचा ॥ ५९ ॥ कोमलागी शैब्या अत्यन्त थक गई थी, राजा उसे चलने को खीच रहे थे, फिर भी विश्वामित्र अपने डण्डे से रानी की पीठ में आघात करने लगे ॥ ६० ॥ पृथिवीपति हरिश्चन्द्र शैब्या को इस प्रकार ताडित होते देख कर अत्यन्त दुःखी हुए, फिर भी इतना ही बोले कि भगवन् मैं जारहा हूँ

॥ ६१ ॥ यह देख कर पाँच जन लोकपाल, विश्वेदेवा देवताओं ने दया पूर्वक कहा—इस पापात्मा विश्वामित्र ने श्रेष्ठ राजा हरिश्चन्द्र को राज से भ्रष्ट कर दिया, इसकी कौन-सी गति होगी ? अब हम किसके यज्ञ में सोम पान करके आनन्द को प्राप्त होंगे ॥ ६२ ॥ ॥ ६३ ॥

इतितेषावच श्रुत्वाकौशिकोऽतिरुषान्वित ।  
 शशापतान्मनुष्यत्वसर्वैर्युयमवाप्स्यथ ॥६४॥  
 प्रसादितश्चतै प्राहपुनरेवमहामुनि ।  
 मानुषत्वेऽपि भवता भवित्री नैव सन्तति ॥६५॥  
 नदारसग्रहश्चैव भवितानचमत्सर ।  
 कामक्रोधविनिर्मुक्ता भविष्यथ सुरा पुन ॥६६॥  
 ततोऽवतेरुरशौ स्वैर्देवास्ते कुरुवेश्मनि ।  
 द्रौपदी गर्भसम्भूता पचवैपाण्डुनन्दना ॥६७॥  
 एतस्मात्कारणात्पचपाण्डवेयामहारथाः ।  
 नदारसग्रहप्राप्ताः शापात्तस्यमहामुने ॥६८॥  
 एतत्त सर्वमाख्यातपाण्डवेयकथाश्रयम् ।  
 प्रश्नंचतुष्टयगीतकिमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥६९॥

पक्षियों ने कहा कि उन पाँचों विश्वेदेवों को वचन से रष्ट होकर विश्वामित्र ने शाप दिया कि अरे पापात्माओ ! तुम सब मनुष्य-योनि ग्रहण करोगे ॥ ६४ ॥ इस पर विश्वेदेवों के प्रार्थना करने पर विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम यद्यपि मनुष्य तो होंगे परन्तु स्त्री-सम्पर्क और सन्तानोत्पत्ति से दूर रहोगे ॥ ६५ ॥ तुम मात्सर्य से बचे रहोगे और काम क्रोधादि से परे रहोगे ॥ ६६ ॥ फिर वही विश्वेदेवा द्रौपदी के गर्भ से पाण्डवों की सन्तान रूप में उत्पन्न हुए ॥ ६७ ॥ हे महामुने ! विश्वामित्र के शापवश ही उन पाँचों महारथी द्रौपदी-पुत्रों का विवाह नहीं हुआ ॥ ६८ ॥ पाण्डवों की कथा के आश्रय से तुम्हारे चारों प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका अब और क्या सुनाना चाहते हो, सो कहिये ॥ ६९ ॥

### ८—राजा हरिश्चन्द्र की कथा

भवद्भिरिदमाख्यातयथाप्रश्नमनुक्रमात् ।  
 महत्कौतूहल मेऽस्तिहरिश्चन्द्रकथाप्रति ॥१॥  
 अहोमहात्मनातेनप्राप्तकृच्छ्रमनुत्तमम् ।  
 कञ्चित्सुखमनुप्राप्ततादृगेवद्विजोत्तमाः ॥२॥  
 विश्वामित्रवशश्चुत्वासराजाप्रययौशनैः ।  
 शैब्ययानुगतोदुःखीभार्ययाबालपुत्रया ॥३॥  
 सगत्वावसुधापालोदिव्यावाराणसीपुरीम् ।  
 नैषामनुष्यभोग्याहिशूलपाणे परिग्रह ॥४॥  
 जगामपद्भ्यादुखात्सहपत्न्यानुकूलया ।  
 पुरीप्रविश्यददर्शविश्वामित्रमुपस्थितम् ॥५॥  
 तदृष्ट्वासमनुप्राप्तविनयावनतोऽभवत् ।  
 प्राहचैवाञ्जलिं कृत्वाहरिश्चन्द्रोमहामुनिम् ॥६॥  
 इमेप्राणा सुतश्चायमियपत्नीमुनेमम ।  
 येनतेकृत्यमस्त्याशुतद्ग्रहाणार्धमुत्तमम् ॥७॥  
 यद्धान्यत्कार्यमस्माभिस्तदनुज्ञातुमर्हसि ॥८॥

जैमिनी बोले—हे द्विजश्रेष्ठ ! मेरे प्रश्नो का आपने क्रमानुसार समाधान कर दिया । अब मुझे हरिश्चन्द्र की कथा में अत्यन्त कुतूहल है ॥ १ ॥ उन महात्मा ने कितना कष्ट पाया ? क्या उन्हें वैसे ही सुख की प्राप्ति भी हुई ? ॥ २ ॥ पक्षियो ने कहा—विश्वामित्र के वचन सुन कर राजा दुःखी हृदय से धीरे-धीरे चल पड़े तथा बालक पुत्र लिए हुए उनकी रानी के साथ ही चली ॥ ३ ॥ वह वहाँ से चल कर वाराणसी पहुँचे, क्योंकि शूलपाणि शकर द्वारा निर्मित वह नगरी मनुष्यों के भोग के लिए नहीं है ॥ ४ ॥ दुःखित चित्त से चिन्ता करते हुए राजा पत्नी के सहित पैदल ही वाराणसी में गये और उन्होंने वहाँ सामने ही मुनिवर विश्वामित्र को खड़े देखा ॥ ५ ॥ राजा हरिश्चन्द्र ने उन महामुनि को वहाँ आया देख कर हाथ जोड़े और विनय पूर्वक कहा ॥ ६ ॥ हे प्रभो ! अब तो मेरा प्राण, पत्नी और पुत्र यही शेष

है । इनमे से जिसे आप स्वीकार करना चाहे वही आपको अर्घ्य स्वरूप दिया जाय ॥ ७ ॥ इसके अतिरिक्त आप जैसी आज्ञा दे वैसे मैं करूँ ॥ ८ ॥

पूर्णःसमासोराजर्षेदीयताममदक्षिणा ।  
 राजसूयनिमित्ताहिस्मर्यतेस्ववचोयदि ॥८॥  
 ब्रह्मन्नद्यैवसपूर्णेमासोऽम्लानतपोधन ।  
 तिष्ठत्येतद्दिनार्धयत्तत्प्रतीक्षस्वमाचिरम् ॥१०॥  
 एवमस्तुमहाराजआगमिष्याम्यहपुनः ।  
 शापतवप्रदास्यामिनचेदद्यप्रदास्यसि ॥११॥  
 इत्युक्त्वाप्रययौविप्रोराजाचाचितयत्तदा ।  
 कथमस्मैप्रदास्यामिदक्षिणायाप्रतिश्रुता ॥१२॥  
 कुत पुष्टानिमित्राणिकुतोऽर्थसाप्रतमम ।  
 प्रतिग्रहप्रदुष्टोमेनाहयायामध कथम् ॥१३॥  
 किमुप्राणान्विमुञ्चामियादिशयाम्यकिञ्चन ।  
 यदिनाशगमिष्यामिअप्रदायप्रतिश्रुतम् ॥१४॥  
 ब्रह्मस्वहृत्कृमि पापोभविष्याम्यधमाधम ।  
 अथवाप्रेष्यतायास्येवरमेवात्मविक्रय ॥१५॥

इस पर विश्वामित्र ने कहा—आपने राजसूय यज्ञ के उपलक्ष्य मे जो दक्षिणा एक मास बाद देने को कहा था उसका समय पूरा हो चुका, अब उसे तत्काल दो ॥ ९ ॥ हरिश्चन्द्र ने निवेदन किया...हे ब्रह्मन् ! एक मास आज सध्या तक पूरा होगा, अभी आधा दिन शेष है, आप उतनी देर और प्रतीक्षा कीजिये, उसी समय मैं चुका दूँगा ॥ १० ॥ विश्वामित्रजी बोले—हे राजा, यही हो महाराज ! मैं सध्या के समय आऊँगा । यदि उस समय दक्षिणा नहीं दोगे तो तुम्हें शापग्रस्त होना पड़ेगा ॥ ११ ॥ पक्षियो ने कहा कि इस प्रकार कहकर विश्वामित्र तो चले गये और राजा यह चिन्ता करने लगे कि इनको वह दक्षिणा किस प्रकार दी जा सकती है । इस समय न तो मेरा कोई अर्थ-सम्पन्न बान्धव यहाँ है और न सम्पदा मे से कुछ शेष रहा है । ऐसी दशा मे क्या मुझे दान न चुकाने के लिये पतित होना पड़ेगा ॥ १२ ॥ ॥ १३ ॥ अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा । मैं कहाजाऊँ ? अगर अमीकार की हई

वस्तु को दिये बिना मैं प्राण भी त्याग दूँ तो वह भी एक पापकर्म होगा और ब्रह्मअश को हरण करने के पाप से या तो मैं कृमियोनि में जाऊँगा अथवा आत्मा को बेच कर सन्यासी होना पड़ेगा ॥ १५ ॥

राजानव्याकुलदीनचिन्तयानमधोमुखम् ।  
 प्रत्युवाचतदापत्नीबाष्पदग्दयागिरा ॥१६॥  
 त्यजचिन्तामहाराजस्वसत्यमनुपालय ।  
 श्मशानवद्वर्जनीयोनर सत्यबहिष्कृत ॥१७॥  
 नात परतरधर्मवदन्तिपुरुषस्यनु ।  
 यादृशपुरुषव्याघ्रस्वसत्यपरिपालनम् ॥१८॥  
 अग्निहोत्रमधीतवादानाद्याश्चाखिला क्रिया ।  
 भजन्तेतस्यवैफलयस्यवाक्यमकारणम् ॥१९॥  
 सत्यमत्यन्तमुदितधर्मशास्त्रेषुधीमताम् ।  
 तारणायानृततद्वत्पातनायाकृतात्मनाम् ॥२०॥  
 सप्ताश्वमेधानाहृत्यराजसूयचपार्थिव ।  
 कृतिर्नामिमच्युत स्वर्गादिसत्यवचनात्सकृत् ॥२१॥  
 राज्ञातमपत्यंमेइत्युक्त्वाप्ररुदह ।  
 बाष्पाम्बुप्लुतनेत्रातामुवाचेदमहीपति ॥२२॥

पक्षियो ने कहा—हे मुने ! इस प्रकार राजा को नीचा मुख किये घोर चिन्ता युक्त देख कर रानी शैव्या ने आँसू बहाते हुए कण्ठ से कहा—हे महाराज ! चिन्ता मत कीजिये और वचन दिया है, उसका पालन कीजिये क्योंकि असत्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति श्मशान के समान त्याज्य है ॥ १६ ॥ ॥ १६ ॥ वचन के असत्य होने पर अग्निहोत्र, फल, वेद-पठन और दान-आदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, हे महावीर ! विद्वानों का कथन है कि सत्य-पालन का कितना महान् धर्म होता है । वैसा किसी अन्य प्रकार नहीं होता ॥ १८ ॥ धर्म शास्त्रों का भी यही मत है कि सत्य वचन मनुष्य को तारने वाला और असत्य नीचे गिराने वाला है ॥ २० ॥ हे पृथ्वी नाथ ! आपने सात अश्वमेध करके राजसूय यज्ञ किया है । इस समय पर क्या एक छोटी-सी बात के लिये उस सब को नष्ट कर स्वर्ग से वंचित होंगे ॥२१॥ हे

महाराज । मेरे सन्तान हो चुकी है” इतना कह कर वह रोने लगी । तब राजा उस अश्रुवर्षा करती हुई रानी से कहने लगे ॥ २२ ॥

विमुञ्चभद्रे सतापमयतिष्ठतिबालक ।

उच्यतावक्तुकामासियद्वात्वगजगामिनि ॥२३॥

राजञ्जातमपत्यमेसतापुत्रफला स्त्रिय ।

समाप्रदायवित्ते नदेहिविप्रायदक्षिणाम् ॥२४॥

एतद्वाक्यमुपश्रुत्यययौमोहमहीपति ।

प्रतिलभ्यचसज्ञासविललापातिदु खित ॥२४॥

महद्दु खमिदभद्रे यत्वमेवब्रवीषिमाम् ।

कितवस्मितसँल्लापाममपापस्यविस्मृता ॥२६॥

हाहाकथत्वयाशक्यवक्तुमेतच्छुचिस्मिते ।

दुर्वाच्यमेतद्वचनकर्तुंशक्नोम्यहकथम् ॥२७॥

इत्युक्त्वासनश्रे ष्ठीधिग्धिगित्यसकृद्बू वन् ।

निपपातमहीपृष्ठे मूर्च्छयाभिपरिप्लुत ॥२८॥

राजा हरिश्चन्द्र ने रानी से कहा—शोक को त्याग कर जो कहने की इच्छा हो कहो । तुम्हारी सन्तान तो यह मौजूद ही है ॥ २३ ॥ रानी बोली—हे महाराज । मेरे सन्तान हो गई है, इसी उद्देश्य से साधु पुरुषों से पत्नी की आवश्यकता होती है । इससे अब आप मुझे बेचकर ऋषि की दक्षिणा चुका दे ॥ २४ ॥ पक्षियों ने कहा—राजा हरिश्चन्द्र अपनी भार्या का ऐसा वचन सुनकर शोक से मूर्च्छित-से हो गये । फिर चैतन्य होकर दुःख प्रकट करते हुए कहने लगे कि हे प्रिये जो कुछ कहा वह अत्यन्त कष्ट दायक है । यह पापी हरिश्चन्द्र क्या स्मितपूर्वक भाषण करना भूल गया ॥ २५ ॥ ॥ २६ ॥ नहीं तो तुम्हारे मुख से ऐसी अशुभ बात क्यों निकलती और मैं भी ऐसे वचन सुनकर किस प्रकार सहन करता ॥ २७ ॥ राजा हरिश्चन्द्र इस प्रकार कह कर अपने को धिक्कारते हुये पृथ्वी पर गिरकर बेसुध हो गये ॥ २८ ॥

शयानभुवितदृष्ट्वाहरिश्चन्द्र महीपतिम् ।

उवाचेदसकरुणराजपत्नीसुदु खिता ॥२९॥

हामहाराजकस्येदमपध्यानमूपस्थितम् ।

यत्त्वनिपतितोभूमौराङ्क्वास्तरणोचित ॥३०॥  
 येनकोट्यग्रशोवित्तंविप्राणामपवर्जितम् ।  
 सएषपृथिवीनाथोभूमौस्वपितिमेपति ॥३१॥  
 हाकष्ट कितवानेनकृतदेवमहीक्षिता ।  
 यदिद्रोपेद्रतुल्योऽयनीत पापामिमादशाम् ॥३२॥  
 इत्युक्त्वासापिसुश्रोणीमूर्च्छितानिपपातह ।  
 भर्तृदुखमहाभारेणासह्येननिपीडिता ॥३३॥  
 तौतथापतितौभूमावनाथौपितरौशिशु ।  
 दृष्ट्वात्यतक्षुधाविष्टप्राह्वाक्यसुदुखित ॥३४॥  
 ताततातवदस्वान्नमम्बाम्बभोजनदद ।  
 क्षुन्मेबलवतीजाताजिह्वाग्रशुष्यतेतथा ॥३५॥

महाराज हरिश्चन्द्र को इस प्रकार पृथ्वी पर लौटते देख महारानी शैव्या अत्यन्त दुःखी हुई और करुण स्वर से कहने लगी कि आज कैसे कष्ट का दृश्य देख रही हूँ कि जो महाराज मृग चर्म की कोमल शैव्या पर शयन करते थे वे आज इस प्रकार कठोर भूमि पर पड़े हैं ॥२९-३०॥ जिन्होंने करोड़ों गौएँ ब्राह्मणों को दान दी वही पृथ्वीनाथ हरिश्चन्द्र भूमि पर पड़े हैं ॥३१॥ हा देव ! इन्होंने कौन सा ऐसा अपराध किया है, जिससे एक ऐसे उपेन्द्र की समता वाले पुरुष की पापियों की-सी दुर्दशा हो रही है ॥३२॥ इस प्रकार महारानी शैव्या शोक सन्तप्त होती हुई अचेत होकर मूर्च्छित हो गई। जब राजपुत्र ने माता और पिता को इस प्रकार देसुध पड़े देखा और उसे भूख भी लगी तो रोकर कहने लगा—हे तात ! हे माता ! मुझको बड़ी भूख लगी है, भोजन दो। मेरी जीभ सूख रही है ॥३३-३४-३५॥

एतस्मिन्नन्तरेप्राप्तोविश्वामित्रोमहातपा ।  
 कालकल्पइवक्रुद्धोधनसमार्गितु तदा ।  
 दृष्ट्वातु हरिश्चन्द्रपतितोभुविमूर्च्छित ॥३६॥  
 सवारिणासमभ्युक्ष्यराजानमिदमब्रवीत् ।  
 उत्तिष्ठोत्तिष्ठराजेद्रताददस्वेष्टदक्षिणाम् ॥३७॥  
 ऋणधारयतोदुःखमहन्यहनिवर्द्धते ।

आप्यायमान सतदाहिमशीतेनवारिणा ॥३८॥  
 अवाप्यचेतनाराजाविश्वामित्रमवेक्ष्यच ।  
 पुनर्मोहसमापेदेसचक्रोधययौमुनि ॥३९॥  
 ससमाश्वस्यराजानवाक्यमाहृद्विजोत्तम ।  
 दीयतादक्षिणासामेयदिधर्ममवेक्षसे ॥४०॥  
 सत्येनार्कं प्रतपतिसत्येतिष्ठतिमेदिनी ।  
 सत्यचोक्तं परोधर्मं स्वर्गं सत्येप्रतिष्ठित ॥४१॥  
 अश्वमेधसहस्रं चसत्यचतुलयाधृतम् ।  
 अश्वमेधसहस्राद्धिसत्यमेवविशिष्यते ॥४२॥

पक्षियो ने कहा—कि उसी महात्मा विश्वामित्रजी अत्यन्त क्रोध प्रकट करते हुए वहाँ आ पहुँचे । उन्होने जब राजा को मूर्च्छित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा तो जल के छीटे देकर उसे चैतन्य किया और कहा.. राजन् ! उठ कर मेरी दक्षिणा दो, क्योंकि जब तुम पर यह ऋण बना रहेगा तब तक दुःख इसी प्रकार बढ़ता रहेगा । शीतल जल के स्पर्श से राजा हरिश्चन्द्र चैतन्य हुए, पर सामने ही विश्वामित्र को खड़ा देख कर फिर मूर्च्छित हो गये । तब विश्वामित्रजी ने कहा—हे राजा यदि तुम धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो मेरी दक्षिणा देने में बिलम्ब न करो ॥३९ से ४०॥ सूर्य सत्य के बल से ही तपते हैं, पृथ्वी सत्य की महिमा से हाँटकी है, सत्य ही सब से बड़ा धर्म है और स्वर्ग भी एक मात्र सत्य के ऊपर ही स्थित है ॥४१॥ अगर एक तराजू के पलड़े पर सत्य को रखा जाय और दूसरे पर हजार अश्वमेध यज्ञों के फल को तो सत्य का पलड़ा ही भारी रहेगा ॥४२॥

अथवाकिममैतेनसाम्नाप्रोक्तंनकारणम् ।  
 अनार्योपासकल्पेक्रूरेचानृतवादिनि ॥४३॥  
 त्वयिराज्ञिप्रभवतिसद्भावश्चयूतामयम् ।  
 अश्वमेदक्षिणाराजन्नदास्यतिभवान्यदि ॥४४॥  
 अस्ताचलप्रयातेऽर्केशप्स्यामित्वाततोध्रुवम् ।  
 इत्युक्त्वासययौविप्रोराजाचासीद्भ्रूयातुर ॥४५॥  
 कान्दिग्भूतोऽधनोनि स्वो नृशसधनिनादितः ।



भार्यास्यभूय प्राहेदक्रियतावचनमम ॥४६॥  
 माशापानलनिर्दग्ध पचत्वमुपयास्यसि ।  
 सतयाचोद्यमानस्तुराजापत्न्यापुन पुन ॥४७॥  
 प्राहभद्रेकरोम्येषविक्रयतवनिर्घृण ।  
 नृशसैरपियत्कतुर्नशक्यतत्करोम्यहम् ॥४८॥  
 यदिमेशक्यतेवाणीवक्तुमीदृक्सुदुर्वच ।  
 एवमुक्त्वाततोभार्यागित्वानगरमातुर ।  
 बाष्पाहितकण्ठाक्षस्ततोवचनमब्रवीत् ॥४९॥

पर जाने दो, मुझे अनार्थ, पापी, क्रूर, मिथ्यावादी राजा को समझाने बुझाने की आवश्यकता ही क्या है ॥४३॥ मैं स्पष्ट रूप से कहे देता हूँ कि यदि तुम आज मेरी दक्षिणा नहीं दोगे, तो सूर्य के अस्ताचल गामी होते ही मैं निश्चय रूप से शाप दूँगा ? विश्वामित्र ऐसा कह कर वहाँ से चले गये, और ब्रह्म शाप की आशका से अत्यन्त घबराने लगे कि अब दक्षिणा कहाँ से और, कैसे चुकाऊँ । मैं तो इस समय पूर्णत, निर्धन हूँ, और धन वाले बड़े कठोर है । अब किस प्रकार करने से ठीक होगा ? हम कहाँ जाये ? यह देख कर रानी शैब्या ने कहा कि महाराज मैंने आपसे जो कहा है वही कीजिये ॥४४-४५-४६॥ जब यह उपाय मौजूद है तो ऋषि के शाप में ग्रस्त होकर नाश को प्राप्त होने की क्या आवश्यकता है । इस प्रकार पत्नी के बार-बार अग्रह करने पर हरिश्चन्द्र ने कहा—अच्छा । मैं इस घृणित कार्य को भी करूँगा, यद्यपि यह मेरी सामर्थ्य के बाहर है तो भी यही करूँगा ॥४७-४८॥ देखता हूँ कि मैं ऐसे कठोर वचन कह भी सकता हूँ या नहीं ? तब नगर में गये और आंसुओं को जवर्दस्ती रोक कर कहने लगे ॥४९॥

भोभोनागरिका सर्वेशृगुध्रवचनमम ।  
 किमापृच्छथकस्त्वभोनृशसोऽहममानुषं ॥५०॥  
 राक्षसोवातिकठिनस्तत पापतरोऽपिवा ।  
 विक्रेतु दयिताप्राप्तोयोनप्राणास्त्यजाम्यहम् ॥५१॥  
 यदिव कस्यचित्कार्यदास्याप्राणेष्टयामम ।  
 सब्रवीतुत्वरायुक्तोयावत्सन्धारयाम्यहम् ॥५२॥

अथवृद्धोद्विजःकश्चिदागत्याहनराधिपम् ।  
 समर्पयस्वमेदासीमहक्रेताधनप्रद ॥५३॥  
 अस्तिमेवित्तमस्तोकसुकुमारीचमेप्रिया ।  
 गृहकर्मनशक्नोमिक्तुमस्मात्प्रयच्छमे ॥५४॥  
 कर्मण्यतावयोरूपशीलानातवयोषितः ।  
 अनुरूपामिदवित्त गृहाणार्पयमेऽबलाम् ॥५५॥  
 एवमुक्तस्यविप्रेणहरिश्चन्द्रस्यभूपते ।  
 व्यदीर्य्यतमनोदुःखान्नचैनकिचिदब्रवीत् ॥५६॥

राजा कहने लगे—यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं बतलाऊँगा कि मैं एक नृशम अत्याचारी हूँ, मनुष्य नहीं हूँ । मैं राक्षस हूँ या उससे भी अधिक निर्दयी हूँ, पापात्मा हूँ । क्योंकि प्राणप्यारी पत्नी को बेचने के लिए तैयार होने पर भी मेरा प्राण नहीं निकला ॥५०-५१॥ अस्तु जब तक सध्या न हो, ओर मेरा प्राण देह के भीतर रहे तब तक इस मेरी प्राणो से प्यारी दासी को यदि खरीदना चाहो तो कहो ॥५२॥ पक्षी बोले. उसी अवसर पर एक बूढ़े ब्राह्मण ने वहाँ आकर कहा—मुझे दासी की आवश्यकता है, मैं उसका मूल्य देने को तैयार हूँ । मेरे पास पर्याप्त धन-सम्पत्ति है और मेरी स्त्री बड़ी कोमल है जिससे घर का काम नहीं कर सकती, अतएव यह दासी मुझे दे दो ॥५३-५४॥ तुम इस अपनी स्त्री की कार्य दक्षता, अवस्था, रूप, और स्वभाव के अनुपम यह अर्थ राशि लेकर इसे मुझे दो ॥५५॥ ब्राह्मण के वचनो को सुन कर शोक से राजा का हृदय फटने लगा और उसने कुछ उत्तर नहीं दिया जा सका ॥५६॥

तत सविप्रोनृपतेर्वल्कलान्तेदृढधनम् ।  
 बद्धाकेशेष्वथादायनृपपत्नीमकर्षयत् ॥५७॥  
 रुरोदरोहितास्योऽपिदृष्ट्वाकृष्टातुमातरम् ।  
 हस्तेनवस्त्रमाकर्षन्काकपक्षधर शिशु ॥५८॥  
 मुचार्यमु च्छतावन्मायावत्पश्याभ्यहशिशुम् ।  
 दुर्लभदर्शनतातपुनरस्यभविष्यति ॥५९॥  
 पश्येहवत्समामेवमातरदास्यतागताम् ।

मामाम्प्राक्षी राजपुत्रअस्पृश्याहतावाधुना ॥६०॥  
 ततःसवालःसहसादृष्ट्वाकृष्टातुमातरम् ।  
 समभ्यधावदम्बेतिरुदन्नस्त्राविलेक्षण ॥६१॥  
 तमागतद्विज क्रोधाद्वालमभ्याहनत्पदा ।  
 वदस्तथापिसोऽम्बेतिनैवामु चतमातरम् ॥६२॥  
 प्रसादकुरुमेनाथक्रीणीष्वेमचबालकम् ।  
 क्रीतापिनाहभवतोविनैनकार्यसाधिका ॥६३॥  
 इत्थममाल्पभाग्याया प्रसादसुमुखोभव ।  
 मासयोजयबालेनवत्सेनेवपयस्विनीम् ॥६४॥

तब उस ब्राह्मण ने दामी के मूल्य स्वरूप वह अनराशि राजा के वस्त्र में बाँध दी और रानी को वे पकड़ कर ले जाने लगा ॥५७॥ यह देख कर उसका पुत्र रोहिताश्व उमका आँचल खीचता रोने लगा ॥५८॥ रानी ने ब्राह्मण से कहा—हे आर्य ! मुझे जरा देर के लिए अपना पुत्र को प्यार कर लेने दो, फिर मैं इसे कहाँ देख सकूँगी ? हे पुत्र ! अब मैं तुम्हारी माता दासी हुई हूँ, इससे अब मुझे मत छूना, मैं अब इम योग्य नहीं रही ॥५९—६०॥ इसके पश्चात् बालक माता की खिचती हुई जाती देखकर रोते रोते “मा-मा” कहता हुआ उसके पीछे दौड़ा ॥६१॥ वृद्ध ब्राह्मण ने गुस्मा होकर उसे जोर से एक लात मारी पर वह बालक “मा-मा कह कर दौड़ता ही रहा और उसने किसी प्रकार माता को न छोड़ा ॥६२॥ रानी ने ब्राह्मण से कहा—हे स्वामी ! कृपा करके इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि यद्यपि मैं बिक चुकी, पर इस बालक के बिना मुझसे काम नहीं किया जायगा । इस लिए आप मुझ अभागिनी पर दया कीजिये कि जिस प्रकार दूध देने वाली गाय को बछड़े के सग ही लाया जाता है उसी प्रकार इस बालक को भी मेरे साथ ही रहने दीजिये ॥६३—६४॥

गृह्यतावित्तमेतत्ते दीयताबालकोमम ।  
 स्त्रीपुंसोर्धर्मशास्त्रज्ञै कृतमेवहि्वेतनम् ।  
 शतसहस्र लक्षचकोटिमूल्यतथापरै ॥६५॥  
 तथैवतस्यतद्वित्त बद्धोत्तरपटेतत ।

प्रगृह्यबालकमालासहैकस्थमबन्धयत् ॥६६॥  
 नीयमानौनृतौदृष्ट्वाभार्यापुत्रौसपार्थिवः ।  
 विललापसुदुःखार्तोनि श्वस्योष्णपुन पुन ॥६७॥  
 यानवायुर्नचादित्योनेन्दुर्नचपृथग्जन ।  
 दृष्टवत पुरापत्नीसेयदासीत्वमागता ॥६८॥  
 सूर्यवशप्रसूतोऽयसुकुमारकरागुलि ।  
 सप्राप्तोविक्रयबालोधिङ् मामस्तुसुदुर्मतिम् ॥६९॥  
 हाप्रियेहाशिशोवत्सममानार्थस्यदुर्नयै ।  
 दैवाधीनादशाप्राप्तोनमृतोऽस्मितथापिधिक् ॥७०॥

ब्राह्मण ने कहा—अच्छा, बालक को भी मुझे दो और उमके बदले मे यह धन ग्रहण करो । धर्म शास्त्रो मे स्त्री और पुरुष दोनो का ही मूल्य शत, सहस्र, लक्ष व करोड मुद्रा बतलाया है ॥६५॥ पक्षियो ने कहा—हे जैमिनि । यह कह कर उम ब्राह्मण ने वह धन भी राजा के वस्त्रो मे बाँध दिया और रानी तथा उसके पुत्र दोनो को बाँध कर ले गया ॥६६॥ राजा हरिश्चन्द्र पत्नी और पुत्र इस प्रकार विलग होता हुआ देख कर लम्बी साँस लेकर अत्यन्त शोक करने लगे कि जिसको अभी वायु, सूर्य, चन्द्र व वाहरी ध्यक्ति भी अभी तक नही देख पाते थे उमको आज इस प्रकार दामी बनना पडा ॥६७—६८॥ जिस छोटे बालक ने सूर्य वश मे जन्म लिया और जो अभी अत्यन्त कोमल है, उसको भी बिकना पडा, यह मेरी दुर्बुद्धि है जिसके लिए मैं निन्दा का पात्र हूँ ॥६९॥ मेरे अन्याय युक्त आचरण के कारण ही इन निर्दोषो की ऐसी गति हुई, पर खेद है अब भी मेरे प्राण नही निकलते ॥७०॥

एवविलपतोरान्न सविप्रोऽन्तरधीयत ।  
 वृक्षगेहादिभिस्तु गैस्तावादायत्वरान्वित् ॥७१॥  
 विश्वामिबस्तत प्राप्तोऽनृपवित्तमयाचत ।  
 तस्मैसमर्पयामासहरिश्चन्द्रोऽपितद्धनम् ॥७२॥  
 तद्वित्तस्तोकमालोक्यदारविक्रयसभवम् ।  
 शोकाभिभूतराजानकुपित कौशिकोऽब्रवीत् ॥७३॥  
 क्षणबधोममेमात्वसदृशीयज्ञदक्षिणाम् ।

मन्यसेयदितत्क्षिप्रप्रश्यत्वमेवलपरम् ॥७४॥  
 तपसोऽन्नमुतप्तस्यब्राह्मण्यस्यामलस्यच ।  
 मत्प्रभावस्यचोग्रस्यशुद्धस्याध्ययनस्यच ॥७५॥  
 अन्यादास्यामिभगवन्काल कश्चित्प्रतीक्ष्यताम् ।  
 अनृतनास्तिविक्रीतापत्नीपुत्रश्चबालक ॥७६॥  
 चतुर्भागि स्थितोयोग्यदिवसस्यनराधिप ।  
 एषएवप्रतीक्ष्योमेवक्तव्यनोत्तरत्वया ॥७७॥

पक्षियो ने फिर कहा—राजा हरिश्चन्द्र तो इस प्रकार विलाप करते रहे और उधर वह ब्राह्मण रानी और कुमार को वृक्षों और महलों की ओट में चला गया ॥७१॥ उन्नी ममय विश्वामित्र मुनि ने आकर राजा से दक्षिणा का धन देने को कहा तो जितनी मुद्राएँ उनके पास थी वे उन्होंने अर्पित कर दी । विश्वामित्र उनसे धन को बहुत थोड़ा देख कर बड़े क्रोध से कहने लगे कि हे नीच, क्या मेरे यज्ञ कराने की उपयुक्त दक्षिणा यही है ? यदि तू ऐसा विचारता है तो मैं तुझे अपनी तपस्या की शक्ति दिखलाता हूँ । तुझे मालूम हो जायगा कि मेरे ब्रह्मतेज और अध्ययन का कितना प्रभाव है ॥७२ से ७५॥ राजा ने विनय पूर्वक कहा—महर्षे ! दक्षिणा के लिए मैंने पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया और उसमें जो धन मिला वह यही है । अब आप थोड़ी देर ठहरे तो मैं मेघ दक्षिणा भी देने की व्यवस्था करता हूँ । विश्वामित्र ने कहा कि अब दिन का केवल चौथा भाग शेष है, इतनी ही देर मैं प्रतिक्षा करूँगा । इसके पश्चात् मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूँगा ॥७६—७७॥

तमेवमुक्त्वा राजेद्रनिष्ठुरनिघृणवच ।  
 तदादायधनतूर्णकुपित कौशिकोययौ ॥७८॥  
 विश्वामिल्लेगते राजाभयशोकादिमध्यग ।  
 स्वविक्रयविनिश्चित्यप्रोवाचोच्चरैरधोमुख ॥७९॥  
 वित्तक्रीतेनयो ह्यर्थीमयाप्रेष्येणमानव ।  
 सब्रवीतुत्वरायुक्तोयावत्तपतिभास्कर ॥८०॥  
 अथाजगामत्वरितोर्धर्मश्राण्डालरूपधृक् ।  
 दुर्गन्धोविकृतोरुक्ष रमश्रुलोदन्तुरोघृणी ॥८१॥

कृष्णगोलम्बोदर पिङ्गरूक्षाक्ष परुषाक्षर ।  
 गृहीतपक्षिपु जश्चशवमाल्यैरलकृत ॥८२॥  
 कपालहस्तोदीर्घास्योभैरवोऽतिवदन्मुहु ।  
 श्वगणाभिवृतोघोरोयष्टिहस्तोनिराकृति ॥८३॥  
 अहमर्थीत्वयाशीघ्र कथयस्वात्मवेतनम् ।  
 स्तोकेनबहुनावापियेनवैलभ्यतेभवान् ॥८४॥

पक्षियो ने कहा—विश्वामित्र मुनि राजा से ऐसे कठोर और कोध युक्त वचन कह कर उस धन को लेकर चले गये । तत्पश्चात् राजा हरिश्चन्द्र भय और शोक से अभिभूत होकर और अन्तिम निश्चय करके उच्च स्वर से कहने लगे कि यदि किसी को सेवक खरीदने की इच्छा हो तो यह मुझे सूर्यास्त से पहले ही क्रय करले ॥७८-७९-८०॥ उस समय चाण्डाल के रूप में धर्म वहा उपस्थित हुआ । उसके शरीर से बुरी गन्ध आती थी, आकृति बड़ी रूखी, डाढी, मूँछों से युक्त थी । स्वभाव बड़ा भयकर, दाँत ऊँचे और रूप घृणा उत्पन्न करने वाला था । काले रङ्ग का, लम्बे पेट का, पिगल, रूखे नेत्र वाला कर्कश था । उसके हाथ में कितने ही पक्षी थे, गले में मुण्डों की माला, एक हाथ में नरकपाल और दूसरे में लाये हुए मृग शरीर बड़ा दुबला-पतला, बहुत से कुत्तों को साथ लिये और ऊट-पटाग बकता था ॥८१-८२-८३॥ वह धर्म-राज इस प्रकार चाण्डाल के वेश में आकर राजा से कहने लगे—मैं तुमको खरीदना चाहता हूँ । तुम्हारा जो कुछ कम या अधिक मूल्य हो यह बतलाओ ? ॥८४॥

ततादृशमथालक्ष्यक्रूरदृष्टिसुनिष्ठुरम् ।  
 वदन्तमतिदु शीलकस्त्वमित्याहपार्थिव ॥८५॥  
 चण्डालोऽहमिहरख्यात प्रवीरेतिपुरोत्तमे ।  
 विख्यातोवध्यवधकोमृतकम्बलहारक ॥८६॥  
 नाहचण्डालदासत्वमिच्छेयसुविर्गाहितम् ।  
 वरशापाग्निनादग्धोनचण्डालवशागत ॥८७॥  
 तस्यैववदत प्राप्तोविश्वामित्रस्तपोनिधि ।  
 कोपामर्षविवृत्ताक्ष प्राहचेदनराधिपम् ॥८८॥

चण्डालोऽयमनल्पतेदातु वित्तमुपस्थित ।

कस्मान्नदीयतेमह्यमशेषायज्ञदक्षिणा ॥८८॥

भगवन्सूर्यवशोत्थमात्मानवेद्मिकौशिक ।

कथचण्डालदासत्वगमिष्येवित्तकामुक ॥८९॥

यदिचण्डालवित्त त्वमात्मविक्रयजमम ।

नप्रदास्यसिकालेनशप्स्यामित्वामसशयम् ॥९०॥

पक्षियो ने कहा—बहुत कठोर बोलने वाले, क्रूर दृष्टि और कर्कश व्यवहार वाले उस चाण्डाल को देख कर राजा ने जिज्ञासा की कि तुम कौन हो ? ॥८५॥ उसने उत्तर दिया—मैं चाण्डाल हूँ और इस महा नगरी मे मेरा निवास स्थान है । मेरा नाम प्रवीर है और पेशा बध करने योग्य पुरुषों को मारने का है । मैं मरे हुए पुरुषों का कम्बल ( कफन ) भी लेता हूँ ॥८६॥ राजा ने कहा—चाण्डाल के यहाँ दास कार्य करना तो बहुत ही बुरा है, इस कारण मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता । मेरे ऊपर से पहले ही शाप रूपी कोप पडा हुआ है, पर यह चाण्डाल का दासत्व तो और भी नीच है ॥८७॥ पक्षियो ने कहा—राजा ने इतना कहा ही धा, तभी विश्वामित्र वहाँ आ गये और क्रोध पूर्वक लाल नेत्र करके बोले ॥८८॥ विश्वामित्र ने कहा—राजन् ! यह चाण्डाल तुम्हे बहुत-सा धन दे रहा है, तो तुम मेरी दक्षिणा क्यों नहीं देते ? ॥८९॥ राजा ने कहा—हे भगवन् ! मैं अपने को सूर्यवशी मानता हूँ, इसलिये धन के लोभ से चाण्डाल का दासत्व कैसे स्वीकार करूँ ॥९०॥ विश्वामित्र बोले—यदि तुम अपने को इस चाण्डाल के हाथ बेच कर मुझे समय के भीतर धन नहीं दोगे तो मैं तुम्हे अवश्य ही शाप दूँगा ॥९१॥

हरिश्चन्द्रस्ततो राजाचिन्तावस्थितजीवित ।

प्रसीदेतिवदन्पादावृषेर्जग्राहवित्त्वल ॥९२॥

दासोऽस्म्यार्तोऽस्मिभीतोऽस्मिन्त्वद्भक्तश्चविशेषत ।

कुरुप्रसाद विप्रर्षेकष्टश्चण्डालसङ्कर ॥९३॥

भवेयवित्तशेषेणसर्वकर्मकरोवश ।

तवैवमुनिशार्दूलप्रेष्यश्चित्तानुवर्त्तक ॥९४॥

यदिप्रेष्योममभवाश्चण्डालायततोमया ।

दासभाव मनुप्राप्तोदत्तोवित्तिर्बुदेनवै ॥६५॥

यद्यसौशक्यतेविप्र कौशिक परितोपितुम् ।

ततोर्गृहाणमामद्यदासत्वतेकरोम्यहम् ॥६६॥

शतयोजनविस्तीर्णानानाग्रामैरलकृताम् ।

भूमिरक्षामयीकृत्वादास्येहकौशिकप्रति ॥६७॥

पक्षियो ने कहा—फिर राजा हरिश्चन्द्र ने व्याकुल मन से 'भगवन् । प्रसन्न हो ' कहते हुए विश्वामित्र के दोनो चरण पकड़ लिए ॥६२॥ मैं आपका दास इस समय अत्यन्त भयभीत एव व्याकुल हूँ, मैं आपका ही भक्त हूँ, ब्रह्मर्षी ! कृपा करिये चाण्डाल का दाम होना अत्यन्त ही कष्टदायक होगा ॥६३॥ हे प्रभो ! मेरे पास धन नहीं है, फिर भी मैं आपका दास होकर रहूँगा, आप जो आज्ञा देगे वही करूँगा तथा सदा आपके चित्त के अनुसार ही कार्य करूँगा ॥६४॥ विश्वामित्र ने कहा—राजन् ! यदि तुम मेरे अधीन होते हो तो मैंने तुम्हें इस चाण्डाल को एक अबुद मुद्रा में बेच दिया है, अब तुम इसके ही दास बनो ॥६५॥ हरिश्चन्द्र बोले—जिससे यह विश्वामित्रजी सतुष्ट हो, वही करो, मैं तुम्हारा दास होकर सेवा कार्य करूँगा ॥६६॥ चाण्डाल बोला—सौ योजन विस्तार वाली भूमि, जो अनेको ग्रामो से युक्त है, उसे मैं विश्वामित्रजी को दे रहा हूँ ॥६७॥

एवमुक्तेतदातेनश्वपाकोहृष्टमानस ।

विश्वामित्रायतद्द्रव्यदत्त्वावद्ध्वानरेश्वरम् ॥६८॥

दण्डप्रहारसभ्रान्तमतीवव्याकुलेन्द्रियम् ।

इष्टबन्धुवियोगार्तमनयन्निजपक्वणम् ॥६९॥

हरिश्चन्द्रस्ततोराजावसश्चण्डालपक्वणे ।

प्रातर्मध्याह्नसमयेसायचैतदगायत ॥१००॥

बालादीनमुखीदृष्ट्वाबालदीनमुखपुर ।

मास्मरत्यसुखाविष्टामोचयिष्यतिनौनृप ॥१०१॥

उपात्तवित्तोविप्रायदत्त्वावित्तमतोऽधिकम् ।

नसामामृगशावाक्षीवेत्तिपापतरकृतम् ॥१०२॥

राज्यनाशसुहृत्यागोभार्यातिनयविक्रयः ।



प्राप्ताचण्डालताचेयमहोदु खपरम्परा १०३॥

एवसनिवसन्नित्यसस्मारदयितसुतम् ।

भार्याचात्मसमाविष्टाहृतसर्वस्वआतुर ॥१०४॥

कस्यचित्त्वथकालस्यमृतचैलापहारक ।

हरिश्चन्द्रोऽभवद्राजाश्मशानेतद्वशानुग ॥१०५॥

पक्षियो ने कहा—फिर राजा के मुख से 'जो आज्ञा' शब्द निकलते ही चाण्डाल रूपी धर्म ने विश्वामित्र को वह धन देकर राजा को बाँध लिया और अपने निवास को गया ॥१६॥ राजा हरिश्चन्द्र भार्या तथा पुत्र के वियोग से पहिले ही अत्यन्त कातर थे, फिर चाण्डाल द्वारा डडे मारने से वे और भी व्याकुल हो गये ॥१६॥ फिर चाण्डाल के यहाँ रहते हुए वे प्रात मध्याह्न, सायकाल आदि सब समय इसी प्रकार कहते रहते थे ॥१००॥ वह दीन मुख वाली रानी, अपने दीनमुख बालक को देख कर दुःखी चित्त से सोचती होगी कि धनोपार्जन कर राजा इस ब्राह्मण को अधिक धन देकर हमे छुडा लेंगे, परन्तु उसे यह क्या मालूम होगा कि मैं चाण्डाल के दासत्व रूपी पाप की दशा में गिर गया हूँ ॥१०१-१०२॥ राज्य का नाश, सुहृदो से विछोह, पत्नी-पुत्र का विक्रय और अन्त में चाण्डालत्व की प्राप्ति अहो, दुःख पर दुःख मिल रहा है ॥१०३॥ सर्वस्व से भ्रष्ट वह राजा चाण्डाल के घर रहता हुआ दुःखित चित्त से प्रिय पुत्र और भार्या का स्मरण करने लगा ॥१०४॥ फिर कुछ समय व्यतीत होने पर चाण्डाल के दास राजा हरिश्चन्द्र को श्मशान में मृतको के वस्त्र लेने के कार्य पर निमुक्त किया गया ॥१०५॥

चण्डालेनानुशिष्टश्चमृतचैलापहारिणा ।

शवागमनमन्विच्छन्निहतिञ्चिन्दिवानिशम् ॥१०६॥

इद राज्ञोऽपिदेयञ्चषड्भागन्तुशवप्रति ।

वयस्तुममभागा स्युर्द्वौभागौतववेतनम् ॥१०७॥

इतिप्रतिसमादिष्टोजगामशवमन्दिरम् ।

दिशनुदक्षिणायत्रवाराराणस्यास्थिततदा ॥१०८॥

श्मशानघोरसनादशिवाशतसमाकुलम् ।

शवमौलिसमाकीर्णदुर्गन्धबहुधूमकम् ॥१०९॥

पिशाचभूतवेतालडाकिनीयक्षसकुलम् ।  
 महागणामहाभूतरवकोलाहलायुतम् ॥११०॥  
 गृध्रगोमायुसकीर्णश्ववृन्दपरिवारितम् ।  
 अस्थिसघातसकीर्णमहादुर्गन्धसकुलम् १११॥  
 नानामृतसुहृन्नादरौद्रकोलाहलायुतम् ।  
 हापुत्रमित्रहाबन्धोभ्रातर्वत्सप्रियाद्यमे ॥११२॥  
 हापतेभगिनिमातर्हामानुलपितामह ।  
 मातामहपित पौत्रवगगतोऽस्येहिबान्धव ॥११३॥

मृतको के वस्त्र का अपहरण करने वाले चाण्डाल ने आदेश दिया कि  
 दिनरात श्मशान मे रहकर कौन मुर्दा आता है, यह देखो तथा ॥१०६॥ प्रत्येक  
 मृतक से जो धन प्राप्त हो, उसका छटा भाग राजा को दो, तीन भाग मेरे लिए  
 और दो भाग अपने वेतन मे लो ॥ १०७ ॥ इस प्रकार चाण्डाल की आज्ञा  
 प्राप्त कर राजा हरिश्चन्द्र दक्षिण दिशामे स्थित श्मशान मे गये ॥ १०८ ॥  
 उसकी चारो दिशाएँ घोर शब्द से प्रतिध्वनित हो रही थी, गीदडियो से युक्त  
 मृत-मस्तको से व्याप्त तथा दुर्गन्धित धूम्र से आच्छन्न ॥ १०९ ॥ भूत, पिशाच,  
 डकनी, यक्ष, ग्रन्थ आदि से युक्त और उनके शब्दो से निनादित था तथा इधर  
 उधर अनेक श्वान घूम रहे थे, वह स्थान अस्थियो और महा दुर्गन्ध से भर  
 रहा था ॥ ११० ॥ ॥ १११ ॥ मृतक सम्बन्धियो के आर्त्तनाद के कारण  
 अत्यन्त कोलाहलमय था, वहाँ हा मित्र, हा पुत्र, हा वत्स, हा बन्धो, हा प्रिये  
 ॥ ११२ ॥ हा नाथ ! हा बहिन, हा माता, हा मामा, हा पिता, हा पिता-  
 मह, हा मातामह, हा पौत्र, आज किधर गये, एक बार तो आओ ॥ ११३ ॥

इत्येववदतायत्रध्वनि सश्रूयतेमहान् ।  
 यत्नैल्लैरनिमिषै शवाभयमिवाविशन् ॥११४॥  
 निमीलितैश्चनयनैर्बधुञ्चितापथेस्थित ।  
 ज्वलन्मासवसामेदश्छमच्छमितसकुलम् ॥११५॥  
 अर्द्धदग्धा शवा श्यामाविकसद्दन्तपक्तय ।  
 हसंत्येवाग्निप्रध्यस्था कायस्येयदशात्विति ॥११६॥  
 अग्नेश्चटचटाशब्दोवयसामस्थिपक्तिषु ।

बान्धवाक्रन्दशब्दश्चपुल्कसेषुप्रहर्षज ॥११७॥

गायताभूतवेतालपिशाचगणरक्षासाम् ।

श्रूयतेसुमहान्घोर कल्पान्तइवनि स्वन ॥११८॥

महामहिषकारीषगोशकृद्राशिसकुलम् ।

तदुत्थभस्मकूटैश्चवृतसास्थिभिरुन्नतै ॥११९॥

इस भाँति अनेक प्रकार के विलाप युक्त आर्त्तस्वर वहाँ सुनाई पडते थे, तथा मृतक बिना पलक मारे देखते हुए लगते थे, उनसे भी भय प्रतीत होता था ॥ ११४ ॥ कोई नेत्र खोले हुए बन्धु-चिन्तन मे था, माँस, मज्जा, मेद के दग्ध होने पर छन-छन शब्द निकलता था उससे चारो दिशाएँ व्याप्त होती थी ॥ ११५ ॥ कोई शव अग्नि मे पड कर अधजला होने पर काला होगया, दन्तपक्ति निकल गई उसे देखने से लगता 'उस देह की यह दशा ?' जैसे विचार उसकी हँसी उडा रहे हो ॥ ११६ ॥ हड्डियो पर बैठे हुए कौओ के विभिन्न प्रकार के शब्द हो रहे थे, मृतको के बाँधव आर्त्तनाद कर रहे थे, अग्नि के चट चट और चाण्डालो के आनन्द सूचक शब्दो से श्मशान भर रहा था ॥ ११७ ॥ कही भूत, पिशाच, बेताल और राक्षसो के नृत्य-गान के स्वर उठ रहे थे, जिससे वह स्थान भयकर प्रलयात्मक प्रतीत होता था ॥ ११८ ॥ कही कही भस्म के और गोबर के ढेर दिखाई देरहे थे, वे भस्म कण कभी उड उड कर अस्थियो पर गिरती हुई पर्वत जैसी सुन्दरता दिखाती थी ॥ ११९ ॥

नानोपहारस्रग्दीपकाकविक्षेपसकुलम् ।

अनेकशब्दबहुलश्मशाननरकायते ॥१२०॥

सवह्निगर्भरशिवै शि वारुतैर्निनादितभीषणारावगह्वरम् ।

भयंभयस्याप्युपसजनैर्भृशश्मशानमाक्रन्दविरावदारुणम् ॥१२१॥

सराजातलसप्राप्तोदु खित शोचनोद्यत ।

हाभृत्यामन्निगोविप्रा क्वतद्राज्यविधेगतम् ॥१२२॥

हाशब्देपुत्रहाबालमात्यक्त्वामन्दभाग्यकम् ।

श्रामित्रस्यदोषेणगता कुत्रापितेमम ॥१२३॥

इत्येवचिन्तयस्तत्रचण्डालोक्त पुनःपुनः ।

मलिनोरूक्षसव गि केशवान्गन्धवान्ध्वजी ॥१२४॥  
 लगुडीकालकल्पश्चधावश्चापिततस्तत ।  
 अस्मिञ्शवइदमूल्यप्राप्त प्राप्स्यामिचाप्युत ॥१२५॥  
 इदममइदराज्ञेमुख्यचडालकेतिवदम् ।  
 इतिधावन्दिशोराजाजीवन्योन्यन्तरगत ॥१२६॥

कही काकवली की माला और दीपक पडे थे, कही सियार अमगल सूचक शब्द बोल रहे थे, इस कारण वह स्थान नरक तुल्य प्रतीत हो रहा था ॥ १२० ॥ कही सियारो का भयकर शब्द, मनुष्यो की क्रदन ध्वनि सुनाई पड रही थी, जिससे भय भी अत्यन्त भीत होरहा हो ॥ १२१ ॥ राजा हरि-श्रन्द्र उस घोर श्मशान मे जाकर सोचने लगे—वह सेवक गण, मन्त्रिगण, विप्रगण और वह राज्य कहाँ गया ? ॥ १२२ ॥ हा शैव्या ! हा पुत्र ! तुम इस अभागे को त्याग कर कहाँ गये ? देखो ! अकेले विश्वामित्र के क्रोध से ही मेरा सर्वस्व छिन गया ॥ १२३ ॥ इस प्रकार चिन्ता करने हुए भी चाण्डाल के वचन की चिन्ता अधिक थी । उनका मलिन वेश, रूखा शरीर, सब देह मे बाल और दुर्गंध तथा ध्वजा ॥ १२४ ॥ और लाठी लेकर यमराज के समान चलना तथा इस पर विचार करना कि इस मृतक का इतना मूल्य हुआ, इसमे इतना मिल गया और इतना अभी लेना है ॥ १२५ ॥ यह मेरा, यह राजा का और यह उसी चाण्डाल का, ऐसी चिन्ता करते हुए इधर-उधर घूमते तब प्रतीत होता कि जीवित ही प्रेत होगये है ॥ १२६ ॥

जीर्णकर्पटसुग्रन्थिकृतकन्थापरिग्रह ।  
 चिताभस्मरजोलिप्तमुखबाहूदराघ्निक ॥१२७॥  
 नानामेदोवसामज्जलिप्तपाण्यगुलि श्वसन् ।  
 नानाशवौदनकृताहारतृप्तिपरायण ॥१२८॥  
 तदीयमाल्यसश्लेषकृतमस्तकमण्डन ।  
 नरालौनदिवाशेतेहाहेतिप्रवदन्मुहु ॥१२९॥  
 एवद्वादशमासास्तुनीता शतसमोपमा ।  
 सकदाचिन्नृपश्रेष्ठ श्रान्तोबन्धुवियोगवान् ॥१३०॥  
 निद्राभिभूतोरूक्षाङ्गोनिश्चेष्ट सुप्तएवच ।

तत्रापिशयनीयेसदृष्टवानद्भुतमहत् ॥१३१॥  
 श्मशानाभ्याशयोगेनदेवस्यबलवत्तया ।  
 अन्यदेहेनदत्वात्सुखेनगुरुदक्षिणाम् ॥१३२॥  
 तदाद्वादशवर्षाणिद्रु.खदानात्तु निष्कृति. ।  
 आत्मानसददशार्थिपुल्कसीगर्भसभवम् ॥१३३॥  
 तत्रस्थश्चाप्यसौराजासोऽचिन्तयदिदत्ता ।  
 इतोनिष्क्रान्तमात्रोहिदानधर्मकरोम्यहम् ॥१३४॥

फटे हुए वस्त्र मे गाँठ लगाकर कन्धा धारण किये हुए तथा मुख, भुजा, उदर और पावो मे चिता-भस्म लगाये हुए ॥ १२७ ॥ हाथ की अँगुलियो मे मेद, वसा और मज्जा लगी रहती थी और मृत पिण्डो से शेष भात का आहार करके रहते थे ॥ १२८ ॥ मृतक की उतारी हुई माला को धारण कर 'हा, हा, शब्द कहते हुए, दिन या रात्रि कभी भी नही सोते थे ॥ १२९ ॥ इस प्रकार श्मशान मे रहते हुए उनका एक वर्ष सौ वर्षों के समान व्यतीत हुआ फिर किमी दिन वे बधु वियोग मे श्रान्त होकर ॥ १३० ॥ रूखे शरीर से निश्चेष्ट सो गए, तब स्वप्न मे उन्हें एक अत्यन्त अद्भुत बात दिखाई पडी ॥ १३१ ॥ श्मशान के अभ्याम य। दैवेच्छा से उन्होने देखा कि अन्य देह धारण करके गुरु को दक्षिणा देकर ॥ १३२ ॥ तारह वर्ष दु ख भोग लेने पर मुझे मुक्ति मिलेगी, फिर उन्होने देखा कि मै डोमनी के गर्भ मे स्थित हूँ ॥ १३३ ॥ उस डोमनी के गर्भ मे पडे हुए ही वे सोचने लगे कि इस गर्भ से निकलते ही दान-धर्म का आचरण करूँगा ॥ १३४ ॥

अनन्तरसजातस्तुतदापुल्कसबालक ।  
 श्मशानमृतसस्कारकरणेषुसदोद्यत ॥१३५॥  
 प्राप्तेतुसप्तमेवर्षेश्मशानेऽथमृतोद्विज ।  
 आनीतोबन्धुभिर्दृष्टस्तेनतत्राधनोगुरागी ॥१३६॥  
 मूल्यार्थिनातुतेनापिपरिभूतास्तुब्राह्मणा ।  
 ऊचुस्तेब्राह्मणास्तत्रविश्वामित्रस्यचेष्टितम् ॥१३७॥  
 पापिष्ठमशुभकर्माकुरुत्वपापकारक ।  
 हरिश्चन्द्र.पुराराजाविश्वामित्रेणपुल्कस ॥१३८॥

कृत पुण्यविनाशेनब्राह्मणस्वापनाशनात् ।

यदानक्षमतेतेषातै सशप्तोरुषातदा ॥१३६॥

तभी पुन दिखाई दिया कि उसी गर्भ से उत्पन्न होकर उसी जाति के कर्म में उद्यत हूँ ॥ १३५ ॥ जब चाडाल के बालक रूप में सात वर्ष की आयु हुई तब किसी गुणज्ञ एव अनाथ ब्राह्मण के शव को लोग श्मशान में लाये ॥३६॥ उस समय दाह करने का मूल्य देने में असमर्थ वे ब्राह्मण उनसे अत्यत तिरस्कृत होते हुए बोले कि विश्वामित्र का कौन सा पापमय कार्य था ? अरे, पापकर्मा ! तू ऐसे ही अशुभ कर्म करता रहता है, पूर्व जन्म में तू राजा हरिश्चन्द्र था, तुझे विश्वामित्र ने चाण्डाल बना दिया है ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ तूने ब्रह्मस्व न देकर पुण्य नष्ट किया, इससे विश्वामित्र के द्वारा तुझे चाण्डाल-योनि में आना पडा ? जब वे ब्राह्मण शवदाह का मूल्य न देने के कारण दाह न कर सके, तब उन्होने अत्यत क्रोध पूर्वक राजा को शाप दिया ॥ १३९ ॥

गच्छत्वनरकघोरमधुनैवनराधम ।

इत्युक्तमात्रेवचनेस्वप्नस्थ सनृपस्तदा ॥१४०॥

अपश्यद्यमदूतान्वैपाशहस्तान्भयावहान् ।

तै सगृहीतमात्माननीयमानतदाबलात् ॥१४१॥

पश्यतिस्मभृशखिन्नोहामात पितरद्यमे ।

एववादीसनरकेतैलद्रोण्यानिपातित ॥१४२॥

ऋकचै पाटचमानस्तुक्षुरधाराभिरप्यध ।

अन्धेतमसिदु खार्त्त पूयशोगितभोजन ॥१४३॥

सप्तवर्षमृतात्मानपुल्कसत्वेददर्शह ।

दिनदिनतुनरकेदह्यतेपच्यतेऽन्यत ॥१४४॥

खिद्यतेक्षोभ्यतेऽन्यत्प्रकार्यतेपाटचतेऽन्यत ।

क्षार्यतेदीप्यतेऽन्यत्प्रशीतवाताहतोऽन्यत ॥१४५॥

एकदिनवर्षशतप्रमाणनरकेऽभवत् ।

तथावर्षशततत्प्रश्रावितनरकेभटै ॥१४६॥

ततोनिपातितोभूमौविष्ठाशीश्राव्यजायत ।

वान्ताशीशीतदग्धश्चमासमात्रेमृतोऽपिस ॥१४७॥

अरे नराधम ! तू अभी घोर नरक को प्राप्त हो, ब्राह्मणों की बात सुन कर स्वप्न देखते हुए उस राजा ने ॥ १४० ॥ देखाकि भयङ्कर यमदूत अपने हाथों में पाश लिए हुए चले आते हैं और बल पूर्वक मेरी आत्मा को बाँध ले चले ॥ १४१ ॥ तब वे खेद पूर्वक 'हा माता' हा पिता, आज मेरी ऐसी दशा होगई, इस प्रकार विलाप करने लगे, तभी यमदूतों ने उन्हें नरक में लेजाकर तैल-द्रौणी में डाल कर ॥ १४२ ॥ तीक्ष्ण धार वाले आरो से चीर कर अन्धतम नरक में गिरा कर पीव और रक्त का आहार किया ॥ १४३ ॥ इस प्रकार वह आत्मा सात वर्ष तक नरक में पड़ी हुई दिखाई देने लगी, कभी जलता हूँ, कभी कोल्हू में पिलता हूँ ॥ १४४ ॥ कभी खिन्न और कभी क्षुब्ध होता हूँ, कभी मारा जाता, कभी चीरा जाता, कभी खायी में फँका जाता और कभी शीत वा वायु से आहत होता ॥ १४५ ॥ उनका एक-एक दिन सौ-सौ वर्ष के समान व्यतीत होरहा था, इस प्रकार दुःख-भोग करते-करते एक दिन नरक रक्षकों से सुना कि सौ वर्ष पूरे होगये हैं ॥ १४६ ॥ तब उन्हें यमदूतों ने पृथिवी में गिराया और उन्होंने विष्टा खाने वाले श्वान की योनि में जन्म लिया और एक दिन भयङ्कर शीत से व्याकुल होकर एक मास में ही मर गये ॥ १४७ ॥

अथापश्यत्खरदेहहस्तिनवानरपशुम् ।

छागबिडालकड्कचगामविपक्षिणकृमिम् ॥१४८॥

मत्स्यकूर्मवराहचश्वाविधकुक्कुटशुकम् ।

शरिकास्थावराश्चैवसर्पमन्याश्चदेहिन ॥१४९॥

दिवसेदिवसेजन्मप्राणिन प्राणिनस्तदा ।

अपश्यद्दुःखसन्तप्तोदिनवर्षशततथा ॥१५०॥

एववर्षशतपूर्णगततन्नकुयोनिषु ।

अपश्यच्चकदाचित्सराजातत्स्वकुलोद्भवम् ॥१५१॥

तन्नस्थितस्यतस्यापिराज्यद्यूतेनहारितम् ।

भाय्याहृताचपुत्रश्चसचैकाकीवनगत ॥१५२॥

तन्नापश्यत्सिंहवैव्यादितास्यभयावहम् ।

बिभक्षयिषुमायातशरभेणसमन्वितम् ॥१५३॥

पुनश्चभक्षित सोऽपिभार्याशोचितुमुद्यत ।  
 हाशैव्येक्वगतास्यद्यमामिहापास्यदु खितम् ॥१५४॥  
 अपश्यत्पुनरेवापिभार्यास्वाहतपुत्रकाम् ।  
 लायस्वत्वहरिश्चद्रकिद्यू तेनतवप्रभो ॥१५५॥  
 पुत्रस्तेगोच्यताप्राप्तोभार्य्याशैव्ययासह ।  
 सनापश्यत्पुनरपिधावमान पुन पुन ॥१५६॥

फिर गधे की योनि मे, फिर हाथी, बन्दर, छाग, बिलाव, कौआ, गं  
 मैढा, पक्षी और कृमि ॥ १४८ ॥ फिर मछली, कछुआ, शूकर, भृंग, मुरग  
 तोता, मैना, ऋक्ष, अजगर आदि विभिन्न योनियो मे ॥ १४९ ॥ तथा अ  
 कुयोनियो मे जन्म लेकर दु ख भोगते हुए सौ वर्ष व्यतीत होगये ॥ १५०  
 फिर देखा कि वह पुन अपने ही कुल मे उत्पन्न होकर राजा बने है ॥ १५१  
 वहाँ कभी जुआ खेल कर राच्य, स्त्री और पुत्रादि को हार गये और एकाव  
 वन मे गये ॥ १५२ ॥ वहाँ देखा कि एक भयानक सिंह मुख फैलाये हु  
 उनका भक्षण करने के निमित्त उनकी ओर आरहा है ॥ १५३ ॥ फिर उस  
 द्वारा खाये जाते हुए 'हा शैव्ये ! इम दु खी हृदय का त्याग कर तुम क  
 जाती हो' इस प्रकार जैसे ही शोक विह्वल हुए ॥ १५४ ॥ वैसे ही देखा कि  
 रानी शैव्या पुत्र सहित वहाँ आकर 'हा राजन् ! हमारी रक्षा करो, जु  
 खेलने से आपका क्या कार्य है ॥ १५५ ॥ देखिये आपकी पत्नी शैव्या अप  
 पुत्र के सहित किस शोचनीय दशा मे पड गयी है, इस प्रकार विलाप कर रा  
 है, वे बारबार उसे देखने के लिए इधर-उधर जाते हैं, परन्तु उसे देख न  
 पाते ॥ १५६ ॥

अथापश्यत्पुनरपिस्वर्गस्थ सनराधिप ।  
 नीयतेमुक्तकेशीसादीनाविवसनावलात् ॥१५७॥  
 हाहावाक्यप्रमु चन्तीत्रायस्वेत्यसकृत्स्वना ।  
 अथापश्यत्पुनस्तत्रधर्मराजस्यशासनात् ॥१५८॥  
 आक्रन्दन्त्यन्तरिक्षस्थाआगच्छेह्नराधिप ।  
 विश्वामित्रेणविज्ञप्तोयमोराजस्तवार्थत ॥१५९॥  
 इत्युक्त्वासर्पपाशैस्तुनीयतेबलवद्विभुः ।



श्राद्धदेवेनकथित विश्वामित्रस्यचेष्टितम् ॥१६०॥

तत्रापितस्यविकृतिर्निर्घर्मोत्थाव्यवर्द्धत ।

एता सर्वादशास्तस्यया स्वप्नेमम्प्रदर्शिता ॥१६१॥

सर्वास्तास्तेनसम्भुक्तायावद्वर्षाणिद्वादश ।

अतीतेद्वादशेवर्षेनीयमानोभटैर्बलान् ॥१६२॥

फिर राजा हरिश्चन्द्र ने अपने को स्वर्ग में वाम करने हुए देखा तथा दीन, वस्त्र विहीन और खुले केज वाली रानी शैव्या को किमी पुरुष द्वारा बल पूर्वक हरण करने हुए देखा ॥ १५७ ॥ वह 'महाराज' रक्षा करो, रक्षा करो, कहती हुई बारबार चितला रही है, फिर देखा कि यमराज के शासन में स्थित यमदूत ॥ १५७ ॥ आकाश में कह रहे हैं कि राजन् । विश्वामित्रजी ने यमराज को आपके विषय में सूचना दी है, अब आप यहाँ आये, ऐसा कह कर घोर शब्द करते हैं ॥ १५९ ॥ फिर देखा कि इनना कहने के पश्चात् यमदूत मुझे नागपाश में दृटना में बाँध कर ले चले और यमराज तथा विश्वामित्र के चरित्र को कहते हैं ॥ १६० ॥ यद्यपि राजा हरिश्चन्द्र विभिन्न प्रकार के यत्रणा भोग रहे थे, फिर भी उनके चित्त में कोई अधार्मिक विकार नहीं आया । इसभाँति जो-जो दशा उन्होंने स्वप्न में देखी ॥ १६१ वह सब उन्होंने इस बारह वर्ष के समय में निरन्तर भोगी थी, बारह वर्ष व्यतीत होने पर यमदूतों के द्वारा वे बल पूर्वक ले जाये गये ॥ १६२ ॥

यमसोऽपश्यदाकारादुवाचचनरात्रिपम् ।

विश्वामित्रस्यकोपोऽयदुर्निवार्योमहात्मन ॥१६३॥

पुत्रस्यतेमृत्युमपिप्रदास्यतिसकौशिक ।

गच्छत्वमानुषलोकदु खशेषचभु क्षववै ।

गतस्यतत्रराजेन्द्रश्रेयस्तवभविष्यति ॥१६४॥

व्यतीतेद्वादशेवर्षेदु खस्यान्तेनरात्रिप ।

अन्तरिक्षाच्चपतितोयमदूतै प्रणोदित ॥१६५॥

पतितोयमलोकाच्चविबुद्धोभयसभ्रमात् ।

अहोकष्टमितिध्यात्वाक्षतेक्षारावसेचनम् ॥१६६॥

स्वप्नेदु खमहद्दृष्ट यस्यान्तोनीपलभ्यते ।

स्वप्नेदृष्टं मया यत्तु किन्तु मे द्वादशी समा ॥१६७॥

गनेत्यपृच्छत्तत्रस्थान्पुल्कसास्तुससभ्रमात् ।

नेत्युचु केचित्तदस्थाएवमेवापरेऽब्रुवन् ॥१६८॥

वहाँ उन्होंने यमराज का दर्शन किया तब यमराज बोले—राजन् ।

यह महात्मा विश्वामित्रजी के लोव का दुर्निवार्य फल है ॥ १६३ ॥ वे विश्वामित्रजी आपके पुत्र की भी मृत्यु करायेगे, इसलिए आप मर्त्यलोक में जाकर शेष दुःखों को भोगिये, वहाँ जाने पर तुम्हारा कल्याण होगा ॥ १६४ ॥ वहाँ बारह वर्ष व्यतीत होने पर दुःखों का अन्त हो जायगा, यमराज के ऐसा कहने पर यमदूतों ने उन्हें आकाश में फेंक दिया ॥ १६५ ॥ यमलोक से गिरने ही भय और भ्रम में वे महत्मा जाग पड़े और मोचने लगे कि घाव में नमक लगाने के समान अब यह क्या हुआ ? ॥ १६६ ॥ जैसे स्वप्न में घोर दुःख दिखाई दिये हैं, वे तो जमीन ही हैं । मैंने स्वप्न में जो देखा क्या वे बारह वर्ष व्यतीत हो चुके ॥ १६७ ॥ यह कह कर उन्होंने अपने पास के चाण्डालों से पूछा तो उनमें से किसी ने कहा कि अभी बारह वर्ष व्यतीत नहीं हुए और किसी ने कहा बीन भी सकते हैं ॥ १६८ ॥

श्रुत्वाद्दुःखीतदारजादेवाञ्छरणमीयिवान् ।

स्वस्तिकुर्वन्तुमेदेवा गैव्यायावालकस्यच ॥१६९॥

नमोधर्मयमहतेनम कृष्णायवेधसे ।

परावरायशुद्धायपुराणायव्ययायच् ॥१७०॥

नमोबृहस्पतेतुभ्यदमस्तेवासवायच ।

एवमुक्त्वाऽपराजातुयुक्त पुत्कर्मकर्मणि ॥१७१॥

शवानामूल्यकरणेपुनर्नष्टस्मृतिर्यथा ।

मलिनोजटिल कृष्णोलगुडीविह्वलोनृप ॥१७२॥

नैवपुत्रो नभार्यातुतस्यवैस्मृतिगोचरे ।

नष्टोत्साहोराज्यनाशाच्छमशानेनिवसस्तदा ॥१७३॥

अथाजगामस्वसुतमृतमादायलापिनी ।

भार्यातस्यनरेन्द्रस्यसर्पदष्ट हिवालकम् ॥१७४॥

हावत्सहापुत्रशिषो इत्थवैवदतीमुह ।

कृशाविवर्णाविमना पम्सुध्वस्तशिरोरुहा ॥१७५॥

यह मुन कर राजा हरिश्चन्द्र ने देवताओं की शरण लेते हुए कहा—  
हे देवगण ! आप मेरी रानी शैब्या और पुत्र का मंगल करे ॥ १६६ ॥ सर्व  
प्रधान धर्म को नमस्कार है विधाना रूप कृष्ण को नमस्कार है, सर्वश्रेष्ठ,  
अव्यय एव पुराण पुरुष को नमस्कार है ॥ १७० ॥ हे वृहस्पते ! आपको  
नमस्कार है, हे वामव ! आपको नमस्कार है, ऐसा कह कर राजा हरिश्चन्द्र  
पुन चाण्डाल रूप कार्य ॥ १७१ ॥ नृतक का भूल्य निर्धारण करने में लगे  
और उसी प्रकार मलिनवेप, जटा धारण किये हुए, लकुटिधारी कृष्णवर्ण युक्त  
स्मृति को भुलाये हुए विह्वल हो उठे ॥ १७२ ॥ उस समय उनकी स्मृति  
में भार्या या पुत्र कोई भी नहीं आया, क्योंकि राज्य में भ्रष्ट होकर श्मशान  
में उत्साहहीन रहते थे ॥ १७३ ॥ तभी उनका जो पुत्र मर्षदग में मृत्यु को  
प्राप्त होगया था, उसे लेकर उनकी पत्नी रीतो हुई श्मशान में आयी ॥ १७४ ॥  
वह अत्यन्त क्रुग देह, दु खी हृदय वाली, शिर में धूलि-धूसरित थी, वह बार-  
म्बार 'हा पुत्र' पुकारती हुई मदन कर रही थी ॥ १७५ ॥

हाराजन्नद्यवालत्वपश्यमीममहीतले ।

रममाणपुरादृष्ट दण्डपुष्टाहिनामृतम् ॥१७६॥

तस्याविलापशब्दमाकर्ण्यसनराप्रिय ।

जगामत्वरितोऽनैनिभवितामृतकम्बल ॥१७७॥

सतारोरूयतीभार्यानाभ्यजानात्तुपार्थिव ।

चिरप्रवाससन्तप्तपुनर्जातामिवाबलाम् ॥१७८॥

सापितचारुकेशान्तपुरादृष्ट्वाजटालकम् ।

नाभ्यजानानृपमुतागुष्कदृक्षोपमनृपम् ॥१७९॥

सोऽपिकृष्णपटेबालदृष्ट्वाशीविपपीडितम् ।

नरेन्द्रलक्षणोपेतचिन्तामापनरेश्वर ॥१८०॥

रानी कहने लगी—राजन् ! जिम चन्द्रमा के ममान वालक को आप  
खिलाते थे, उमने आज मर्षदग में प्राण छोड दिया है, उसे एक बार तो देखो  
॥ १८० ॥ उस विलाप को सुन कर 'मृतक-वस्त्र प्राप्त होगा' ऐसा विचार  
करते हुए राजा हरिश्चन्द्र भी घ्रिता पूर्वक वहाँ पहुँचे ॥ १७७ ॥ वे प्रवास के

मन्ताप मे और पुत्र जोक मे दु खित हृद अबला पत्नी को न पहिचान सके ॥ १७८ ॥ रानी शैव्या ने भी राजा को मनोहर केश युक्त देखा था और अब वे जटिल तथा शुष्क वृक्ष के समान हो रहे थे, इसलिए वह उन्हें न पहिचान सकी ॥ १६९ ॥ उम ममय सर्प-दश से मृत उस बालक को काले वस्त्र मे लपेटा हुआ, परन्तु राजचिह्नो मे युक्त देख कर राजा विचार करने लगे ॥ १८० ॥

तस्यास्यचद्रविबाभसुभ्रु रम्यसमुन्नसम् ।

नीला केशा कु चिताश्चसमादीर्घास्तरगिता ॥१८१॥

राजीवनेत्रयुगुलोबिबोष्ठपुटसवृत ।

चतुर्दंष्ट्रश्चतु किष्कुर्दीर्घायोदीर्घब्राह्मक ॥१८२॥

चतुर्लोकं करोमत्स्ययवयुक्चैकपर्वत ।

शिरालुपादोगभीर सूक्ष्मत्वक्त्रिवलीधर ॥१८३॥

अहोकष्टनरेन्द्रस्यकस्याप्येपकुलेशिशु ।

जातोनीत कृतान्तेनकामप्याशादुरात्मना ॥१८४॥

एवदृष्ट्वाहितंबालमातुरुत्सङ्गशायिनम् ।

स्मृतिमभ्यागतोबालोरोहिताश्र्वोब्जलोचन ॥१८५॥

सोऽप्येतामेवमेवत्सोवयोऽवस्थामुपागत ।

नीतोयदिनघोरेणकृतान्तेनात्मनोवशम् ॥१८६॥

हावत्सकस्यपापस्यअपध्यानादिदमहत् ।

दु खमापतितघोरयस्यान्तोनोपलभ्यते ॥१८७॥

हानाथराजन्भवतामामानाश्रास्युदु खिताम् ।

क्वापिसन्तिष्ठतास्थानेविश्रब्धस्थीयतेकथम् ॥१८८॥

राज्यनाश सुहृत्त्यागोभाय्यतितनयविक्रय ।

हरिश्चन्द्रस्यराजर्षे किविधेनकृतत्वया ॥१८९॥

जिसका चन्द्र के समान मुख, सुन्दर भौ, उच्च नासिका, घुँघराले केश, समान तथा दीर्घ तरंग युक्त ॥ १८१ ॥ पद्म जैसे दोनो ओष्ठ, चार दाढे, सुशोभित मुख और विशाल भुजाएँ ॥ १८२ ॥ हाथ मे मत्स्य, जौ युक्त तथा पर्वत रेखा, कठ के पीछे की नाडी और पैर गभीर, पतली त्वचा एव उदर,

कठ मे त्रिवली रेखा का दिखाया देना ॥ १८३ ॥ इससे इसने किसी राजकुल मे जन्म लिया प्रतीत होना है, अहो, काल ने इसकी क्या दशा करदी है ॥ १८४ ॥ फिर माता की गोद मे पड़े हुए उम बालक को भले प्रकार देखने पर उन्हे रोहिताश्व की याद आगई ॥ १८५ ॥ उन्होने सोचा कि यदि दुरात्मा काल के वशीभूत न हुआ हो तो मेरा रोहिताश्व भी इतनी ही अवस्था का होगया होगा ॥ १८६ ॥ इधर रानी बोली—हा पुत्र ! किस पाप के कारण इम असीम घोर दुःख की प्राप्ति हुई है ॥ १८७ ॥ हे नाथ ! हे राजन् ! तुम इम सतप्ता को त्याग कर निष्ठुर चित्त से कहों किम प्रकार रहते हो ॥ १८८ ॥ एक राज्ज का छिनना, उम पर भी बधुओ से वियोग, फिर पत्नी-पुत्र का विक्रय, हा विधाता ! क्या तूने राजर्षि हरिश्चन्द्र का सर्वनाश ही नहीं कर डाला ? ॥ १८९ ॥

इतितस्यावच श्रुत्वाराजास्वस्थानतश्च्युत ।  
 प्रत्यभिज्ञायदयितापुत्रचनिध्ननगतम् ॥१९०॥  
 कैपानामगृहेयुक्ताममयोपिद्वराभवेत् ।  
 बालश्चसमृत क स्यादिनिराजाविचारयन् ॥१९१॥  
 कष्टशैब्येयमेषाहिसबालोऽयमितीरयन् ।  
 रुरोददु खसन्तप्तोमूर्च्छामभिजगामच ॥१९२॥  
 साचतप्रत्यभिज्ञायतामवस्थामुपागतम् ।  
 मूर्च्छतानिपपातार्तानिश्चेष्टाधरणीतले ॥१९३॥  
 चेत सप्राप्यराजेन्द्रोराजपत्नीचतौसमम् ।  
 विलेपतु सुसन्तप्तौशोकभारातिपीडितौ ॥१९४॥  
 हावत्ससुकुमारतेस्वक्षिभ्रूनासिकालकम् ।  
 पश्यतोमेमुखदीनहृदयकिनदीर्यते ॥१९५॥  
 ताततातेतिमधुरश्रुवाणस्वयमागतम् ।  
 उपगुह्यवदिष्येकवत्सवत्सेतिसौहृदात् ॥१९६॥

उसके वचन सुनकर राजा ने अपने पुत्र और स्त्री को पहिचान लिया तथा अपने स्थान से गिर पड़े ॥ १९० ॥ यह स्त्री कौन है, क्या मेरी पत्नी है ? यह मृत बालक कौन है ? इस प्रकार विचार करते हुए राजा हरिश्चन्द्र

व्याकुल हो उठे ॥ १६१ ॥ हा, कैसा दुःख है ? यही वह शैब्या है और यही वह बालक है ऐसा कहते हुए अत्यन्त सन्ताप से रोने लगे और मूर्च्छित होकर पृथिवी पर गिर पड़े ॥ १६२ ॥ रानी भी राजा की पहिचान कर मूर्च्छा को प्राप्त होकर पृथिवी में गिर पड़ी ॥ १६३ ॥ फिर दोनों ही चैतन्य होकर शोक से सतप्त होकर अत्यन्त विलाप करने लगे ॥ १६४ ॥ राजा ने कहा—हे वत्स ! तुम्हरे मुन्दर नेत्रादि से युक्त मुकोमल वदन को इस प्रकार मलोन देख कर हृदय फट क्यों नहीं जाता ? ॥ १६५ ॥ मीठे स्वरों से तात, तात, कहता हुआ अब कौन मेरे पाम आयेगा ? अब मैं किसे स्नेह पूर्वक गोदी में लेकर वत्स, वत्स करूँगा ॥ १६६ ॥

कस्यजानुप्रणीतेनपिङ्गेनक्षितिरेमुना ।

ममोत्तरीयमुत्सङ्ग तथाङ्ग मलमेण्यति ॥१६७॥

अङ्गप्रत्यङ्गसम्भूतोमनोहृदयनन्दन ।

मयाकुपित्राहावत्साविक्रीतोयेनवस्तुवत् ॥१६८॥

हृत्वा राज्थमणेषमेसबाधवधनमहत् ।

दैवाहिनानृशासेनदष्टोमेतनयस्तत ॥१६९॥

अहर्दैवाहिदष्टस्यपुत्रस्याननपङ्कजम् ।

निरीक्षणपिघोरेणविपेणान्धीकृतोऽधुना ॥२००॥

एवमुक्त्वातमादायबालकवाष्पगदगद ।

परिष्वज्यचनिश्चेष्टोमूर्च्छयानिपपातह ॥१॥

अयसपुरुषव्याघ्र स्वरेणौवोपलक्ष्यते ।

विद्वज्जनमनश्चन्द्रोहरिश्चन्द्रोनसशय ॥२॥

तयास्यनासिकातुङ्गाअग्रतोऽधोमुखगता ।

दन्ताश्चमुकुलप्रख्या ख्यातकीर्त्तर्मेहात्मन ॥३॥

श्मशानमागत कस्मादद्यैपसनरेश्वर ।

अपहायपुत्रशोकसापश्यत्पतितपतिम् ॥४॥

अब किमी की जाँघ में लगी धूल में मेरा उत्तरीय और शरीर मैल होगा ? ॥ १६७ ॥ हा, तुम मेरे अग्र-प्रत्यग्र उत्पन्न होकर मन और हृदय के लिए आनन्द देने वाले थे, तो भी मैंने तुम्हें सामान्य वस्तु के समान बेच दिया

॥ १९८ ॥ हा देव रूपी दुष्ट नाग ने मेरा राज्य, माधन तथा सर्वस्व हरण करके अन्त मे तुम्हें भी डम लिया ॥ १९९ ॥ देव रूपी सर्प द्वारा इस पुत्र का मुखारविन्द देखते हुए मे भी उसके भीषण विष से अधा होरहा हूँ ॥ २०० ॥ राजा ने गद्गद कठ से इस प्रकार विनाप करते हुए बालक को अपने गोद मे उठाया और तुरन्त मूर्च्छित होकर गिर गये ॥ २०१ ॥ रानी बोली—स्वर्ग मे प्रतीत होता है कि यही वह पुरुष मिह महाराज हरिश्चन्द्र है, इनमें मशय नही है ॥ २०२ ॥ इनकी ऊँची नामिका अग्रभाग मे उन्ही के समान अग्रोमुख हुई है, इनकी दन्त-वृत्ति भी उन्ही के समान कली जैसी है ॥ २०३ ॥ परन्तु, वह राजा हरिश्चन्द्र आज श्मशान मे क्यों ह, यह कहती हुई रानी मूर्च्छित पड़े हुए अपन स्वामी को देखने लगी ॥ २०४ ॥

प्रहृष्टाविस्मितादीनामनृपुत्राधिपीडिता ।

वीक्षन्तीसाततोऽपश्यद्भृतृदण्डजुगुप्सितम् ॥५॥

श्वपाकार्हसनोमोहजगामायतलोचना ।

प्राप्यचेतश्चशनकैसगदगदमभापत ॥६॥

ध्रिक्त्वादैवात्यकरुणनिर्मयादजुगुप्सितम् ।

येनायममरप्रद्योनीतोराराजश्वपाकताम् ॥७॥

राज्यनागमुहत्यागभार्यातनयविक्रयम् ।

प्रापयित्वापिनोमुक्तश्चण्डालोऽयकृतोत्प ॥ ८ ॥

हाराजञ्जातसन्तापामित्थमादरणीतलान् ।

उत्थाप्यनाद्यपर्यङ्कमारोहिनिकिमुच्यते ॥ ९ ॥

नाद्यपश्यामितेच्छत्रशृङ्गारमथवापुन ।

चामरव्यजनचापिकोऽयविद्विविपर्यय ॥ १० ॥

उम दुर्बलाङ्गी शैव्या ने विस्मय पूर्वक पीडा से इधर-उधर देखते हुए राजा के उम चाण्डाल दड को देखा ॥ २०५ ॥ मैं चाण्डाल की पत्नी हूँ ऐसा कहती हुई रानी मोहित होकर गद्गद कठ से बोती ॥ २०६ ॥ अरे, मर्यादाहीन, निन्दित, नृशम दैव ! तुझे धिक्कार है, जो तूने मेरे देव-तुल्य स्वामी को चाण्डाल बनाया है ॥ २०७ ॥ तू राज्य से भ्रष्ट करके, वधुओं से वियोग करा कर तथा पत्नी-पुत्र को विक्रय कर भी शान्त न हुआ और अब चाण्डालत्व

प्राप्त करा दिया ॥ २०८ ॥ हे राजन् ! इस प्रकार सताप ग्रस्त हुई इस पृथ्वी पर पड़ी हूँ, आज आप वहाँ से उठा कर पलंग बैठने को क्यों नहीं कहते ॥ २०९ ॥ आज आपका छत्र और शृंगार दिखाई क्यों नहीं देता ? वह चमर, वह पखा कहाँ है ? दब की कैसी विडम्बना है ? ॥ २१० ॥

यस्याग्रे व्रजत पूर्वराजानोभृत्यतागता ।

स्वोत्तरीयैर्कुर्वन्तनीरजस्कमहीतलम् ॥११॥

सोयकपालसलग्नघटीघटनिरन्तरे ।

मृतनिर्माल्यसूत्रान्तर्गूढकेशेसुदारुणे ॥१२॥

वसानिष्यन्दसशुष्यमहीपुटकमण्डिते ।

भस्माङ्गारार्द्धदग्धास्थिमज्जासघट्टभीपणे ॥१३॥

गृध्रगोमायुनार्त्तनष्टक्षुद्रविहगमे ।

चिताधूमायतिरुच्चानीलीकृतदिगन्तरे ॥१४॥

कुणपास्वादनमुदासप्रहृष्टनिशाचरे ।

चरत्यमेध्येराजेन्द्रश्मशानेदुखपीडित ॥१५॥

एवमुक्त्वासमाश्लिष्यकण्ठराज्ञोनृपात्मजा ।

कष्टशोकशताधाराविललापार्त्तयागिरा ॥१६॥

जिन राजा हरिश्चन्द्र के चलते समय राजा लोग मार्ग की धूल अपने दुपट्टे से झाड़ते थे, वही आज असह्य दुःख से दुःखित हुए इस अपवित्र श्मशान में एकाकी धूमते हैं ॥ २११ ॥ जहाँ मृतको के कपालों के साथ घड़े चारों दिशाओं में पड़े हैं तथा मृतको के निर्माल्य सूत्र में बहुत-से बाल लगे रहने के कारण जो धार दिखाई दे रहा है ॥ २१२ ॥ मृत-देह से टपकती बना और शुष्क काष्ठ से चारों दिशाएँ भर रही हैं और जो भस्म, अंगार और अधजली हड्डी और मज्जा के कारण अत्यन्त भयकर हो गया है ॥ २१३ ॥ गृध्र तथा गोमायु के शब्द से छोटे-छोटे पक्षी जहाँ से भागते हैं तथा जहाँ चिता के धूम्र से दिशा-विदिशा नील वर्ण की होगई है ॥ २१४ ॥ और माँस भ्रमण से प्रसन्न हुए राक्षस इधर-उधर धूमते हैं, उसी स्थान में यह महाराज सतप्त हुए एकाकी फिरते हैं ॥ २१५ ॥ इस प्रकार कहती हुई रानी शैब्या राजा के कण्ठ से लिपट कर विलाप करने लगी ॥ २१६ ॥



राजन्स्वप्नोऽथतथ्यवायदेतन्मन्यतेभवान्।  
 तत्कथ्यतामहाभागमनोवैमुह्यतेमम ॥१७॥  
 यद्ये तदेवंधर्मज्ञानास्तिधर्मसहायता ।  
 तथैवविप्रदेवादिपूजनेपालनेभुव ॥१८॥  
 नास्तिधर्म कुत सत्यमार्जवचानृशसता ।  
 यत्रत्वधर्मपरम स्वराज्यादवरोपित ॥१९॥  
 इतितस्यावच श्रुत्वानिश्चस्योष्णसगदग्दम् ।  
 कथयामासतन्वग्यायथाप्राप्ताश्वपाकता ॥२०॥  
 रुदित्वासापिसुचिरनि श्वस्योष्णचटु खिता ।  
 स्वपुत्रमरणभीरुर्थथावृत्त न्यवेदयत् ॥२१॥  
 श्रुत्वाराजातदावाक्य निपपातमहीतले ।  
 मृतस्यपुत्रस्यतदाजिह्वयालेलिहन्मुखम् ॥२२॥  
 यमस्यभिक्षायाचाव कृपणौपुत्रग द्विनौ ।  
 तस्माच्छीघ्र ब्रजाबोद्यपुत्रोयत्रप्रियोगत ॥२३॥  
 प्रियेनरोचयेदीर्घकालक्लेशमुपासितुम् ।  
 नात्मायत्तश्चतन्वद्भिपश्यमेमन्दभाग्यताम् ॥२४॥

रानी बोली—हे राजन् ! मैं जो देख रही ढे वह स्वप्न है अथवा सत्य ? आपको जो ज्ञात हो वह बताइये, क्योंकि मैं तो मोहवश विचारशक्ति को खो चुकी हूँ ॥ २१७ ॥ यदि यह सत्य है तो धर्म सहायक नहीं हुआ तथा देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन भी निष्फल हुआ तथा पृथिवी का पालन भी व्यर्थ ही रहा ॥ २१८ ॥ इसलिए धर्म नहीं, सत्य नहीं, सरलता और सदयता भी नहीं, आपका तो धर्म ही परम बल है, फिर भी राज्य से भ्रष्ट होगये ॥ २१९ ॥ रानी शैब्या की बात सुन कर उष्ण श्वास छोडते हुए राजा ने चाण्डालत्व प्राप्ति का यथावत वर्णन किया ॥ २२० ॥ उनका वृत्तान्त सुन कर रानी भी बहुत समय तक रोती रही और उसने मृत्यु का सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा ॥ २२१ ॥ रानी की बात सुन कर राजा पृथिवी पर गिर पडे और अपने मृतक पुत्र के मुख को चाटने लगे ॥ २२२ ॥ राजा ने कहा—हम उस पुत्रलोभी यमराज से भिक्षा माँगे, हमारा पुत्र जहाँ गया है, हम भी अब वही

चल ॥ २२३ ॥ हे प्रिये ! मैं अब अधिक क्लेश नहीं सहना चाहता, परन्तु मैं कैसा मद भाग्य हूँ कि मेरा आत्मा भी मेरे वश में नहीं है ॥ २२४ ॥

चण्डालेनाननुज्ञात प्रवेक्ष्येज्वलनयदि ।

चाण्डालदासतायास्येपुनरप्यन्यजन्मनि ॥२५॥

नरकेचपतिष्यामिकीटक कृमिभोजन ।

वैतरण्यामहापूयवसासृक्स्नायुपिच्छिले ॥२६॥

असिपत्रवनेप्राप्यछेदप्राप्यस्यामिदारुणम् ।

तापप्राप्स्यामिवाप्राप्यमहारौरवरौरवौ ॥२७॥

मग्नस्यदु खजलऔपार प्राणवियोजनम् ।

एकोऽपिबालकोयोयमासीद्व शकर सुत ॥२८॥

ममदैवाम्बुवेगेनमग्न सोऽपिबलीयसा ।

कथप्राणान्विमु चामिपरायत्तोऽस्मिदुर्गत ॥२९॥

अथवानार्तिनाक्लिष्टोनर पापमवेक्षते ।

तिर्यक्त्वेनास्तितद्दु खनासिपत्रवनेतथा ॥२३०॥

वैतरण्याकुतस्तादृग्यादृशपुत्रविप्लवे ।

सोऽहसुतशरीरेणदीप्यमानेहुताशने ॥२३१॥

निपतिष्यामितन्वङ्गिक्षन्तव्यकुकृतमम ।

अनुज्ञाताचगच्छत्वविप्रवेशमशुचिस्मिते ॥२३२॥

यदि मैं चाण्डाल की आज्ञा के बिना अग्नि-प्रवेश करूँगा तो मुझे पुन-  
जन्म में भी चाण्डाल का ही दास होना होगा ॥ २२५ ॥ अथवा कृमि भक्षक  
कीट होकर नरक में पडना होगा अथवा वैतरणी, पवि, वसा, रुधिर आदि  
से युक्त नरक की यत्रणा भोगनी होगी ॥ २२६ ॥ अथवा असिपत्र वन को  
प्राप्त होकर दारुण छेदन यत्रण भोगूँगा या रौरव अथवा महारौरव में दुसह  
ताप में पहुँचूँगा ॥ २२७ ॥ दुख रूपी सागर में डूबने वाले के लिए पार भूमि  
प्राण त्याग ही है अहो, मेरा जो एक बालक वश की वृद्धि वाला था ॥ २२८ ॥  
वह भी दैव रूपी जल में डूब गया, इस असीम दुर्गति रूप भोग के होते हुए  
भी पराधीन होने के कारण प्राण भी कैसे त्याग सकता हूँ ॥ २२९ ॥ अथवा  
आर्त्त पुरुष को पाप का क्या देखना ? जो असह्य दुख पुत्र में है, वैसा तिर्यग्

योनि, जमिपत्र वन ॥ २३० ॥ अग्नि ब्रतरी मे भी नहीं हे, इसलिए पुत्रदेह के माथ मैं भी प्रज्वलित अग्नि मे जग जाऊँगा, हे तन्वङ्गी ! मेरे द्वारा हुए अन्याय आचरण को क्षमा करो और मेरी आज्ञा ने उमी ब्राह्मण के गृह जाओ ॥ २३१ ॥ ॥ २३२ ॥

ममवाक्यचतन्वङ्गिनिबोधाहतमानसा ।

यदिदत्त यदिहुतगुरवोयदितोपिता ॥२३३॥

परत्रमङ्गमोभूयान्पुत्रेणसहचत्वया ।

इहलोकैकुनस्त्वेतद्भ्रविष्यतिममेङ्गितम् ॥२३४॥

त्वयासहममश्रेयोगमनपुत्रमार्गणे ।

यन्मयाहसताकिच्चिद्रहस्येवाशुचिस्मिते ॥२३५॥

अश्लीलमुक्त तत्सर्वक्षन्त्वयममयाचत ।

राजपत्नीतिगर्वेणनावहेयस्तेद्विज ।

सर्वयत्नेनतेतोप्यस्वामीदेवतवच्छुभे ॥२३६॥

अहमप्यत्रराजपदेप्यमानेहुताशने ।

दुखभारासहाद्यैवसह्यास्यामिवैत्वया ॥२३७॥

सहस्वर्गचनरकसहैवावाहिभुक्ष्वहे ।

श्रुत्वारजातदोवाचएवमस्तुपतिव्रते ॥२३८॥

मेरे कथन को आदर पूर्वक सुनो यदि मैंने दान, हवन अथवा गुरुजनो की सतुष्टि की है ॥ २३३ ॥ तो मैं इस पुत्र और तुम्हारे माथ पुनर्जन्म मे भेंट करूँगा, अब, इसलोक मेरा यह अभिप्राय सिद्ध होना सम्भव नहीं है ॥ २३४ ॥ अथवा तुम्हें भी मेरे साथ पुत्र के मार्ग का अनुसरण करना चाहिये, यदि हास्य के रूप मे इस निर्जन स्थान मे ॥ २३५ ॥ कुछ अनुचित बात निकल गयी हो तो उसे क्षमा करना, उस ब्राह्मण का राजपत्नी होने के अह-मे निरादर मत करना उमको स्वामी अथवा देवता के समान सतुष्ट रखना ॥ २३६ ॥ रानी बोली—हे राजर्षि ! मैं भी अब इस दुख भार को सहन करने मे समर्थ नहीं हूँ, इसलिए इन प्रज्वलित अग्नि मे आपके साथ ही प्रवेश करूँगी ॥ २३७ ॥ वहाँ मैं, पुत्र और आप हम तीनों ही एक स्थान मे रह कर स्वर्ग या नरक का भोग करेगे, रानी की बात सुन कर राजा ने कहा—

हे पतिव्रते ! ऐसा ही करना ॥ २३८ ॥

तत कृत्वाचिताराजाआरोप्यतनयस्वकम् ।  
 भार्ययासहितश्चासौबद्धाजलिपुटस्तदा ॥२३९॥  
 चिन्तयन्परमात्मानमीशानारायणहरिम् ।  
 हृत्कोटरगुहासीनवासुदेवसुरेश्वरम् ।  
 अनादिनिधनब्रह्माकृष्णपीताम्बरशुभम् ॥२४०॥  
 तस्यचिन्तयमानस्यसर्वेदेवा सवासवा ।  
 धर्मप्रमुखत कृत्वासमाजग्मुस्त्वरान्विता ॥२४१॥  
 आगत्यसर्वेप्रोचुस्तेभोभोराजञ्चशृणुप्रभो ।  
 अयपितामह साक्षाद्धर्मश्चभगवान्स्वयम् ॥२४२॥  
 साध्याश्चविश्वेमरुतोलोकपाला सचारणा ।  
 नागा सिद्धा सगन्धर्वारुद्राश्चैवतथाश्विनौ ॥२४३॥  
 एतेचान्येचब्रह्मवोविश्वामित्रस्तथैवच ।  
 विश्वत्रयेणयोमित्कत्तुर्वैनाशकत्पुरा ॥२४४॥  
 विश्वामित्रस्तुतेमैत्रीमिष्ट चाहतुर्मिच्छति ।  
 आरुरोहतत प्राप्तोर्धर्म शक्रोऽथगाधिज ॥२४५॥

पक्षियो ने कहा—राजा हरिश्चन्द्र ने चिता बना कर अपने पुत्र को उस पर रखा और पत्नी के सहित हाथ जोड़ कर जैसे ही ॥ २३९ ॥ परमात्मा, ईस, वासुदेव, सुरेश्वर, परब्रह्मा, कृष्ण, पीताम्बरधारी, शुभदायक, हृदय में वास करने वाले, अनादि निधन, नायायण, हरि का चिन्तन किया ॥ २४० ॥ वैसे ही धर्म को आगे करके इन्द्रादि शिवगण शीघ्रता पूर्वक वहाँ पहुँचे ॥ २४१ ॥ वे सभी देवता कहने लगे—हे राजन् ! हय साक्षात् ब्रह्मा है, यह साक्षात् धर्म है ॥ २४२ ॥ यह साध्यगण, मरुद्गण, विश्वेदेवा, सब लोकपाल नागगण, सिद्धगण, गन्धर्वों सहित रुद्रगण तथा दोनो अश्विनीकुमार ॥ २४३ ॥ अथवा अन्यान्य सभी देवता अपने-अपने वाहन सहित उपस्थित हैं और जो त्रैलोक्य के साथ मित्रता नहीं कर सकते वह विश्वामित्र भी आये हैं ॥ २४४ ॥ यह सभी आपके साथ मित्रता करने को आये हैं, धर्म, इन्द्र और विश्वामित्र यह तीनों राजा के पास आये ॥ २४५ ॥

माराजन्साहसकार्षीधर्मोऽहृत्वामुपागत ।  
 तितिक्षादमसत्याद्यै स्वगुणै परितोषित ॥२४६॥  
 हरिश्चन्द्रमहाभागप्राप्त शक्रोस्मितेऽन्तिकम् ।  
 त्वयासभार्यापुत्रेणजितालोका सनातना ॥२४७॥  
 आरोहत्रिदिवराजन्भार्यापुत्रसमन्वित ।  
 सुदुष्प्रापनरैरन्यैर्जितमात्मीयकर्मभि ॥२४८॥  
 ततोऽमृतमयवर्षमपमृत्युविनाशनम् ।  
 इन्द्र प्रासृजदाकाशाच्चितास्थानगत प्रभु ॥२४९॥  
 पुष्पवर्षचसुमहद्देवदुन्दुभिनि स्वनम् ।  
 तनस्ततोवर्तमानेसमाजेदेवसकुले ॥२५०॥  
 समुत्तस्थौतत पुत्रोराज्ञस्तस्यमहात्मन ।  
 मुकुमारतनु सुस्थ प्रसन्नेन्द्रियमानस ॥२५१॥  
 ततोराजाहरिश्चन्द्र परिष्वज्यसुतक्षणात् ।  
 सभार्य्य सुश्रियायुक्तोदिव्यमाल्याम्बरान्वित ॥२५२॥

धर्म बोला—राजन् । अब इस साहसिक कार्य से निवृत्त होइये, मैं धर्म हूँ, मुझे आपने तितिक्षा, दम, सत्य इत्यादि गुणों से सन्तुष्ट किया है इस-लिए स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ ॥ २४६ ॥ इन्द्र बोले—हे महाभाग । मैं इन्द्र हूँ आपने पत्नी पुत्र के सहित सभी सनातन लोको को जीता है ॥ २४७ ॥ इस-लिए आप अन्य मनुष्यों को दुर्लभ स्वर्ग में पत्नी और पुत्र के सहित चलो ॥ २४८ ॥ पक्षियों ने कहा—इसके पश्चात् इन्द्र चिता स्थान में गये और वहाँ उन्होने अपमृत्यु का क्षय करने वाले अमृत की वर्षा की ॥ २४९ ॥ तथा उम सभा में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और दुहुभी बजने लगी ॥ २५० ॥ फिर उस महात्मा राजा का कोमल अंग वाला पुत्र रोहिताश्रु भी स्वस्थ होकर प्रमन्न मन से उठ बैठा ॥ २५१ ॥ उम समय राजा ने क्षणभर को पुत्र का आलिंगन किया तथा दिव्य वस्त्र और माला धारण कर पत्नी सहित सुशोभित हुए ॥ २५२ ॥

स्वस्थ सम्पूर्णहृदयोमुदापरमयायुत ।

बभूवतत्क्षणादिन्द्रोभूयश्चैनमभाषत ॥२५३॥

सभार्यस्त्वमपुत्रश्चप्राप्स्यसेसद्गतिपराम् ।  
 समारोहमहाभागनिजानाकर्मणाफलै १२५४॥  
 देवराजाननुज्ञात स्वामिनाश्वपचेनवै ।  
 अगत्वानिष्कृतितस्यनारोक्ष्येऽहसुरालयम् ॥२५५॥  
 तवैनशाविनक्लेषमवगम्यात्ममायया ।  
 आत्माश्वपाकतानीतोर्दशिततच्चचापलम् ॥२५६॥  
 प्रार्थ्यतेयत्परस्थानसमस्तैर्मनुजैर्भुवि ।  
 तदारोहहरिश्चन्द्रस्थानपुण्यकृतानृणाम् ॥२५७॥  
 देवराजनगस्तुभ्यवाक्यचैतन्निबोधमे ।  
 प्रसादसुमुखयत्त्वाब्रवीमिप्रश्रयान्वित ॥२५८॥  
 सच्छोकापन्नमनस कोसलागगरेजना ।  
 तिष्ठन्तितानपोद्गाद्यकथयास्याम्यहदिवम् ॥२५९॥

तथा जले प्रवृत्त स्वस्थ और आनन्दित हुए, तब इन्द्र ने उससे कहा  
 ॥ २५३ ॥ हे महाभाग । अप पत्नी पुत्र सहित परम सद्गति पायने इमल्लिए  
 अपने कर्मफल के द्वारा स्वर्ग में निवास कीजिए ॥ २५४ ॥ हरिश्चन्द्र ने कहा—  
 मैं अपने स्वामी जाम्बाल की अनुमति के बिना स्वर्ग में नहीं जा सकता  
 ॥ २५५ ॥ धर्म ने कहा—राजन् । तुम्हारे भावी क्लेश को जानकर मैंने  
 ही चाण्डाल का रूप धारण किया था ॥ २५६ ॥ इन्द्र कहा—जिस परम  
 स्थान में पहुँचने के लिए पृथिवी के सब मनुष्य प्रार्थना करते हैं, तुम उस  
 स्थान को गमन करो ॥ २५७ ॥ हरिश्चन्द्र ने कहा—हे सुरपते । आपको  
 नमस्कार है, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, उसे मुनिये ॥ २५८ ॥  
 नगर के सभी मनुष्य मेरे शोक में पड़े हैं, मैं उन्हें छोड़कर स्वर्ग में कैसे  
 जाऊँ ॥ २५९ ॥

ब्रह्महत्यागुरोर्घातोगोवध स्त्रीवधस्तथा ।  
 तुल्यमेभिर्महापापभक्तत्यागेऽप्युदाहृतम् ॥२६०॥  
 भजन्तभक्तमत्याज्यमदुष्ट त्यजत सुखम् ।  
 नेहनामुत्रपश्यामितस्माच्छक्रदिवव्रज ॥२६१॥  
 यदितेसहिता स्वर्गमयायान्तिसुरेश्वर ।

ततोऽहमपियास्यामिनरकवापितै सह ॥२६२॥  
 बहूनिपुण्यपापानितेपाभिन्नानिवैपृथक् ।  
 कथसघातभोग्यत्वभूय स्वर्गमवाप्स्यसि ॥२६३॥  
 शक्रभु वनेनृपोराज्यप्रभावेणकुटुम्बिनाम् ।  
 यजतेचमहायज्ञै कर्मपौतकरोतिच ॥२६४॥  
 तच्चतेपाप्रभावेणमयासर्वमनुत्तम् ।  
 उपकृत्तसन्त्यक्ष्येतानहस्वर्गलिप्मया ॥२६५॥  
 तस्माद्यन्ममदेवेशकिञ्चिदस्तिमुचेष्टितम् ।  
 दत्तमिष्टमथोजप्तसामान्यतैस्तदस्तुन ॥२६६॥  
 बहुकालोपभोग्यहिफलयन्ममकर्मण ।  
 तदस्तुदिनमप्येकतै समन्वत्प्रसादन ॥२६७॥

ब्रह्महत्या, गुन्हत्या, गोहत्या अथवा स्त्री हत्या का जो पाप होता है, वही पाप भक्त का त्याग करने से है ॥ २६० ॥ अपने भक्तों का त्याग करने पर लोक-परलोक में कोई सुख नहीं है, अतः आप स्वर्ग को गजन करे ॥ २६१ ॥ हे देवेश्वर ! मेरे साथ वह भी स्वर्ग में जाय तो मैं भी वहाँ जाऊँगा, अन्यथा उनके साथ नरक में ही निवास करूँगा ॥ २६२ ॥ इन्द्र बोले—उन प्रजाजनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पाप-पुण्य हुए हैं, तो वे आपके साथ स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं ॥ २६३ ॥ हरिश्चन्द्र ने कहा—हे मुरेश्वर ! कुटुम्बियों के प्रभाव से ही राजा राज्य भोगता और वावड़ी, कुए आदि बनाता है ॥ २६४ ॥ मैंने भी जो धर्म कार्य किये हैं, वह उनके सहयोग से किये हैं, इसलिए सामान्य स्वर्ग के लोभ में उन उपकार करने वालों का त्याग नहीं करूँगा ॥ २६५ ॥ इसलिए मैंने जो कुछ भी जप, दान, पुण्य किया है, वह उनके सहित सब से समान हो ॥ २६६ ॥ मेरे पुण्य फल का जो भोग बहुत समय तक भोगने योग्य हो, वह उनके साथ चाहे एक दिन को ही भोग सकूँ, ऐसा कीजिये ॥ २६७ ॥

एवमविप्यतीत्युक्त्वाशक्रस्त्रिभुवनेश्वर ।  
 प्रसन्नचेताधर्मश्चविश्रामित्रश्चगाधिज ॥२६८॥  
 गत्वाशुनगरसर्वेचानुर्वर्ण्यसमायुतम् ।

हरिश्चन्द्रस्यनिकटेप्रोवाचविबुधाधिप ॥२६६॥  
 आगच्छतुजना शीघ्र स्वर्गलोकसुदुर्लभम् ।  
 धर्मप्रसादात्सप्राप्तसर्वैर्युष्माभिरिवतु ॥२७०॥  
 विमानकोटिसम्बद्ध स्वर्गलोकान्महीतलम् ।  
 गत्वायोध्याजनप्राहदिवमारुह्यतामिति ॥२७१॥  
 तदेन्द्रस्यवच श्रुत्वाप्रीत्यातस्यचभूपते ।  
 आनीयरोहिताश्च चविश्वामित्रोमहातप ॥२७२॥  
 अयोध्याख्येपुरेरम्येसोऽभ्यषिचन्तृपात्मजम् ।  
 देवैश्चमुनिभि सिद्धै रभिषिच्यनराधिप ॥२७३॥  
 राज्ञासहतदासवैहृष्टपुष्टसुहृज्जना ।  
 सपुत्रभृत्यदारास्तेदिवमारुरुहूर्जना ॥२७४॥

पक्षियो ने कहा—‘ऐसा ही होगा’ कह कर इन्द्र, धर्म और विश्वामित्रजी ॥ २६८ ॥ सभी उस नगर में गये और सब प्रजाजनों को राजा हरिश्चन्द्र के सहित एकत्र किया, तब इन्द्र बोले ॥ २६९ ॥ हे मनुष्यो ! तुमने धर्म के प्रसाद से अत्यन्त कठिनता से प्राप्य स्वर्गलोक को प्राप्त किया है, इसे लिए वही चलो ॥ २७० ॥ इसके पश्चात् स्वर्ग से करोड़ों विमान वहाँ आये और अयोध्यावासियों से कहा गया कि स्वर्ग में जाने के लिए इन विमानों पर शीघ्र चढ़ो ॥ २७१ ॥ फिर विश्वामित्र राजा को प्रमत्त करने के निमित्त इन्द्र के वचन से रोहिताश्व को वहाँ लाये ॥ २७२ ॥ और उसे अयोध्यानगरी के राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया, उस समय सब अयोध्या बन्धु बाधव, सिद्ध, मुनि और देवगणों के समक्ष अभिषेक कर भार्या, पुत्र, सेवक आदि में मिलकर सभी स्वर्ग को चले ॥ २७१ ॥ ॥ २७४ ॥

पदेपदेविमानात्ते विमानमगमत्तरा ।  
 तदासभूतहर्षोसौहृश्चन्द्रश्चपार्थिव ॥२७५॥  
 सप्राप्यभूतिमतुलाविमानै समहीपति ।  
 आसाचक्रे पुराकारेवप्रप्राकारसवृते ॥२७६॥  
 ततस्तस्यर्द्धिमालोव्यश्लोकतत्रोशनाजगौ ।  
 दैत्याचार्योमहाभाग सर्वशास्त्रार्थतत्त्वतित् ॥२७७॥



हरिश्चन्द्रसमो राजानाभूतो न भविष्यति ।  
यश्चैतच्छृणुयाद्भक्त्या नैरन्तर्येण मानव ॥२७८॥  
तेन वेदा पुराणानि सर्वमत्रा सुसग्रहा ।  
घुष्टा स्युः पुष्करेतीर्थे प्रयागे सिन्धुसागरे ॥२७९॥  
देवागारे कुक्षेत्रे वाराणस्याविशेषतः ।  
विषुवद्रहणे चैव यत्फलजपतोलभेत् ॥२८०॥

मार्ग में वे एक से दूसरे विमान में चढ़ रहे थे, उस समय राजा हरिश्चन्द्र भी बहुत प्रसन्न हुए ॥ २७५ ॥ तब उन्हें विमान में चढ़ने की महान् विभूति का अनुभव हुआ और वे बलयाकार परकोटे से सयुक्त स्थित रहे ॥ २७६ ॥ उस समय सर्व शास्त्रों के तत्व ज्ञाता दैत्यो के आचार्य शुक्राचार्यजी ने राजा के इस ऐश्वर्य को देख कर प्रणमि गान किया ॥ २७७ ॥ वे बोले— राजा हरिश्चन्द्र के समान विश्व में न कोई हुआ न भविष्य में होगा, क्योंकि वे तितिक्षा और दान के फल से अपने नगर निवासियों को भी स्वर्ग में ले गये, इन राजा हरिश्चन्द्र की कथा को भक्ति महित जो कोई श्रवण करेगा ॥ २७८ ॥ वह वेद, पुराण तथा सभी मंत्रों के फल को पायेगा, जो कोई पुष्कर, प्रयाग, सिन्धु सागर ॥ २७९ ॥ देव मंदिर, कुक्षेत्र और वाराणसी में पाठ करेगा उसे विशेष फल मिलेगा, तथा जो फल विषुवती और ग्रहण में जप करने से होता है ॥ २८० ॥

तत्फलद्विगुणचैव सयतात्मा शृणोति यः ।  
श्रुत्वा तु पूजयेद्भक्त्या पुराणज्ञद्विजोत्तमम् ॥२८१॥  
गोभूहिरण्यवस्त्रैश्च तथैमानै न जैमिने ।  
येनैव यत्कृतपुण्यतच्छक्य न मयोदितुम् ॥२८२॥  
अहो तितिक्षामाहात्म्यमहोदानफलमहत् ।  
यदागतो हरिश्चन्द्र पुरीचेन्द्रत्वमाप्तवान् ॥२८३॥  
एतत्तं सर्वमाख्यात हरिश्चन्द्रविचेष्टितम् ।  
यः शृणोति दुःखार्त्तसुखमहदाप्नुयात् ॥२८४॥  
स्वर्गार्थी प्राप्नुयात्स्वर्गपुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात् ।  
भार्यार्थी प्राप्नुयाद्भार्या राज्यार्थी राज्यमाप्नुयात् ॥२८५॥

अत परकथाशेष श्रूयतामुनिसत्तम ।  
 विपाकोराजसूयस्यपृथिवीक्षयकारणम् ।  
 तद्विपाकनिमित्तं चयुद्धमाडिबकमहत् ॥२८६॥

उससे द्विगुण फल इसे इन्द्रिय के समय पूर्वक सुनने से होता है, इस कथा को सुन कर पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को सतुष्ट करे ॥ २८१ ॥ उसे गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र तथा अन्न प्रदान करने से जो पुण्य होता है, वह अवर्णनीय है ॥ २८२ ॥ तितिक्षा और दान का महान् फल होता है, उसी के प्रभाव से राजा हरिश्चन्द्र को इद्रत्व की प्राप्ति हुई और वे अपने नगर निवामियो सहित स्वर्ग को प्राप्त हुए ॥ २८३ ॥ पक्षियो ने कहा—हे जैमिने ! आपसे हरिश्चन्द्र का सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा गया, दुखो से आर्त्त मनुष्यो को इसके श्रवण से अत्यन्त सुख की प्राप्ति होती है ॥ २८४ ॥ इससे स्वर्गाकाक्षी को स्वर्ग, पुत्रेच्छु को पुत्र, पत्नी की कामना वाले को पत्नी तथा राज्य की इच्छा वाले को राज्य की प्राप्ति होती है ॥ २८५ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! अब तुम्हारे प्रति पृथिवी के क्षय का कारण, राजसूय यज्ञ का विपाक तथा उस विपाक से महत् आडिबक युद्ध स्वरूप शेष कथा को कहता हूँ, श्रवण करो ॥ २८६ ॥

इति श्री मार्कण्डेय पुराणे हरिश्चन्द्रोपारव्यान नाम अष्टमोऽध्याय ॥ ८ ॥

### ६--आडिबकयुद्ध

राज्यच्युतेहरिश्चन्द्रेगतेचलिदशालयम् ।  
 निश्चक्राममहातेजाजलवासात्पुरोहित ॥१॥  
 वसिष्ठोद्वादशाब्दान्तेगङ्गापर्युषितोमुनि ।  
 शुश्रावचसमस्तन्तुविश्वामित्रविचेष्टितम् ॥२॥  
 हरिश्चन्द्रस्यनाशञ्चराज्ञश्चोदारकर्मण ।  
 चण्डालसप्रयोगञ्चभार्यातनयविक्रयम् ॥३॥  
 सश्रुत्वासुमहाभाग प्रीतिमानवनीपतौ ।  
 चकारकोपतेजस्वीविश्वामित्रमृषिम्प्रति ॥४॥  
 ममपुत्रशततेनविश्वामित्रेणघातितम् ।

श्रुत्वानराधिपमिस्वराज्यादवरोपितम् ।  
 महात्मानमहाभागदेवब्राह्मणपूजकम् ॥६॥  
 यस्मात्ससत्यवाक्छान्त शत्रावपिविमतसर ।  
 अनागाश्चैवधमात्माअप्रमत्तोमदाश्रय ॥७॥  
 सपत्नीभृत्यपुत्रस्तुप्रापितोऽन्त्यादशानृपः ।  
 मराज्याच्च्यावितोऽनेनवहुशशचखिलीकृत ॥८॥  
 तस्माद्दुरात्माब्रह्मद्विड्यज्विनामवरोपक ।  
 मच्छापोपहतोमूढ सबकत्वामवाप्स्यति ॥९॥

पक्षियो ने कहा—जब राजा हरिश्चन्द्र राज्य से मुक्त होकर स्वर्ग को गये, उसके पश्चात् राजा के पुगेहित महातेज वाले वसिष्ठ जी जलमे बाहर निकले ॥ १ ॥ वसिष्ठजी बारह वर्ष जलवाम करके निकले थे, उन्होने बाहर निकल कर विश्वामित्र का वृत्तान्त सुना ॥ २ ॥ उदारकर्मा हरिश्चन्द्र जिस प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुए और उन्हे चाण्डालत्व की प्राप्ति हुई तथा उनके पुत्र का विक्रय हुआ ॥ ३ ॥ यह सब वृत्तान्त सुन कर वसिष्ठजी ने विश्वामित्र पर अत्यन्त क्रोध किया, क्योंकि वह राजा से बड़े प्रसन्न थे ॥ ४ ॥ वसिष्ठजी ने कहा—इतना क्रोध उस विश्वामित्र के हाथ से अपने सौ पुत्रों के मरने पर भी मुझे नहीं हुआ था, जितना कि देव-ब्राह्मणों का पूजन करने वाले राजा के राज्य से भ्रष्ट होने का वृत्तान्त सुन कर हुआ है ॥ ५ ॥ मेरे आश्रित सत्यवादी, निर्वैर निरपराधी, अप्रमत्त और धर्मात्मा राजा को ॥ ७ ॥ भार्या, पुत्र तथा सेवकों के सहित दुर्दशा को पहुँचाया, अपने राज्य से च्युत करके भाँति भाँति के दुःख दिये हैं ॥ ८ ॥ इसलिए वह ब्रह्मद्वेषी, दुरात्मा, मूर्ख एव याजियो के यज्ञ को नष्ट करने वाला विश्वामित्र मेरे शाप से अन्त को प्राप्त हो कर तिर्यग् योनि को प्राप्त हो ॥ ९ ॥

श्रुत्वाशापमहातेजाविश्वामित्रोऽपिकौशिक ।  
 त्वमप्याडिर्भववेतितस्मैशापमयच्छत ॥१०॥  
 अन्योन्यशापात्तौप्राप्तौतिर्यक्त्वपरमद्युती ।  
 वसिष्ठ समहाराजाविश्वामित्रश्चकौशिक ॥११॥  
 अन्यजातिसमायोगगतावप्यमितौजसौ ।

युयुधातेऽतिसरब्धौमहाबलपराक्रमौ ॥१२॥

योजनानासहस्रे द्वे प्रमाणेनाडिरुच्छ्रित ।

षण्णवत्यधिकब्रह्मसहस्रत्रितयबक ॥१३॥

तौतुपक्षप्रहाराभ्यामन्योन्यस्योरुविक्रमौ ।

प्रहारन्तौभयतीव्र प्रजानाचक्रतुस्तदा ॥१४॥

पक्षियो ने कहा—विश्वामित्रजी ने भी शाप की बात सुन कर वसिष्ठजी को शाप दिया-तुझे चील की योनि प्राप्त हो ॥१०॥ वसिष्ठ एव विश्वामित्र दोनो ही अत्यन्त तेजस्वी थे, इसलिए पारस्परिक शाप के वश दोनो ही खग-योनि को प्राप्त हुए ॥ ११ ॥ वे दोनो अत्यन्त तेजस्वी महान् बली थे, अत अत्यन्त क्रोध पूर्वक परस्पर युद्ध करने लगे ॥ १२ ॥ हे ब्रह्मन् ! आडि रूपी वसिष्ठ दो हजार योजन ऊँचा और बगुला रूपी विश्वामित्र तीन हजार छियानवे योजन ऊँचा उडा ॥ १३ ॥ उन दोनो अत्यन्त पराक्रमी पक्षियो के परस्पर प्रहारो को देख कर प्रजा को अत्यन्त भय प्राप्त हुआ ॥ १४ ॥

विधूयपक्षाणिबकोरक्तोद्वृत्ताक्षिराहनत् ।

आडिसोऽप्युन्नतग्रीवोबकपद्भ्यामताडयत् ॥१५॥

तयो पक्षानिलापास्ता प्रपेतुर्गिरयोभुवि ।

गिरिप्रपाताभिहृताचकम्पेच्चवसुन्धरा ॥१६॥

क्षमाकम्पमानाजलधीनुद्वृत्ताम्बूश्चकारच ।

ननामचैकपाश्वेनपातालगमनोन्मुखी ॥१७॥

केचिद्रिरिनिपातेनकेचिदभोधिवारिणा ।

केचिन्महीसचलनात्प्रययु प्राणिन क्षयम् ॥१८॥

इतिसर्वपरित्रस्तहाहाभूतमचेतनम् ।

जगदासीत्मुसभ्रातपर्यस्तक्षितिमण्डलम् ॥१९॥

हावत्सहाकातशिणोप्रयाह्य षोऽस्मिस्थित ।

हाप्रियेकातशैलोज्यपतत्याशुपलायताम् ॥२०॥

इत्याकुलीकृतेलोकेसत्रासविमुखेतदा ।

सुरैः परिवृत सर्वैराजगामपितामह ॥२१॥

बगुले ने रक्तवर्ण वाले नेत्रो से सभी फैलाए हुए पखो को चला कर

चील को आहत किया, तभी चील ने कठ उठा कर अपने पर से बगुले पर आघात किया ॥ १५ ॥ उनके पखों की हवा से अनेक पर्वत टूट कर गिरने लगे, जिमसे पृथिवी भी कपायमान हो उठी ॥ १६ ॥ पृथिवी के काँपने से समुद्र का जल उछलने लगा तथा पृथिवी पार्श्व की ओर झुक गई ॥ १७ ॥ उस समय भूमडल के सभी जीव कोई पर्वत के गिरने से, कोई समुद्र की तरंगों से नष्ट होने लगे ॥ १८ ॥ इस प्रकार त्रास को प्राप्त हुआ विश्व हा हाकार कगना हुआ भ्रान्त हो उठा और पृथिवी में विपरीतता होने पर ॥ १९ ॥ सभी मनुष्य व्याकुल चित्त से स्वजनो को पुकारने हुए 'भागो, भागो' कहने लगे ॥ २० ॥ भय में इस प्रकार चिल्लाते हुए कोई कहीं, कोई कहीं गये, तब पितामह ब्रह्माजी स्वयं ही सब देवताओं के सहित वहाँ आये ॥ २१ ॥

प्रत्युवाचचविश्वेशस्तावुभावतिकोपितौ ।  
युद्ध वाविरमत्वेतल्लोका स्वास्थ्यव्रजन्तुच ॥२२॥  
शृण्वन्तावपितौवाक्यब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मन ।  
कोपामर्षसमाविष्टौयुयुधातेनतस्थतु ॥२३॥  
तत पितामहोदेवस्तदृष्ट्वालोकसक्षयम् ।  
तयोश्चहितमन्विच्छस्तिर्यग्भावमपानुदत् ॥२४॥  
तास्तौपूर्वदेहस्थौप्राहदेव प्रजापति ।  
व्युदस्तेतामसेभावेवसिञ्चकौशिकर्षभौ ॥२५॥  
जहिवत्सवसिष्टत्वत्वचकौशिकसत्तम ।  
तामसभावमाश्रित्यईदृग्युद्ध चिकीर्षितम् ॥२६॥  
राजसूयविपाकोयहरिश्चन्द्रस्यभूपते ।  
युवयोर्विग्रहञ्चायपृथिवीक्षयकारक ॥२७॥  
नचापिकौशिकश्चेऽस्तस्यराज्ञोऽपराध्यति ।  
स्वर्गप्राप्तिकरोब्रह्मन्नुपकारपदेस्थित ॥२८॥

और कपित हुए दोनों पक्षियों से बोले कि तुम्हारा युद्ध समाप्त हो और भूमडल के सभी जीव स्वस्थ हो ॥ २२ ॥ ब्रह्माजी की यह बात सुन कर भी दोनों पक्षी युद्ध करने से किसी प्रकार न रुके ॥ २३ ॥ तब ब्रह्माजी ने

प्रजा का सहार देख कर, उमके हितार्थ दोनों का खगत्व हर लिया ॥ २४ ॥  
जब उन्हें पूर्व देह की प्राप्ति हुई तब उनका तमोगुण मिटा, यह देख कर ब्रह्मा-  
जी ने उन दोनों से कहा ॥ २५ ॥ हे वसिष्ठ ! हे विश्वामित्र ! तुम तमोगुण के  
अवलम्बन से जो युद्ध करते थे, उसे छोड़ो ॥ २६ ॥ पृथिवी को नष्ट करने  
वाले जिस युद्ध को तुम कर रहे थे वह राजा हरिश्चन्द्र के यज्ञ करने का फल  
है ॥ २७ ॥ इन विश्वामित्र ने राजा का कोई अपराध नहीं किया, इसके  
विपरीत उनको स्वर्ग प्राप्त करा कर उपकार ही किया है ॥ २८ ॥

तपोविघ्नस्यकर्त्तारौकामक्रोधवशगतौ ।  
परित्यजतभद्रवोब्राह्म हिप्रचुरबलम् ॥२९॥  
एवमुक्तौततस्तेनलज्जितौतावुभावपि ।  
क्षमयामासतु प्रीत्यापरिष्वज्यपरस्परम् ॥३०॥  
तत सुरैर्वन्द्यमानौब्रह्मालोकनिजययौ ।  
वसिष्ठोऽप्यात्मन स्थानकौशिकोऽपिस्वमाश्रमम् ॥३१॥  
एतदाडिबकयुद्ध हरिश्चन्द्रकथातथा ।  
कथयिष्यन्तियेमर्त्या सम्यक्श्रोष्यन्तिचैवये ॥३२॥  
तेषापापापनोदतुश्रुतह्येवकरिष्यति ।  
नचैवविघ्नकार्याग्निभविष्यन्तिकदाचन ॥३३॥

तुम काम, क्रोध के वश मे पड कर तप मे विघ्न कर रहे हो, इसलिए  
इन दोनों का त्याग करो, ब्रह्मत्व से बढ कर अन्य कोई बल नहीं है, तुम्हारा  
कल्याण हो ॥ २९ ॥ ब्रह्माजी की बात सुन कर दोनों अत्यन्त लज्जित हुए  
और परस्पर क्षमा माँगते हुए आलिंगन करने लगे ॥ ३० ॥ फिर देवताओं  
से पूजित हुए ब्रह्माजी अपने लोक को गये और वसिष्ठ तथा विश्वामित्र ने भी  
अपने-अपने स्थान को गमन किया ॥ ३१ ॥ जो व्यक्ति आडिबक युद्ध और  
हरिश्चन्द्र की कथा कहेगा अथवा श्रवण करेगा ॥ ३२ ॥ उसके सभी पाप नष्ट  
होगे और इसे सुन कर कार्यारम्भ करेगा तो उसके कार्य मे कभी विघ्न उपस्थित  
न होगा ॥ ३३ ॥

## १०—मृत्युदशा वर्णन

सशयद्विजशार्दूला प्रब्रूतममपृच्छत ।  
 आविर्भावतिरोभावौभूतानायत्रसस्थितौ ॥१॥  
 कथसञ्जायतेजन्तुकथवासविवर्धते ।  
 कथवोदरमध्यस्थस्तिष्ठत्यङ्गनिपीडित ॥२॥  
 निष्क्रान्तिमुदरात्प्राप्यकथवावृद्धिमृच्छति ।  
 उत्क्रान्तिकालेचकथचिद्भावेनवियुज्यते ॥३॥  
 कृत्स्नोमृतस्तथारनानिउभेसुकृतदुष्कृते ।  
 कथतेचतथातस्यफलसम्पादयन्त्युत ॥४॥  
 कथनजीर्यंतेतत्रपिण्डीकृतइवाशये ।  
 स्त्रीकोष्ठेयत्रजीर्यन्तेभुक्तानिसुगुरुण्यपि ॥५॥  
 भक्षयाणितत्रनोजन्तुर्जीर्यंतेकथमल्पक ।  
 कथभोक्ताससर्वस्यकर्मणसुकृतस्यवै ॥६॥  
 एतन्मेब्रूतसकलसन्देहोक्तिविवर्जितम् ।  
 तदेतत्परमगुह्य यत्रमुह्यन्तिजन्तव ॥७॥

जैमिनि बोले—हे द्विजशार्दूल ! जिममे प्राणियो का जन्म-मरण सघटित है, उस विषयक मेरे सदेह को दूर करिये ॥ १ ॥ जीव की उत्पत्ति और वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वह पीडा को सहन करता हुआ गर्भ मे किस प्रकार रहता है ॥ २ ॥ फिर गर्भ से निकल कर वृद्धि को प्राप्त होना, मृत्यु के समय उसका प्राण कैसे निकल जाता है ? ॥ ३ ॥ काल के गाल मे जाकर जीव पुण्य पाप का कैसे भोगता है और पाप पुण्य अपने-अपने फल का सपादन किस प्रकार करते है ॥ ४ ॥ जठराशय मे जाकर कठिनता से पाक वस्तु भी पच जाती है, तो साधारण पिण्डी बना हुआ जीव स्त्री के जठर मे क्यो नही पच जाता ? ॥ ५ ॥ जठराग्नि मे पच कर जीव नष्ट क्यो होता है तथा सुकृत से फल को किस प्रकार भोगता है ॥ ६ ॥ जिस प्रकार मेरा सदेह दूर हो सके, उस प्रकार मुझे बताइये, इस गूढ रहस्य मे प्राणी मोहित है ॥ ७ ॥

प्रश्नभारोज्यमतुलस्त्वयास्मासुनिवेशित ।

दुर्भाव्य सर्वभूतानाभावाभावसमाश्रित ॥८॥

तश्रृणुष्वमहाभागयथाप्राहपितु पुरा ।

पुत्र परमधर्ममासुमतिर्नामनामत ॥९॥

ब्राह्मणोभार्गव कश्चित्सुतमाहमहामति ।

कृतोपनयनंशान्तसुमतिजडरूपिणम् ॥१०॥

वेदानधीत्यसुमतेयथानुक्रममादित ।

गुरुशुश्रूषणेव्यग्रोभैक्षान्नकृतभोजन ॥११॥

ततोगार्हस्थ्यमास्थायचेष्ट्वायज्ञाननुत्तमान् ।

इष्टमुत्पादयापत्यमाश्रयेधावनतत ॥१२॥

वनस्थश्चततोवत्सपरिव्राड्निष्परिग्रह ।

एवमाप्स्यसितद्वह्यत्रगत्वानशोचसि ॥१३॥

पक्षियो ने कहा—आपने प्राणियो के भावाभाव वाला जो प्रश्न किया है, वह अत्यन्त गूढ है ८ ॥ पुराकाल मे अपने पिता के प्रति सुमति नामक एक धर्मात्मा पुत्र ने जो कहा था, वह हम तुम्हारे प्रति वर्णन करते है, ध्यान से सुनो ॥ ९ ॥ एक समय भार्गव वश के किसी महामति नामक ब्राह्मण ने अपने जड भाव युक्त पुत्र सुमति से कहा ॥ १० ॥ हे सुमते ! गुरु की सेवा मे रह कर भिक्षान्न से जीवन निर्वाह करता हुआ प्रथम वेदाध्ययन कर ॥११ ॥ फिर गृहस्थ धर्म का पालन करता हुआ इच्छित पुत्रोत्पत्ति के पश्चात् वन को प्राप्त हो ॥ १२ ॥ वन मे वास करके सन्यासी होकर ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त होगा, जिसकी प्राप्ति होने पर सोच नही रहता ॥ १३ ॥

इत्येवमुक्तोबहुशोजडत्वान्नाहकिञ्चन ।

पितापितंसुबहुशप्राहप्रीत्यापुन पुन ॥१४॥

इतिपित्रासुतस्नेहात्प्रलोभिमधुराक्षरम् ।

सचोद्यमानोबहुशप्रहस्येदमथान्ब्रवीत् ॥१५॥

तातैतद्बहुशोभ्यस्तयत्वयाद्योपदिश्यते ।

तथैवान्यानिशास्त्राणिशिल्पानिविबिधानिच ॥१६॥

जन्मनामयुतसाग्रममस्मृतिपथगतम् ।

उत्पन्नज्ञानबोधस्यवेदै किमेप्रयोजनम् ।



निर्वेदा परितोपाश्चक्षयवृद्धद्युदयेरता ॥१७॥  
 शत्रुमित्रकलत्राणावियोगा मङ्गमास्तथा ।  
 मातरोविविधादृष्टा पितरोविविधास्तथा ॥१८॥  
 अनुभूतानिसौख्यानिदु खानिचसहस्रश ।  
 बान्धवाबहव प्राप्ता पितरश्चपृथग्विधा ॥१९॥  
 विष्मूत्रपिच्छिलेस्त्रीणातथाकोष्ठेमयोषितम् ।  
 पीडाश्चसुभृशप्राप्तारोगाणाञ्चसहस्रश ॥२०॥  
 गर्भदु खान्यनेकानिबालत्वैयौवनेतथा ।  
 वृद्धतायातथाप्तानितानिसर्वाणिसस्मरे ॥२१॥

पक्षियो ने कहा—इम प्रकार पिता द्वारा बहुत-सी वाते कहने पर भी  
 डाता प्राप्त पुत्र ने कोई उत्तर न दिया, परन्तु स्नेह के वशीभूत हुए पिता  
 से बारबार कहने लगे ॥ १४ ॥ पिता के प्रलोभन युक्त वचनो को बारबार  
 न कर मुमति कुछ हसा और उसने पिता से कहा ॥ १५ ॥ आप इस समय  
 स विषय का उपदेश मुझे दे रहे हैं, उसका अनेक बार अभ्यास कर चुका  
 इसके अतिरिक्त अनेको शास्त्र एव शिल्प शास्त्र का भी अभ्यास कर चुका  
 ॥ १६ ॥ कुछ अधिक दश हजार वर्ष की बात मुझे याद है, मैं अनेक बार  
 ख पा चुका हूँ, अनेक बार सतुष्ट हुआ हूँ, अनेक बार क्षीणता और वृद्धि  
 प्राप्त हो चुका हूँ, अब मुझे ज्ञान उपलब्ध ह तो वेदाध्ययन से क्या लाभ  
 ? ॥ १७ ॥ अनेक बार मेरा शत्रु, मित्र, कलत्र सहित सयोग और वियोग  
 चुका है, मैंने अपने अनेक माता-पिता देखे हैं, ॥ १८ ॥ सहस्रो प्रकार के  
 वृद्ध-दुःख का मुझे अनुभव है, बाँधव और पिता सभी अनेक प्रकार से देख  
 ता हूँ ॥ १९ ॥ मैंने अनेक बार मल मूत्र युक्त नारी-जठर में निवास किया  
 तथा हजारो बार रोगो की यत्रणा प्राप्त की है ॥ २० ॥ गर्भ की यत्रणा,  
 ज्य काल, युवावस्था तथा वृद्धावस्था में जितनी बार जो दुःख प्राप्त किया,  
 सब मुझे याद है ॥ २१ ॥

ब्राह्मणक्षत्रियविशाशूद्राणाञ्चापियोनिषु ।

पुनश्चपशुकीटानामृगाणामथ पक्षिणाम् ॥२२॥

नशैवराजधराणाराजान्नामन्वणानिषु ।

समुत्पन्नोऽस्मिगेहेषुतथैवतववेश्मनि ॥२३॥  
 भृत्यतादासताचैवगतोऽस्मिबहुशोनृणाम् ।  
 स्वामित्वमीश्वरत्वचदरिद्रत्वतथागत ॥२४॥  
 हतमयाहतश्चान्यैर्हतमेघातिततथा ।  
 दत्तमान्यैरन्येभ्योमयादत्तमनेकश ॥२५॥  
 पितृमातृसुहृद्भ्रातृकलत्वादिकृतेनच ।  
 तुष्टोऽसकृत्तथादैन्यमश्रुधौताननोगत ॥२६॥  
 एवससारचक्रेऽस्मिन्भ्रमतातातसङ्कटे ।  
 ज्ञानमेतन्मयाप्राप्तमोक्षसम्प्राप्तिकारकम् ॥२७॥  
 विज्ञातेयत्रसर्वोऽयमृग्यजु सामसञ्जित ।  
 क्रियाकलापोविगुणोनसम्यक्प्रतिभातिमे ॥२८॥

मैं बहुत बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पशु, कीट, पक्षी आदि  
 योनियो मे उत्पन्न हो चुका हूँ ॥ २२ ॥ जैसे आपके यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ,  
 वैसे ही अनेको बार राज सेवको अथवा वीरो के यहाँ उत्पन्न हो चुका हूँ  
 ॥ २३ ॥ मैं अनेक बार सेवक एव भृत्य हुआ हूँ, अनेक बार स्वामी तथा  
 प्रधान हुआ हूँ और अनेक बार दरिद्रता भोग चुका हूँ ॥ २४ ॥ मैंने बहुत से  
 मनुष्यो को मारा और बहुतो ने मुझे भी मारा है, मैंने अनेक बार दान दिया  
 तथा अनेक बार दान ग्रहण किया है ॥ २५ ॥ पिता, माता, भ्राता, सुहृद्,  
 भार्या आदि मे अनेक बार सतुष्ट हुआ और अनेक बार दीन दशा को प्राप्त  
 होकर अश्रु बहाता रहा ॥ २६ ॥ इस प्रकार इस सकट से परिपूर्ण ससार  
 चक्र मे निरन्तर भ्रमण करते-करते मुझे मोक्ष के देने वाले ज्ञान की प्राप्ति  
 हो चुकी है ॥ २७ ॥ इस प्रकार ज्ञान मिलने से ऋक्, यजु, साम नामक  
 सम्पूर्ण क्रिया कलाप का मुझे भले प्रकार ज्ञान है ॥ २८ ॥

तस्मादुत्पन्नबोधस्यवेदै किमेप्रयोजनम् ।  
 गुरुविज्ञानतृप्तस्यनिरीहस्यसदात्मन ॥२९॥  
 षट्प्रकारक्रियादु खसुखहर्षरसैश्चयत् ।  
 गुणैश्चर्वाजितब्रह्मतत्प्राप्त्यामिपरपदम् ॥३०॥  
 रसहर्षभयोद्वेगक्रोधामर्षजवागुरा ।

विज्ञातानृमृगग्राहिसघपाशशताकुला ॥३१॥  
 तस्माद्यास्याम्यहतातत्यक्त्वेमादु खसन्ततिम् ।  
 त्रयीधर्ममधमर्दिच किपापफलसन्निभम् ॥३२॥  
 तस्यतद्वचनश्रुत्वाहर्षविस्मयगदगदम् ।  
 पिताप्राहमहाभाग स्वसुतहृष्टमानस ॥३३॥  
 किमेतद्वदसेवत्सकुतस्तेजानसम्भव ।  
 केनेतेजडतापूर्वमिदानीचप्रबुद्धता ॥३४॥  
 किन्नुशापविकारोऽयमुनिदेवकृतस्तव ।  
 यत्तं ज्ञानतिरोभूतमाविर्भावमुपागतम् ॥३५॥

इसलिए जब मुझे ज्ञान प्राप्त ही है और मे गुरु विज्ञान मे तृप्त तथा चेष्टा हीन और सदात्मा हूँ तो वेदज्ञान से मेरा क्या प्रयोजन है ? ॥ २९ ॥ मैं सुख, दुःख, हर्ष, रम तथा निर्गुण ब्राह्म पद को मैं प्राप्त हूँ ॥ ३० ॥ तथा रस, हर्ष, भय, उद्वेग, क्रोध अमर्ष और वृद्धावस्था द्वारा नितात व्याकुल और सैकड़ो बन्धनो मे व्याप्त रहा हूँ ॥ ३१ ॥ अत इस दुःख रूपी प्रवाह का त्याग करके मुझे जाना है, त्रयी विद्या का धर्म अधर्म जैसा लगता है, मैं इसे छोड़ कर ब्रह्मपद पाऊँगा ॥ ३२ ॥ पक्षियो ने कहा—पुत्र के इस वचन को सुन कर प्रसन्न चित्त हुए पिता ने हर्ष विस्मय से युक्त गद्गद वचन कहे ॥ ३३ ॥ पिता ने कहा—हे पुत्र ! तुम यह क्या कहते हो ? तुम्हे ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ ? तुम तो जड स्वभाव वाले थे, अब ऐसी ज्ञान-बुद्धि किस प्रकार उत्पन्न हो गई ? ॥ ३४ ॥ तुम्हारा जो छिपा हुआ ज्ञान अब प्रकट हुआ है, वह क्या किसी मुनि या देवता के शाप से अप्रकट था ? ॥ ३५ ॥

शृणुतातयथावृत्त ममेदसुखदुःखदम् ।  
 यश्चाहमासमन्यस्मिञ्जन्मन्यस्मत्परन्तुयत् ॥३६॥  
 अहमासपुरविप्रोन्यन्यस्तात्मापरमात्मनि ।  
 आत्मविद्याविचारेषुपरानिञ्जामुपागत ॥३७॥  
 सततयोगयुक्तस्यसतताभ्याससङ्गमात् ।  
 सत्सयोगात्स्वभावाद्वाविचारविधिशोधनात् ॥३८॥  
 तस्मिन्नेवपराप्रीतिर्ममासीद्युजत सदा ।

आचार्यताचसप्राप्त शिष्यसन्देहहृत्तम ॥३८॥

तत कालेनमहताएकान्तिकमुपागत ।

अज्ञानाकृष्टसद्भावोविपन्नश्चप्रमादत ॥४०॥

उत्क्रान्तिकालादारभ्यस्मृतिलोपोनमेऽभवत् ।

यावदब्दगतचैवजन्मनास्मृतिमागतम् ॥४१॥

पुत्र बोला—मैं अपने मुख दुःख को देने वाले सभी वृत्तान्तों को कहता हूँ, उन्हें सुनो ॥ ३६ ॥ मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, उस समय ब्रह्म में आत्मा को लीन करके मैंने आत्मविद्या प्राप्त की थी ॥ ३७ ॥ सदैव योगरत रहने के कारण अभ्यास, सत्संग, सत्स्वभाव, विचार एवं विधियों का उद्धार ॥ ३८ ॥ तथा निरन्तर ब्रह्म में रत रहने के कारण मैं उस जन्म में अत्यन्त प्रसन्न था तथा शिष्यों के सन्देहों का निवारण करने वाला आचार्य था ॥ ३९ ॥ कुछ समय व्यतीत होने पर एकान्त मैं रहने लगा, फिर अज्ञान वश प्रमादी होकर अत्यन्त व्याकुल हुआ ॥ ४० ॥ फिर भी मरण पर्यन्त मेरी स्मृति नष्ट नहीं हुई, इसलिए जन्म समय से जितने वर्ष व्यतीत हुए उन सभी का मुझे स्मरण है ॥ ४१ ॥

पूर्वाभ्यासेनतेनैवसोऽहतातजितेन्द्रिय ।

यतिष्यामितथाकर्तुं नभविष्येयथापुन ॥४२॥

ज्ञानवानफलह्येतद्यज्जातिस्मरणमम ।

नह्येतत्प्राप्यतेतातत्रयीधर्माश्रितैर्नरै ॥४३॥

सोऽहपूर्वाश्रमादेवनिष्ठाधर्ममुपाश्रित ।

एकान्तित्वमुपागम्ययतिष्याम्यात्ममोक्षणे ॥४४॥

तद्ब्रूहित्वमहाभागयत्ते साशयिकहृदि ।

एतावतापितेप्रीतिमुत्पाद्यानृण्यमाणुयाम् ॥४५॥

पिताप्राहृतत पुलश्रद्दधत्तस्यतद्वच ।

भवतायद्वयपृष्ठा ससारग्रहणाश्रयम् ॥४६॥

शृणुतातयथातत्वमनुभूतमयाऽसकृत् ।

ससारचक्रमजर स्थितिर्यस्यनविद्यते ॥४७॥

सोऽहवदामितेसर्वतवैवानुज्ञयापित ।

उत्क्रान्तिकालादारभ्ययथानान्योवदिष्यति ॥४८॥

पूर्वाभ्याम के कारण मैं जितेन्द्रिय होकर अब पुन उसी प्रकार का यत्न करूँगा ॥ ४५ ॥ जिमने जान और दान के फल-न्वरूप मुझे सब जन्मों का वृत्तान्त याद है, परन्तु त्रयी धर्म के आश्रय वालो को जन्म जन्मान्तर वृत्त याद नहीं रह सकता ॥ ४३ ॥ पूर्व जन्म मे अर्जित निष्ठा धर्म से ही मैं आत्म मोक्ष मे यत्न करने वाला हुआ हूँ ॥ ४४ ॥ इसलिए आपके हृदय मे जो सणय है, उसे कहिये, मैं एक उपाय से ही उस विषय मे आपको प्रीतिमान् करके उन्मृण हो जाऊँगा ॥ ४५ ॥ पक्षियो ने कहा कि—पिता ने यह बात सुन कर, जो प्रश्न आपने किया है, वही श्रद्धा सहित अपने पुत्र से क्रिया ॥ ४६ ॥ पुत्र बोला—इसका जो वारम्बार मुझे अनुभव हुआ हे, वह यथावत् कहता हूँ, इस समार चक्र की स्थिति कही भी नहीं है ॥ ४७ ॥ हे पिता ! आपकी आज्ञा मे वह सब वृत्तान्त कहता हूँ, जिसका वर्णन करने मे अन्य कोई भी समर्थ नहीं होगा ॥ ४८ ॥

ऊष्माप्रकुपित कायेतीव्रवायुसमीरित ।

भिनत्तिमर्मस्थानानिदीप्यमानोनिरिन्धनः ॥४९॥

उदानोनामपवनस्ततश्चोर्ध्वप्रवर्त्तते ।

भुक्तानामम्बुभक्ष्याणामधोगतिनिरोधकृत् ॥५०॥

ततोयेनाम्बुदानानिकृतान्यन्नरमास्तथा ।

दत्ता सतस्यआह्लादमापदिप्रतिपद्यते ॥५१॥

अन्नानियेनदत्तानिश्रद्धापूतेनचेतसा ।

सोऽपितृप्तिमवाप्नोतिविनाप्यन्नेनवैतदा ॥५२॥

येनानृतनिनोक्तानिप्रीतिभेद कृतोनच ।

आस्तिक श्रद्धधानश्चससुखंमृत्युमृच्छति ॥५३॥

देवब्राह्मणपूजायायेरतानोनसूयव ।

शुक्लावदान्याहीमन्तस्तेनराःसुखमृत्यव ॥५४॥

योनकामान्नसरम्भान्नद्वेषाद्धर्ममुत्सृजेत् ।

यथोक्तकारीसौम्यश्चससुखमृत्युच्छति ॥५५॥

अवारिदायिनोदाहंक्षुधाचान्नदायिन ।

प्राप्नुवन्तिनरा कालेतस्मिन्मृत्यावुपस्थिते ॥५६॥

देह-स्थित पित्त कुपित होकर बिना ईधन के ही तीव्र वायु के चलने से दीप्त होकर म्रव मर्म स्थान को भेदता है ॥ ४९ ॥ और देह का उदान वायु उस पर वर्तमान होकर सब जलीय भक्ष्य वस्तु की अधोगति को रोकता है, उस समय प्राणी का आत्मा वियुक्त होता है ॥ ५० ॥ जिसने जल, अन्न, रस का दान किया है, वही उस मरण रूप आपत्काल में प्रसन्न रहता है ॥ ५१ ॥ जो पवित्र मन और श्रद्धा पूर्वक अन्नदान करते हैं, वह उस समय बिना अन्न के भी तृप्त रहते हैं ॥ ५२ ॥ जो पुरुष कभी मिथ्या भाषण नहीं करते, किसी की प्रीति में मन मुटाव नहीं कराते तथा जो आस्तिक एव श्रद्धालु हैं, उनकी ही सुख पूर्वक मृत्यु होती है ॥ ५३ ॥ जो देव ब्राह्मण का पूजन करते हैं, असूया रहित शुद्ध चित्त वाले एव श्रेष्ठ वचन कहने वाले तथा लज्जावान् हैं, वे सुख से प्राण त्यागते हैं ॥ ५४ ॥ जो काम, क्रोध, द्वेष से धर्म का त्याग नहीं करते, सत्य वचन कहते हैं तथा जो मौम्य स्वरूप हैं, उनका प्राण त्याग सुख पूर्वक होता है ॥ ५५ ॥ जो प्यासे को जल और क्षुधार्त को अन्न नहीं देते वह मरण काल में भूख प्यास से पीडित होते हैं ॥ ५६ ॥

शीतजयन्तिधनदास्तापचन्दनदायिन ।

प्राणघ्नीवेदनाकष्टायेचानुद्वेगकारिण ॥५७॥

मोहाज्ञानप्रदातार प्राप्नुवन्तिमहद्भयम् ।

वेदनाभिरुदग्राभि प्रपीड्यन्तेऽधमानरा ॥५८॥

कूटसाक्षीमृषावादीयश्चासदनुशाम्तिवै ।

तेमोहमृत्यव सर्वेत्थान्मेवेदनिन्दका ॥५९॥

विभीषणा पूतिगन्धा कूटमुद्गरपाणय ।

आगच्छन्तिदुरात्मानोयमस्यपुरुषास्तदा ॥६०॥

प्राप्तेषुदृक्पथतेषुजायतेतस्यवेपथु ।

क्रन्दत्यविरतसोऽथभ्रातृमातृसुतानथ ॥६१॥

सास्यवागस्फुटातातएकवर्णाविभाव्यते ।

दृष्टिश्चभ्राम्यतेत्रासाच्छ्वासाच्छुष्यत्यथाननम् ॥६२॥

ऊर्ध्वश्वामान्वित सोऽथदृष्टिभङ्गसमन्वित ।

तत सवेदनाविष्टस्तच्छरीरविमुञ्चति ॥६३॥

काष्ठ का दान करने वालो को मरण काल में शीत तथा चन्दन-दान करने वालो को ताप नहीं मताता तथा प्राणियो को भयभीत करने वालो को उस समय अत्यन्त यन्त्रणा भोगनी होती है ॥ ५७ ॥ जो मोह और अज्ञान की शिक्षा देते हैं, उन अधमो को अत्यन्त भय तथा घोर पीडा की प्राप्ति होती है ॥ ५८ ॥ मिथ्या साक्षी देने वाले, मृपावादी, वेदनिन्दक तथा कुशासको की अज्ञान से मृत्यु होती है ॥ ५९ ॥ तथा उनके मरण काल में अत्यन्त घृणित वेश वाले भयङ्कर यमदूत मुद्गर हाथ में लिये हुए आते हैं ॥ ६० ॥ जैसे ही उन्हें यमदूत दिखाई पडते हैं, वैसे ही वे कपित शरीर से भ्राता माता और पुत्र को पुकारते हुए रुदन करते हैं ॥ ६१ ॥ उस समय उनकी वात समझने में नहीं आती, वर्ण विकृत होता है और दृष्टि धूमने लगती है, त्राम और उच्छ्वाम से मुख भी सूख जाता है ॥ ६२ ॥ फिर ऊर्ध्वश्वास चलती है, नेत्र की दृष्टि नष्ट होती है और वेदना से ग्रसित होकर प्राण छूट जाते हैं ॥ ६३ ॥

वाय्वग्रसारीतद्रूपदेहमान्यत्प्रपद्यते ।

तत्कर्मजयातनार्थनमातृपितृसम्भवम् ।

तत्प्रमाणवयोवस्थासस्थानं प्राग्भवयथा ॥६४॥

ततोद्गतोयमस्याशुपाशैर्बन्धनातिदारुणै ।

दण्डप्रहारसभ्रान्तकर्षतेदक्षिणादिशम् ॥६५॥

कुशकण्टकवल्मीकशकुपाषाणकर्कशै ।

तथाप्रदीप्तज्वलनेक्वचिच्छ्वभ्रशशतोत्कटे ॥६६॥

प्रदीप्तादित्यतप्तेनदह्यमानेनदशुभि ।

कृष्यतेयमदूतैश्चशिवासन्नादभीषणै ॥६७॥

विकृष्यमाणस्तैर्घोरैर्भक्ष्यमाण शिवाणतै ।

प्रयातिदारुणेमार्गोपापकर्मायमक्षयम् ॥६८॥

छन्नोपानत्प्रदातारोयेचवस्त्रप्रदानरा ।

तेयान्तिमनुजामार्गतंसुखेनतथान्नदा ॥६९॥

विमानं सोज्ज्वलैर्यान्तिभूमिदानप्रदानरा ।

एवक्लेशाननुभवन्नवश पापपीडित ।

नीयतेद्वादशाहेनधर्मराजपुरनर ॥७०॥

फिर वायु के आगे होकर कर्म फल रूप यन्त्रणा का भोग करने के लिये बिना माता पिता के उत्पन्न होने वाले अन्य शरीर को धारण करते हैं, वह शरीर पहिले के ममान वय, अवस्था और सस्थान वाला होता है ॥ ६४ ॥ फिर यमदूत उन्हें दारुण पाश में बाँध, दण्ड प्रहार करते हुए दक्षिण की ओर खींचते हैं ॥ ६५ ॥ कुश, काँटे, वल्मीक, शकु तथा पत्थरो से भी कठोर शस्त्र एव कहीं प्रज्वलित अग्नि से व्याप्त, कहीं सैकड़ों गर्तों से युक्त ॥ ६६ ॥ कहीं सूर्य की अत्यन्त उष्णता से जलने हुए, कहीं सैकड़ों गीदड़ों के शब्द से व्याप्त तथा यमदूतों से खींचे जाते हुए ॥ ६७ ॥ इस प्रकार उस प्राणी को सैकड़ों गीदड़ खाते हैं, ऐसे मार्ग से पापी पुरुषों को यमलोक में जाना होता है ॥ ६८ ॥ जिन्होंने छत्री, जूता, वस्त्र, अन्न दिया है, वे उस मार्ग में सुख से जाते हैं ॥ ६९ ॥ जो भूमिदान करने हैं, वे शुभ विमान में बैठ कर वहाँ पहुँचते हैं, पापी मनुष्य क्लेशों को पाते हुए बारहवें दिन धर्मराज के पुर में पहुँचते हैं ॥ ७० ॥

कलेवरेदह्यमानेमहान्तदाहमृच्छति ।

ताड्यमानेतथैवार्तिच्छिद्यमानेचदारुणाम् ॥७१॥

क्लिद्यमानेच्चिरतरजन्तुर्दुःखमवाप्नुते ।

स्वेनकर्मविपाकेनदेहान्तरगतोऽपिसन् ॥७२॥

तत्रयद्वान्धवास्तोयप्रयच्छन्तितिलै सह ।

यच्चपिण्डप्रयच्छन्तिनीयमानस्तदश्नुते ॥७३॥

तैलाभ्यङ्गोबान्धवानामङ्गसंवाहनचयत् ।

तेनचाप्यायतेजन्तुर्यच्चाणन्तिस्वबान्धवा ॥७४॥

भूमौस्वपद्भिर्नात्यन्तक्लेशमाप्नोतिबान्धवै ।

दानददद्भिश्चतथाजन्तुराप्याय्यतेमृत ॥७५॥

नीयमानस्वकगेहद्वादशाहसपश्यति ।

उपभुङ्क्तेतथादत्ततोयपिण्डादिकंभुवि ॥७६॥



द्वादशाहात्परघोरमावासभीषणाकृतिम् ।

याम्यपश्यत्यथोजन्तु घृष्यमाण पुरतत ॥७७॥

शरीर के जलने पर भीषण जलन तथा ताडित या छेदित होने पर घोर वेदना भोगनी होती है ॥ ७१ ॥ यह शरीर जब जल में भीगता है, तब देहान्तर के आश्रय में भी कर्म फल से सदा दुःख का अनुभव होता है ॥ ७२ ॥ उसके निमित्त उसके बाँधव जिस तिल जौ को जल सहित देते हैं, उस समय वह उसी का भोजन करता है ॥ ७३ ॥ बाँधवों को तेल या उबटन लगाना इसलिए वर्जित है कि मृतक के लिए भोजन में वही वस्तु मिलती है ॥ ७४ ॥ बाँधवों के धरती में सोने से उसका क्लेश मिटता है और दान करने से उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है ॥ ७५ ॥ बारहवें दिन उसको फिर उसी घर में जाना होता है और वहाँ उसके निमित्त जो जल पिण्डादि दिया जाता है, उसका वह भोजन करता है ॥ ७६ ॥ बारहवाँ दिन बीतने पर पुनः यमदूतों द्वारा खीचा जाकर अत्यन्त भीषण आकार वाले लौहमय यमपुर को जाता है ॥ ७७ ॥

गतमात्रोऽतिरक्ताक्ष भिन्नाञ्जनचयप्रभम् ।

मृत्युकालान्तकादीनामध्येपश्यतिवैयमम् ॥७८॥

दष्टाकरालवमनभ्रुकुटीदारुणाकृतिम् ।

विरूपैर्भीषणैर्वक्रैर्वृत्व्याघिशतै प्रभुम् ॥७९॥

दडासक्त महाबाहु पाशहस्तसुभैरवम् ।

तन्निर्दिष्टततोयातिगतिजन्तु शुभाशुभाम् ॥८०॥

रौरवेकूटसाक्षीतुयातियश्चानूनीनर ।

ब्रह्मघ्नोहत्ययादष्टोगोघ्नश्चपितृघातक ॥८१॥

क्षेवदारापहारीचसीमानिक्षेपहारक ।

गुरुपत्न्यभिगामीचकन्यागामीतथैवच ॥८२॥

तस्यस्वरूप गतोरौरवस्यनिशामय ।

योजनानासहस्रे द्वे रौरवोहिप्रमाणत ।

जानुमात्रप्रमाणश्चतत श्वभ्रसुदुस्तर ॥८३॥

तन्नाङ्गारचयोपेतकृतचधरणीसमम् ।

जाज्वल्यमानस्तीव्रेणतापिताङ्गारभूमिना ॥८४॥

वहाँ पहुँच कर मृत्यु, काल, अन्तक आदि पार्श्वदो के सहित यमराज के दर्शन करता है ॥ ७८ ॥ वह यमराज अत्यन्त विकराल वदन, भीषणाकार, विरूप तथा वक्र आकृति की श्रसख्य व्याधियो से घिरे हुए है ॥ ७९ ॥ वह दण्ड और पाश धारण किये हुए अत्यक भयङ्कर आकार वाले है, उन्ही के द्वारा निर्दिष्ट श्रेष्ठ अथवा निम्न गति को प्राणी प्राप्त करते है ॥ ८० ॥ मिथ्यावादी तथा मिथ्या साक्षी देने वालो को रौरव नरक मे डाला जाता है, ब्रह्म—हृत्यारे, गौ हृत्यारे तथा पिता की हत्या करने वाले ॥ ८१ ॥ खेत, सीमा, धरोहर या स्त्री का हरण करने वाले, गुरु—पत्नी या कन्या से समागम करने वाले भी उसी रौरव नरक को प्राप्त होते है ॥ ८२ ॥ अब उस रौरव नरक का स्वरूप बताता हूँ, उसे सुनो—वह दो सहस्र योजन लम्बा है, उसमे जघा के बराबर गहरा गर्त है ॥ ८३ ॥ उस गर्त मे मिट्टी जैसे अगर भरे है, उन अगरो के ताप से प्राणी मदा जलता रहता है ॥ ८४ ॥

तन्मध्येपापकर्माणविमुचन्तियमानुगा ।

सदह्यमानस्तीव्रेणवह्निह्वनातलधावति ॥८५॥

पदेपदेचपादोऽस्यशीर्यतेजीर्यतेपुन ।

अहोरात्रेणोद्धरणपादन्यासचगच्छति ॥८६॥

एवसहस्रमुत्तीर्णोयोजनानाविमुच्यते ।

ततोऽन्यत्पापशुद्धचर्थादृङ् निरयमृच्छति ॥८७॥

तत सर्वेषुनिस्तीर्णं पापीतिर्यक्त्वमश्रुते ।

कृमिकीटपतङ्गेषुश्चापदेमशकादिषु ॥८८॥

गत्वागजद्रुमाद्येषुगोष्वश्वेषुतथैवच ।

अन्यासुचैवपापासुदु खदासुचयोनिषु ॥८९॥

मानुष्यप्राप्यकुब्जोवाकुत्सितोवामनोऽपिवा ।

चण्डालपुल्कसाद्यासुनरोयोनिषुजायते ॥९०॥

पापी मनुष्यो को यमदूत उसमे फँकते है, वे उस तीव्र अग्नि मे दाह को प्राप्त हुए इधर-उधर भागते है ॥ ८५ ॥ इस प्रकार पग पग पर उसके पाँव अग्नि से जल कर फटते और नष्ट होते है, दिन-रात्रि मे केवल एक बार

ही पैर रखने और उठाने का मामर्थ्य उममे होता है ॥ ८६ ॥ इस प्रकार पैर रखने पर हज़ार योजन चलने पर वट्टों से मुक्त होकर उसी जैसे अन्य नरक को प्राप्त होता है ॥ ८७ ॥ इस प्रकार सब नरको को भोग कर तिर्यक् योनि मे जन्म लेता है, फिर क्रमशः कृमि, कीट, पतंग, श्वापद, और मच्छर होता है ॥ ८८ ॥ फिर गौ, अश्व, गज, वृक्ष, लता आदि अनेक पाप-योनियो को प्राप्त होता हुआ ॥ ८९ ॥ मनुष्य जन्म ग्रहण करता है उसमे भी कुबडा, कुत्मित, बीना, चाण्डाल, पुल्कम आदि निदनीय योनियो मे उत्पन्न होता है ॥ ९० ॥

अवशिष्टे नपापेनपुण्येनचसमन्वित ।

ततश्चारोहणीजातिशूद्रवैश्यनृपादिकाम् ॥८१॥

विप्रदेवेन्द्रताञ्चापिकदाचिदवरोहणीम् ।

एवन्तुपापकर्माणिनरकेषुपतन्त्यध ॥८२॥

यथापुण्यकृतोयान्तितन्मेनिगदत शृणु ।

.. तेयमेनविनिर्दिष्टायान्तिपुण्यागतिनरा ॥८३॥

प्रगीतगन्धर्वगणै प्रनृत्ताप्सरसागणै ।

हारनूपुरमाधुर्यशोभितात्युत्तमानिच ॥८४॥

प्रयान्त्याशुविमानानिनानादिव्यस्त्रगुज्ज्वला ।

तस्माच्चप्रच्युताराज्ञामन्येषाचमहात्मनाम् ॥८५॥

जायन्तेचकुलेतत्रसद्वृत्तपरिपालका ।

भोगान्सप्राप्नुवन्त्यग्र्यास्ततोयान्त्यूर्ध्वमन्यथा ॥८६॥

अवरोहणीञ्चसम्प्राप्यपूर्ववद्यान्तिमानवा ।

एतत्तेसर्वमाख्यातयथाजन्तुर्विपद्यते ।

अत शृणुष्वविप्रर्षेयथागर्भप्रपद्यते ॥८७॥

फिर शेष रहे पुण्य से मनुष्य योनि मे क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय ॥ ९१ ॥ ब्राह्मण होता हुआ सुरपति तक हो सकता है और ( पाप चरण करे तो ) अवरोहिणी गति से क्रम पूर्वक उन्ही योनियो मे गिरता है ॥ ९२ ॥ अब उस गति को कहता हूँ, जिसे पुण्यवान् मनुष्य पाते है। वह भी यमराज के द्वारा निर्दिष्ट गति को प्राप्त करते है ॥ ९३ ॥ उनके गमन काल मे उनके

चारो ओर गधर्व गान करते और अप्सराएँ नृत्य करती हैं तथा हार, नूपुर, माधुर्य आदि से युक्त अति श्रेष्ठ ॥ ६४ ॥ विमान उनके पास आते हैं और वे दिव्य मालादि धारण पूर्वक उनमें चढ़ कर जाते हैं, फिर पुण्य शेष होने पर विमान से पतित होकर महात्मा ॥ ६५ ॥ या राजवश में उत्पन्न होकर सदाचार का पालन करते और अनेक प्रकार के सुख भोग कर क्रमशः ऊर्ध्व गति को पाते हैं ॥ ६६ ॥ यदि अवरोहिणी दशा को प्राप्त होते हैं तो प्रथम पूर्वोक्त सब भोग करते हैं, हे तात ! जीवों की जिस प्रकार भृत्य होती है, वह कह दिया, अब गर्भ धारण का प्रकार सुनिये ॥ ६७ ॥

### ११—गर्भस्थित वर्णन

निषेकमानवस्त्रीणाबीजप्रोक्त रजस्यथ ।  
 विमुक्तमात्रोनरकात्स्वर्गाद्वापिप्रपद्यते ॥१॥  
 तेनाभिभूततत्स्थैर्ययातिबीजद्वयचतत् ।  
 कललत्वंबुद्बुदत्वतत प्रेशित्वमेवच ॥२॥  
 पेश्यास्तथायथाबीजादकुरादिसमुद्भव ।  
 अङ्गानाचतथोत्पत्ति पचानामनुभागश ॥३॥  
 उपाङ्गान्यगुलीनेत्रनासास्यश्रवणानिच ।  
 प्ररोहयान्तिचाङ्गेभ्यस्तद्वत्तैभ्योनखादिकम् ॥४॥  
 त्वचिरोमाणिजायन्तेकेशाश्चैवतत परम् ।  
 समसमृद्धिमायातितेनैवोद्भवकोशक ॥५॥  
 नारिकेलफलयद्वत्सकोशवृद्धिमृच्छति ।  
 तद्वत्प्रयात्यसौवृद्धिसकोशोऽधोमुख स्थित ॥६॥

पुत्र ने कहा—स्त्री-पुरुष के रज-वीर्य मिश्रण काल में स्वर्ग या नरक से छूटते ही मनुष्य उसका अवलम्बन करता है ॥ १ ॥ तथा उससे अभिभूत होकर दोनों बीज स्थिर होकर बुलबुले के लम्बे या गोल आकार को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ उस अण्डाकार में स्थित सूक्ष्म बीज को अकुर कहते हैं, उस अकुर के विभाग से पाँचों अंग उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ फिर सभी उपाङ्ग उत्पन्न होकर उनसे अकुर और उससे नखादि उत्पन्न होते हैं ॥ ४ ॥ फिर

त्वचा पर रोमावली और केशो की उत्पत्ति होती है, और फिर सब अंग और उद्भवेकोशो की समान भाव से वृद्धि होती है ॥ ५ ॥ अर्थात् जैसे नारियल का फल कोप सहित वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही गर्भ कोप सहित नीचे की ओर मस्तक किये बढ़ता है ॥ ६ ॥

तलेतुजानुपार्श्वभ्याकरौन्यस्यसवर्द्धते ।  
 अगुष्ठौचोपरिन्यस्तौजान्वोरग्रेतथागुली ॥७॥  
 जानुपृष्ठेतथानेत्रेजानुमध्येचनासिका ।  
 स्फिचोपार्षिणद्वयस्थेचबाहुजघेवहि स्थिते ॥८॥  
 एववृद्धिक्रमाद्यातिजन्तु स्त्रीगर्भसस्थित ।  
 अन्यसत्वोदरेजन्तोर्यथारूपतथास्थिति ॥९॥  
 काठिन्यमग्निनायातिभुक्तपीतेनजीवति ।  
 पुण्यापुण्याश्रयमयीस्थितिर्जन्तोस्तथोदरे ॥१०॥  
 नाडीचाप्यायनीनामनाभ्यातस्यनिबध्यते ।  
 स्त्रीणातथान्त्रशुषिरेसातिबद्धोपजायते ॥११॥  
 क्रामन्तिभुक्तपीतानिस्त्रीणागर्भोदरेयथा ।  
 तैराप्यायितदेहोऽसौजन्तुवृद्धिमुपैतिवै ॥१२॥  
 स्मृतितलप्रभान्त्यस्यबह्व्यससारभूमय ।  
 ततोनिर्वेदमायातिपीड्यमानइतस्तत ॥१३॥

जब निम्न मुख किये प्राणी गर्भ कोष में रहता है, तब जानु और पार्श्व सहित दोनो हाथ नीचे के भाग में रहते हैं, दोनो अंगुठे जानु पर तथा सब अंगुलियाँ जानु के अगले भाग में फैली रहती हैं ॥ ७ ॥ दोनो चक्षु जानु के पीछे और नासिका जानु के मध्य में रहती हैं, दोनो कूल्हे पार्श्व पर तथा बाहु और जघा बाहरी भाग में रहती हैं ॥ ८ ॥ गर्भ में प्राणी इस प्रकार बढ़ता है, अन्यान्य जीवों में अपनी-अपनी आकृति के अनुसार वहाँ रहता हुआ बढ़ता है ॥ ९ ॥ उदर की अग्नि से कठिन होता जाता है और खाये-पिये पदार्थ द्वारा जीवन धारण होता है, पाप या पुण्य की अधिकता के भेद से गर्भ वास भी विभिन्न प्रकार का है ॥ १० ॥ उसकी नाभि में निबद्ध आप्यायनी नामक नाडी स्त्री की आँत से लगी रहती है ॥ ११ ॥ उसी के

छिद्र से सब खाये-पिये हुए पदार्थ उसके देह में जाकर देह को तृप्त करते हुए बढ़ाते हैं ॥ १२ ॥ उस समय उसे ससार के अनेक जन्म याद आते हैं और तब वह अत्यन्त दुःखित होता है ॥ १३ ॥

पुनर्नैव करिष्यामि मुक्तमात्र इहोदरात् ।  
 तथा तथा यतिष्यामि गर्भनाप्स्याम्यहयथा ॥१४॥  
 इति चिन्तयते स्मृत्वा जन्मदुःखशतानिवै ।  
 यानि पूर्वानुभूतानि दैवभूतानियानिवै ॥१५॥  
 ततः कालक्रमाज्जन्तु परिवर्तत्यधोमुख ।  
 नवमे दशमे वापि मासिसञ्जायते ततः ॥१६॥  
 निष्क्राम्यमाणो वातेन प्राजापत्येन पीडयते ।  
 निष्क्राम्यते च विलपन् हृदि दुःखनिपीडित ॥१७॥  
 निष्क्रान्तश्चोदरान्मूर्च्छामसह्या प्रतिपद्यते ।  
 प्राप्नोति चेतनाचासौ वायुस्पर्शसमन्वित ॥१८॥  
 ततस्तवैष्णवीमायासमास्कन्दति मोहिनी ।  
 तथा विमोहितात्मासौ ज्ञानभ्रंशमवाप्नुते ॥१९॥  
 भ्रष्टज्ञानो बालभावततो जन्तुप्रपद्यते ।  
 ततः कौमारकावस्थायौवनवृद्धतामपि ॥२०॥  
 पुनश्च मरणतद्वज्जन्मचाप्नोति मानव ।  
 ततः ससारचक्रे स्मिन्भ्राम्यते घटियन्त्रवत् ॥२१॥

देव प्रदत्त शत-शत जन्म के दुःखों को याद कर वह सोचता है कि उदर से निकल कर फिर कभी ऐसे कार्य न करूँगा, जिससे फिर कभी गर्भ में रहने का दुःख न भोगना पड़े ॥ १४-१५ ॥ फिर उस अधोमुखी जीव का जन्म नौवे या दशवे महीने में होता है ॥ १६ ॥ उस समय प्राजापत्य वायु से अत्यन्त पीडा को प्राप्त हुआ, दुःख से पीडित तथा विलाप करता हुआ बाहर निकलता है ॥ १७ ॥ उदर से निकलते ही उसे मूर्च्छा होती और वायु के स्पर्श से चेत होता है ॥ १८ ॥ फिर मोहिनी माया उसे मोहित कर देती है, जिससे उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है ॥ १९ ॥ ज्ञान के नष्ट होने पर बाल्य, कौमार, युवा, और वृद्धावस्था आदि दशाओं की उसे क्रमशः प्राप्ति

होती है ॥ २० ॥ फिर मर कर उसी रूप में जन्म लेता है, इस प्रकार ससार चक्र में वह घटी यन्त्र की भाँत निरन्तर घूमता रहता है ॥ २१ ॥

कदाचित्स्वर्गमाप्नोतिकदाचिन्निरयनर ।  
 निरयचैवस्वर्गचकदाचिच्चमृतोश्नुते ॥२२॥  
 कदाचिदलैवपुनर्जाति स्वकर्मसोश्नुते ।  
 कदाचिद्भुक्तकर्माचिमृत स्वल्पेनगच्छति ॥२३॥  
 कदाचिदल्पैश्चततोजायतेत्रशुभाशुभै ।  
 स्वर्लोकेनरकेवापिभुक्तप्रायोद्विजोत्तम ॥२४॥  
 नरकेषुमहद्दु खमेतद्यत्स्वर्गवासिन ।  
 दृश्यन्तेतातमोदन्तेपात्यमानाश्चनारका ॥२५॥  
 स्वर्गेपिदु खमतुलयदारोहणकालत ।  
 प्रभृत्यहपतिस्यामीत्येतन्मनसिवर्तते ॥२६॥  
 नरकाश्चैवसप्रेक्ष्यमहद्दु खमवाप्यते ।  
 एतागतिमहगतेत्यर्हनिशमनिर्वृत ॥२७॥  
 गर्भवासेमहाद्दुखजायमानस्ययोनित ।  
 जातस्यबालभावेचवृद्धत्वेदु खमेवच ॥२८॥

कभी स्वर्ग, कभी नरक तथा कभी दोनों स्थानों में जाता रहता है ॥ २२ ॥ कभी पुन इसी स्थान में जन्म धारण पूर्वक कर्म फल भोगता और कभी सब कर्मों का भोग कर लेने पर अल्प काल में ही प्राण छोड़ देता है ॥ २३ ॥ कभी साधारण से शुभ या अशुभ कर्म से स्वल्प काल को स्वर्ग या नरक में पड़ता है ॥ २४ ॥ स्वर्ग में निवास करने वालों को अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद करते देख कर पापियों को बड़ा दुःख होता है ॥ २५ ॥ परन्तु स्वर्ग में भी असीमित दुःख है, वहाँ के निवास काल में यह भय लगा रहता है कि पुण्य के क्षीण होने पर पुन उसी में गिरना पड़ेगा ॥ २६ ॥ उन नरकवासियों की गति देख कर सोचने है कि हम भी फिर ऐसी ही गति को पायेंगे ऐसा विचार उन्हें अत्यन्त दुःख होता रहता है ॥ २७ ॥ प्रथम तो गर्भ वाम ही अत्यन्त दुःख पूर्ण है, फिर योनि-छिद्र द्वारा बाहर निकलना तो नितान्त ही कष्ट मय है और जन्म होने पर बाल्यावस्था और वृद्धावस्था

यह दोनो ही कष्ट देने वाली है ॥ २८ ॥

कामेष्वाकोधसम्बन्धयौवनचातिदु सहम् ।

दु खप्रायावृद्धताचमरणेदु खमुत्तमम् ॥२९॥

कृष्यमाणश्चयाम्यैश्चनरकेषुचपात्यत ।

पुनश्चगर्भजन्माथमरणनरकस्तथा ॥३०॥

एवंससारचक्रेस्मिञ्जन्तवोघटियन्त्रवत् ।

भ्राम्यन्तेप्राकृतैर्बद्धावध्यन्तिचासकृत्तदा ॥३१॥

नास्तितातसुखकिचिदत्रदु खशताकुले ।

तस्मान्मोक्षायतताकथसेव्यामयात्रयी ॥३२॥

काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि से परिपूर्ण युवावस्था तो अत्यन्त ही दुःख मय है, उस पर भी वृद्धावस्था को तो दुःख की खान ही समझिये, उससे भी बढ कर मरण मे तो अत्यन्त घोर दुःख है ॥ २९ ॥ इसके पश्चात् जब यमदूत खीच कर नरक मे ढकेलते है, तब तो दुःखो की सीमा ही नही रहती, फिर भी गर्भ मे रहना, जन्म लेना, मरना और पुन नरक की प्राप्ति होती है ॥ ३० ॥ इस प्रकार प्राणी इस ससार चक्र मे घटी यन्त्र के समान निरन्तर घूमते हुए बन्धन के दुःख को बारम्बार भोगते है ॥ ३१ ॥ असख्य दुःखो वाले इस ससार मे लेश मात्र भी सुख नही है, इसलिए जब मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हूँ तो त्रयीविद्या धर्म का क्यो सेवन करूँ ? मुझे तो अपरा विद्या को प्राप्त करना है ॥ ३२ ॥

### १२--महारौखादिनर्क वर्णन

साधुवत्सत्वयाख्यातससारगहनपरम् ।

ज्ञानप्रदानसभूतसमाश्रित्यमहाफलम् ॥१॥

तत्रतेनरका सर्वेयथावैरौरवास्तथा ।

वर्णितास्तान्समाचक्ष्विस्तरेणमहामते ॥२॥

रौरवस्तेसमाख्यात प्रथमनरकोमया ।

महारौरवसज्ञतुशृणुष्वनरकपित ॥३॥

अगम्यागमनेयेचयेचअभ्यक्षणेस्ता ।



मित्रद्रोहकराश्चैवस्वामिविश्रभघातका ॥४॥

परदाररताश्चैवस्वदारपरिर्वर्जिन ।

मार्गभगकरायेचतडागारामभेदका ॥५॥

एतेन्येचदुराचारादह्यन्तेतत्रकिकरै ।

योजनानासहस्राणिसप्तपचसमन्तत ।

तत्रताम्रमयीभूमिरधस्तस्याहुताशन ॥६॥

तत्तापतमासासर्वाप्रोद्यद्विद्युत्समप्रभा ।

विभात्यतिमहारौद्रादर्शनस्पर्शनादिषु ॥७॥

पिता ने कहा—हे वत्स । ज्ञान देने के रूप में महा फल दायक परम ससार—रहस्य का तुमने भले प्रकार वर्णन किया है ॥ १ ॥ रौरव नरक तथा अन्यान्य नरको का जो वर्णन किया, अब उसी को विस्तार सहित कहो ॥ २ ॥ पुत्र ने कहा—हे पिताजी । मैंने प्रथम आपको रौरव नरक का वर्णन किया था, अब महा रौरव नरक का वर्णन सुनिये ॥ ३ ॥ गमन के अयोग्य मार्ग मैं ज्ञाने वाले, अभक्ष्य भोजन करने वाले, मित्र द्रोही तथा स्वामी से विश्वासघात करने वाले ॥ ४ ॥ पर स्त्री का सेवन करने वाले, अपनी पत्नी को त्यागने वाले, मार्ग, तडाग और उपवनो को नष्ट करने वाले ॥ ५ ॥ पापियों को वहाँ ले जाकर यमदूत दग्ध करते हैं, उसका प्रमाण चारों ओर बारह योजन है, उसकी भूमि ताम्रमयी तथा नीचे अग्नि की खान वाली है ॥ ६ ॥ अग्नि के ताप से तप्त हुई वह ताम्र वर्ण वाली भूमि बिजली की चमक के समान सब दिशाओंको प्रकाशित करती है, उसे देखना या छूना अत्यन्त भयङ्कर है ॥ ७ ॥

तस्याद्ध कराभ्याचपद्भ्याचैवयतानुगै ।

मुच्यतेपापकृन्मध्येलु ठ्यमान सगच्छति ॥८॥

काकैर्बकैर्वृकोलूकैर्वृश्चिकैर्मशकैस्तथा ।

भक्ष्यमाणस्तथागुध्रुतमार्गेविकृष्यते ॥९॥

दह्यमान पितमतिभ्रतिस्तातेतिचाकुल ।

वदत्यसकृदुद्विग्नोनशान्तिमधिगच्छति ॥१०॥

एवतस्मान्नरैर्मोक्षोह्यतिक्रान्तैरवाप्यते ।

वर्षायुतायुतै पापय कृतदुष्टबुद्धिभि ॥११॥

तथान्यस्तुतमोनामसोऽतिशीत स्वभावत ।

महारौरववद्दीर्घस्तथातितमसावृत ॥१२॥

गोवधश्चकृतोयेन भ्रातृणाघातएवच ।

अवन्नबालघातीचनीयतेशीतसकरे ॥१३॥

शीतार्त्तास्तत्रधावतिनरास्तमसिदारुणे ।

परस्परसमासाद्यपरिरभ्याश्रयन्तिच ॥१४॥

पापियो के हाथ—पाँव बाँध कर यमदूत उन्हें उसमें डालते हैं तब वे उसमें पड़े लेटते हैं ॥ ८ मार्ग में काक, बगुले, भेड़िये, उलूक, बिच्छू, मच्छर और गृध्रादि द्वारा खाये जाते हैं ॥ ९ ॥ फिर दग्ध होते हुए 'माता, पिता, भ्राता, इत्यादि चित्लाते हुए अत्यन्त उद्विग्न तथा अशान्त रहते हैं ॥ १० ॥ सदा पाप करने वाले दुष्ट बुद्धि मनुष्य हजार-हजार वर्ष में उसका अतिक्रमण करके मुक्त हो पाते हैं ॥ ११ ॥ उसके पीछे ही घोर अन्धकार से आवृत तम नामक नरक है, वह महा रौरव के समान ही विशाल तथा अत्यन्त शीतल है ॥ १२ ॥ उसमें गौ-हत्यारे, भ्रातृ—हत्यारे और बालघातियो को डाला जाता है ॥ १३ ॥ इस नरक में गिरने वाले जीव उस महान् अन्धकार में शीत से आर्त्त होकर इधर-उधर दौड़ते फिरते हैं तथा दूसरे नारकीयो से मिल कर उन से लिपट कर वहाँ रहते हैं ॥ १४ ॥

दन्तास्तेषाचभज्यन्तेशीतार्त्तिपरिकम्पिता ।

क्षुत्रृष्णाप्रबलातत्र तथैवान्येऽप्युपद्रवा ॥१५॥

हिमखण्डवहोवायुर्भिनत्यस्थीनिदारुण ।

मज्जासृग्गलिततस्मादश्नुवन्तिक्षुधान्विता ॥१६॥

लेलिह्यमाना भ्राम्यन्तेपरस्परसमागमे ।

एवतत्रापिसुमहान्ल्लेशस्तमसिमानवै ॥१७॥

प्राप्यतेब्राह्मणश्रेऽयावद्दुष्कृतसक्षय ।

निकृन्तनइतिख्यातस्ततोऽन्योनरकोत्तम ॥१८॥

तस्मिन्कुलालचक्राणिभ्राम्यन्त्यविरतपित ।

अदृष्ट दृष्टवद्ब्रूयादश्रुतश्रुतमेवच ॥१९॥

एकाक्षरगुरु यस्तुदुराचारोनमन्यते ।  
 नश्रुणोतिगुरोर्वाक्यशास्त्रवाक्यतथैवच ॥२०॥  
 एतेपापादुराचारास्तत्रतैर्यमपूरुषै ।  
 तेष्वारोप्यनिकृत्यन्तेकालसूत्रेणमानवा ॥२१॥  
 यमानुगागुलिस्थेनआपादतलमस्तकम् ।  
 नचैपाजीवितभ्र शोजायतेद्विजसत्तम ॥२२॥

शीत से काँपते रहने के कारण उनके दाँत टूट जाते हैं तथा भूख-प्यास आदि सभी उपद्रव प्रबल हो जाते हैं ॥ १५ ॥ हिम-खण्डों को बहाने वाली दारुण वायु उनकी हड्डियों को तोड़ देती है, जिससे मज्जा और रक्त गिरता है, वे प्राणी क्षुधातुर होकर उमी का भोजन करते हैं ॥ १६ ॥ परस्पर मिल कर शरीरों को चाटते हुए घूमने हैं, इस प्रकार उन्हें अत्यन्त क्लेश रहता है ॥ १७ ॥ जब तक भले प्रकार पापो का क्षय नहीं हो जाता, तब तक तम नामक नगर में महान् क्लेशों को भोगते हैं, उसके पीछे निकृन्तन नामक एक प्रधान नरक है ॥ १८ ॥ वह कुम्भार के चाक के समान निरन्तर घूमता रहता है, उस चक्र में पापियों को काल सूत्र से काटा जाता है और न देखे हुए का देखे हुए के समान तथा न सुने हुए को सुने हुए के समान ही वर्णन करता है ॥ १९ ॥ जो दुराचारी मनुष्य एकाक्षर दाता गुरु को ईश्वर के समान नहीं मानता या गुरु और शास्त्र के वचन को नहीं पालता ॥ २० ॥ वे पापी मनुष्य उम चक्र पर चढाये जाकर काल सूत्र में, पैरों से मस्तक तक काटे जाते हैं तो भी उनका जीवन नष्ट नहीं हो पाता ॥ २१-२२ ॥

छिन्नानितेषाशतश खण्डान्यैक्यव्रजन्तिच ।  
 एववर्षसहस्राणिछिद्यन्तेपापकर्मिण ॥२३॥  
 तावद्यावदशेषवैतत्पापहिक्षयगतम् ।  
 अप्रतिष्ठ चनरकश्रुणुष्वगदतोमम ॥२४॥  
 यत्रस्थैर्नारिकैदु खमसह्यमनुभूयते ।  
 स्वधर्मरतविप्राणाविघ्नयस्तुसमाचरेत् ॥२५॥  
 सबद्धैर्दरिणै पाशैर्नीयतेचक्रसकरै ।  
 तान्येवतत्रचक्राणिघटीयत्राणिचान्यत ॥२६॥

दु खस्यहेतुभूतानिपापकर्मकृतानृणाम् ।  
 चक्रेष्वारोपिता केचिद्भ्राम्यन्तेतत्रमानवा ॥२७॥  
 यावद्वर्षसहस्राणिनतेषास्थितिरन्तरा ।  
 घटीयन्त्रेषुचैवान्योबद्धस्तोयेयथाघटी ॥२८॥

फिर यह सौ-सौ टुकड़े होकर भी पूर्ववत् मिल जाते हैं और हजार वर्ष तक इसी प्रकार काटे और जोड़े जाते हैं ॥ २३ ॥ जब तक कि उनके पाप नष्ट नहीं हो जाते, अब अप्रतिष्ठ नामक नरक का वर्णन सुनो ॥ २४ ॥ जहाँ रह कर असह्य क्लेश होते हैं, जो मनुष्य स्वधर्म में तत्पर ब्राह्मणों के समक्ष विघ्न उपस्थित करता है ॥ २५ ॥ उसे दारुण पाश में बाँध कर चक्र सकर नरक में डालते हैं, वह चक्र और घटीयन्त्र ॥ २६ ॥ पापियों के लिए दुःखों के कारण रूप होते हैं, कुछ प्राणी उस चक्र पर चढ़ा कर घुमाये जाते हैं ॥ २७ ॥ उनको उस नरक में एक हजार वर्ष रहना होता है, कोई पापी छोटे घड़े के समान बाँधा जाकर ॥ २८ ॥

भ्राम्यन्तेमानवारक्तमुद्गिरन्त पुन पुन ।  
 अन्त्रैर्मुखेविनिष्क्रान्तैर्नैत्रैरग्रावलम्बिभि ॥२९॥  
 दु खानितेप्राप्नुवन्तियान्यसह्यानिजन्तुभि ।  
 असिपत्रवननामनरकशृणुचापरम् ॥३०॥  
 योजनानासहस्र योज्वलदग्न्यास्तृतावनि ।  
 ब्रह्मत्रारिब्रतानाचतपसाविघ्नमाचरेत् ॥३१॥  
 असिपत्रवनयातियेसदोद्वेगकारिण ।  
 तप्ता सूर्यकरैश्चडैर्यत्रातीवसुदारुणै ॥३२॥  
 प्रपतन्तिसदातत्रप्राणिनोनरकौकस ।  
 तन्मध्येचवनरम्यस्त्रिगधपत्रविभाव्यते ॥३३॥  
 पत्राणितत्रखड्गानाफलानिद्विजसत्तम ।  
 श्वानश्चतत्रसबला स्वनन्त्ययुतशोऽभित ॥३४॥  
 महाबक्रामहाद्द्रष्ट्राव्याघ्राइवभयानका ।  
 ततस्तद्वनमालोक्यशिशिरच्छायमग्रत ॥३५॥  
 प्रयान्तिप्राणिनस्तत्रतृतापपरिपीडिता ।

समान ही जाते हैं ॥ ४६ ॥ मस्तक स्नायु, मास, त्वचा, आस्थि आदि सभी द्रवी भूत होकर तैल में मिल जाते हैं तब उन पापियों को दर्वी द्वारा कूटा जाकर ॥ ४७ ॥ महा तैल के गढे में डाल कर मथा जाता है, इस प्रकार तप्त कुम्भ आदि नरको का सविस्तर वर्णन आपके प्रति किया है ॥ ४८ ॥

### १३—गतलोक वर्णन

अहवैश्यकुलेजातो जन्मन्यस्मात्तु सप्तमे ।  
ममतीते गवारोधनिपाने कृतवान्पुरा ॥१॥  
विपाकात्कर्मणस्तस्य नरकभृशदारुणम् ।  
सप्राप्तोऽग्निशिखापूर्णमयोमुखखगाकुलम् ॥२॥  
यन्त्रपीडनगात्रासृक्प्रवाहोद्भूतकर्दमम् ।  
विकृष्यमारादुष्कर्मितन्निपातरवाकुलम् ॥३॥  
पात्यमानस्यमेतन्नमाग्रवर्षशतगतम् ।  
महातापार्त्तितप्तस्यतृष्णादाहान्वितस्यच ॥४॥  
तल्लाल्लादकरसद्यपवनसुखशीतल ।  
करम्भवालुकाकुम्भमध्यस्थेवैसमागत ॥५॥  
अकस्मादेवभोस्तातनररत्नसमागतम् ।  
तत्सम्पर्कापशेषाणानाभवद्यातनानृणाम् ।  
ममचापियथास्वर्गोस्वर्गिणानिवृत्तिपरा ॥६॥  
किमेतदितिचाल्लादविस्तारस्तिमितेक्षणै ।  
दृष्टमस्माभिरासन्ननररत्नमनुत्तम् ॥७॥

पुत्र बोला—हे तात ! इम जन्म से मात जन्म पूर्व मैं वैश्य योनि में उत्पन्न हुआ था, तब मैंने गौओं को जल पीने से रोका था ॥ १ ॥ उसा के फल से दारुण नरक को प्राप्त हुआ, वह नरक अग्नि की शिखाओं और लौहों के मुख वाले पक्षियों से परिपूर्ण था ॥ २ ॥ यन्त्र में फँके हुए जीवों के देह से निकले हुए रक्त के बहने से वहाँ कीचड़ रहता है, तथा यन्त्र में पड़े हुए उन पापियों के आर्तनाद से वह नरक गूँजता रहता था ॥ ३ ॥ उस नरक में महापाप की पीडा से उत्पन्न पिपासा पूर्वक मैंने सौ से कुछ अधिक

वर्ष व्यतीत किये थे ॥ ४ ॥ तभी एक दिन करम्भ बालु का वाले घड़े के बीच से प्रसन्नता प्रद ठडी वायु चलने लगी ॥ ५ ॥ उसके स्पर्श से मेरी तथा अन्य नरक वासियो की यन्त्रणा मिट गयी, उस समय हम सब स्वर्ग मे रहने वालो के समान परमानन्द का अनुभव करने लगे ॥ ६ ॥ हम प्रसन्नता से उत्पन्न हुए विस्मय के सहित इधर-उधर देखने लगे तभी हमे पास मे ही एक श्रेष्ठ मनुष्य हमको दिखाई दिया ॥ ७ ॥

याम्थश्चपुरुषोघोरोदण्डहस्तोल्लसत्प्रभ ।  
 पुरतोदर्शयन्मार्गमितएहीतिचब्रुवन् ॥८॥  
 ततस्तेजन्तव सर्वमेत्वातद्दर्शनात्सुखम् ।  
 ऊचु प्राजलयोभूपक्षणमालस्थितोभव ॥९॥  
 त्वद्रात्रसगोपवनोह्यस्माकसुखकारक ।  
 ततोसौनरकाभ्याशेउपविष्ट कृपान्वित ॥१०॥  
 पुरुष सतदादृष्ट्वायातनाशतसकुलम् ।  
 नरकप्राहतयाम्यकिङ्करकृपयान्वित ॥११॥  
 भोयाम्यपुस्त्राचक्ष्वकिमयादुष्कृतकृतम् ।  
 येनेदयातनाभीमप्राप्तोऽस्मिनरकपरम् ॥१२॥  
 विप्रश्चिदिति विख्यातोजनकानामहकुले ।  
 जातोविदेहविषयेसम्यङ् मनुजपालक ॥१३॥  
 चतुर्वर्ण्यस्वधर्मस्थकृत्वासरक्षितमया ।  
 धर्मतोधर्मकल्पेनमनुनात्रयथापुरा ॥१४॥

उस समय वज्र के समान दण्ड हाथ मे लिये हुए एक भयङ्कर यमदूत उसे मार्ग दिखा रहा था ॥ ८ ॥ उस समय सभी प्राणी उसके दर्शन से सुखी होकर हाथ जोडे हुए बोले कि आप क्षण भर को यहाँ रुके ॥ ९ ॥ आपके शरीर के साथ चलने वाला वायु हमे सुख दे रहा है, तब वह मनुष्य अनुग्रह पूर्वक हमारे पास ठहर गये ॥ १० ॥ फिर उसने मैकडो कष्टो वाले नरक को देखा और अनुग्रह भरे हृदय से यमदूतो से कहने लगा ॥ ११ ॥ उसने कहा— हे यमदूतो ! मैने ऐसा कौन पाप किया है, जिसके कारण मुझे इस अत्यन्त भयानक नरक मे लाया गया हूँ, यह मुझे शीघ्र बताओ ॥ १२ ॥ मै पितृ कुल

मे पण्डित कहा जाता था, इसलिए विदेह राज्य मे श्रेष्ठ प्रजा पालक था ॥ १३ ॥  
चारो वर्णों की मैंने धर्म पूर्वक रक्षा की थी और सभी कार्य मनु के समान ही  
धर्म मे किया था ॥ १४ ॥

यज्ञैर्मयेष्ट बहुभिर्धर्मत पालितामही ।  
नोत्सृष्टश्चैवसग्रामोनातिथिर्विमुखोगत ॥१५॥  
पितृदेवर्षिभृत्याश्चनचापचरितामया ।  
महातापार्तितप्तस्यतृष्णादाहार्दितस्यच ॥१६॥  
कृतास्पृहाचनमयापरस्त्रीविभवादिषु ॥१७॥  
पर्वकालेषुपितरस्तिथिकालेषुदेवता ।  
पुरुषस्वयमायान्तिनिपानमिवधेनव ॥१८॥  
यतस्तेविमुखायान्तिनि स्वस्यगृहमेधिन ।  
तस्मादिष्टश्चपूर्तश्चधर्मौद्वावपिनश्यत ॥१९॥  
पितृनिस्वासविध्वस्तसप्तजन्मार्जितधनम् ।  
त्रिजन्मप्रभवदैवोनिश्वासोहन्त्यसंशयम् ॥२०॥  
तस्माद्द्वैवेचपित्र्येचनित्यमेवहितोऽभवम् ।  
सोऽहकथमिमप्राप्तोनरकभृशदारुणम् ॥२१॥

मैंने अनेक यज्ञो के अनुष्ठान पूर्वक धर्म पूर्वक पृथिवी का पालन किया  
था, मैंने युद्ध का त्याग कभी नहीं किया और कभी किसी अतिथि को विमुख  
नहीं किया ॥ १५ ॥ मैंने पितृ, देव, ऋषि अथवा सेवको को भी कभी दुखी  
नहीं किया तथा महाताप मे तप्त और प्यास से आतुर ॥ १६ ॥ प्राणियों की  
रक्षा मे सदा तत्पर रहा हूँ, परधन या परनारी की कामना मैंने कभी नहीं की  
॥ १७ ॥ जैसे गौएँ गोष्ठ मे आती है, वैसे ही पर्वकाल मे पितरगण और तिथि  
काल मे देवगण मेरे यहाँ आते थे ॥ १८ ॥ जिस गृहस्थ के यहाँ मे पितर या  
देवता विमुख होते है, जिसके यज्ञ और पूर्त का विनाश हो जाता है ॥ १९ ॥  
पितरो के विमुख होने मे सात जन्म का सचित पुण्य तथा देवताओ के विमुख  
होने से तीन जन्म का एकत्र हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है ॥ २० ॥ इस कारण  
मैं पितरों और देवताओ के कार्य मे सदा रहता था फिर इस दारुण नरक को  
क्यो प्राप्त हुआ हूँ ? ॥ २१ ॥

## १४—कमफल प्राप्ति

इतिपृष्ठपदानेनशृण्वतातोमहात्मना ।  
 उवाचपुनर्गोयाम्योऽग्रेऽपिप्रश्रितवच ॥१॥  
 महाराजशयान्यन्वतथैतन्नात्रसशय ।  
 किन्तुस्वल्पकृत्पापमवताम्पारयामितत् ॥२॥  
 वेदर्भनिवयःपत्नीपीवरीनामनामत ।  
 ऋतुमत्याऋतुर्वन्ध्यस्त्वयातस्या कृत पुरा ॥३॥  
 मुशोमनायाऋकेय्यामासक्तेनततोभवान् ।  
 ऋतुव्यनिक्रमान्प्राप्तो नरकघोरमीदृशम् ॥४॥  
 होमकालेयथावह्निराज्यपातमवेक्षते ।  
 ऋतौप्रजापतिस्तद्वद्वीजपातमवेक्षते ॥५॥  
 यस्तमुल्लघ्यधर्मात्माकामेष्वात्मक्तिमान्भवेत् ।  
 मत्पुत्रियादृशात्पापमवाप्यनरकपतेत् ॥६॥  
 एतावदेवतेपापनान्यत्किञ्चनविद्यते ।  
 तदेह्यागच्छपुण्यानामुपभोगायपार्थिव ।  
 एतच्छ्रुत्वातुरार्जपि कृपयाजनकोब्रवीत् ॥७॥

पुत्र बोला—हे तात ! इस प्रकार उस पुरुष के प्रश्न करने पर यमदूत ने भयङ्कर होने लगे भी जिम नम्रता से उत्तर दिया, उसे मैंने सुना ॥ १ ॥ यमदूत ने कहा—हे महाराज ! आप मृत्यु कहते हैं, परन्तु आपसे एक सामान्य पाप बन गया था, उसे आपको स्मरण कराता हूँ ॥ २ ॥ आपकी एक पत्नी विदर्भ देश की थी, उसका नाम पीवरी था, आपने उसके ऋतुमती होने पर ऋतु को विफल किया था ॥ ३ ॥ आप उस समय केकय देश की रानी मुगोभना के प्रति अत्यन्त आसक्त थे, इसलिए ऋतु काल का व्यतिक्रमण करने से आपको इस दारुण नरक की प्राप्ति हुई है ॥ ४ ॥ जैसे होम काल में अग्नि आहुति की कामना करना है, वैसे ही प्रजापति ऋतु काल में बीज की कामना करते हैं ॥ ५ ॥ इसका उल्लघन करने वाले धर्मात्मा पुरुष भी पितर-ऋण के पाप रूप पक में लिस होकर नरक में पड़ते हैं ॥ ६ ॥ आपने



यही एक मात्र पाप किया है, अगर कोई बात आसने नहीं हुआ, अब आप सभी पुण्यों का फल भोगने के लिए चलिये, यह सुन कर उन राजर्षि ने कृपा पूर्वक कहा ॥ ७ ॥

याभ्यामिदवानुचरयन्त्रानानयिष्यति ।  
 किञ्चित्पृच्छामितरेष्वथवावृक्कटुपर्तनि ॥१॥  
 वज्रतुण्डाम्बवर्माहावा पुनानुचरयन्त्रिणः ।  
 पुन पुनवचनेत्रापितद्वेषानवति नहि ॥२॥  
 किकर्मकृतवन्तवचनपथ नज्जुमुत्तिनः ।  
 हरन्त्येपातथाजिह्वा नाथमाना पुनन गत् ॥३॥  
 करपत्रेणपाटञ्च नेपासात्नेऽन्दिमुत्तिनः ।  
 करम्भवालुकायश्च यनेकशयन्तेगः ॥४॥  
 अयोमुखे खगे च्चवृष्टा नैकविपावद ।  
 विजित्पदेहृन्तानिःहासावविपाविण ॥५॥  
 अयवचचूनिपातेन नदीङ्ग यम वेत्त ।  
 किमेतेति स्वनन्तोऽिनुद्यन्तेऽहानेशतरा ॥६॥  
 एतावचान्याञ्चवृष्टयतेयानता पापकर्निशासु ।  
 येनकर्मविपाकेनतन्नेतेहे एतोवद ॥७॥

राजा बोले—हे गम्भिर ! अगर मुझे जान ले राजर्षी, क्या ने राजर्षी परन्तु मेरे प्रश्न का गार्थ उत्तर द्या ॥ १ ॥ यह वज्र के मरत वाहा इन पुरुषों के नेत्रों का हरण करने है और उनके वे रोज पुन उभाव्ल हो जाते है, एपा वारम्बार हो रहा है ॥ २ ॥ इन्होंने ऐसा कोन-सा निर्दिष्ट गर्भ किया है, जिससे इनके नेत्र निकाले जाने पर भी पुन उत्पन्न होते है ॥ ३ ॥ यह कर-पत्र की मार से क्यों इतना दुख भोग रहे है तथा तन वात और तंग मे भूते जा रहे है ॥ ४ ॥ लोट्मुख पक्षियों द्वारा पीचे जाने पर उनकी देह के बन्धन टूट रहे है, जिसकी पीडा के कारण यह आर्त्तनाद कर रहे है ॥ ५ ॥ तथा पक्षियों की लाड्मन तोद के आपात मे इनके सभी अंग छिन-भिन्न हो रहे है, इन्होंने ऐसा क्या पाप किया है जिससे यह निरन्तर ऐसी यन्त्रणा प्राप्त कर रहे है ॥ ६ ॥ पापियों की अन्य प्रकार की पीडाएँ मिलते हुए भी देख

रहा हूँ, किम कर्म के कारण इन्हे इन दुखों की प्राप्ति हो रही है, यह मुझे प्रारम्भ में अन्त तक बताओ ॥ १४ ॥

यन्मापृच्छसिभूपालमापकर्मफलोदयम् ।  
 तत्ते ऽहसप्रवक्ष्यामिसक्षेपेणयथातथम् ॥१५॥  
 पुण्यापुण्येहिपुरुष पर्यायेणसमश्नुते ।  
 भुञ्जतश्चक्षययातिपापपुण्यमथापिवा ॥१६॥  
 नतुभोगादृतेपुण्यपापवाकर्ममानव ।  
 परित्यजतिभोगाच्चपुण्यापुण्येनिबोधमे ॥१७॥  
 दुर्भिक्षादेवदुर्भिक्ष क्लेशात्क्लेशभयाद्भयम् ।  
 मृतेभ्य प्रमृतायान्तिदरिद्रा पापकर्मिण ॥१८॥  
 गतिनानाविधायान्तिजन्तव कर्मबन्धनात् ।  
 उत्सवादुत्सवयान्तिस्वर्गान्स्वर्गसुखात्सुखम् ॥१९॥  
 श्रद्धधानाश्चदान्ताश्चधनदा शुभकारिण ।  
 व्याघ्रकु जरदुर्गाणिसर्पचौरभयानितु ॥२०॥  
 हता पापेनगच्छन्तिपापिन किमत परम् ।  
 सुगन्धिमात्यसद्वस्त्रसाधुयानासनाशना ॥२१॥  
 स्तूयमाना सदायान्तिपुण्यै पुण्याटवीष्वपि ।  
 अनेकशतसाहस्रजन्मसचयसचितम् ॥२२॥

यमदूतो ने कहा—हे राजन् ! पाप के फलोदय के विषय में जो प्रश्न आपने किया है, उसका वर्णन संक्षिप्त रूप से करता हूँ ॥ १५ ॥ क्रमानुसार ही मनुष्यों को पाप-पुण्य भोगने होते हैं, उसी से उनके पाप या पुण्य का क्षय होता है ॥१६॥ बिना भोगे पुण्य या पाप से कभी मनुष्य की शुद्धि नहीं होती है भोगने से ही वह मिटता है, उसी से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है । जो पापी है वे दरिद्री होते हैं, वे दुर्भिक्ष, क्लेश, भय और मृत्यु को पाते हैं ॥ १७—१८ कर्म के बन्धन से विभिन्न प्रकार की गतियाँ प्राप्त होती हैं पुण्यात्माओं को उत्सव, स्वर्ग तथा सुख पर सुख मिलते रहते हैं ॥ १९ ॥ वही श्रद्धावान्, शान्तचेता, दानी और सुख करने वाले होते हैं, तथा पापी मनुष्य व्याल, हाथी, सर्प, चोर आदि से भय युक्त स्थान में ॥ २० ॥ पाप से मर

कर जाते हैं, उनकी अन्य गति क्या हो सकती है ? तथा श्रेष्ठ वस्त्र, सुगन्धित मालाएँ, विमन और भोजन ॥ २१ ॥ आदि की प्राप्ति महात्मा पुरुषो को अपने पुण्य के बल से होती है, वे प्रशंसित होने हुए पवित्र स्थानों को प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥

पुण्यापुण्यनृणातद्वत्सुखदुःखाकुरोद्भवम् ।  
यथाबीजहिम्भूपालपयासिसमवेक्षते ॥२३॥  
पुण्यापुण्येत्थाकालदेशान्यकर्मकारकम् ।  
स्वल्पपापकृतपु सादेशकालोपपादितम् ॥२४॥  
पादन्यासकृतदुःखकण्टकोत्थप्रयच्छति ।  
तत्प्रभूततरस्थूलशकुलीलकसम्भवम् ॥२५॥  
दुःखयच्छतितद्वच्चशिरोरोगादिदुःसहम् ।  
अपथ्याशनशीतोष्णश्रमतापादिकारकम् ॥२६॥  
तथान्योन्यमपेक्षन्तेपापानिफलसङ्गमे ।  
एवमहान्तिपापानिदीर्घरोगादिका क्रिया ॥२७॥  
तद्वच्छस्त्राग्निकृच्छ्रार्तिबन्धनादिप्लायवै ।  
स्वल्पपुण्यशुभगन्धहेलयासम्प्रयच्छति ॥२८॥  
स्पर्शवाप्यथवाशब्दरसरूपमथापिवा ।  
चिराद्गुस्तरतद्वन्महान्तमपिकालजम् ॥२९॥

अनेक शत सहस्र जन्मों के पुण्य, पाप को प्राणी सचित करते रहते हैं, वही उनके सुख-दुःख रूप में उत्पन्न होते हैं, जैसे सभी बीज जल की कामना करते हैं ॥२३॥ उसी प्रकार पुण्य, पाप भी काल, देश और पात्रकी कामना करते हैं, यदि देश, काल के अनुसार किंचित् भी पाप किया हो तो ॥ २४ ॥ पैर रखने पर काँटा लगने जैसे दुःख का ही अनुभव होता है, परन्तु अधिक पापों का आचरण करने पर शूल या कील आदि से उत्पन्न होने वाले ॥ २५ ॥ शिरो-रोग आदि दारुण दुःखों का भोग करना होता है, जैसे अपथ्य अन्न, शीत ताप, श्रम आदि को उत्पन्न करता है ॥ २६ ॥ वैसे ही सब पाप फल के उत्पन्न होने के समय में परस्पर की अपेक्षा करते हैं, महापाप कर्मों से दीर्घ रोगादि विकारों की प्राप्ति होती है ॥ २७ ॥ शस्त्र पीडा, अग्नि का दाह अथवा

जन्तु के अति प्रेमालय हैं, वे क्रीडा के बहाने किञ्चित् पुण्य करने से भी  
 श्रेयस्वत् हैं ॥ २८ ॥ मुखन-मार्ग, मरु-बाणी, सीटे-रग और सुन्दर रूप का  
 प्रयोग करने के विना ही, इन ह तथा बहुत पुण्य करने पर कालक्रम से  
 अधिक उत्पन्न होता है ॥ २९ ॥

एवञ्चतुदुष्टानिपुण्यापुण्योद्भवानिवे ।  
 भुङ्क्षान्तेऽनेकमन्तरमभवागीहनिपति ॥३०॥  
 जानिदेषावरुद्धानिजानाजानफलानिच ।  
 निपतितवपृक्तादितिङ्गमाग्नात्मानि ॥३१॥  
 कर्मणानन्तरावाचानकदाच्चिद्वचिन्नर ।  
 अत्रुत्पन्नाकर्मपुण्यवावप्यतिपते ॥३२॥  
 यद्यन्प्रापेतिपुरुष सुखदुःखमथापिवा ।  
 प्रभूतमथवास्वल्पविक्रियाकारिचेतम ॥३३॥  
 तावन्नातम्यमुग्रदापापवाप्यथचेतरन् ॥३४॥  
 उपाभोगान्क्षययानिभुज्यमानमिवाणतम् ।  
 एवमननहानापयाननाभिरहनिगम् ॥३५॥

इस प्रकार प्राणी पाप-पुण्य से उत्पन्न दुःख या सुख का भोग करता  
 हुआ मन्तर में वाप करता है ॥ ३० ॥ जानि, देग, काल आदि से अवरुद्ध  
 ज्ञान-अज्ञान का मरूपूर्ण फल आत्मा में चिह्नित हो जाता है ॥ ३१ ॥ मन,  
 बाणी, दर्म में कभी कोई पाप-पुण्य किय बिना उतका फल उत्पन्न नहीं हो  
 सकता ॥ ३२ ॥ यह जा कुछ सुख-दुःख की प्राप्ति है, वह अल्प या अधिक  
 चित्त का ही विकार है ॥ ३३ ॥ उमे उतने ही पाप पुण्य के फल की प्राप्ति  
 होती है ॥ ३४ ॥ जैसे भोजन किये हुए अन्न का क्षय उसके उपभोग से  
 ही होता, वैसे ही भोगे बिना पाप का क्षय नहीं हो सकता ॥ ३५ ॥

क्षययन्तिनराघोरनरकान्तविवर्तित ।  
 तथेवराजन्पुण्यानिस्वर्गलोकेमरै सह ॥३६॥  
 गन्धर्वसिद्धाप्सरसागीताद्यैरुपभुजते ।  
 देवत्वमाप्नुपत्वेच्चतिर्यक्त्वेच्चगुभाशुभम् ॥३७॥  
 पुण्यपापोद्भवभुक्तं सुखदुःखोपलक्षणम् ।

यत्त्वपृच्छसिमाराजन्यातना पापकर्मिणाम् ॥३८॥

केनकेनेतिपापेनतत्त वक्ष्याम्यशेषत ।

दुष्टेनचक्षुपाहृष्टा परदारानराधमै ॥३९॥

मानसेनचदुष्टे नपरद्रव्यचक्षस्पृहै ।

वञ्जतु डा खगास्तेपाहरत्येतेविलोचने ॥४०॥

पुन पुन ऋचसभतिरक्षगोरेपाभवत्यथ ।

यावतोऽक्षिनिमेपास्तुपापमेभिर्नृभि कृतम् ॥४१॥

तावद्वर्षसहस्राणिनेत्रातिप्राप्नुवत्युत ।

असच्चास्त्रोपदेशास्तुयैर्दत्तायेश्रमत्रिता ॥४२॥

सम्यग्दृष्टे विनाशायरिपूणामपिमानवे ।

यै शास्त्रमन्यथाप्रोक्तयेरसद्वागुदाहृता ॥४३॥

इसलिए नरक में रह कर जीव यातनाएँ प्राप्त करके ही महापाप क्षय करते रहते हैं तथा इसी प्रकार पुण्यात्मा स्वर्गवासी भी देव के साथ रह कर पुण्य को भोगते हैं ॥ ३६ ॥ उन्हें मित्र, गधर्व, अप्सराओं के गान आदि से पुण्य फल मिलता है, तथा देवता, मनुष्य वा खग-योनि पाकर भी शुभाशुभ ॥ ३७ ॥ पुण्य और पाप में उत्पन्न सुख दुख युक्त भोगते हैं, हे राजन् ! आपने प्रश्न किया कि पापीगण किम किम पापकर्म में ऐसी यत्रणा भोगते हैं ॥ ३८ ॥ अब मैं इसे पूर्ण रूप से कहता हूँ, जिन नराधम मनुष्यों ने परनारी को दूषित नेत्रों से देखा है ॥ ३९ ॥ अथवा पराये धन को हड़पने की इच्छा वाले नेत्रों से देखा है, वनके दोनों नेत्रों को यह वञ्जतुण्डी पक्षी हरण करते हैं ॥ ४० ॥ तथा वहीं नेत्र बारम्बार उत्पन्न हो जाते हैं, इन मनुष्यों ने जितने पलक लगने तक यह पाप किये हैं ॥ ४१ ॥ उतने ही महस्र वर्ष यह इस नेत्र पीडा को प्राप्त करते रहेगे, जिन्होंने शत्रु की भी ज्ञान दृष्टि का हरण करने के लिए अन्याय पूर्वक विपरीत शास्त्रोपदेश अथवा भ्रमात्मक परामर्श दिया है या मिथ्या भक्षण किया है ॥ ४२-४३ ॥

वेददेवद्विजातीनागुरोर्निन्दाचयै कृता ।

हरतितेषाजिह्वाश्रजायमाना पुन पुन ॥४४॥

तावतोवत्सरानेतेवञ्जतु डा सुदारुणा ।

मित्रभेदतथापित्रापुत्रस्यस्वजनस्यच ॥४५॥  
 यज्वोपाध्याययोर्मात्रामुतस्यसहचारिण ।  
 भार्यापत्योश्चयेकेचिद्भेदचक्रुर्नराधमा ॥४६॥  
 तइमेपश्यपाट्य तेकरपत्रेणपार्थिव ।  
 परोपतापकायेचयेचाल्लादनिपेधका ॥४७॥  
 तालवृ तानिलादिचन्दनोशीरहारिण ।  
 प्राणान्तिकददुस्तापमदुष्टानाचयेऽधमा ॥४८॥  
 करम्भवालुकासस्थास्तइमेपापभागिन ।  
 भुङ्क्ते श्राद्ध तुयोऽन्यस्यनरोन्येननिमत्रित ॥४९॥

जिन्होंने वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरुजनो की निन्दा की है, यह यह वज्रतुण्डी पक्षी उनकी जीभ को काटते है, जीतनी बार यह पाप किया है, उनने ही वर्ष उन्हे ऐसी यत्रणा मिलती है तथा जिन्होंने मित्रो मे या पिता-पुत्र मे भेद डलवाया है ॥ ४४-४५ ॥ अथवा याज्ञिक-यजमान मे, माता-पुत्र मे या पति-पत्नी मे मन मुटाव करा दिया है ॥ ४६ ॥ वे इस कर पत्त से आहत होते है अथवा जो किसी को क्रोध दिलाने या किसी की प्रसन्नता नष्ट करते है ॥४७॥ जो ताड का पखा या खस याचन्दन का हरण करते अथवा साधुओ को प्राणान्तक पीडा देते है ॥ ४८ ॥ वे पापी तप्त रेत मे गिर कर पाप का फल पाते है अथवा जो एक श्राद्ध मे निमत्रित होकर दूसरे के यहाँ भोजन करते है उनको यह पक्षीगण व्यथित करते है ॥ ४९ ॥

दैवेवाप्यथवापैत्र्येसद्विधाकृष्यतेखगै ।  
 मर्माणियस्तुसाधूनामसद्वाग्भिर्निकृन्तति ॥५०॥  
 तामिमेतुदमानास्तुखगास्तिष्ठन्त्यवारिता ।  
 य करोतिचपैशुन्यमन्यवागन्यथामति ॥५१॥  
 पाट्यतेहिद्विधाजिह्वातस्ययेत्थनिशितै क्षुरै ।  
 मातापित्रोर्गुरूणाचयेऽवज्ञाचक्रु रुद्धता ॥५२॥  
 तइमेपूयविष्मूत्रगत्तमज्जन्त्यधोमुखा ।  
 देवतातिथिभूतेषुभृत्येष्वभ्यागतेषुच ॥५३॥  
 अभुक्तवत्सुयेऽश्नन्तितद्वत्पित्रनिपक्षिषु ।

द्रुष्टास्तेपूयनिर्यासभुज सूचीमुखास्तुते ॥५४॥

जायन्तेगिरिवर्ष्माण पश्यैतेयादृशानरा ।

एकपक्त्यातुयेविप्रमथवेतरवर्णजम् ॥५५॥

विषमभोजयन्तीहृविड्भुजस्तइमेयथा ।

एकसार्थप्रयातयेनि स्वमर्थार्थिननरम् ॥५६॥

तथा जो झूठी बात बना कर किसी की चुगली करते हैं ॥ ५० ॥

अर्थात् देवता या पितर-कार्य में एक का निमन्त्रण स्वीकार करके दूसरे का भोजन करते हैं ॥ ५१ ॥ उनकी जिह्वा इम तीक्ष्ण गुरी के द्वारा दो टुक कर दी जाती है, जो मत्त होकर माता, पिता तथा गुरुजनो का तिरस्कार करते हैं ॥ ५२ ॥ वे इम पीक मल और मूत्र से परिपूर्ण कुण्ड में अधोमुख गिराये जाते हैं, देवता, अतिथि, सेवक, अभ्यागत ॥ ५३ पितरगण, अग्नि और पक्षियों को भोजन दिये बिना स्वयं खा लेते हैं, वे सूचीमुख होकर पीव और गोद खाते हैं ॥ ५४ ॥ उनका शरीर पर्वताकार होता है, जो ब्राह्मण और अन्य जाति वालों को एक पक्ति में बैठा कर ॥ ५५ ॥ असमान भोजन कराते हैं, वह इसकी विष्टा खाते हैं, जो व्यापार के लिए एक साथ जाते हुए भी अपने धनहीन साथी को छोड़ कर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उन्हें यहाँ कफ का भोजन प्राप्त होता है, ॥ ५६ ॥

अपास्यस्वान्नमश्नन्ति तइमे श्लेष्मभोजिन ।

गोब्राह्मणाग्नय स्पृष्टायैरुच्छिष्टैर्नरेश्वर ॥५७॥

तेषामेतेऽग्निकुण्डेषु प्रज्वलत्स्वाहिता करा ।

सूर्येन्दुतारकादृष्टायैरुच्छिष्टैस्तुकामत ॥५८॥

तेषायाम्यैर्नरैर्नैत्रेन्यस्तोवह्नि समिध्यते ।

गावोऽग्निर्जननीविप्रोज्येष्ठभ्रातापितास्वसा ॥५९॥

जामयोगुरवोवृद्धायै स्पृष्टास्तुपदानृभि ।

बद्धाघ्नयस्तेनिगडैर्लोहैरग्निप्रतापितै ॥६०॥

अ गारराशि मध्यस्थास्तिष्ठन्त्याजानुदाहिन ।

पायसकृसरछागदेवान्नानिचयानिवै ॥६१॥

भुक्तानियैरसंस्कृत्यतेषानेत्राणिपापिनाम् ।

निपातितानामृष्टे उद्वन्नाक्षिनिरीक्षताम् ॥६२॥

जिन्होन उच्छिष्ट, रश्मि कर गो, ब्राह्मण या अग्नि का स्पर्श किया है ॥ ५७ ॥ उनके हाथ अग्नि कुण्ड में गिर कर दग्ध होते हैं तथा उच्छिष्ट अवस्था में जिन्होंने मूर्ख, चन्द्र या तारा, तण के दर्शन किये हैं ॥ ५८ ॥ उनके नेत्रों पर यह यमदूत अग्नि रखते हैं, जिन्होंने शू, ब्राह्मण, माता, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, भगिनी, अग्नि ॥ ५९ ॥ वज्र की वहन गुरु अथवा वृद्ध ब्राह्मण का स्पर्श पैर में किया है, उनके पैर अग्नि में तपाईं हुई लौह-वेडियों में जकड़े गये हैं ॥ ६० ॥ तथा वे ही जाँव तक अगारों के डेर में खड़े किये गये हैं, जिन पापियों ने खीर, खिचड़ी या छ्वाग अथवा अन्य किसी देवान्न को ॥ ६१ ॥ सस्कार किये बिना खा लिया है, उन पापात्माओं के नेत्र उखाड़ कर भूमि में डाले हुए दिखाई दे रहे हैं तथा दग्ध करने वाले यमदूतों के मुख में गिर रहे हैं ॥ ६२ ॥

मन्दशे पश्यकृप्यन्तेनरैर्यम्यैर्मुखात्तत ।

गुरुदेवद्विजानीनावेदानाचनराधमै ॥६३॥

निन्दानिशामितायेश्रपापानामभिनन्दताम् ।

तेपामयोमयान्कीलानग्निवर्णान्पुन पुन ॥६४॥

कर्णेषूप्रयन्त्येतेयाम्याविलपतामपि ।

यै प्रपादेवविप्रोकोदेवालयसभा शुभा ॥६५॥

भङ्क्त्वाविध्वसमानीता क्रोधलोभानुर्वृत्तिभि ।

तेपामेतै शितै शस्त्रैर्मुहुर्विलपतात्वच ॥६६॥

पृथक्कुर्वन्तिवैयाम्या शरीरादतिदारुणा ।

गोब्राह्मणार्कमार्गास्तुयेऽवमेहन्तिमानवा ॥६७॥

तेषामेतानिकृष्यन्तेगुदेनात्राणिवायसै ।

दत्त्वाकन्यायएकस्मैद्वितीयायप्रयच्छति ॥६८॥

सत्वेवर्नैकध्राष्ठिन्न क्षारनद्याप्रवाह्यते ।

स्वपोषणपरोयस्तुपरित्यजतिमानव ॥६९॥

पुत्रभृत्यकलत्रादिवन्धुवर्गमकिचनम् ।

दुर्भिक्षेस भ्रमेवापिसोऽप्येवयमकिकरैः ॥७०॥

उत्कृत्यदत्तानिमुखेस्वमासान्यश्नुतेक्षुधा ।



शरणागतान्यस्त्यजनिर्लोभादुत्कोचजीविक ॥७१॥

जो गुरु, देवता, ब्राह्मण अथवा वेद की निन्दा रुत कर उमका अनुमोदन करते हैं, अग्नि वर्षक लोहे की कीले यमदूत वाग्भवार ॥ ८३-८४ ॥ उन विलाप करते हुए पापियों के कानों में धुमाता है, जिन्होंने देवान् पर ब्राह्मण का गृह अथवा मन्त्रा भवन को ॥ ६५ ॥ तब अथवा जो वज्र हाकर विध्वंस किया है, उनका चर्म त्राण गन्धों के द्वारा ॥ ६६ ॥ जरीय में यमदूत अलग करते हैं तथा जो रा, ब्राह्मण धार सूर्य के मार्ग में मत्त मत्त का त्याग करते हैं ॥ ६७ ॥ उन पापियों की मत्त आँत गुह्य द्वार में कोण में बलने है, जो एक बार किमी का कन्या दान करके, वही कन्या किमी अन्य को देने है ॥ ६८ ॥ उनको इस प्रकार दुःख-दुःख करके खारी नदी में प्रवाहित किया जाता है, जो अन्य मनुष्यों का पोषण न करके, अपना ही कर है ॥ ६९ ॥ दुर्भिक्ष या अन्य मकट काव में पुत्र, सेवक, बलत्र तथा बन्धु-बाधक का त्याग करने हे, यमदूत ॥ ७० ॥ उनके माँस को काट-काट कर उन्हीं के मुख में डालने है और वे अशुभार्त्त हुए उमी को खाने है ॥ ७१ ॥

सोऽप्येवयत्रपीडाभि पीडयतेयमर्किकरं ।

सुकृतयेप्रयच्छ्रितियावज्जन्मकृतनरा ॥७२॥

तेपिष्यन्तेशिलापेपर्यथतेपापकर्मिण ।

क्षुत्क्षामास्नुट्पतज्जिह्वानालवोवेदनानुरा ॥७३॥

दिवामंथुनिन पापा परदारभुज्जञ्चये ।

तथैवकण्टकैस्तीक्ष्णैरायसे पश्यन्नाल्मलिम् ॥७५॥

आरोपिताविभिन्नागा प्रभूतामृक्मन्त्रवाविला ।

मूपायामपिपश्यैतान्धमायामानान्यमानुगै ॥७६॥

पुरुषै पुरुषव्याघ्रपरदारवमर्शिन ।

उपाध्यायमध कृत्वास्तब्धोयोऽध्यायननर ॥७७॥

गृह्णातिशिल्पमथवासोऽप्येव शिरसाशिलाम् ।

बिभ्रत्क्लेशमवाप्नोतिजनमार्गोऽतिपीडित ॥७८॥

जो लोभवश वेतन भोगी अथवा शरणागत का त्याग करते हैं उनको इस प्रकार की यत्र पीडा दी जाती है । जो मनुष्य अपने सब जन्मों के पुण्य

को मूल्य लेकर बेच देते हैं ॥ ७२ ॥ वे इन पापियों के समान ही पाषाण के कोल्लू में पले जाते हैं, जो किसी की धरोहर हड़पते हैं, उनका सम्पूर्ण देह बधन में पड़ता है ॥ ७३ ॥ और उन्हें कृमि, वृश्चिक, काक, उल्लू आदि रात-दिन चौंटेने रहते हैं तथा उनकी जिह्वा और तालु सुधा पिपासा से शुष्क होजाते हैं ॥ ७४ ॥ जिन्होंने दिन में नारी समागम अथवा परस्त्री-गमन किया वह लोहे के तीक्ष्ण काँटों वाले शाल्मलि वृक्ष पर ॥ ७५ ॥ चढाये जाकर अँग भग पूर्वक रक्तपात से व्याकुल हो रहे हैं तथा वे धौकनी में रख कर जलाये जा रहे हैं ॥ ७६ ॥ यह देखो, परस्त्री से समागम करने वालों की दशा ऐसी होती है तथा जो उपाध्याय को नीचा आसन देकर अहंकार पूर्वक अध्ययन ॥ ७७ ॥ करते या शिल्प ग्रहण करते हैं, वह इसी प्रकार सिर पर शिला रख कर बोज से अत्यन्त क्लेश पाते हैं ॥ ७८ ॥

क्षुक्षामोऽर्हनिशभारपीडाव्यथितमस्तक ।

मूत्रश्लेष्मपुरीषाणियैरुत्सृष्टानिवारिणि ॥७८॥

तइमेश्लेष्मविण्मूत्रदुर्गन्धनरकगता ।

परस्परचमासानिभक्षयन्तिक्षुधान्विता ॥८०॥

भुक्त नातिथ्यविधिनापूर्वमेभि परस्परम् ।

अपविद्धास्तुर्यैर्वेदावह्लयश्चाहिताग्निभि ॥८१॥

तइमेशैलश्रु गात्रात्पात्यन्तेऽध पुन पुन ।

पुनर्भूपतयोर्जीर्णायावज्जीवतियेनरा ॥८२॥

इमेकृमित्वमापन्नाभक्षयतेऽत्रपिपीलिकै ।

नीचप्रतिग्रहादानाद्याजनान्नित्यसेवनात् ॥८३॥

पाषाणामध्यकीटत्वनर.सततमश्नुते ।

पश्यतोभृत्यवर्गस्यमिन्नस्याप्यतिथेस्तथा ॥८४॥

एकोमिष्टान्नभुङ्क्तेज्वलदगारसंचयम् ।

वृकैर्भयकरै पृष्ठं तित्यमस्योपभुज्यते ॥८५॥

बोज के कारण मस्तक में वेदना पाते हुए क्षुधा-पिपासा से सदा पीड़ित रहते हैं, जिन्होंने मल, मूत्र या कफ का जल में त्याग किया है ॥ ७९ ॥ वह मल, मूत्र और कफ वाले दुर्गन्धियुक्त नरक को प्राप्त हुए हैं तथा यह

जो क्षुधातुर होकर एक-दूसरे का मांस भक्षण कर रहे हैं ॥ ८० ॥ इन्होंने आतिथ्य सत्कार पूर्वक भोजन नहीं किया था । जिन आहिताग्नि मनुष्यों ने वेद तथा अग्नि का निरादर किया है ॥ ८१ ॥ वह इस पर्वत-शिखर से बारम्बार गिराये जाते हैं, जिन्होंने दुबारा व्याही हुई पत्नी का स्वामित्व प्राप्त कर उसके साथ जीवन व्यतीत किया है ॥ ८२ ॥ वह कृमि रूप होकर चींटियों द्वारा खाये जा रहे हैं, जिसने नीच पुरुष का दान ग्रहण अथवा सेवा या यजन किया है ॥ ८३ ॥ वह पत्थर के भीतर होने वाला कीट होता है, जो अतिथि, बधुओं और भृत्यों का तिरस्कार कर ॥ ८४ ॥ मिष्टान्न का एकाकी भोजन करता है, वह यहाँ प्रज्वलित अगार भक्षण करता है तथा उसकी पीठ के मांस को भयकर भेड़िये नित्य भक्षण करते हैं ॥ ८५ ॥

पृष्ठमांसंनृपैतेनयतोलोकस्यभक्षितम् ।

अधोऽथबधिरोमूकोभ्राम्यतेत्रक्षुधातुरः ॥८६॥

अकृतज्ञोऽधमपुसामुपकारिषुवर्त्तते ।

अयकृतघ्नोमित्राणामपकारीसुदुर्मतिः ॥८७॥

तप्तकुभेनिपतितोविलपन्यातिशोषणम् ।

कम्भवालुकातस्मात्ततोयत्रावपीडनम् ॥८८॥

असिपत्रवनतस्मात्करपत्रेणपाटनम् ।

कालसूत्रेतथाच्छेदमनेकाश्चैवयातनाः ॥८९॥

प्राप्यनिष्कृतिमेतस्मान्नवेदिकथमेष्यति ।

श्राद्धेसगतिनोविप्रासमुपेत्यपरस्परम् ॥९०॥

दुष्टाहिनिनृतफेनसर्वाग्भ्यपिबतिवै ।

सुवर्णस्तेयीविप्रघ्नसुरापोगुरुतल्पग ॥९१॥

अधश्चोर्ध्वचदीप्तग्नौदह्यमानासमतत ॥९२॥

जिन्होंने किसी की पीठ पीछे निन्दा की, वह यहाँ अग्नि, बधि और मूक होकर क्षुधात्त घूमते हैं ॥ ८६ ॥ इस अधम ने उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं की अतः यह दुर्बुद्धि कृतघ्न तथा मित्रों का अपकार करने वाला है ॥ ८७ ॥ इसीलिए तप्तकुम्भ में डाला गया है, यह घोर विलाप करता है, इसके पश्चात् इसे पीसा जायगा, फिर तप्त बालूयन्त्र कीड़ा को भोग कर

॥ ८८ ॥ अग्नित्र नरक मे खड्ग की धार मे मतत होगा, फिर कालसूत्र नरक मे अग-अग का छेदन होगा हम प्रकार अनेक विधि यत्रणा भोग कर ॥ ८९ ॥ किस प्रकार हमसे मुक्त होगा, इसे मैं नही जानता, इन दुष्ट ब्राह्मणो ने परम्पर श्राद्ध-भोजन किया था ॥ ९० ॥ इसलिए उन्हे सर्पो के सर्वांग से निकला हुआ फेन ही खाना पटना है । हमने सुवर्ण की चोरी की है, यह ब्रह्महत्याग है, हमने सद्य पात किया है, हमने गुरु पत्नी का अपहरण किया है ॥ ९१ ॥ हमलिए दह चानो ओर मे प्रज्वलित अग्नि मे दग्ध किये जाते है ॥ ९२ ॥

निःस्येदमहश्चाणिमृत्वहनितत पुन ।

जायन्मान्वा वृ क्षयगेगादिचिह्निता ॥९३॥

मृता पुनश्चनरकपुनर्जनाश्रवात्पणम् ।

व्याधि मृच्छति-अत्यातपरिग्राणनगधिष ॥९४॥

गोघ्नै-न्यूनतरयानिनरकेऽथत्रिज-मनि ।

तश्चोपपातकन्तापसर्वोभामिनिश्रय ॥९५॥

नरकप्रच्युतायान्निथर्याविहितपातकै ।

प्रयानियोनिजातानिनन्मेनिगदत शृणु ॥९६॥

यहाँ राज गे वर्ण रज कर फिर कट, क्षण आदि रोगो से युक्त मनुष्य देह प्राप्त कर ॥ ९३ ॥ प्राण त्याग करके पुन नरक गे जाते है, इसी प्रकार बारम्बार जन्म-मरण को प्राप्त होने हुए कल्प के अन्त तक दुख भोगते है गो हत्या या दमने-इन्हे पाप उपपातक करने से तीन जन्म तक नीचे से भी नीचे नरक भोगते होते है, हमसे सदेह नही है ॥ ९४ ॥ अब वह वर्णन करता है, जिस प्रकार नरक के पटे हुए जीव जिम-जिम योनी मे जाते है ॥ ९६ ॥

### १५—नरकस्थोद्धार वर्णन

पतिनात्प्रति-ह्याथ उरयोनि व्रजेद्विज ।

नरक-प्रतिमुक्तम्-ममि पति-याजक ॥१॥

उपा-य यव लीकन्-इत्त्व-श्व-भवतिद्विज ।

तज्जायामनसावाचातद्द्रव्यवापिकामयेत् ॥२॥

गर्दभोजायतेजन्तु पित्रोश्चाप्यवमानक ।  
 मातापितरावाक्रुष्यसारिकामम्प्रजायत ॥३॥  
 भ्रातृ पत्न्यवमन्ताचकपोतत्वप्रपद्यते ।  
 तावेवपीडयित्वातुकच्छपत्वप्रपद्यते ॥४॥  
 भर्तृ पिण्डमुपाशनन्यस्तदिष्ट ननिपेवते ।  
 सोऽपिमोहसमापन्नोजायतेवानरोमुत् ॥५॥  
 न्यासापहृत्तिनरकाड्ढिमुक्तोजायतेकृमि ।  
 अमूयकञ्चनरकान्मुक्तोभवतिराक्षस ॥६॥

यमद्वन ने कहा—पतिन मनुष्य मे धन लेने वाता ब्राह्मण गधे की योनि को प्राप्त होता है तथा पतिन पुरुष को यज्ञ कराने पर नरक से मुक्त होकर कृमि-योनि पाना है ॥ १ ॥ उपाध्याय के प्रति छल करने, उसकी स्त्री या अन्य वस्तु को इच्छा करने से पतन—योनि मिलती है ॥ २ ॥ माता-पिता का अपमान करनेवाला गधा और उन्हे गाली देने वाला मैना होता है ॥ ३॥ भाई की पत्नी का अपमान करने वाला कबूतर होता है, उसे पीडित करने से कण्डुआ बनता है ॥ ४ ॥ स्वामी का पिण्ड भोजन करके जो उसका अभिलषित नहीं करता वह मोह मे भर कर मरणान्तर बन्दर बनता है ॥ ५ ॥ किमी की धरोहर हडपने वाला नरक मे मुक्त होने पर कृमि होता है, असूया करने वाला नरकान्त मे राक्षस होता है ॥ ६ ॥

विश्र्वासहन्ताचनरोमीनयोनीप्रजायते ।  
 धान्ययवास्तिनान्मापान्कुलत्यान्मर्षपाश्चरान् ॥७॥  
 कलायन्कलमान्मुद्गान्गोश्वमाननसीस्तथा ।  
 सस्यान्यन्यानिवाहृत्वाऽमोहाज्जनुरचेतन ॥८॥  
 सञ्जायतेमहावक्त्रोमूषिकोवभ्रुसन्निभ ।  
 परदाराभिमर्शान्तुवृकोधोरोऽभिजायते ॥९॥  
 श्वासृगालोवकोगृध्रोव्यालकङ्कस्तथाक्रमात् ।  
 भ्रातृभार्या चदुर्बुद्धिर्योऽर्षयतिपापकृत् ॥१०॥  
 पुस्कोकिलत्वमाप्नोतिस्त्रिचापिनरकाच्च्युत ।  
 सखिभार्यागुरोर्भार्याराजभार्याचपापकृत् ॥११॥

प्रधर्षयित्वाकामात्मासूकरोजायतेनर ।  
 यज्ञदानविवाहानाविघ्नकर्त्ताभवेत्कृमि ॥१२॥  
 पुनर्दातातुकन्याया कृमिरेवोपजायते ।  
 देवतापितृविप्राणामदत्वायोऽन्नमश्नुते ॥१३॥

विश्वासघाती को मछली की योनी मिलती है तथा जो धान्य, जौ, तिल, उडद, कुलथी, सरसो, चना ॥ ७ ॥ कैंथा, मूज, मूगा, गेहूँ या तीसी आदि हरण करता है वह मोह से मदमत्त होता है ॥ ८ ॥ तथा नौले जैसे दीर्घ मुख वाला मूसा होता है, परनारी से समागम करने वाला भयकर भेडिया बन जाता है ॥ ९ ॥ फिर\* कृमि श्वान, गीदड, बगुला, गृध्र, सर्प या काक बनता है तथा जो भाई की पत्नी से समागम करता है ॥ १० ॥ वह नरक के दुःख भोग कर कोयल होता है, जो मित्र की पत्नी या राजा की पत्नी ॥ ११ ॥ से समागम करते हैं, वे शूकर होते हैं, यज्ञ, दान या विवाह कार्य में विघ्न उपस्थित करने वाले कृमि होते हैं ॥ १२ ॥ एक बार दान की हुई कन्या किसी दूसरे को देने वाले मनुष्य भी कृमि योनि पाते हैं तथा जो देवता, पितर, ब्राह्मण को जिमाये बिना स्वयं भोजन करता है वह नरक यातना भोगने के पश्चात् काक होता है ॥ १३ ॥

प्रमुक्तोनरकात्सोऽपिवायस सम्प्रजायते ।  
 ज्येष्ठ पितृसमवापिभ्रातरयोवमन्यते ॥१४॥  
 नरकात्सोपिविभ्रष्टःक्रौंचयोनीप्रजायते ।  
 शूद्रश्चब्राह्मणीगत्वाकृमियोनीप्रजायते ॥१५॥  
 तस्यामपत्यमुत्पाद्यकाष्ठान्त कीटकोभवेत् ।  
 सूकर कृमिकोमद्गुश्चण्डालश्चप्रजायते ॥१६॥  
 अकृतज्ञोऽधम पु साविमुक्तोनरकान्नर ।  
 कृतघ्न कृमिक कीट पतङ्गोवृश्चिकस्तथा ॥१७॥  
 मत्स्यस्तुवायस कर्म पुल्कसोजायतेतत ।  
 अशस्त्र पुरुषहृत्वानर संजायतेखर ।  
 कृमि स्त्रीवधकर्त्ताचिबालहताचजायते ॥१८॥  
 भोजनचोरयित्वातुमक्षिकाजायतेनरः ।

तत्राप्यस्तिविशेषोवैभोजनस्यशृणुष्वतत् ॥१८॥

हृत्वादुग्धतुमार्जारो जायतेनरकाच्च्युत ।

तिलपिण्याकसमिश्रमन्न हृत्वातुमूपक ॥२०॥

घृतहृत्वातुनकुल काकोमद्गुरजामिषम् ।

मत्स्यमासापहृत्काक श्येनोमेषामिषापहृत् ॥२१॥

तथा ज्येष्ठ भ्राता का अपमान करने वाला नरक के पश्चात् क्रीक पक्षी होता है, ब्राह्मण में गमन करने वाला शूद्र कृमि योनि में जन्म लेता है ॥ १४-१५ ॥ ब्राह्मण के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने पर काठ के भीतर का क्रीडा, शूकर, कृमि, मल, कृमि अथवा चाण्डाल होता है ॥ १६ ॥ जो मनुष्यो में अधम तथा कृतज्ञता रहित है, वह नरक से मुक्त होकर कृमि, कीट, पतंग, या । विच्छू ॥ १७ ॥ मत्स्य, कौआ, कूर्म अथवा डोम योनि में उत्पन्न होता है, किमी नि शस्त्र की हत्या करने पर गद्रे की योनि मिलती है, स्त्री या बालक, की हत्या करने वाला कृमि होता है ॥ १८ ॥ भोजन चुराने वाला मक्षिका, अब भोजन के विषय में जो विशेष है, उसे सुनो ॥ १९ ॥ अन्न चुराने से नरक भोगने के पश्चात् बिल्ली होता है, तिल दाना मुक्त अन्न हरण करने वाला मूषक होता है ॥ २० ॥ घृत हरण करने वाला नौला, छाग के मांस चुराने वाला काक तथा मृग का मांस चुराने वाला गिद्ध होता है ॥ २१ ॥

चिरीवाकस्त्वपहृतेलवणेदघ्निकाकृमि ।

चोरयित्वापयश्चापिवलाकासप्रजायते ॥२२॥

यस्तुचोरयतेतैलतैलपायीसजायते ।

मधुहृत्वानरोदशोऽपूपहृत्वापिपीलिका ॥२३॥

चोरयित्वाहविष्यान्नं जायतेगृहगोधिका ।

आसवचोरयित्वातुतिरित्त्वामवाप्नुयात् ॥२४॥

अयोहृत्वातुपापात्मावायस सप्रजायते ।

पात्रेकास्येपिहारीत कपोतोरौप्यभाजने ॥२५॥

हृत्वातुकाचनभाडकृमियोनौप्रजायते ।

कौशेयचोरयित्वातुचक्रवाकत्वमृच्छति ॥२६॥

कोशकारश्चकौशेयेहृतेवस्त्रं भिजायते ।

दुकूलेशाङ्गक पापोहतेचैवांशुकेशुक ॥२७॥

ऋक्षश्चैवाविकहत्वावस्त्रक्षौमचजायते ।

कार्पासिकेहतेक्रौंचोवह्नेर्हर्तविक खर ॥२८॥

नमक चुराने वाला जलकाक, दही चुराने वाला कृमि और दूध चुराने वाला बगुला होता है ॥ २२ ॥ तेल चुराने वाला तेली, मधु चुराने वाला डॉम और पूडे चुराने वाला चीटी होता है ॥ २३ ॥ हविष्यान्न की चोरी करने वाला गोध और आसव चुराने वाला तीतर होता है ॥ २४ ॥ लोहा चुराने वाला काक, पात्र चुराने वाला हारीत तथा चादी का पात्र-चोर कबूतर बनता है ॥ २५ ॥ स्वर्ण पात्र का चोर कृमि बनता है, रेशम चुराने वाले को चकवे की योनि ग्रहण करनी होती है ॥ २६ ॥ कौशेय वस्त्र चुराने से कोशकार होता है, दुपट्टा चुराने वाला मोर तथा अकुश चुराने वाला तोता होता है ॥२७॥ ऊनी और अलसी के वस्त्र चुराने वाला रीछ,कपास चुराने वाला क्रौंच तथा अग्नि चुराने वाला बगुला या गधा होता है ॥ २८ ॥

मयूरोवर्णकान्हत्वापत्रशाकचजायते ।

जीवञ्जीवकतायातिरक्तवस्त्रापहन्नर ॥२९॥

छुच्छुदरीशुभान्गधान्वासोहत्वाशशोभवेत् ।

खजपलालहरणेकाष्ठहृद्घुणकीटक ॥३०॥

पुष्पापहृद्द्विरिद्रस्तुपगुर्यानापहन्नरः ।

शाकहत्तचिहारीतस्तोयहत्तचिचातक ॥३१॥

भूमिहन्नरकान्गत्वारौरवादीन्मुदारुणान् ।

तृणगुल्मलतावल्लीत्वक्सारतरुतांक्रमात् ॥३२॥

प्राप्यक्षीणाल्पपापस्तुनरोभवतिवैतत ।

वृषस्यवृषणौच्छित्त्वाषंडत्वप्राप्नुयान्नर ॥३३॥

परिहृत्यतथाभूयोजन्मनामेकविशति ।

कृमिकीटपतगोवापक्षीतोयचरोमृग ॥३४॥

गोत्वचप्राप्यचाडालपुल्कसादिजुगुप्सितम् ।

पग्वधोबधिरकुष्ठीयक्ष्मणाचप्रपीडित ॥३५॥

मुखरोगाक्षिरोगैश्चगुदरोगैश्चबाध्यते ।



अपस्मारीचभवतिशूद्रत्वचसंगच्छति ॥३६॥

मनुष्य वर्णक या शाक पत्र चुराता है, और लाल वस्त्र खुराने वाला चकवा चकवी होता है ॥ २६ ॥ श्रेष्ठ गध द्रव्य का चोर छत्रुन्दर होता है, वस्त्र चोर खरगोश होता है, पराल चोर गजा और काष्ठ चोर घुन होता है ॥ ३० ॥ पुष्प चोर दरिद्री यान चोर लँगडा, शाक चोर हारीत पक्षी और जल का चौर चातक होता है ॥ ३१ भूमि हरण करने वाला रौरव आदि घोर गरको मे भ्रमता हुआ तृण, गुल्म, लता, गल्ली तथा वृक्ष रूप मे उत्पन्न होता है ॥३२॥ इस प्रकार क्रम पूर्वक पापो के क्षीण होने पर मनुष्यो की योनी प्राप्ति हो पाती है, बैल को वधिया करने वाले को जन्मान्तर मे नपू शक होना होता है ॥ ३३ ॥ फिर इक्कीम जन्म तक कृमि, कीट, पतंग जलचर, पक्षी, मृग ॥ ३५ ॥ और गाय की योनि प्राप्त करता है, फिर चाण्डाल या डोम आदि होकर लँगडा, अन्धा, वधिर, कुष्ठी तथा क्षयी होता है ॥ ३४ ॥ तथा मुख रोग, नेत्र रोग और गुह्य रोग से सतप्त होकर मृगी रोग से आक्रान्त होता हुआ शूद्र बनता है ॥ ३६ ॥

एषएवक्रमोदृष्टोगोसुवर्णादिहारिणाम् ।

विद्यापहारिणाचैवनिष्क्रियञ्च शिनागुरो ॥३७॥

जायामन्यस्यपारक्यापुरुष प्रतिपादयेत् ।

प्राप्नोतिषढतामूढोयातनाभ्य परिच्युत ॥३८॥

य करोतिनरोहोमसमिद्धे हुताशने ।

सोजीर्णघनदु.खार्तोमदाग्निरभिजायते ॥३९॥

परनिदाकृतघ्नत्वपरमर्षोपघट्टनम् ।

नैष्ठर्यनिर्घृ णत्वचपरदारोपसेवनम् ॥४०॥

परस्वहरणाशौचदेवतानाचकुत्सनम् ।

निकृत्यावचनानृ णाकार्पण्यचनृणावध ॥४१॥

यानिचप्रतिषिद्धानितद्वृत्तिचप्रशसताम् ।

उपलक्षणानिजानीयान्मुक्तानानरकादनु ॥४२॥

जिसने सुवर्ण आदि वस्तु चुरायी है, उसकी भी यही दशा होती है जो विद्या का हरण करता है या गुरु के धन का अपहरण करता है ॥ ३७ ॥ उसे

भी ऐसे ही उग्र दुःखो को भोगना पडता है तथा जो दूसरे की पत्नी लेकर किसी और को दे देता है, वह अनेक प्रकार के दुःख भोगता हुआ नपु सक हो जाता है ॥ ३८ ॥ समाधि के बिना अग्नि में होम करने वाले को अजीर्ण और मदाग्नि सताती है ॥ ३९ ॥ परनिन्दा, कृतघ्नता, निष्ठुरता, परमर्म छेदन, परनारि का सेवन तथा लज्जाहीनता ॥ ४० ॥ परधन हरण, देवनिन्दा, अपवित्रता, कृपणता, ठगी, हिंसा ॥ ४१ ॥ तथा अन्यान्य निषिद्ध कर्मों का करना और उन-उन विषयों में प्रवृत्त होना, ऐसे मनुष्य के विषय में समझलो कि नरक की यातनाएँ भोगकर ही उमने जन्म लिया है ॥ ४२ ॥

दयाभूतेषुसद्वाद परलोकप्रतिक्रिया ।

सत्याभूतहिताचोक्तिर्वेदप्रामाण्यदर्शनम् ॥४३॥

गुरुदेवपिसिद्धिपिपूजनसाधुसगम ।

सत्क्रियाभ्यसनमैत्रीचैतद्बुध्येतपण्डित ॥४४॥

अन्यानिचैवसद्धर्मक्रियाभूतानियानिच ।

स्वर्गच्युतानालिगानिपुरुषाणामपापिनाम् ॥४५॥

एतदुद्देशतोरान्भवत कथितमया ।

स्वकर्मफलभोक्तृणापुण्यानांपापिनातथा ॥४६॥

तदेहान्यत्रगच्छामोदृष्ट सर्वत्वयाधुना ।

त्वयाचदृष्टोनरकस्तदेहान्यत्रगम्यताम् ॥४७॥

ततस्तमग्रत कृत्वासराजागतुमुद्यत ।

ततश्चसर्वैरुत्कृष्टयातनास्थायिभिर्नृभि ॥४८॥

प्रसादकुरुभूपेतिष्ठतावन्मुहूर्त्तकम् ।

त्वदगसगीपवनोमनोल्लादयतेहिन ॥४९॥

परितापचगात्रेषुपीडाबाधाचकृत्स्नश ।

अपहतिनरव्याघ्रकृपाकुरुमहीपते ॥५०॥

सब जीवों के प्रति दया, परलोकार्थ शुभ कर्म, दूसरों के हित के लिए भाषण, वेद के लिए भाषण, वेद के दृष्टान्त का देखना ॥ ४३ ॥ गुरु, देवता सिद्ध ऋषियों का पूजन, साधुओं का सग, सत्कर्म का अभ्यास, सब के प्रति मित्रता ॥ ४४ ॥ तथा अन्यान्य सत्कर्म जिसमें हो, उसे समझे कि स्वर्ग का

का सुख भोग करने के पश्चात् उसने जन्म थारण किया है ॥ ३५ ॥ अपने कर्म फल को भोगने वाले पुण्यात्माओ और पापियो के सम्पूर्ण विषय कौ मैंने आपके प्रति कह दिया है ॥ ४६ ॥ आपको भी नरक देखना पडा है, अब आप अन्यत्र चलिये ॥ ४७ ॥ पुत्र बोला—जैसे ही वह महाराज यमदूत को आगे करके चलने को हुए वैमे ही नरक मे पडे सब जीव ऊँचे स्वर से क्रन्दन करने हुए बोले ॥ ४८ ॥ हे राजन् ! प्रसन्न हूजिये, एक मुहुर्त भर यहाँ ठहरिये, आपके ससर्ग वाली वायु मे हमारा चित्त अत्यन्त आह्लाद पूर्ण होरहा है ॥ ४९ ॥ इस वायु ने हमारे अङ्ग-अङ्ग का परिताप हर दिया है, अत हे पृथिवीपते ! हमारे ऊपर दया कीजिये ॥ ५० ॥

एतच्छ्रुत्वावचस्तेपातयाम्यपुरुषतत ।

पप्रच्छकथमेतेपामाह्लादोमयितिष्ठति ॥५१॥

किमयाकर्मतत्पुण्यमर्त्यलोकेमहत्कृतम् ।

आह्लाददायिनीव्युष्टिर्यस्येतदुदीरय ॥५२॥

पितृदेवातिथिप्रेष्यशिष्टे नान्न नतेतनु ।

पुष्टिमभ्यागतायस्मात्तद्गतचमनोयत ॥५३॥

ततस्त्वद्गात्रससर्गीपवनोह्लाददायक ।

पापकर्मकृतोराजन्यातनानप्रवाधते ॥५४॥

अश्वमेधादयोयज्ञास्त्वयेष्टाविधिवद्यत ।

ततस्त्वद्दर्शनाद्याम्यायत्रशस्त्राग्निवायसा ॥५५॥

पीडनच्छेददाहादिमहादु खस्यहेतव ।

मृदुत्वमागताराजस्तेजसोपहतास्तव ॥५६॥

उनके यह बचन सुन कर राजा ने यमदूत से पूछा—मेरे यहाँ खडे होने से यह इतने सुखी क्यों हो रहे हे ? ॥ ५१ ॥ मर्त्यलोक मे ऐसा कौन सा पुण्य मैंने किया है, जिससे मेरे कारण इन पर ऐसा आनन्द देने वाली वृष्टि हों रही है ? ॥ ५२ ॥ यमदूत ने कहा—हे राजन् ! पहिले आपने देवता,पितर, अतिथि, सयासी आदि को भोजन देकर उससे वचा हुआ अन्न खाकर अपनी उदर पूर्ति की थी,और आपका चित्त इसीमे रत था अत हर समय आपके देह के ससर्ग वाली वायु से इन पापियो की सब यातनाएँ मिट रही है ॥५४॥ आपने

अश्वमेध आदि यज्ञ विधिवत् किये है, इसलिए सम्पूर्ण महादुखो के कारण रूप यम के यत्र, अग्नि, शास्त्र, काक तथा अन्य पक्षियो ने आपके दर्शन से हत होकर कोमलता मे प्रवृत्ति की है ॥ ५५-५६ ॥

नस्वर्गो ब्रह्मलोके वा तत्सुखं प्राप्य ते नरैः ।

यदात्तं जतुनिर्वाणदानोत्थमिति मे मति ॥ ५७ ॥

यदि मत्सन्निधावेतान्यातनानप्रबाधते ।

ततो भद्रमुखाऽत्राहस्थास्येस्थाणुरिवाचल ॥ ५८ ॥

एहिराजेन्द्रगच्छामिनिजपुण्यसमार्जितान् ।

भुंक्ष्वभोगास्तु भुज्यतु यातनापापकर्मिण ॥ ५९ ॥

तस्मान्नतावद्यास्यामियावदेते सुदुःखिता ।

मत्सन्निधानात्सुखिनो भवति नरकौकस ॥ ६० ॥

धित्तस्य जीवितं पुंसः शरणाथिनमागतम् ।

यो नात्तं मनुगृह्णाति वैरिपक्षमपि ध्रुवम् ॥ ६१ ॥

यज्ञदानतपासीहपरत्रचनभूतये ।

भवति तस्य यस्यात्तं परित्राणेन मानसम् ॥ ६२ ॥

नरस्य यस्य कठिनमनो बालातुरादिषु ।

वृद्धेषु च न तमन्ये मानुषराक्षसो हिंस ॥ ६३ ॥

राजा बोले—मेरा विचार है कि जो सुख दुखियो की रक्षा मे मिलता है, वह स्वर्ग या ब्रह्मलोक मे भी नही मिलता ॥ ५७ ॥ यदि मेरे यहाँ खडे रहने मात्र से इनकी यत्रणा नष्ट होरही है तो मै अचल होकर यही निवास करूँगा ॥ ५८ ॥ यमदूत ने कहा—राजन् ! आप चलिए, अपने पुण्य से सचित सब शुभ फलो को भोगिये, यह स्थान तो पापात्माओ के के दुख भोगने के लिए ही है ॥ ५९ ॥ राजा बोले—जब तक यह घोर दुख पायेगे, तब तक मै नही जाऊँगा, क्योकि मेरे यहाँ रहने से इन सब को सुख मिलता है ॥ ६० ॥ यदि शत्रु भी दुख से आतुर होकर शरण मे आवे तो जो उस पर कृपा न करे उसे धिक्कार है ॥ ६१ ॥ जिसका चित्त आर्त पुरुष की रक्षा मे नही है, उसके यज्ञ, दान, तप सब कुछ लोक-परलोक मे सुख नही पहुँचा सकते ॥ ६२ ॥ बाल, वृद्ध, आतुर आदि के प्रति कठोर चित्त वाले मनुष्य तो राक्षस

ही है । ऐसा समझो ॥६३॥

एषामत्सन्निकर्षात्तु यद्यग्निपरितापजम् ।  
 तथोग्रगधजवापिदु खनरकसभवम् ॥६४॥  
 क्षुत्पिपासोद्भवदु खयच्चमूर्छाप्रदमहत् ।  
 विनाशमेतितद्भ्रमन्येस्वर्गसुखात्परम् ॥६५॥  
 प्राप्स्यतेतेयदिसुखबहवोदु खितेमयि ।  
 किवाप्राप्तमयानस्यात्तस्मात्त्ववदमाचिरम् ॥६६॥  
 एषधर्मश्चशक्रश्चत्वानेतु समुपागतौ ।  
 अवश्यमस्माद्गन्तव्यंतस्मात्पार्थिवगम्यताम् ॥६७॥  
 नयामित्वामहस्वर्गत्वयासम्यगुपासित ।  
 विमानमेतदारुह्यमाविलवस्वगम्यताम् ॥६८॥  
 नरकेमानवाधर्मपीड्यमाना सहस्रश ।  
 त्राहीत्यमीचक्रदतिमामतो न ब्रजाम्यहम् ॥६९॥  
 कर्मणानरकप्राप्तिरेषापापिष्ठकर्मणाम् ।  
 स्वर्गस्त्वयापिगतव्योनृपपुण्येनकर्मणा ॥७०॥

यद्यपि इनके पास रह कर मुझे नरकाग्नि के भीषण ताप से उत्पन्न तीव्र गध का दुःख झेलना पड़ेगा ॥ ३४ ॥ क्षुधा-पिपासा से उत्पन्न मूर्च्छादायक दुःख भोगना होगा, फिर भी इनकी रक्षा के विचार से मैं उस महादुःख को भी स्वर्ग सुख से बढ़ कर समझूँगा ॥ ६५ ॥ यदि मेरे दुःख पाने मात्र से दुःखी प्राणियों को सुख मिलेगा ? इसलिए हे यमदूत ! तुम यहाँ से चले जाओ, देर मत करो ॥ ६६ ॥ यमदूतो ने कहा—राजन् ! यह इन्द्र ओर धर्म आपको स्वर्ग में लेजाने के निमित्त उपस्थित हुए हैं, आपको यहाँ से अवश्य जाना होगा, इस लिए यहाँ से चलिये ॥ ६७ ॥ धर्म ने कहा—राजन् ! आपने भले प्रकारसे मेरी उमासना की है, इसलिए मैं आपको स्वर्ग में ले जाऊँगा, अब आप देर न करे, इस विमान में शीघ्र ही बैठे ॥ ६८ ॥ राजा ने कहा—हे धर्म ! हजारों मनुष्य इस नरक में पड़े हुए आर्तनाद कर रहे हैं, इसलिए मैं इस स्थान को छोड़ कर नहीं जा सकता ॥ ६९ ॥ इन्द्र बोले—इन पापियों को स्वर्कर्म फल से यह नरक-यातनाएँ भोगनी पड़ रही हैं, आपको अपने पुण्य फल से स्वर्ग

मे जाना चाहिए ॥ ७० ॥

यदिजानासिधर्मत्वत्वादेवशतक्रतो ।  
 ममयावत्प्रमाणतुशुभतद्वक्तुमर्हथ ॥७१॥  
 अब्बिन्दवोयथाभोधौयथावादिवितारका ।  
 यथावावर्षतोधारागगायासिकतायथा ॥७२॥  
 असख्येयामहाराजन्नानायोनिषुजतव ।  
 तथातवापिपुण्यस्यसख्यानैवोपपद्यते ॥७३॥  
 अनुकपामिमामद्यनारकेष्विहकुर्वता ।  
 तदेवशतसाहस्रसख्यानीतत्वयानृप ॥७४॥  
 तद्गच्छत्वनृपश्रेष्ठतद्भोक्तुममरालयम् ।  
 एतेतुनरकेपापक्षयतुस्वकर्मजम् ॥७५॥  
 कथस्पृहाकरिष्यतिमत्सपकारियमानवा ।  
 यदिमत्सनिधावेषामुत्कर्षो नोपपद्यते ॥७६॥  
 तस्माद्यत्मुकृतकिचिन्ममास्तित्रिदशाधिप ।  
 मुच्यतातेननरकात्पापिनोयातनागता ॥७७॥

राजा ने कहा—हे धर्म ! हे देवेन्द्र ! मेरा सचित पुण्य कितना है, यदि आपको ज्ञात हो तो मुझे बताइये ॥ ७१ ॥ धर्म बोले—राजन् ! समुद्र मे जितने जल-बिन्दु है, आकाश मे जितने तारे है, वर्षा मे जितनी जल-धारे है, तथा गगा मे जितनी बालू है, आपका उतना ही पुण्य है ॥ ७२ ॥ जिस प्रकार जल बिन्दु की गणना नहीं की जासकती उसी प्रकार आपका पुण्य भी सख्यातीत है ॥७३॥ तथा अब इन नरक वासियों के प्रति दया प्रकट करने से आपका पुण्य भी शतक सहस्र गुणा अधिक होगया है ॥ ७४ ॥ इसलिए आप अपने पुण्य का फल भोगने को वहाँ चले और यह पापी भी नरक मे रह कर अपने पापो को नष्ट करे ॥ ७५ ॥ राजा बोले—यदि मेरी निकटता से इन्हे कुछ सुख न हुआ होता तो यह मेरे साथ की अभिलाषा ही क्यों करते ? ॥ ७६ ॥ इसलिए मेरा जो कुच पुण्य है, उसी के द्वारा यह नरक-यातना को प्राप्त करने वाले पापी नरक से मुक्त हो ॥ ७७ ॥

एवमूर्ध्वतरस्थानत्वयाप्राप्तमहीपते ।

एतास्तुनरकात्पश्यविमुक्तान्पापकर्मिण ॥७८॥  
 ततोपतत्पुष्पवृष्टिस्तस्योपरिमहीपते ।  
 विमानच्चाधिरोप्यैनस्वर्लोकमनयद्धरि ॥७९॥  
 अहचान्येचयेतत्त्रयातनाभ्य परिच्युता ।  
 स्वकर्मफलनिर्दिष्ट ततोयोन्यतरगताः ॥८०॥  
 एवमेतेसमाख्यातानरकाद्विजसत्तम ।  
 येनयेनचपापेनयायायोनिमुपैतिवै ॥८१॥  
 तत्तत्सर्वसमख्यातयथादृष्ट मयापुरा ।  
 पुरानुभवजज्ञानमवाप्यकथिततव ।  
 अत परमहाभागकिमन्यत्कथयामिते ॥८२॥

इन्द्र बोले-हे राजन् ! इससे आपको और भी उच्च स्थान प्राप्त हुआ, यह देखिये सब पापी नरक से मुक्त होगए ॥ ७८ ॥ पुत्र बोला-फिर उन राजा के ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगी और मुरपति उन्हें विमान में चढा कर स्वर्गलोक को लेगये ॥ ७९ ॥ इधर मैंने भी अन्य नरकीयो सहित यन्त्रणा से मुक्त होकर स्वस्वकर्म के अनुसार विभिन्न योनियो में जन्म धारण किया ॥ ८० ॥ हे द्विजोत्तम ! इन नरको की सब बात आपके प्रति यथार्थ रूप में कहदी और यह भी बता दिया कि किस योनि में जाना होता है ॥ ८१ ॥ जो कुछ पूर्वकाल में मैंने देखा वह सब आप से कह दिया इस सब का मैंने स्वय अनुभव किया है, इसलिए यह नितान्त सत्य है, अब और क्या कहूँ, यह मुझे आज्ञा दीजिये ॥ ८२ ॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्र सवादे पञ्चदशोऽध्याय ॥ १५ ॥

### १६—दत्तात्रेय माहात्म्य वर्णन

कथितमेत्वयावत्ससारस्यव्यवस्थितम् ।  
 स्वरूपमपिदेहस्यघटीयत्नवदव्ययम् ॥१॥  
 तदेवमेतर्दखिलममावगतमीदृशम् ।  
 किमयावदकर्त्तव्यमेवमस्मिन्व्यवस्थिते ॥२॥  
 यदिमद्वचनंतातश्रद्धास्यविशकित ।

तत्परित्यज्यगार्हस्थ्यवानप्रस्थमनाभव ॥३॥  
 तमनुष्ठायविधिवद्विहायाग्निपरिग्रहम् ।  
 आत्मन्यात्मानमाधायनिर्द्ध्वोनिष्परिग्रह ॥४॥  
 एकातशीलोवश्यात्माभवभिक्षुरतद्वित ।  
 तत्रयोगपरोभूत्वाबाह्यस्पर्शविर्वजित ॥५॥  
 तत प्राप्स्यसितयोगदु खसयोगभेषजम् ।  
 मुक्तिहेतुमनौपम्यमनाख्येयमसञ्जितम् ॥६॥  
 तत्सयोगान्नतेयोगोभूयोभूतैर्भविष्यति ।  
 वत्सयोगसमाचक्ष्वमुक्तिहेतुमत परम् ॥७॥  
 येनभूतै पुनर्भूतोनेदृग्दु खमवाप्नुयाम् ।  
 यत्रासक्तिपरस्यात्मा ममससारबधनै ॥८॥

पिता बोले—हे वत्स ! तुमने घटी यत्र के समान निरतर चलते हुए ससार चक्र का अतिशय स्वरूप तुमने मुझे बताया ॥ १ ॥ अब मुझे ज्ञान होगया कि सब ऐसा ही है, अब मुझे क्या करना उचित है ? ॥ २ ॥ पुत्र ने कहा— यदि आप शका रहित मन से मेरी बात माने तो गृहस्थाश्रम का त्याग कर वानप्रस्थ हो जाइये ॥ ३ ॥ विधान के अनुसार अग्नि परिग्रह त्याग, आत्मा मे आत्मा का सयोग स्थापित करके द्रन्ध रहित और परिग्रह-रहित हो जाइये ॥ ४ ॥ एकान्त मे रह कर आत्मा को वश मे कर आलस्य त्याग करिये, इस प्रकार जब बाह्य स्पर्श से परे होंगे ॥ ५ ॥ तब आप मोक्ष-कारण, निरुपम वचनातीत, नि सग, दु ख के लिए औषधि स्वरूप इस योग को प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥ इस योग के सयोग से पचभूत के साथ आपकी पुनः सगति नही होगी, पिता बोले—अब तुम मोक्ष के कारण रूप उस योग का वर्णन करो ॥ ७ ॥ जिसके अवलम्बन से भौतिक सयोग युक्त पुनर्जन्म का दु ख मुझे फिर कभी न भोगना पड़े, यद्यपि आत्मा निर्लिप्त है फिर भी ससार के विषयो मे इसकी आसक्ति है ॥ ८ ॥

नेतियोगमयोगोपितयोगमधुनावद ।

ससरादित्यतापार्त्तिविप्लुष्यद्देहिमानसम् ॥९॥

ब्रह्मज्ञानाबुशीतेनसिचमावाक्यवारिणा ।



अविद्याकृच्छ्रसर्पेणदष्ट तद्विषपीडितम् ॥१०॥

स्ववाक्यामृतदानेनमाजीवयपुनर्मृतम् ।

पुत्रदारगृहक्षेत्रममत्वनिगडादितम् ॥११॥

मामोचयेष्टसद्भावविज्ञानोद्धाटनैश्चिरम् ।

शृणुतातयथायोगोदत्तात्रेयेणधीमता ॥१२॥

अलर्कायपुराप्रोक्त सम्यक्पृष्टेनविस्तरात् ।

दत्तात्रेयस्सुत.कस्यकथवायोगमुक्तवान् ॥१३॥

कश्चालर्कोमहाभागोयोयोगपरिपृष्टवान् ।

कौशिकोब्राह्मण कश्चित्प्रतिष्ठानेभवत्पुरे ॥१४॥

सोन्यजनकृतै पापै कुष्ठरोगानुरोभवत् ।

ततथाव्याधितभार्यापतिदेवमिवार्चयत् ॥१५॥

इसलिए विषयो को पाकर आत्मा उन विषयो मे न लगे, हे वत्म !

मेरा मन और शरीर भव रूप भास्कर के ताप से तप्त है ॥ ९ ॥ तुम ब्रह्मज्ञान मय वचन रूप जल से उम ताप को ठंडा दरो, मुझे अविद्या रूपी कालसर्प ने दक्षित किया है, उसकी पीडा मे मै मृतक के तुल्य हो रहा हूँ ॥ १० ॥ तुम अपने वचनामृत से मुझे पुनर्जीवित करो, मै पुत्र, भार्या, घर खेत आदि की ममता रूप वेडियो मे जकडा हुआ हूँ ॥ ११ ॥ तुम सद्भाव ज्ञान के द्वारा मुझे उससे मुक्त करो । पुत्र ने कहा—पुरा काल मे अलर्क द्वारा प्रश्न करने पर दत्तात्रेय जी ने जो योग उसे विस्तार सहित बताया था, उसे कहता हूँ, । पिता बोले—दत्तात्रेयजी किसके पुत्र थे, और उन्होने योग का वर्णन किस प्रकार किया था ॥ १२-१३ ॥ तथा योग का प्रश्न करने वाले अलर्क कौने थे ? पुत्र ने कहा—प्रतिष्ठान नगर मे एक कुशिक वशी ब्राह्मण रहता था ॥ १४ ॥ वह पूर्वजन्म के पाप से कुष्ठी होगया, अति कुष्ठ से आक्रान्त होने पर भी उसकी पत्नी देवता के समान उसका पूजन करती थी ॥ १५ ॥

पादाभ्यगागसवाहस्तानाच्छादनभोजनै ॥

श्लेष्ममूत्रपुरीषामृक्प्रवाहक्षालनेनच ॥१६॥

रहस्येवोपचारेणप्रियसमाषणेनच ।

सततपूज्यमानोपितयातीवविनीतया ॥१७॥

अतितीव्रप्रकोपत्वाग्निर्भत्सयतिदारुण ।  
 तथापिप्रणतासाध्वीतममन्यतदैवतम् ॥१८॥  
 ततथाप्यतिवीभत्ससर्वश्रेष्ठममन्यत ।  
 अचक्रमणशीलोपिसकदाचिद्विजोत्तम ॥१९॥  
 प्राहभार्यानयस्वेतित्वमातस्यानिवेशनम् ।  
 यासावेश्यामयादृष्टाराजमार्गेगृहेसता ॥२०॥

वह तेल मलती, चरण दावती, आच्छादन करती, भोजन कराती और ओर मल, मूत्र, कफ, रक्त आदि को धोती थी ॥ १६ ॥ तथा निर्जन मे प्रिय भापण और विनीत भाव के सहित उसका आदर सहित उसका पूजन करती थी ॥ १७ ॥ परन्तु वह ब्राह्मण अत्यन्त क्रोधी था, विनीत भाव वाली पत्नी से पूजित होकर भी झिडकी देता रहता था, फिर भी वह देवता मानती थी ॥ १८ ॥ वह उस वीभत्स स्वरूप के ब्राह्मण को सदा सर्वश्रेष्ठ मानती थी । एक समय उस ब्राह्मण मे चलने तक की शक्ति न थी तो भी ॥ १९ ॥ उस अपनी पत्नी से कहा—वह वेश्या राजमार्ग के पार्श्ववर्ती गृह मे रहती है, मैंने उसे देखा है ॥ २० ॥

तामेप्रापयधर्मज्ञैसैवमेहदिवर्त्तते ।  
 दृष्टासूर्योदयेवालारात्रिश्रेयमुपागता ॥२१॥  
 दर्शनानतरसामेहदयान्नपसर्पति ।  
 यदिसाचारुसर्वांगीपीनश्रोणिपयोधरा ॥२२॥  
 नोपगूहृतितन्वगीतन्माद्रक्ष्यतिवैमृतम् ।  
 वाम कामोमनुष्याणाबहुभि प्राप्यचेतस ॥२३॥  
 ममाशक्तिश्चगमनेसकुलप्रतिभातिमे ।  
 तत्तदावचनश्रुत्वाभर्त्तु कामातुरस्यसा ॥२४॥  
 तत्पत्नीव्याकुलाजातामहाभागापतिव्रता ।  
 गाढपरिकरबद्धवाशुक्लमादायचाधिकम् ॥२५॥  
 स्कधेभर्त्तारमारोप्यजगाममृदुगामिनी ।  
 निशिमेषावृतेव्योम्निचलद्विद्युच्चदृश्यते ॥२६॥  
 राजमार्गेप्रियभर्त्तुश्चिकीर्षतीद्विजागना ।

पथिशूलेतदाप्रोतमचोरचोरशकया ॥२७॥

माण्डव्यमतिदु खार्तमधकारेचसद्विज ।

पत्नीस्कधसमारूढश्चालयामासकौशिक ॥२८॥

तू मुझे उस वेण्या के घर ले चल, वह मेरे हृदय मे निरन्तर बसी रहती है, मैंने प्रात काल उसे देखा था, अब रात्रि का समय हो गया है ॥ २१ ॥ जब मैंने उसे डेखा है तभी से वह मेरे हृदय से पृथक् नहीं हो रही है, यदि पुष्ट पयोधरा ॥ २२ ॥ बाला मुझसे न मिलेगी तू अवश्य ही मरण मृत देखेगी, क्योकि प्रथम तो कामदेव मनुष्यो के अनुकूल ही नहीं है ॥ २३ ॥ उस पर भी अनेको मनुष्य उसके भक्त है, मुझमे चलने को सामर्थ्य नहीं है, इससे और भी विषय सकट प्रतीत होरहा है, उम कामातुर पति देव की यह बात सुन कर ॥ २४ ॥ वह पतिव्रता व्याकुल होगई फिर भी उसने बहुत-सा धन लेकर ॥ २५ ॥ पति को अपने कधे पर चढाया और धीरे-धीरे चल पडी, एक तो अँधेरी रात, दूसरे आकाश मे वादल छाये हुए थे, वह विजली की चमक मे अपने पति के प्रिय कार्य के लिए राजमार्ग मे चल दी, उसी मार्ग मे शूल गढी हुई थी जिम पर चोरी के मिथ्या अपराध मे ॥ २६-२७ ॥ मुनिवर चढ़े हुए दु ख भोग रहे थे, मार्ग मे अँधेरा होने मे पत्नी के कन्धे पर स्थित कौशिक ब्राह्मण का भूमि से स्पर्श हुआ और पैर विचलित होगया ॥ २८ ॥

वामागेनाथसक्रुद्धोमाडव्यस्तमुवाचह ।

येनाहमेवमत्यर्थदु खितश्चालितोवृथा ॥२९॥

इत्थकष्टमनुप्राप्त सपापात्मानराधम ।

सूर्योदयेऽवश प्राणैर्वियोक्ष्यति न सशय ॥३०॥

भास्करालोकनादेवसविनाशमवाप्स्यसि ।

तस्यभार्यतित श्रुत्वातशापमतिदारुणम् ॥३१॥

प्रोवाचव्यथितासूर्यो नैवोदयमुपेक्ष्यति ।

तत सूर्योदयाभावादभवत्सततानिशा ॥३२॥

बहून्यह प्रमाणानिततोदेवाभयययु ।

नि स्वाध्यायवषट्कारस्वधास्वाहाविर्वजितम् ॥३३॥

कथनुखल्विदसर्वनगच्छेत्सक्षयजगत् ।

अहोरात्रव्यवस्थायाविनामासर्तुसक्षय\* ॥३४॥

तत्सक्षयान्नत्वयनेज्ञायेतेदक्षिणोत्तरे ॥३५॥

जिसमे माँडव्य मुनि ने क्रोध से कहा कि जिसने मेरा पैर विचलित करके मुझे व्यर्थ ही ॥ २९ ॥ यत्रणा दी है वह पा ी सूर्योदय होते ही असह्य यत्रणा भोगता हुआ मृत्यु को प्राप्त होगा ॥ ३० ॥ सूर्य के उदय होते ही उस का प्राण अवश्य चला जायगा, इम दारुण ने शाप को सुन कर उसकी पत्नी ने अत्यन्त व्यथित होकर कहा कि अब सूर्य ही उदय नहीं होंगे, उस पतिव्रता के इम वचन से सूर्योदय नहीं हुआ और इम प्रकार अनेक रात्रियाँ हुई देख कर देवता भी भयभीत होकर ॥ ३२ ॥ विचार करने लगे कि स्वाध्याय, वषट्कार स्वधा और स्वाहा के इम प्रकार लुप्त होने से विश्व की रक्षा कैसे होगी ? ॥ ३३ ॥ अहोरात्र की व्यवस्था टूट जाने से मास और ऋतु का विभाग न होगा, जिसके कारण उत्तरायण या दक्षिणायन ज्ञान भी न हो पायगा ॥ ३४-३५ ॥

विनाचायनविज्ञानकाल सवत्सर कुत ।

पतिव्रतायावचनान्नोद्गच्छतिदिवाकर ॥३६॥

सूर्योदयविनानैवस्नानदानादिका क्रिया ।

अग्नेर्विहरणचैवक्रत्वभावश्चलक्ष्यते ॥३७॥

नकालेनविनाचेष्टिर्नचयज्ञादिका क्रिया ।

नश्यतिसर्वभूतानितमोभूते चराचरे ॥३८॥

नैवाप्यायनमस्माकविनाहोमेनजायते ।

वयमाप्यायितामर्त्यैर्यज्ञभागैर्यथोचितै ॥३९॥

वृष्ट्यादिनानुगृह्णीमोमर्त्यान्सस्याभिवृद्धये ।

निष्पादितास्वौषधीषुमर्यायज्ञैर्यैजतिन ॥४०॥

एववयंप्रयच्छाम कामान्यज्ञादिपूजिता ।

अधोहिवर्षामवयमर्त्यश्चोर्ध्वप्रवर्षिण ॥४१॥

यह ज्ञान न होने से सवत्सर का स्थिर करना संभव न होगा, तथा अन्यान्य कालो का ज्ञान भी कैसे हो सकेगा ? अब उस पतिव्रता के वचन से सूर्योदय ही रुक गया है ॥ ३६ ॥ सूर्योदय के अभाव में स्नानादि कार्य, हवन

तथा सम्पूर्ण यज्ञो का अभी अभाव हो ही गया है ॥ ३७ ॥ काल के अभाव मे इष्टि तथा यज्ञदानादि क्रिया नहीं हो सकती तथा अन्धकार से व्यस्त होकर सब जीव नाश को प्राप्त हो रहे है ॥ ३८ ॥ यज्ञ के बिना हमारी तृप्ति का भी अन्य उपाय नहीं है, क्योंकि यज्ञ भाग देकर ही मनुष्य हमे तृप्त करते है ॥ ३९ ॥ हम भी अन्नादि की उमलब्धि के लिए वृष्टि करके उन पर अनुग्रह करते है, औषधियो के उत्पन्न होने पर ही उनके द्वारा यज्ञ किये जाते है ॥ ४० ॥ उनके पूजन से सतुष्ट होकर हम इच्छित देते है, हम नीचे की ओर जल बरसाते और वे ऊपर की ओर घृत बरसाते है ॥ ४१ ॥

तोयवर्षेणहिवयहविवर्षेणमानवा ।

येस्माकनप्रयच्छतिनित्यनैमित्तिकी क्रिया ॥४२॥

ऋतुभागदुरात्मान स्वयवाश्नतिलोलुपा ।

विनाशायवयतेषातोयसूर्याग्निमारुता ॥४३॥

क्षितिचसद्रूपयाम पापानामपकारिणाम् ।

दुष्टतोयादिदोषेणतेषादुष्कृतकर्मणाम् ॥४४॥

उपसर्गा प्रवृत्तन्तेमरणायसुदारुणा ।

येत्वस्मान्प्रीणयित्वातुभुजतेशेषमात्मना ॥४५॥

तेषापुण्यतमाल्लोकान्वितरामोमहात्प्रनाम् ।

तन्नास्ति सर्वमेतद्धिनचोपायव्यस्थितम् ॥४६॥

कथंनुदिनसग स्यादन्योन्यमवदन्सुरा ।

तेषामेवसमेतानायज्ञव्युच्छित्तिशकिनाम् ॥४७॥

देवानावचनश्रुत्वाप्राहदेव प्रजापति ।

तेज परतेजसैवतपसाचतपस्तथा ॥४८॥

हम जल वृष्टि मे और मनुष्य हवि देकर परस्पर प्रसन्न होते है तथा जो नित्य नैमित्तिक क्रिया हमको अर्पण नहीं करते ॥ ४२ ॥ अर्थात् जो नित्य नैमित्तिक क्रिया हमे न देकर यज्ञ भाग को स्वय ही खा जाते है, उनके विनाशार्थ हम जल, अग्नि, सूर्य, वायु, ॥ ४३ ॥ और पृथिवी को दूषित कर देते हैं, जिससे उन पापियो को ॥ ४४ ॥ नष्ट करने वाले दारुण रोग उत्पन्न होते हैं, परन्तु जो हमे तृप्त करके शेष मात्र का भोजन करते है ॥ ४५ ॥

उन महात्माओ को हम पुण्यमय स्थान प्रदान करते हैं, परन्तु, इस समय तो वह सब कार्य अवरुद्ध है और उमका कोई उपाय भी दिखाई नहीं दे रहा है ॥ ४६ ॥ इस दग्ध सृष्टि की स्थिरता कैसे हो ? दिन किस प्रकार प्रकटे ? यज्ञ के नष्ट होने की शका करते हुए देवगण परस्पर इस प्रकार कहने लगे ॥ ४७ ॥ उनके ऐसे वचनोंको सुनकर देवोत्तम प्रजापति ब्रह्माजी बोले ॥ ४८ ॥

प्रशाम्यत्यमरास्तस्माच्छृणुध्ववचनमम ।  
 पतिव्रतायामाहात्म्यान्नोद्गच्छतिदिवाकर ॥४८॥  
 तस्यचानुदयाद्धानिर्मृत्यानाभवतायथा ।  
 तस्मात्पतिव्रतामत्रैरनसूयातपस्विनीम् ॥५०॥  
 प्रसादयतवैपत्नीभानोरुदयकाम्यया ।  
 तै साप्रसादितागत्वाप्राहेष्ट त्रियतामिति ॥५१॥  
 अयाचतदिनदेवाभवत्वितियथापुरा ।  
 पतिव्रतायामहात्म्यनहीयेतकथत्विति ॥५२॥  
 समान्यतातथासाध्वीतथाप्रेष्याम्यहमुरा ।  
 यथापुनराहोरात्रसस्थानमुपजायते ॥५३॥  
 यथाचतस्या सपतिर्नशापान्नाशमेष्यति ।  
 एवमुक्त्वासुरास्तस्यागत्वासामदिरशुभा ॥५४॥  
 उवाचकुशलपृष्ठाधर्मभर्तुस्तथात्मन ।  
 कञ्चिन्नंदसिकल्याणिस्वभर्तुं सुखदायिनी ॥५५॥  
 कञ्चिच्चाखिलदेवेभ्योमन्यसेह्याधिकपतिम् ।  
 भर्तुं शुश्रूषणादेवमयाप्राप्त महत्फलम् ॥५६॥

परम तेज और तप से ही तप का विनाश होता है, इसलिए मेरी बात सुनो उस पतिव्रता की महिमा से सूर्योदयन ही हीरहा है, सूर्योदय के अभाव से तुम्हारी और मनुष्यों की हानि है, यदि तुम सूर्योदय चाहते हो तो महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसूया को ॥ ४९-५० ॥ प्रसन्न करो । पुत्र ने कहा—तब देवताओ ने जाकर अनुसूया को प्रसन्न किया इसके पश्चात् अनुसूया ने कहा— तुम इच्छित विषय बताओ ॥ ५१ ॥ देवताओ ने कहा—पहिले के समान

सूर्योदय होजाय अनुसूया बोली—पतिव्रता की महिमा कभी नष्ट नहीं हो सकती ॥ ५२ ॥ फिर भी मैं उस पतिव्रता के सम्मान पूर्वक ऐसा उपाय करूँगी, जिससे दिन निकल आवे ॥ ५३ ॥ और उमका पति भी शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त न हो, ऐसा कह कर अनुसूया उमके घर गई ॥ ५४ ॥ और उसकी यथा उसके स्वामी की कुशल पूछी—हे स्वामी को सुख देने वाली ! तुम उनका मुख देखने से प्रमत्त तो रहती हो ? ॥ ५५ ॥ तथा अपने स्वामी को देवताओं से भी श्रेष्ठ मानती हो, मैं भी अपने स्वामी की सेवा से ही महाफल को प्राप्त हुई हूँ ॥ ५६ ॥

सर्वकामफलावाप्ति पत्यु शुश्रूषणात्स्त्रिया ।

पचर्णानिमनुष्येणसाध्विदेयानिसर्वदा ॥५७॥

तथात्मवर्णधर्मोणकर्तव्योधनसचय ।

प्राप्तश्चार्थस्तथापात्रेविनियोज्योविधातः ॥५८॥

सत्यार्जवतपोदानदयायुक्तोभवेत्सदा ।

क्रियाचशास्त्रनिर्दिष्टारागद्वेषविर्वजिता ॥५९॥

कर्तव्याहररह श्रद्धापुरस्कारेणशक्तित ।

स्वजातिविहितानेवलोकान्प्राप्नोतिमानव ॥६०॥

क्लेशेनमहतासाध्विप्राजापत्यादिकान्क्रमात् ।

स्त्रियश्चैवसमस्तस्यनरैर्दुर्खार्जितस्यवै ॥६१॥

पुण्यस्यार्द्धापहारिण्य पतिशुषुश्रूयैवहि ।

नास्तिस्त्रीणापृथग्यज्ञोनश्राद्ध नाप्युपोषितम् ॥६२॥

भर्तु शश्रूयैवैतालोकानिष्टाञ्जयतिहि ।

तस्मात्साध्विमहाभागेपतिशुश्रूषणप्रति ।

त्वयामति सदाकार्यायतोभर्त्तापरागति ॥६३॥

पत्नी को सम्पूर्ण कामनाएँ पति-सेवा मे ही निहित है, हे साध्वि !

पाँच ऋण सर्वदा देय है ॥ ५७ ॥ अपने वर्ण-धर्म के अनुसार धन का सचय करके उपयुक्त पात्र को नान करे ॥ ५८ ॥ तथा सदैव, सत्य, सरलता, तप, दान और दया परायण रहे और नित्य प्रति राग द्वेष से रहित शास्त्रोक्त कर्म कर्म को श्रद्धा सहित करे, ऐसा करने से सब लोको की प्राप्ति होती है

॥ ५९-६० ॥ तथा प्राजापत्यादि पवित्र धाम को प्राप्त होते हैं, परन्तु स्त्रियों पति-सेवा से ही उनके सब पुण्य में आधा भाग प्राप्त कर लेती हैं। स्त्रियों के लिये यज्ञ, श्राद्ध अथवा उपवास आदि का कोई पृथक् विधान नहीं ॥ ६१-६२ ॥ वह तो स्वामी की सेवा मात्र से ही सब इच्छित लोको को प्राप्त होती है, इसलिए तुम इसी में लगी रहो, क्योंकि पत्नी की परमगति पति ही है ॥ ६३ ॥

यद्देवेभ्यो यच्च पित्रादिकेभ्य कुर्याद्भूर्ताभ्यर्चनसत्क्रियान्च ।

तस्यार्द्धवैकेवलानन्यचित्तानारीभुङ्क्ते भर्तृशुश्रूपयैव ॥६४॥

तस्यास्तद्वचनश्रुत्वा प्रतिपूज्यतदादरात् ।

प्रत्युवाचा त्रिपत्नीतामनसूयामिदवच ॥६५॥

धन्यास्म्यनुगृहीतास्मिदैवस्याप्यवलोकत ।

यन्मे प्रकृतिकल्याणि श्रद्धां वर्धयसे पुन ॥६६॥

जानाम्येतन्न नारीणाकञ्चित्पतिसमागति ।

तत्प्रीतिश्चोपकाराय इह लोके परलच ॥६७॥

पतिप्रसादादिह च प्रेत्य चैव यशस्विनी ।

नारीसुखमवाप्नोति नार्याभर्त्ताहिदैवतम् ॥६८॥

सा त्वब्रूहि महाभागे प्राप्तायामममदिरम् ।

आर्यायाः किनु कर्त्तव्यमयार्येणापि वाशुभे ॥६९॥

स्वामी द्वारा किये जाने वाले देवता, पितर, अतिथि आदि का सत्कार या सब सत्कर्म, सभी में स्त्री को पति-सेवा के कारण अर्द्धांश प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ पुत्र ने कहा—अनुसूया के वचन सुन कर उसने आदर सहित अनुसूया का पूजन किया और बोली ॥ ६५ ॥ आज मैं अत्यन्त अनुगृहीत और धन्य होगई हूँ क्योंकि आपने स्वामी के प्रति मेरी श्रद्धा को और भी बढ़ा दिया है, तथा देवताओं ने भी मुझ पर अनुग्रह किया है ॥ ६६ ॥ मैं जान गयी कि स्वामी के अतिरिक्त अन्य कोई गति स्त्री की नहीं है, उन्हीं की प्रसन्नता से इहलोक और परलोक बनता है ॥ ६७ ॥ पति की कृपा से ही स्त्रियाँ इहलोक-परलोक में सुख पाती हैं, क्योंकि उनका देवता पति ही है ॥ ६८ ॥ जब स्वयं ही यहाँ पधारी है, तब मुझे आदेश दीजिए कि मुझे या मेरे स्वामी को क्या करना उचित है ? ॥ ६९ ॥



एतेदेवाःसहेन्द्रेणमामुपागम्यदु खिता ।  
 त्वद्वाक्यापास्तसत्कर्मदिननक्तनिरूपणा ॥७०॥  
 याचतेहर्निशासस्थायथावदविखडिताम् ।  
 अहतदर्थमायाताशृणुचैनद्वचोमम ॥७१॥  
 दिनाभावात्समस्तानामभावोयागकर्मणाम् ।  
 तदभावात्सुरा.पुष्टिनोपयातितपस्विनि ॥७२॥  
 अह्नश्चैवसमुच्छेदादुच्छेद सर्वकर्मणाम् ।  
 तदुच्छेदादनावृष्ट्याजगदुच्छेदमेष्यति ॥७३॥  
 तत्त्वमिच्छसिधैर्येणजगदुद्धत्तुमापद ।  
 प्रसीदमाध्वलोकानापूर्ववद्वत्तारवि ॥७४॥  
 माडयेव्येनमहाभागेशप्तोभर्तामेश्वर ।  
 सूर्योदयेविनाशत्वप्राप्स्यसीत्यतिमन्युना ॥७५॥  
 यदितेरोचतेभद्रेततस्तद्वचनादहम् ।  
 करोमिपूर्ववद्देहभर्तारिवचनात्तव ॥७६॥  
 मयापिसर्वथास्त्रीणामाहात्म्यवरवर्णिनी ।  
 पतिव्रतानामाराध्यमितिसमानयामिते ॥७७॥

अनुसूया ने कहा—हे साध्वि ! तुम्हारे वचन से दिन-रात्रि का भेद न रहने से सब सत्कर्म नष्ट होगए है, इसलिए सुरराज इन्द्र के सहित यह सम्पूर्ण देवता मेरे पास आकर ॥ ७० ॥ पहिले के समान ही दिन-रात्रि होने को कहते है, मे इसीलिए यहाँ आई हूँ ॥ ७१ ॥ दिन के न होने से यज्ञानुष्ठान भी नहीं हो रहा है और यज्ञ के न होने से देवताओ की तुष्टि भी नहीं हो सकती ॥ ७२ ॥ दिन के अभाव मे सब कर्मों का नाश हो गया तथा कर्म-नाश से अनावृष्टि होगई, इससे सम्पूर्ण विश्व का नाश सभव है ॥ ७३ ॥ यदि तुम इस विपत्ति से ससार को बचाना चाहो तो सब पर प्रसन्न होओ जिससे सूर्य पूर्ववत् उदय को प्राप्त हो सके ॥७४॥ ब्राह्मणी बोली हे महाभागे ! मुनि माण्डव्य ने क्रोध पूर्वक मेरे स्वामी को शाप दिया है कि 'सूर्योदय होते ही तेरा पति मृत्यु को प्राप्त होगा ॥ ७५ ॥ अनुसूया ने कहा— हे कल्याणि ! ऐसा होने पर मैं तुम्हारे स्वामी के शरीर को पहिले के समान

कर दूँगी ॥ ७६ ॥ पतिव्रता स्त्री की महिमा मेरे लिए सदैव आराधन के योग्य है, इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान रखूँगी ॥ ७७ ॥

तथेत्युक्ते तथासूर्यमाजुहावतपस्विनी ।  
 अनसूयार्घ्यमुद्यम्यदत्तार्धरात्रेतदानिशि ॥७८॥  
 तातोविवस्वान्भगान्फुल्लपद्मारुणाकृति ।  
 शैलाधिराजमुदयमारोहोरुमडल ॥७९॥  
 समनतरमेवास्यभर्त्ताप्राणैर्व्ययुज्यत ।  
 पपातचमहीपृष्ठेपतन्तजगृहेचसा ॥८०॥  
 नविषादस्त्वयाभद्रेकर्तव्य पश्यमेबलम् ।  
 पतिशुश्रुपयावाप्ततपस किञ्चिरेणमे ॥८१॥  
 यथाभर्तृ समनान्यमपश्यपुरुषक्वचित् ।  
 रूपत शीलतोबुद्ध्यावाड्माधुर्यादिभूषणै ॥८२॥  
 तेनसत्येनविप्रोयव्याधिमुक्त पुनर्युवा ।  
 प्राप्तोनुजीवितभार्यासहाय शरदाशतम् ॥८३॥

पुत्र बोला कि ब्राह्मणी के 'ऐसा ही हो' कहने पर अनुसूया ने अर्घ्य सहित सूर्य का आह्वान किया, उस समय तक दश रात्रियों का समय व्यतीत हो चुका था ॥ ७८ ॥ फिर प्रफुल्लित कमल के समान लालवर्ण वाले सूर्य जैसे ही उदयाचल में चढ़े ॥ ७९ ॥ तभी उस ब्राह्मण का प्राणान्त होगया, इससे वह ज्यो ही पृथिवी में गिरा त्योही ब्राह्मणी ने उसे संभाला ॥ ८० ॥ अनुसूया ने कहा—हे भद्रे ! तुम विषाद न करो, मैंने पति सेवा से ही जिस तपोबल को प्राप्त किया है, वह तुम्हें अभी दिखाई पड़ेगा ॥ ८१ ॥ मैं यदि रूप, शील, बुद्धि, वाणी, माधुर्य आदि सद्गुणों में अपने स्वामी के समान किसी अन्य को नहीं मानती ॥ ८२ ॥ तो मेरे उसी सत्य के बल से यह ब्राह्मण रोगरहित होकर युवास्था को प्राप्त हो और पुनर्जीवन प्राप्त कर सौ वर्ष तक पत्नी के सहित जीवित रहे ॥ ८३ ॥

यथाभर्तृ समनान्यमहंपश्यामिदैवतम् ।  
 तेनसत्येनविप्रोयपुनर्जीवत्वनामय ॥८४॥  
 कर्मणामनसावाचाभर्तुराराधनंप्रति ।

यथाममोद्यमोनित्यतथायजीवताद्द्विज ॥८५॥  
 ततोविप्र समुत्तस्थौव्याधिमुक्त पुनर्युवा ।  
 स्वभाभिर्भासियन्वेश्मवृंदारकइवाजर ॥८६॥  
 ततोपतत्पुष्पवृष्टिर्देववाद्यानिसस्वनु ।  
 लेभिरेचमुददेवाअनसूयामथाब्रुवन् ॥८७॥  
 वरवृणीष्वकल्याणिदेवकार्यमहत्कृतम् ।  
 आदित्योदयसङ्गावाह्वरवरयसुव्रते ॥८८॥  
 त्वयायस्मात्ततोदेवावरदास्तेतपस्विनि ।  
 यदिदेवा प्रसन्नाभेपितामहपुरोगमा ॥८९॥  
 वरदावरयोग्याचयद्यहभवतामता ।  
 तद्यानुममपुत्रत्वब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ॥९०॥

मै यदि अपने स्वामी के समान किसी अन्य देवता को भी नहीं मानती तो मेरे इसी सत्य के बल से यह ब्राह्मण रोग-रहित होता हुआ पुनर्जीवन को प्राप्त हो ॥ ८४ ॥ यदि मन, वाणी और काया से मैंने स्वामी की नित्य आराधना की है तो यह ब्राह्मण जीवित हो ॥ ८५ ॥ पुत्र बोला—फिर वह ब्राह्मण रोग-मुक्त युवा रूप होकर अपनी प्रभा से गृह को प्रकाशित करता हुआ उठ पडा ॥ ८६ ॥ तब पुष्पो की वृष्टि और देव-वाद्यो की ध्वनि होने लगी और फिर अत्यन्त प्रमन्न हुए देवताओ ने अनुसूया से कहा ॥ ८७ ॥ देवगण बोले—हे कल्याणि ! तुमने देवताओ के महान् कार्य का सपादन किया है, अब तुम सूर्योदय के कारण वर माँगो ॥ ८८ ॥ सब देवता तुम्हे वर देना चाहते हैं, यह सुन कर अनुसूया ने कहा—हे देवगण ! यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे यह वर दीजिये कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्र रूप मे उत्पन्न हो ॥ ८९-९० ॥

योगचप्राप्नुयाभक्तृसहिताक्लेशमुक्तये ।  
 एवमस्त्वितिदेवास्ताब्रह्मविष्णुशिवादय ॥९१॥  
 उक्त्वाजग्मुर्यथान्यायमनुमान्यतपस्विनीम् ।  
 तत कालेबहुतिथेद्वितीयोब्रह्मण सुत ॥९२॥  
 स्वभार्याभगवानत्रिरतसूयामपश्यत ।

ऋतुस्नातासुचार्वगीलोभनीयतमाकृतिम् ॥६३॥  
 सकामोमनसाभेजेसमुनिस्तामनिन्दिताम् ।  
 तस्याभिपश्यतस्तातु विकारोयोभ्यजायत ॥६४॥  
 तमपोवाहपवनस्तिर्यगूर्ध्वचवेगवान् ।  
 ब्रह्मरूपचशुक्लाभपतमानसमतत ॥६५॥  
 सोमरूपरजोरूपदिशस्तजगृहृद्दश ।  
 ससोमोमानसोजज्ञेतस्यामत्रे प्रजापते ॥६६॥  
 पुत्र समस्ततत्वानामायुराधारएवच ।  
 तुष्टेनविष्णुनाजज्ञेदत्तात्रेयोमहात्मना ॥६७॥  
 स्वशरीरात्समुत्पन्न सत्वोद्विक्तोद्विजोत्तम ।  
 दत्तात्रेयइतिख्यात सोनसूयास्तनपपौ ॥६८॥

और मैं अपने पति के सहित क्लेश से मुक्त होने के लिए योग को प्राप्त होऊँ । पुत्र बोला—यह सुन कर ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि देवगण 'ऐसा ही हो' कह कर ॥ ०२ ॥ उस तपस्विनी का सम्मान करके चले गये, फिर कुछ समय व्यतीत होने पर ब्रह्माजी के द्वितीय पुत्र ॥ ६२ ॥ भगवान् अत्रि ने एक दिन अपनी सर्वांग सुन्दरी पत्नी को ऋतु से निवृत्त होकर स्नान करते देख कर ॥ ६३ ॥ काम वशीभूत होने पर मानसिक सभोग से उनका तेज खलित होगया ॥ ६४ ॥ वायु ने उस तेज को वहन कर ऊर्ध्व और तिर्यक् भाव में प्रवाहित किया, गिरते समय उस तेज ने दशो दिशाओं का अवलम्बन किया और उन ब्रह्मरूपी सोम पुत्र रूप में अनुसूया से उत्पन्न हुए ॥ ६५-६६ ॥ सतुष्ट हुए भगवान् विष्णु ने सत्वगुण का अवलम्बन करके भी दत्तात्रेय के नाम से उत्पन्न होकर स्तन पान किया ॥ ६७-६८ ॥

विष्णुरेवावतीर्णोसौद्वितीयोत्रे सुतोभवत् ।  
 सप्ताहात्प्रच्युतोमातुरुदरात्कुपितोयत ॥६९॥  
 हैहयेद्रमुपावृत्तमपराध्यन्तमुद्धतम् ।  
 दृष्ट्वात्रौकुपित सद्योदग्धुकाम सहैह्यम् ॥१००॥  
 गर्भंवासमहायासदु खामर्षसमन्वित ।  
 दुर्वासास्तममायुक्तोरुद्राश सोभ्यजायत ॥१०१॥

इतिपुत्रवयनस्याजज्ञेब्रह्मेश्वैष्णवम् ।  
 सोमोब्रह्माभवद्विष्णुर्दत्तात्रेयोभ्यजायत ॥१०२॥  
 दुर्वासा शकरोजज्ञेवरदानाद्विवीकसाम् ।  
 सोम स्वरश्मिभि शीतैर्वीरुदौपधिमानवान् ॥१०३॥  
 आप्याययन्सदास्वर्गोवर्त्ततेसप्रजापति ।  
 दत्तात्रेय प्रजा पातिदुष्टदैत्यनिबर्हणात् ॥१०४॥  
 शिष्टानुग्रहकृद्योगीशेशश्चाश सवैष्णव ।  
 निर्दहत्यवमतारदुर्वासाभगवानज ॥१०५॥  
 रौद्रभावसमाश्रित्यदृङ् मनोवाग्भिरुद्धत ।  
 सोमत्वभगवानत्रिपुनश्चक्रे प्रजापति ॥१०६॥

यह अत्रि के द्वितीय पुत्र हुए, जो क्रोध के कारण माता के उदर से सातवे दिन ही उत्पन्न होगये थे ॥ ९९ ॥ हैहयराज के उद्धत स्वभाव से अत्रिमुनि का अपमान हुआ था, इस अपराध को देखकर हैहय को भस्म करने के प्रयोजन से ॥ १०० ॥ गर्भवास रूप क्लेश से अमर्ष युक्त हो तमोगण का आश्रय करके रुद्र के अश से दुर्वासाजी की उत्पत्ति हुई ॥ १०२ ॥ इस प्रकार, ब्रह्मा, विष्णु और शिव तोनो ने ही अनुसूया के पुत्र रूप में जन्म लिया, ब्रह्मा ने चन्द्र के रूप में, विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में ॥ १०२ ॥ शिवजी ने दुर्वासा के रूप में जन्म धारण किया, वह प्रजापति चन्द्रमा अपनी शीतल किरणों से लता, औषधि, मनुष्य आदि को ॥ १०३ ॥ तृप्त करते हुए स्वर्ग में रहते हैं, विष्णु के अश रूप दत्तात्रेय दुष्टों का सहार ॥ १०४ ॥ और सतजनो के प्रति ऊपकार दिखाते हुए प्रजा पालन में लगे तथा भगवान् दुर्वासा ॥ १०५ ॥ रुद्रात्मक देह से नेत्र, मन और वाणी द्वारा अपमानकर्त्ता दुष्टों को नष्ट करने लगे, फिर महर्षि अत्रि ने चन्द्रमा को सोमत्व का पद प्रदान करके प्रजापति बनाया ॥ १०६ ॥

दत्तात्रेयोपिविषयान्योगस्थोददृशेहरि ।  
 दुर्वासा पितरत्यक्त्वामातरचोत्तमव्रतम् ॥१०७॥  
 उन्मत्ताख्यसमाश्रित्यपरिबभ्राममेदिनीम् ।  
 मुनिपुत्रवृत्तौयोगीदत्तात्रेयोप्यसगिताम् ॥१०८॥

अभीप्समान सरसिनिममज्जचिरविभु ।  
 तथापितमहात्मानमतीवप्रियदर्शनम् ॥१०६॥  
 तत्यजुर्नकुमारास्तेसरसस्तीरसश्रया ।  
 दिव्येवर्षशतेपूर्णेयदातेनत्यजतितम् ॥११०॥  
 तत्प्रीत्यासरसस्तीरंसर्वेमुनिकुमारका ।  
 ततोदिव्याबरधरासुरूपासुनितविनीम् ॥१११॥  
 नारीमादायकल्याणीमुत्तारजलान्मुनि ।  
 स्त्रीसनिकर्षिणह्येतेपरित्यक्ष्यतिमामिति ॥११२॥  
 मुनिपुत्रास्ततोयोगेस्थास्यामितिविचितयन् ।  
 तथापितेमुनिसुतानत्यजतियदामुनिम् ॥११३॥

विष्णु अश वाले दत्तात्रेयजी योग के अवलम्बन में दुर्वासा माता-पिता से पृथक् रह कर श्रेष्ठ व्रत ॥ १०७ ॥ पूर्वक उन्मत्त भाव पृथिवी में विचरण करने लगे । दत्तात्रेयजी के परम योगी होने के कारण मुनियों के पुत्र इन्हे सदा घेरे रहते थे ॥ १०८ ॥ वह उनसे वचने के लिए बहुत दिनों तक सरोवर में निमग्न रहे, परन्तु वे अत्यन्त प्रिय लगने वाले महात्मा थे ॥ १०९ ॥ इसलिए मुनिकुमारो ने उन्हें फिर भी न छोड़ा और वे सरवोवर के तट पर ही रहने लगे, इस प्रकार मौ दिव्य वर्ष व्यतीत होने पर भी खड़े रहे ॥ ११० ॥ जब उनकी प्रीति वश मुनिकुमारो ने उन्हें न छोड़ा तो वे दिव्य वस्त्र धारण किये एक स्वरूपवती ॥ १११ ॥ नारी को साथ लेकर जल से निकले और सोचा कि मैं स्त्री के साथ हूँ इसलिए यह अब मुझे छोड़ कर चले जायेंगे ॥ ११२ ॥ और मैं भी सग-रहित होकर योग-परायण हो जाऊँगा, तो भी मुनिकुमारो ने उन्हें नहीं छोड़ा ॥ ११३ ॥

तत सहतयानार्यामिद्यपानमथाकरोत् ।  
 सुरापानरततेनसभार्यतत्यजुस्तत ॥११४॥  
 गीतवाद्यादिवनिताभोगससर्गदूषितम् ।  
 मन्यमानामहात्मानतयासहबहिष्क्रियम् ॥११५॥  
 नावापदोषयोगीशोवारुणीसपिवन्नपि ।  
 अंतावसायिवेश्मातर्मातरिश्वास्पृशन्नपि ॥११६॥

सुरापिवन्सपत्नीकस्तपस्तेपेसयोगवित् ।  
 योगीश्वरश्चत्यमानोयोगिभिर्मुक्तिकाक्षिभिः ॥११७॥  
 कस्यचित्त्वथकालस्यकार्तार्त्तवीर्योर्जुनोबली ।  
 कृतवीर्योदिवयातेमन्त्रिभिःसपुरोहितैः ॥११८॥  
 पोरैश्चात्माभिषेकार्थसमाहृतोब्रवीदिदम् ।  
 नाहराज्यकरिष्यामिमन्त्रिणोनरकोत्तरम् ॥११९॥

तब वे उम स्त्री के साथ मद्य पीने लगे, सोचा कि स्त्री के सहित मद्य पीते देखकर चले जायेंगे ॥ ११४ ॥ परन्तु, फिर भी उन मुनिकुमारो ने उन्हें महात्मा जान कर नहीं छोडा ॥ ११५ ॥ वह योगीश्वर दत्तात्रेयजी चाण्डाल के घर रह कर मद्यपान करके भी दूषित नहीं हुए ॥ ११६ ॥ वे पत्नी सहित मद्यपान पूर्वक तप करने लगे, इस पर मुनिकुमार उनके चिन्तनीय रहे ॥ ११७ ॥ कार्तिकेय के स्वर्ग-गमन के पश्चात् पुरवासी, मन्त्री, पुरोहितादि ने मिलकर उसके पुत्र अर्जुन को राज्य पर अभिषिक्त करने लिए आमन्त्रित किया, परन्तु उसने उत्तर दिया कि हे मन्त्रिण ! राज्य का परिणाम नरक है, इसलिए मैं राज्य नहीं करूँगा ॥ ११८-११९ ॥

यदर्थगृह्यतेशुल्कतदनिष्पादयन्वृथा ।  
 पण्यानाद्वादशभागभूपालायवणिग्जन ॥१२०॥  
 दत्वात्मरथिभिर्माणैरक्षितोयातिदस्युत ।  
 गोपाश्चघृततक्रादे षड्भागचक्रुपीवला ॥१२१॥  
 दत्वान्यद्भुजेर्दद्युर्दिभागततोधिकम् ।  
 पण्यादीनामशेषाणावणिजोगृह्णतस्तत ॥१२२॥  
 अग्निहोत्रतपसत्यवेदानाचैवसाधनम् ।  
 आतिथ्यवैश्वदेवचइष्टमित्यभिधीयते ॥१२३॥  
 वापीकूपतडागानिदेवतायतनानिच ।  
 अन्नप्रदानमर्थिभ्य पूर्त्तमित्यभिधीयते ॥१२४॥  
 इष्टापूर्त्तविनाशायतद्वाज्ञश्चौरकर्मिण ।  
 यदन्यैपाल्यतेलोकस्तद्वृत्यतरसश्रित ॥१२५॥  
 गृह्णतोबलिषड्भागानृपतेर्नरकोध्रुवम् ।

निरूपितमिदराज्ञ पूर्वैरक्षणवेतनम् ॥१२६॥

इम राज्य का ग्रहण करना अत्यन्त कठिन कार्य है, वेश्या व्यापारी राजा को आय का वारहवाँ भाग ॥ १२० ॥ देकर चोरो के भय से बच जाते हैं, ग्वारिया घृत या मठा आदि का छटवाँ अंश तथा कृषक भी सब धान्यो का छटवाँ अंश ॥ १२१ ॥ राजा को देने है, यदि अन्य को दे तो वह इनकी वस्तु का अधिक भाग लेगा ॥ १२२ ॥ अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेद-साधन, आतिथ्य, वैश्वदेव कर्म यह इष्ट कहे जाते हैं ॥ १२२ ॥ तथा कूप, बावडी, देवालय का निर्माण और धनेच्छुकों को दान करना पूर्त्त कहा जाता है ॥ १२४ ॥ अधिक कर लेने वाला राजा इष्टापूर्ति को नष्ट करने वाला कहा है, तथा दूमरो के द्वारा प्रजा का पालन कराता हुआ जो स्वयं अन्य वृत्ति करता है ॥ १२५ ॥ और पशु भाग ग्रहण करता है वह राजा अवश्य ही नरक को प्राप्त होता है, पंडितजनो ने प्रजा के रक्षणार्थ ही वेतन स्वरूप षष्ठ भाग ग्रहण करने का विधान किया है ॥ १२६ ॥

अरक्षश्चोरतश्चोरस्तद्धननृपतेर्भवेत् ।

तस्माद्यदितपस्तप्त्वाप्राप्तोयोगित्वमीप्सितम् ॥१२७॥

भुव पालनसामर्थ्ययुक्तएकोमहीपति ।

पृथिव्यामस्त्रभृन्नाद्याप्यहमेवद्विसयुत ॥१२८॥

ततोभविष्येनात्मानकरिष्येपापभागिनम् ।

तस्यतनिश्चयज्ञात्वामत्रिमध्यस्थितोब्रवीत् ॥१२९॥

गर्गोनाममहाबुद्धिमुनिभूपवयोतिग ।

भक्त्यातुकृपयाविष्टस्ततोषयितुमर्हति ॥१३०॥

यद्येवकत्तुकामस्त्वरारज्यसम्यक्प्रशासितुम् ।

ततशृणुष्वमेवाक्यकुरुष्वचनृपात्मज ॥१३१॥

दत्तात्रेयमहात्मानसह्यद्रोणीकृताश्रमम् ।

तमाराधयभूपालपातियोभुवनलयम् ॥१३२॥

यदि राजा उसे लेकर प्रजा-रक्षण न करे तो यह चोरी करना हुआ, इसलिए यदि मैं तप करके योगी होता हुआ ॥ १२७ ॥ पृथिवी का पालन करके एक मात्र नराधिप बन सकूँ तो ही मैं राज्य करना चाहता हूँ ॥ १२८ ॥



अन्यथा आत्मा को व्यर्थ ही पाप मार्ग पर नहीं चलाना चाहता, अर्जुन का यह विचार सुनकर मन्त्रियो के मध्य बैठे हुई ॥ १२९ ॥ वयोवृद्ध मुनिश्रेष्ठ गर्ग भक्ति और कृपा के सहित राजपुत्र को प्रसन्न करते हुए बोले—हे राजपुत्र । यदि आप भले प्रकार से राज्य शासक करना चाहते हैं तो, मेरी बात सुन कर वैसा कीजिए ॥ १३१ ॥ सह्याद्रि पर्वत पर निवास करने वाले त्रैलोक्य पालक दत्तात्रेयजी का आप आराधन कीजिये ॥ १३२ ॥

योगयुक्त महात्मानसर्व्वसमदर्शिनम् ।

विष्णोरशजगद्धातुरवतीर्णधरातले ॥१३३॥

यमाराध्यसहस्राक्ष प्राप्तवान्पद्मात्मन ।

हृतदुरात्मभिर्दैत्यैर्जघानचदिते सुतान् ॥१३४॥

कथमाराधितोदेवैर्दत्तात्रेय प्रतापवान् ।

कथवापहृतदैत्यैरिद्रत्वप्रापवासव ॥१३५॥

दैत्यानादेवतानाचयुद्धमासीत्सुदारुणम् ।

दैत्यानामीश्वरेजभेदेवानाचशचीपतौ ॥१३६॥

तेषानुयुध्यमानानादिव्य संवत्सरोगत ।

ततोदेवा पराभूतादैत्याविजयिनोऽभवन् ॥१३७॥

विप्रचित्तिमुखैर्देवादानवैस्तेपराजिता ।

पलायनकृतोत्साहानिस्तसाहाद्विषज्जये १३८॥

बृहस्पतिमुपागम्यदैत्यसैन्यवधेप्सव ।

अमलयतसहितावालखिल्यै सहर्षिभि ॥१३९॥

दत्तात्रेयमहाभागमन्त्रे पुत्रतपोधनम् ।

विकृताचरणभक्त्यासंतोषयितुमर्हथ ॥१४०॥

जो वे परमयोगी, परमभाग, समदर्शी तथा विश्व रक्षार्थं विष्णु-अश से पृथिवी पर अवतीर्ण हुए हैं ॥ १३३ ॥ जिनकी आराधना करके ही सहस्राक्ष इन्द्र को दैत्यो द्वारा छीने हुए अपने पद की प्राप्ति हुई है ॥ १३४ ॥ अर्जुन ने कहा—देवताओ ने दत्तात्रेयजी की आराधना किस प्रकार की थी और इन्द्र को दैत्यो द्वारा छीने हुए अपने पद की प्राप्ति कैसे हुई थी ॥ १३५ ॥ गर्ग बोले—किसी समय भयकर देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय जम्भ दैत्यो

के और इन्द्र देवताओं के अधिपति थे ॥ १३६ ॥ युद्ध करते हुए उन्हें एक दिव्य सवत्सर व्यतीत होगया और अन्त में देवताओं की पराजय तथा दैत्यों की विजय हुई ॥ १३७ तब विप्रचित्ति आदि प्रमुख दानवोंसे हराते हुए देवगण इधर उधर भागने लगे और विजय के प्रति निरुत्साहित होकर ॥ १३८ ॥ दैत्यों को मारने की इच्छा से बृहस्पतिजी के पास जाकर बालखिल्य ऋषियो सहित मंत्रणा करने लगे ॥ १३९ ॥ बृहस्पतिजी ने कहा—हे देवगण ! अब तुम विकृत आचरण वाले अत्रिपुत्र दत्तात्रेय को भक्ति पूर्वक सतुष्ट करने का प्रयत्न करो ॥ १४० ॥

सर्वोदैत्यविनाशायवरदोदास्यतेवरम् ।

ततोहनिष्यथसुरा सहितान्दैत्यदानवान् ॥१४१॥

हंतु शक्तानसदेहोदत्तात्त्रेयप्रसादत ।

इत्युक्तास्तेतदाजग्मुदत्तात्त्रेयाश्रमसुरा ॥१४२॥

ददृशुश्चमहात्मानक्षातलक्ष्म्यासमन्वितम् ।

उद्गीयमानगन्धर्वे सुरापानरतमुनिम् ॥१४३॥

तेतस्यगत्वाप्रणतिचक्रु सर्वार्थसाधनीम् ।

भक्त्यातस्योपजहुश्चमद्यपस्यसुरादिकम् ॥१४४॥

तिष्ठ तमनुतिष्ठ तियातयातिदिवौकस ।

आराधयामासुरध स्थितास्तिष्ठ तमासने ॥१४५॥

सप्राहदेवान्प्रणतान्दत्तात्त्रेय किमिष्यते ।

मत्तोभवद्भियेनेयशुश्रूषाक्रियतेमम ॥१४६॥

दत्तात्रेयजी सतुष्ट हीकर तुम्हे दैत्यों का विनाश करने वाला वर देगे, उस समय तुम सगठित होकर दैत्यों और दानवों के सहार में समर्थ होगे ॥ १४१ ॥ गर्गजी ने कहा—बृहस्पतिजी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवगण दत्तात्रेयजी के आश्रम में गये ॥४२ ॥ १४२ ॥ उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि वह महात्मा लक्ष्मीजी सहित मद्य-पान में रत है तथा उनके समीप गधर्वगण गान कर रहे हैं ॥ १४३ ॥ उनके निकट जाकर देवगण सर्वार्थ सिद्ध करने वाली स्तुति करते हुए उनके लिये भक्ष्य, भोज्य तथा मालादि एकत्र करने लगे ॥ १४४ ॥ वह बैठते तो यह भी बैठते, वह चलते तो यह भी चलते, इस

प्रकार उनके आसन के नीचे के भाग में बैठ कर देवताओं ने उनका आराधन किया ॥ १४५ ॥ तब दत्तात्रेयजी ने उन देवताओं से कहा—तुम मेरी इस प्रकार सेवा कर रहे हो, इसलिए वताओं कि क्या चाहते हो ? ॥ १४६ ॥

दानवैर्मुनिशार्दूलजभाद्यैर्भूर्भुवादिक्म् ।  
हृतत्रैलोक्यमाक्रम्यक्रतुभागाश्चकृत्स्नश ॥१४७॥  
तद्वधेकुरुबुद्धित्वपरित्राणायनोन्ध ।  
त्वत्प्रसादादभीप्साम पुन प्राप्नु त्रिविष्टपम् ॥१४८॥  
मद्यासक्तोहमुच्छिष्टोनचैवाहजितेन्द्रिय ।  
कथमिच्छथमत्तोपिदेवा शत्रुपराभवम् ॥१४९॥  
अनघम्वजगन्नाथनलेपस्तवविद्यते ।  
विद्याक्षालनशुद्धार्तिनिविष्टज्ञानदीधिते ॥१५०॥  
सत्यमेतत्सुराविद्याममास्तिसमदर्शन ।  
अस्यास्तुयोपित सगादहमुच्चिष्टतागत ॥१५१॥  
स्त्रीसभोगोतिदुःखायसातत्येनोपसेवित ।  
एवमुक्तास्ततोदेवो पुनर्वचनमब्रुवन् ॥१५२॥  
अनघेयमुनिश्रेष्ठजगन्मातानदुष्यति ।  
यासाविद्यातवविभोसर्वज्ञस्यहृदिस्थिता ॥१५३॥  
यथाशुमालासूर्यस्यद्विजत्रडालसगिनी ।  
नदुष्यतिजगन्नाथतथेयवरवर्णिनी ॥१५४॥

देवताओं ने कहा—हे मुनिशार्दूल ! जम्मादि दानवों ने आक्रमण करके भूर्भुवादि तीनों लोकों और सम्पूर्ण यज्ञ भाग को हर लिया है ॥ १४७ ॥ आप उनके सहार में मन लगा कर हमारी रक्षा करिये, आपकी कृपा से हम स्वर्ग को पुन प्राप्त करें यह हमारी इच्छा है ॥ १४८ ॥ दत्तात्रेयजी ने कहा—हे देवगण ! मैं मद्यपान रत, अजितेन्द्रिय और अपवित्र हूँ, तो मेरे द्वारा शत्रुओं के जीते जाने की आशा तुम कैसे कर रहे हो ? ॥ १४९ ॥ देवताओं ने कहा—हे प्रभो ! आपने विद्या से स्वच्छ हुए अन्तःकरण में ज्ञान रूपी रश्मियों को प्रविष्ट किया है, इसलिए आप पाप-रहित एव विषयों से अलिप्त हैं ॥ १५० ॥ दत्तात्रेयजी ने कहा—हे देवगण ! मुझ में विद्या तो है तथा मैं

समदर्शी भी हूँ, परन्तु स्त्री-समर्ग से अपवित्र होगया हूँ, ॥ १५१ ॥ क्योंकि स्त्री-समर्ग अत्यन्त दोष की खान है, यह सुन कर देवताओं ने पुन कहा ॥ १५२ ॥ देवता बोले—हे निष्पाप ! हे मुनिवर ! जो विद्या तुम्हारे सर्वज्ञ के हृदय में स्थित है, उसमें यह दोष को प्राप्त नहीं होती है ॥ १५३ ॥ जैसे सूर्य रश्मियाँ चाण्डालदि के समर्ग-दोष में दूषित नहीं होती, वैसे ही यह जगत्वाता आपके समर्ग से दूषित नहीं हो सकती ॥ १५४ ॥

एवमुक्तस्ततोदेवैर्दत्ताब्जैर्वीर्यदीदम् ।

प्रहस्यत्रिदशान्सर्वान्यद्ये तद्भुवतामत् ॥१५५॥

तदाह्यासुरान्सर्वान्युद्धायसुरसत्तमा ।

इहानयतमद्दृष्टिगोचरमाविलब्यताम् ॥१५६॥

मद्दृष्टिपातहतभुक्प्रक्षीणबलतेजस ।

येननाशमशेषास्तेप्रयातिममदर्शनात् ॥१५७॥

तस्यतद्वचनश्रुत्वादेवैर्दत्त्यामहाबला ।

आह्वायसमाहूताजग्मुर्देवगणाश्रमम् ॥१५८॥

तेहन्यमानादैतैर्देवाःसर्वेभयातुरा ।

दत्तात्रेयाश्रमजग्मु समस्ता शरणार्थिन ॥१५९॥

तमेवविविशुर्दत्त्या कालयतोदिवौकस ।

ददृशुस्तमहात्मानदत्ताब्जैयमदालसम् ॥१६०॥

वामपार्श्वस्थितामिष्टामशेषजगत शुभाम् ।

भार्याचास्यसुचावंगीलक्ष्मीमिदुनिभाननाम् ॥१६१॥

गर्गजी ने कहा—देवताओं के यह वचन सुन कर दत्तात्रेयजी ने कुछ हँसते हुए कहा—यदि तुम्हारा ऐसा ही विचार है ॥ १५५ ॥ तो तुम सब युद्ध के लिए असुरों को यहाँ बुला कर मुझे दिखाओ, इसमें देर मत करो ॥ १५६ ॥ क्योंकि मेरे दृष्टिपात रूप अग्नि से उनका तेज, बल क्षीण हो जायगा और वे तुरन्त मृत्यु को प्राप्त हो जायेंगे ॥ १५७ ॥ गर्गजी ने कहा— उनके ऐसे वचन सुन कर देवताओं ने असुरों का युद्ध के लिए आह्वान किया और महाबली असुरों ने आकर क्रोध पूर्वक देवताओं पर अक्रमण किया ॥ १५८ ॥ तब दानवों की मार से भयभीत हुए देवता दत्तात्रेयजी के आश्रम

में शरण पाने के लिए गये ॥ १५६ ॥ दैत्य भी देवताओं को नष्ट करने के विचार से उसी आश्रम में पहुँचे और उन्होंने वहाँ मत्ता हुए दत्तात्रेयजी को देखा ॥ १६० ॥ तथा उनके वामपार्श्व में स्थित सम्पूर्ण इष्टों के देने वाली उनकी भार्या लक्ष्मीजी को भी उन्होंने देखा ॥ १६१ ॥

नीलोत्पलाभनयनापीनश्रोणिपयोधराम् ।

सुदतीभधुराभापासर्वयोषित्गुणैर्युताम् ॥१६२॥

दृष्ट्वाग्रस्तदादैत्यासाभिलाषमनोभवा ।

नशेकुरुद्धतादैत्यामनसावोढुमातुरा ॥१६३॥

त्यक्त्वादेवान्स्थितानुहर्तुकामाहतौजस ।

प्रेरितास्तेनपापेनह्यासक्तास्तेततीब्रुवन् ॥१६४॥

स्त्रीरत्नमेतत्त्रैलोक्यसारंचेद्विदितभवेत् ।

कृतकृत्यास्तत सर्वेइतिनोभावितमन ॥१६५॥

तस्मात्सर्वेसमुत्क्षिप्यशिविकायासुरार्द्धना ।

आरोप्यस्वमधिष्ठाननयामइतिनिश्चिता १६६॥

सानुरागास्ततस्तेतुमुनेरतिकमागमन् ।

तस्यतायोषितसाध्वीसमुत्क्षिप्यस्मरातुरा ॥१६७॥

शिविकायसमारोप्यसहितादैत्यदानवा ।

शिरसुशिविकाकृत्वास्वस्थानाभिमुखाययुः ॥१६८॥

दैत्यगण उस नीलपद्म के समान नेत्र वाली पीनस्तनी सर्वांग सुन्दरी नारी को ॥ १६२ ॥ देख कर उसको ग्रहण करने की इच्छा करते हुए कामावेग से अधीर हो उठे ॥ १६३ ॥ तथा देवताओं को छोड़ कर उस नारी को हरण करने की इच्छा पूर्वक पाप से मोहित हुए कहने लगे ॥ १६४ ॥ यह स्त्री-रत्न त्रैलोक्य का सार है, हम इस नारी-रत्न को लेकर ही कृतकार्य होंगे ॥ १६५ ॥ इसलिए, हे दानवो ! इन्द्र विषय में चिन्ता न करो, हम इसे पालकी में बैठा कर अपने घर ले चलेंगे ॥ १६६ ॥ गर्गजी ने कहा—उन दैत्यो ने परस्पर इस प्रकार परामर्श किया और दत्तात्रेयजी की पत्नी को उठा कर ॥ १६७ ॥ पालकी में चढ़ा लिया, फिर दैत्य-दानव मिलकर, पालकी को उठा कर अपने स्थान की ओर चल दिये ॥ १६८ ॥

दत्तात्रेयस्तथादेवान्विहस्येदमथाब्रवीत् ।  
 दिष्ट्याचहंतदैत्यानामेपालक्ष्मी शिरोगता ।  
 सप्तस्थानान्यतिक्रम्यलयमन्यमुपेष्यति ॥१६६॥  
 कथयस्वजगन्नाथकेपुस्थानेष्ववस्थिता ।  
 पुरुषस्यफलकिवाप्रयच्छत्यथनश्यति ॥१७०॥  
 नृगापादस्थितालक्ष्मीर्निलयसप्रयच्छति ।  
 सक्थनोश्चसस्थितावस्त्र रत्ननानाविधवसु ॥१७१॥  
 कलत्रदागुह्यसंस्थाक्रोडस्थापत्यदायिनी ।  
 मनोरथान्पूरयतिपुरुषाणाहृदिस्थिता ॥१७२॥  
 लक्ष्मीर्लक्ष्मीवताश्रेष्ठाकठस्थाकठभूषणम् ।  
 अभीष्टवधुदारैश्चतथाश्लेषप्रवामिभि ॥१७३॥  
 मृष्टान्न वाक्यलावण्यमाज्ञामवितथातथा ।  
 मुखस्थिताकवित्वचयच्छत्युदधिसभवा ॥१७४॥  
 शिरोगतासत्यजतितोन्ययातिचाश्रयम् ।  
 सेयशिरोगतादैत्यान्परित्यजतिसांप्रतम् ॥१७५॥

फिर दत्तात्रेयजी ने कुछ हँस कर देवताओं से कहा—हे देवगण ! तुम्हारा भाग्य फिर गया, सप्त स्थान में अतिक्रम करके लक्ष्मी दानवों के मस्तक पर चढ़ गयी है, इसलिए यह उन्हें छोड़ कर दूमरे के पास जायगी ॥ १६६ ॥ देवताओं ने पूछा—हे प्रभो ! लक्ष्मीजी के किस-किस स्थान पर जाने से हित अथवा अहित होता है, यह हमें बताइये ॥ १७० ॥ दत्तात्रेयजी बोले—मनुष्य के पैर में लक्ष्मी रहे तो गृह प्रदान करती है, सक्थिनी अस्थि में रहे तो वस्त्र और विभिन्न प्रकार के रत्न देती है, गुह्य स्थान में रहे तो स्त्री देती है, ॥१७१॥ गोद में रहे तो पुत्र देती है तथा हृदय में निवास करे तो सभी मनोरथों को पूर्ण करती है ॥ १७२ ॥ यदि लक्ष्मी का वास कठ में हो तो कठ भूषण प्राप्त होता तथा प्रवासी प्रियतम, वधु या स्त्री से मिलाप होता है ॥ १७३ ॥ यदि मुख में लक्ष्मी स्थित रहे तो श्रेष्ठ वाक्य लावण्य और कवित्व की प्राप्ति होती तथा आज्ञा सफल होती है ॥ १७४ ॥ यदि मस्तक में स्थित हो तो उसका त्याग कर अन्य का आश्रय लेती है, आज वही लक्ष्मी इन दानवों के

शिर पर चढ गई है, इसलिए इनका परित्याग कर देगी ॥ १७५ ॥

प्रगृह्यास्त्राणि वध्यन्ता तस्मादेते सुरारय ।  
 नभेतव्यं भृशत्वे ते मयानिस्ते जस कृता ॥१७६॥  
 परदारावमशाञ्चिदग्धपुण्याहतौ जस ।  
 तस्मादेते भिहन्यता भवद्भिरविशक्तैः ॥१७७॥  
 ततस्ते विविधै रस्त्रै र्वध्यमाना सुरारय ।  
 शिरःसुलक्ष्म्याप्याक्राता विनेशुरितिन श्रुतम् ॥१७८॥  
 लक्ष्मीश्चोत्पत्य सप्राप्ता दत्तात्रेयमहामुनिम् ।  
 स्तूयमाना सुरै र्सेद्रै र्दैत्यनाशान्मुदान्वितैः ॥१७९॥  
 प्रणिपत्य ततो देवा दत्तात्रेयमहामुनिम् ।  
 जयकृष्णजगन्नाथदैत्यातकहरप्रभो ॥१८०॥  
 नारायणाच्युतानतवासुदेवाक्षयाजर ।  
 त्वत्प्रसादात्सुखलक्ष्मीराज्यसपज्जनार्दन ॥१८१॥  
 शार्ङ्गधन्वश्चक्रपाणे भक्तानानित्यवत्सल ।  
 इति स्तुत्वानाकपृष्ठ यथा पूर्वगता सुरा ॥१८२॥  
 तथा त्वमपि राजेद्रयदिच्छसियथेप्सितम् ।  
 प्राप्तमैश्वर्यमतुलतूर्णमारोधयस्व तम् ॥१८३॥

हे देवगण ! अब तुम भय त्याग कर शस्त्र उठाओ और उन्हे मारो, क्यों कि वे मेरे दृष्टिपात से तेज रहित हो चुके हैं ॥ १७६ ॥ पर नारी के साथ बलात्कार से पुण्य भस्म होता है और पराक्रम की हानि होती है, इसलिए अब तुम शका रहित होकर उनका सहार कर डालो ॥ १७७ ॥ गर्गजी बोले— इसके पश्चात् देवगण तीक्ष्ण अस्त्र-शस्त्रों के द्वारा असुरों का सहार करने लगे, इस प्रकार लक्ष्मी को सिर पर चढाने से असुरों का नाश हो गया, ऐसा सुना गया है ॥ १७८ ॥ फिर लक्ष्मीजी उनके मस्तक से उतर कर दत्तात्रेयजी के ही पास आ गई और दैत्यों के नष्ट होने से प्रसन्नता को प्राप्त हुए सब देवता उनकी स्तुति करने लगे ॥ १७९ ॥ फिर दत्तात्रेयजी को प्रणाम पूर्वक हे कृष्ण ! हे जगन्नाथ ! हे दैत्यों के नाशक ! हे हर ! हे प्रभो ! आपकी जय हो ॥ १८० ॥ हे नारायण, हे अच्युत ! हे अनन्त ! हे वासुदेव ! हे

अक्षय । हे अजर । हे जनार्दन । आपके ही प्रमाद से हमें सुख, लक्ष्मी और राज्य सम्पदा की प्राप्ति हुई है ॥ १८१ ॥ हे शाङ्ग धनुर्धारी । हे चक्र-पाणि । आप सदैव भक्तों पर कृपा करते हैं, इस प्रकार स्तुति करके दैवगण जहाँ से आये थे वही लौट गये ॥ १८२ ॥ इसलिए हे राजेन्द्र । यदि तुम्हें अतुल ऐश्वर्य की कामना है तो उन दत्तात्रेयजी की शीघ्र ही आराधना करो ॥ १८३ ॥

### १६—दत्तात्रेय उपाख्यान

इत्यृपेर्वचनश्रुत्वाकार्तवीर्यो नरेश्वर ।  
 दत्तात्रेयाश्रमगत्वा तभक्त्या मम पूजयत् ॥१॥  
 पादसवाहनाद्येन अर्घ्यार्घाहरणेन च ।  
 स्रक्चदनारिगन्धाबुफलाद्यानयननेन च ॥२॥  
 तथान्नसाधनैस्तस्य उच्छिष्टापोहनेन च ।  
 परितुष्टो मुनिर्भूषतमुवाच तथैव स ॥३॥  
 यथैवोक्ता पुरा देवामद्य भोज्यादिकुत्सनम् ।  
 स्त्रीचेयममपार्श्वस्थेत्येतद्भोगानुकुत्सित ॥४॥  
 सदैवाहनमाभेवमुपरोद्धु त्वमर्हसि ।  
 अशक्तमुपकाराय शक्तमाराधयस्व भो ॥५॥  
 तेनैवमुक्तो मुनिना स्मृत्वा गर्गवचश्चतत् ॥६॥  
 प्रत्युवाच प्रणम्यैनकार्तवीर्यस्ततोर्जुन ।  
 देवस्त्वह्निपुराणोय स्वामायासमुपाश्रित ॥७॥

पुत्र बोला—राजा कार्तवीर्य ने गर्गजी की बात सुन कर दत्तात्रेयजी के आश्रम में जाकर भक्ति भाव पूर्वक उनका पूजन किया ॥ १ ॥ चरण सवाहन करके अर्घ्य, पुष्प, माला, सुगन्धि, जल, फल तथा चन्दनादि उनके निमित्त प्रस्तुत किया ॥ २ ॥ इसी प्रकार अन्नादि लाते और उनका उच्छिष्ट स्वयं भोजन करते, यह देख कर सन्तुष्ट हुए मुनि उनसे उसी प्रकार बोलें ॥ ३ ॥ जैसे पहिले देवताओं के प्रति अपने निन्दित कर्म कहे थे । ऋषि ने कहा—मेरे पास जो यह स्त्री है, मैं इसमें सदैव आसक्त रहता हूँ ॥ ४ ॥ हे



राजन् ! इस प्रकार सदा निन्दित कर्म करता रहने वाला मैं उपकार मे असमर्थ हूँ तो मेरी मेवा से तुम्हे क्या लाभ होगा ? इसलिए समर्थ का ही आराधन करो ॥ ५ ॥ पुत्र बोला—यह मुनकर तथा गर्ग मुनि के वचनो को याद कर के ॥ ६ ॥ कार्तवीर्य ने दत्तात्रेयजी को प्रणाम किया और कहा—हे प्रभो ! आप मुझे इम प्रकार मोहित क्यों करते है ? आप अपनी माया से युक्त है ॥ ७ ॥

अनघस्त्वतथैवेय देवीसर्व भवाग्नि ।  
 इत्युक्त प्रीतिमान्देवोभूयस्त्वप्रत्युवाचह ॥८॥  
 कार्तवीर्यमहावीर्यवशीकृतमहीतलम् ।  
 वरवृणीष्वगुह्य मेत्वयानामयदीरितम् ॥९॥  
 तेनतुष्टि पराजातात्वयद्यममपार्थिव ।  
 येचमापूजयिष्यतिगत्रमाल्यादिभिर्नरा ॥१०॥  
 लक्ष्म्यासमेतगीतैश्चब्राह्मणानातथाञ्चनै ॥११॥  
 वाद्यैर्मनोरमैर्वीणावेणुशखादिभिस्तथा ।  
 तेषामहपरापुष्टिपुत्रदारधनादिकीम् ॥१२॥  
 प्रदास्याम्यवधूतश्चहनिष्याम्यवमन्यताम् ।  
 सत्ववरयभद्र मेवरयमनसेच्छसि ॥१३॥  
 प्रसादसुमुखस्तेहगुह्यनामप्रकीर्तनात् ।  
 यदिदेवप्रसन्नस्त्वतत्प्रयच्छिद्धिमुत्तमाम् ॥१४॥  
 यथाप्रजापालयेयनचाधर्ममवाप्नुयाम् ।  
 परानुस्मरणज्ञानमप्रतिद्व द्वतारणे ॥१५॥

इसलिए आप निष्पाप है यह देवी सम्पूर्ण विश्व की अरणि के समान होने से पाप रहित है, राजा के इस प्रकार कहने पर दत्तात्रेयजी ने प्रसन्न होकर कहा—हे भूमडल को वश मे करने वाले कार्तवीर्यार्जुन ! वर माँगो, तुमने मेरे गुप्त नाम का उच्चारण किया है ॥ ९ ॥ इससे मैं अत्यत सतुष्ट हूँ तथा जो गधमाला आदि के द्वारा मेरी पूजा करते है ॥ १० ॥ तथा सब प्रकार सतुष्ट करते हुए पूजा के वाद्य ॥ ११ ॥ वीणा, वेणु, शखादि वजाते हैं, उनको मैं स्त्री, पुत्र और धनादि के प्रदान द्वारा परम सतोष देता

हैं ॥ १२ ॥ तथा जो अवधूत कहकर मेरा तिरस्कार करते हैं, उनका हनन करता हूँ, इसलिए तुम्हारी इच्छा हो सो माँगो, तुम्हारा मंगल हो ॥ १३ ॥ तुमने मेरे गुप्त नामों का कीर्तन किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अर्जुन बोला—यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझे ऐसी श्रेष्ठ ऋद्धि दीजिये ॥ १४ ॥ जिससे मैं सहज ही सम्पूर्ण प्रजा का पालन करता हुआ पाप-भोगी न बनूँ और शत्रुओं के अनुमरण में मुझे ज्ञान प्राप्त हो। तथा रणक्षेत्र में कोई भी मेरा मामना न कर सके ॥ १५ ॥

सहस्रमाप्तुसिच्छामिवाहूनालघुतागुणम् ।  
 असगागतय सतुशैलाकाशाम्बुभूमिषु ॥१६॥  
 पातालेषुचसर्वेषुवधश्चाप्यधिकान्नरात् ।  
 तथामार्गप्रवृत्तस्यसतुसन्मार्गदेशिका ॥१७॥  
 सतुमेतिथय श्लाघ्यावित्त वान्यत्तथाक्षयम् ।  
 अनष्टद्रव्यताराष्ट्रममानुस्मरणेनच ॥१८॥  
 त्वयिभक्तिश्चदेवास्तुनित्यमव्यभिचारिणी ।  
 यएतेकीर्तिता सर्वेतान्वत्ससमवाप्स्यसि ॥१९॥  
 मत्प्रसादात्प्रभविताचक्रवर्तित्वमैश्वरम् ।  
 प्रणिपत्यततस्तस्मैदत्तालेयायसोर्जुन ॥२०॥

मैं लघुत्व गुण से युक्त सहस्रबाहु हो जाऊँ, जल, थल, पर्वत, आकाश आदि सब स्थानों में निर्बाध गति तथा श्रेष्ठ मनुष्य के हाथ से मृत्यु की अभिलाषा है, मैं उन्मार्ग में प्रवृत्त व्यक्तियों को सन्मार्ग दिखाने की इच्छा करता हूँ ॥ १६-१७ ॥ अक्षय धन-दान एवं आतिथ्य लाभ करूँ, मेरा नाम उच्चारण करने वाला धन हीन न रहे ॥ १८ ॥ आपके पदपद्मों में सदा मेरी भक्ति रहे, दत्तात्रेयजी ने कहा—हे वत्स ! तुम्हारा कहा हुआ सभी होगा ॥ १९ ॥ मेरे प्रसाद से तुम चक्रवर्ती नरेश होगे । पुत्र बोला—फिर अर्जुन ने दत्तात्रेयजी को प्रणाम किया ॥ २० ॥

आनीयप्रकृती सम्यगभिषेकमगृह्णत ।  
 आगताश्चापिगधर्वास्तथैवाप्सरसांगणा ॥२१॥  
 ऋषयश्चवसिष्ठाद्यामेर्वाद्या पर्वतास्तथा ।

गगाद्या सरित सर्वा समुद्रारत्नसभवा ॥२२॥  
 प्लक्षाद्याश्चतथावृक्षादेवावैवासवादय ।  
 वासुकिप्रमुखानागाभिषेकार्थमागता ॥२३॥  
 ताक्ष्याद्या पक्षिणश्चैवपौराजानपदास्तथा ।  
 सभारा सभृता सर्वेदत्तात्रेयप्रसादत ॥२४॥  
 अथासज्वाल्यतैर्वह्निदेवैर्ब्रह्मादिभि सह ।  
 नारायणेनाभिपिक्तोदत्तात्रेयस्वरूपिणा ॥२५॥  
 समुद्रैश्चनदीभिश्चऋषिभिश्चाभिषेचित ।  
 अधोपयामासतदास्थितोराज्येसहैह्य ॥२६॥  
 दत्तात्रेयात्परामृद्धिमवाप्यातिवलान्वित ।  
 अद्यप्रभृतिय शस्त्र मामृतेन्योगृहीष्यति ॥२७॥  
 हतव्य समयादस्यु परहिसारतोपिवा ।  
 इत्याज्ञप्तेनतद्राज्येकश्चिदायुधभृन्नर ॥२८॥

सम्पूर्ण प्रजा को बुला कर अभिषेक कराया, उस समय गधर्व और अप्सराएँ ॥ २१ ॥ वमिष्ठादि ऋषि, सुमेरु आदि पर्वत, गगादि सब नदी और जल से परिपूर्ण सभी समुद्र ॥ २२ ॥ प्लक्षादि सब वृक्ष, इन्द्रादि सब देवता, वासुक्यादि सब नाग ॥ २३ ॥ गरुडादि पक्षी, नगर और नगरवासी तथा सभी लोक दत्तात्रेयजी के प्रसाद से सम्पूर्ण सामग्री सजाये हुए, अभिषेकार्थ वहाँ उपस्थित हुए ॥ २४ ॥ ब्रह्मादि देवताओ ने अग्नि को प्रज्वलित किया तथा दत्तात्रेय रूपी भगवान् नारायण ने अभिषेक किया ॥ २५ ॥ फिर समुद्र और ऋषियो ने अभिषेक किया और 'हैह्य राज्य मे स्थित हो गये' ऐसी घोषणा सर्वत्र की गई ॥ २६ ॥ दत्तात्रेयजी के प्रसाद से अतुलित ऐश्वर्य को प्राप्त हुए महाबली हैह्य ने राज्य मे प्रतिष्ठित होकर आज्ञा दी कि अब से मेरे अतिरिक्त जो कोई भी अस्त्र धारण करेगा ॥ २७ ॥ वह हिंसक या दस्यु मेरे द्वारा मारा जायगा । ऐसी राजाज्ञा सुनकर कोई भी मनुष्य अस्त्र धारी न रहा ॥ २८ ॥

तमृतेपुरुषव्याघ्र बभूवोरुपरक्रमम् ।

सएवग्रामपालोभूत्पशुपाल.सएवच ॥२९॥

क्षेत्रपाल सएवासीद्द्वितीयोनचरक्षिता ।  
 तपस्विनापालयितासार्थपालश्चसोभवत् ॥३०॥  
 दस्युव्यालाग्निशस्त्रारिभयेष्वब्धौनिमज्जताम् ।  
 अन्यासुचैव मग्नानामापत्सुपरवीरहा ॥३१॥  
 सएवसस्मृत-सद्य समुद्धत्ताभवन्नृणाम् ।  
 अनष्टद्रव्यताचासीत्तस्मिञ्छासतिपार्थिवे ॥३२॥  
 तेनेष्ट बहुभिर्यज्ञै समाप्तवरदक्षिणै ।  
 तपश्चतप्तु सुमहत्सग्रामेवातिचेष्टितम् ॥३३॥  
 तस्यर्द्धिमहिमानचदृष्ट्वाप्राहागिरामुनि ।  
 ननूनकार्त वीर्यस्यगतियास्यतिपार्थिवा ॥३४॥  
 यज्ञैर्दानैस्तपोभिर्वासग्रामेचातिचेष्टितै ।  
 दत्तत्वेयाद्दिनेयस्मिन्सप्राप्तेर्द्धिर्नरेश्वर ॥३५॥

सम्पूर्ण पृथिवी के एक कार्तवीर्यार्जुन ही राजा हुए, उस समय वही ग्राम-पालक एव पशु-पालक थे ॥ २९ ॥ वही क्षेत्र, ब्राह्मण और तपस्वियों के रक्षक तथा अर्थ पालक हुए ॥ ३० ॥ वही राजा चोर, सर्प, अग्नि, शत्रु, भयङ्कर ममुद्र या विभिन्न विपत्तियों में पड़े मनुष्यों की रक्षा करने वाले हुए ॥ ३१ ॥ उनके नाम के उच्चारण मात्र से सब की विपत्ति दूर होने लगी और उनके शासन काल में कोई धन हीन न रहा ॥ ३२ ॥ उन्होंने अनेक प्रकार के दक्षिणामय यज्ञ पूर्ण किये तथा वे महान् तप का आचरण करने वाले और युद्ध में अजेय हुए ॥ ३३ ॥ उनकी ऐसी समृद्धि देख कर अगिरा मुनि ने कहा था कि 'इनके समान कोई दूसरा राजा नहीं हुआ ॥ ३४ ॥ तथा यज्ञ, दान, तप या युद्ध प्रसङ्ग में कोई इनके समान नहीं होगा, वे जब दत्तात्रेयजी से अतुलित ऐश्वर्यवान् हुए हैं ॥ ३५ ॥

तस्मिन्तस्मिन्दिनेयागदत्तात्त्रेयस्यसोकरोत् ।  
 तथैवचप्रजा सर्वास्तस्मिन्नहनिभूपते ॥३६॥  
 तस्यर्द्धिपरमादृष्ट्वायागचक्रु समाधिना ।  
 इत्येतत्तस्यमाहात्म्यदत्तात्त्रेयस्यधीमत ॥३७॥  
 विष्णोश्चराचरगुरोरनतस्यमहात्मन ।

प्रादुर्भाव पुराणेपुकथ्यतेशाङ्गधन्वन ॥३८॥  
 अनतस्याप्रमेयस्यशखचक्रगदाभृत ।  
 एतस्यपरमरूपयश्चिन्तयतिमानव ॥३९॥  
 समुखीसचससारात्समुत्तीर्णोचिराद्भवेत् ।  
 सदैववैष्णवानाचक्त्याहसुलभोस्मिभो ॥४०॥  
 पद्मपुष्पफलेनाहपूतिजोमोक्षदोस्मिवै ।  
 इत्येवयस्यवैवाचस्तकथनाश्रयेज्जन ॥४१॥  
 अधर्मस्यविनाशायधर्माधारार्थमेवच ।  
 अनादिनिधनोदेव करोतिस्थितिपालनम् ॥४२॥  
 तथैवजन्मचाख्यातमालर्ककथयामिते ।  
 यथाचयोग कथितोदत्तात्रेयेणतस्यवै ।  
 पितृभक्तस्यराजर्षेरलर्कस्यमहात्मन ॥४३॥

उसी दिन उन्होने दत्तात्रेय का यज्ञ किया, प्रजा ने भी अपने राजा की ॥ ३६ ॥ परम ऋद्धि को देख कर उसी दिन यज्ञ किया, यह उन दत्तात्रेयजी का माहात्म्य है ॥ ३७ ॥ उन चराचर के गुरु, अनन्त, शाङ्गधर, शख, चक्र, गदा धारी दत्तात्रेय रूपी भगवान् नारायण की उत्पत्ति सब पुराणो मे विभिन्न प्रकार से कही गयी है, नारायण के इस रूप का जो मनुष्य चिन्तन करते है ॥ ३८ ॥ वे सुखी होने हुए तुरन्त समार रूपी पाश से मुक्त हो जाते है, उनकी प्रतिज्ञा है कि हे "वैष्णवो ! भक्ति के द्वारा मैं तुम्हारे लिए सदैव सुलभ हूँ, मैं पत्र, पुष्प, फल के द्वारा पूजित होकर मोक्ष देता हूँ" ऐसे भगवान् की शरण मे मनुष्य क्यों न जाय ॥ ४०-४१ ॥ वह अनादि देवता धर्माचरण और अधर्म-विनाश के लिए स्थिति और पालनादि करते है ॥ ४२ ॥ हे पिताजी ! अब आप से अलक ज्ञाह्यण का वृत्तान्त कहता हूँ, वे महात्मा अलर्क ससार प्रसिद्ध राजर्षि और पितृ भक्त थे ॥ ४३ ॥

इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे दत्तात्रेयोपाख्यान नाम सप्तदशोऽध्याय ॥१७॥

१८—कुवल्यास्व उपाख्यान

प्राग्बभूवमहावीर्यं शत्रुजिन्नामपार्थिव ।

तुतोपयस्ययज्ञेषुसोमावाप्त्यापुरदर ॥१॥  
 तस्यात्मजोमहावीर्योबभूवारिविदारण ।  
 नाम्नाऋतुध्वजख्यात सर्वलक्षणसयुत. ॥२॥  
 बुद्धिविक्रमलावण्यैर्गुरुशुक्राश्विनासम ।  
 ससमानवयोबुद्धिसत्त्वविक्रमचेष्टितै ॥३॥  
 नृपपुत्रोनृपसुतैर्नित्यमास्तेसमावृत ।  
 कदाचिच्छास्त्रसद्भावविवेककृतनिश्चय ॥४॥  
 कदाचित्काव्यसलापगीतनाटकसभवै ।  
 तथैवाक्षविनोदैश्चशस्त्रास्त्रविनयेषुच ॥५॥  
 योग्योनियुद्धनागाश्वस्यदनाभ्यासतत्परः ।  
 रेमेनृपेद्रपुत्रोसौनरेद्रतनयैर्वृतै ॥६॥

पुत्र बोला—हे पिताजी ! पुराकाल मे शत्रुजित् नामक एक महाबली राजा थे, उनके यज्ञ मे सोम पान करके इन्द्र अत्यन्त सन्तुष्ट हुए ॥ १ ॥ उनके ऋतुध्वज नामक एक अत्यन्त पराक्रमी तथा विख्यात पुत्र हुआ ॥ २ ॥ वह बुद्धि मे बृहस्पति के तुल्य, विक्रम मे सुरपति के और रूप मे अश्विनी कुमारो के समान थे, वह जिन राज कुमारो से मिलते, वे भी आयु, सत्व, बल, चेष्टा मे उस राजकुमार से कम न थे, वह कभी शास्त्र ज्ञान से उत्पन्न विवेक पूर्वक अबस्थान करते थे ॥ ३-४ ॥ कभी काव्यचर्चा, कभी सगीत, कभी नाट्यादि से प्रसन्न होते, कभी पाश-क्रीडा, कभी शस्त्रास्त्र, कभी विनय भाव ॥ ५ ॥ कभी योग्य पुरुषो से मल्लयुद्ध, कभी गज, अश्व, रथादि की सवारी करते हुए राजपुत्रो से क्रीडा करते ॥ ६ ॥

यथैवहिदिवातद्वद्रात्रावपिमुदायुत ।  
 तेपातुक््रीडतातत्रद्विजभूपविशासुता. ॥७॥  
 समानवयस प्रीत्यारतुमायात्यनेकश ।  
 कस्यचित्त्वथकालस्यनागलोकान्महीतलम् ॥८॥  
 कुमारवागतौनागौपुत्रावश्वतरस्यतु ।  
 ब्रह्मपतिच्छन्नौतरुणौप्रियदर्शनौ ॥९॥  
 तौतैर्नृपसुतै साद्धैतथैवान्यैर्द्विजात्मजै ।

विनोदैर्विविधैस्तत्रतस्थतु प्रीतिसयुतौ ॥१०॥

सर्वेचतेनृपसुतास्तेचब्रह्मविप्रासुता ।

नागराजात्मजौतौचस्नानसवाहनादिकाम् ॥११॥

वस्त्रगधान्नसयुक्ताचक्रुर्भोगभुजिक्रियाम् ।

अहन्यहन्यनुप्राप्तेतौचनागकुमारकौ ॥१२॥

आजग्मतुर्मुदायुक्तौप्रीत्यासूनोर्महीपते ।

सचताभ्यानृपसुत परनिर्वाणमाप्तवान् ॥१३॥

विनोदैर्विविधैर्हास्यसलापादिभिरेवच ।

विनाताभ्यानबुभुजेनसस्नौनपपौमधु ॥१४॥

जैसे आनन्द से दिन व्यतीत होता, वैसे ही रात्रि भी व्यतीत होती थी, जहाँ वह खेलते थे, वह सैकड़ो राज पुत्र, ब्राह्मण या वैश्यो के बालक ॥ ७ ॥ आ आकर खेलने लगे, इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर पृथिवी मे नागलोक मे ॥ ८ ॥ नागराज अश्वतर के दो पुत्र ब्राह्मण के वेश मे आये, वे दोनो ही युवा तथा प्रिय दर्शन थे ॥ ९ ॥ यह भी उन राजपुत्रो और ब्राह्मण पुत्रो के साथ विभिन्न प्रकार के विनोद करते हुए प्रीति पूर्वक वहाँ रहने लगे ॥ १० ॥ वह राजपुत्र, ब्रह्मपुत्र, वैश्य पुत्र और दोनो नागपुत्र सभी एक साथ स्नान, विमान पर चढना ॥ ११ ॥ वस्त्र धारण गधानुलेपन और भागानुसार भोजन करने लगे, इस प्रकार राजपुत्र की प्रीति से प्रसन्न हुए दोनो नाग पुत्र वहाँ नित्य प्रति आने जाने लगे ॥ १२-१३ ॥ उनके विविध प्रकार के आमोद-प्रमोद, हास्य-सलापादि से सुखी हुए वे उनके बिना भोजन, स्नान आदि भी नही करते थे, ॥ १४ ॥

नरेमेचनजग्राहशास्त्राण्यात्मगुणद्धये ।

रसातलेचतौरात्रिविनातेनमहात्मना ॥१५॥

निश्वासपरमौनीत्वाजग्मतुस्तदिनेदिने ।

मर्त्यलोकेपराप्रीतिर्भवतोकेनपुत्रकौ ॥१६॥

सहेतिचप्रलपितौतावुभौनागदारकौ ।

दृष्टयोरत्रपातालेबहूनिदिवसानिमे ॥१७॥

दिवारजन्यामेवोभौपश्यामिप्रियदर्शनौ ।

इतिपित्रास्वयपृष्टौप्रणिपत्यकृताजली ॥१८॥

प्रत्यूचतुर्महाभागानुरगाधिपते सुतौ ।

पुत्र शत्रुजितस्तातनाम्नाख्यातऋतध्वज. ॥१९॥

रूपानावर्जवोपेत श्रोमानीप्रियवद ।

अनावृतकथोवाग्मीविद्वान्मैत्रोगुणाकर । २०॥

तथा क्रीडा और गुण वृद्धि के लिए शस्त्र भी नहीं उठाते थे, तथा वे नागपुत्र भी उम राजपुत्र के बिना रात्रिकाल ॥ १५ ॥ रसातल में दीर्घ श्वास लेने हुए व्यतीत करने ओर दिन में उनके पाम आते, कुछ काल इस प्रकार व्यतीत होने पर एक दिन नागराज अश्वत ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा— हे पुत्रो ! मर्त्यलोक के प्रति तुम्हारी ऐसी प्रीति क्यों हुई है ? बहुत विनो से तुम्हें मैं दिन के समय पाताल लोक में नहीं देखता ॥ १६-१७ ॥ रात्रि होने पर ही तुम दिखायी देते हो, इसका क्या कारण है, इस प्रकार पूछने पर उन दोनों ने अपने पिता से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए कहा—हे तात ! मर्त्यलोक में राजा शत्रुजित् के पुत्र ऋतुध्वज हे ॥ १८-१९ ॥ वह स्वरूप बान्, सरल चित्त शूर, प्रियभापी, यशस्वी, विद्वान्, मित्रता के योग्य तथा गुणों की खान है ॥ २० ॥

मान्यमानयिताधीमान्हीमान्विनयभूषण. ।

तस्योपचारसप्रीतिसभोगापहतमन ॥२१॥

नागलोकेऽन्यलोकेवानरतिविदतेपित ।

तद्वियोगेननौतातनिशापातालशीतला ॥२२॥

परितापायतत्सगश्चाल्लादायरविर्दिवा ।

पुत्र पुण्यवतोऽन्य सयस्यैवभवद्विध ॥२३॥

परोक्षस्यापिगुणिभि क्रियतेगुणकीर्तनम् ।

सतिशास्त्रविदोऽशीलासतिमूर्खा सुशीलिन ॥२४॥

शास्त्रशीलेसमन्थेयस्मिन्धन्यतरतुतम् ।

यस्यमित्रगुणान्मित्राण्यमित्वाश्चपराक्रमम् ॥२५॥

कथयतिसदासत्सुपुत्रवास्तेनवैपिता ।

तस्योपकारिण कच्चिद्भुवद्भुचामभिवाञ्छितम् ॥२६॥



किञ्चिन्निष्पादितवत्सौपरितोषायचेतस ।  
 सधन्योजीवितंतस्यतस्यजन्मसुजन्मन ॥२७॥  
 यस्यार्थिनोनविमुखामित्रार्थेनचदुर्बल ।  
 मद्गृहेयत्सुवर्णादिरत्नवाहनमासनम् ॥२८॥  
 यद्वान्यत्प्रीतयेतस्यतद्देयमविशकया ।  
 धिक्त्वस्यजीवितपु सोमित्राणामपकारिण ॥२९॥

वह मानी, बुद्धिमान्, लज्जावाला तथा विनय से युक्त है उनकी प्रीति मे हमारा मन आकर्षित होकर ॥ २१ ॥ नागलोक, पृथिवी अथवा किसी भी अन्य स्थान मे प्रमन्न नहीं रहता । पाताल की शीतल रात्रि भी उनके वियोग मे ॥ २२ ॥ हमारे लिए ताप दायिनी होती है और उनके सग मे सूर्य के ताप से तप्त दिन भी हमको हर्ष जनक होता है । पिता ने कहा—वह पुण्यवान् पुत्र धन्य है, क्योंकि तुम्हारे जैसे गुणवान् भी ॥ २३ ॥ पीछे से जिनका गुणगान करने है, अनेक शास्त्र ज्ञानी भी बुरे स्वभाव वाले तथा अनेक मूर्ख भी सुशील होने है ॥ २४ ॥ मेरे विचार मे वह राजपुत्र धन्य है क्योंकि जिसकी मित्रता का गुण मित्र द्वारा और पराक्रम शत्रु द्वारा प्रकट होता है ॥ २५ ॥ उमी पुत्र के द्वारा पिता पुत्रवान् कहा जाता है, तुमने उस उपकार करने वाले के लिये कुछ विचार भी किया है ? ॥ २६ ॥ हे पुत्र ! उम मित्र की सतुष्टि के लिये तुमने कुछ कार्य किया है ? इम जगत् मे वही धन्य है और उसी का जन्म सफल है ॥ २७ ॥ जो कापना वालो को विमुख नहीं करता और मित्र के प्रति भी दुर्बल नहीं है, इसलिए मेरे गृह मे स्वर्ण, रत्न, वाहन, आसन इत्यादि ॥ २८ ॥ जो कुछ भी है, उमे उनकी प्रसन्नता के लिए दे सकते हो क्योंकि मित्रो का अपकार करने वालो को धिक्कार है ॥ २९ ॥

प्रतिरूपमकुर्वन्व्योजीवामीत्यवगच्छति ।  
 उपकारसुहृद्वर्गेष्वपकारचशत्रुषु ॥३०॥  
 नृमेघोवर्षतिप्राजास्तस्येच्छतिसदोन्नतिम् ।  
 कितस्यकृतकृत्यस्यकर्तुं शक्येतकेनचित् ॥३१॥  
 यस्यसर्वार्थिनोगेहेसर्वकामै सदाचिता ।  
 यानिरत्नानितद्देहेपातालेतानिन कुत ॥३२॥

वाहनासनयानानिभूषणान्यवराणिच ।

विज्ञानयज्ञतत्रास्तितदन्यत्नविद्यते ॥३३॥

प्राज्ञानामप्यसौतातसर्वसदेहहृत्तम ।

एकंतस्यास्तिकर्त्तव्यमसाध्यंतच्चनोमतम् ॥३४॥

हिरण्यगर्भगोविदशर्वादीनावरादृते ।

तथापिश्रोतुमिच्छामितस्ययत्कार्यमुत्तमम् ॥३५॥

उपकारी मित्र के प्रति उपकार न करके जो जीवित रहते हैं, उनका जीवन भी असफल है, जो पुरुष बन्धुवर्ग के उपकार और शत्रु वर्ग के अपकार रूप जल को सींचते हैं, उन्हीं की उन्नति का साधन देवता करते हैं, पुत्र ने कहा—वह स्वयं ही कृतकृत्य है, उनका क्या उपकार कर सकते हैं ? ॥ ३०-३१ ॥ जिनसे याचक इच्छित पदार्थ द्वारा सदा पूजित होते हैं उनका उपकार करने की सामर्थ्य हममें नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ जो रत्न हैं, वह पाताल में भी उपलब्ध नहीं है ॥ ३२ ॥ उनके जैसे वाहन, आसन, यान, आभूषण, वसन हमारे यहाँ नहीं है और उनके जैसा विज्ञान और कही भी नहीं हो सकता ॥ ३३ ॥ वह पंडितों का भी सदेह दूर करने में समर्थ है, हाँ, उनका एक कार्य है, परन्तु वह हमारे द्वारा साध्य नहीं हो सकता ॥ ३४ ॥ हिरण्य गर्भ भगवान् गोविन्द तथा शिवादि के अतिरिक्त वह किसी के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता, पिता ने कहा—उनके उस श्रेष्ठ कार्य को मैं सुनना चाहता हूँ ॥ ३५ ॥

असाध्यमथवासाध्यकिचासाध्यविपश्चिताम् ।

देवत्वममरेशत्वतत्पूज्यत्वचमानवा ॥३६॥

प्रयातिवाञ्छितचान्यद्दृढयेव्यवसायिन ।

नाविज्ञातनचागम्यनाप्राप्यदिविचेहवा ॥३७॥

उद्यतानामनुष्याणांयत्चित्तेन्द्रियात्मनाम् ।

योजनानासहस्राणियातिगच्छन्पिपीलिक ॥३८॥

अगच्छन्वैनतेयोपिपदमेकनगच्छति ।

क्वभूतलक्वचध्रौव्यस्थानयत्प्राप्तवान्ध्रुव ॥३९॥

उत्तानपादनृपते पुत्र.सद्भू.मिगोचर. ।

तत्कथ्यतामहाभागौकार्यवान्येनपुलकौ ॥४०॥

सभूपालसुत.साधुर्येनानृण्यलभेतवाम् ।

तेनाख्यातमिदतातपूर्ववृत्त महात्मना ॥४१॥

वह कार्य साध्य हो या अमाध्य, दृढतर उद्योगी पुरुष देवत्व अथवा इन्द्रत्व के पूज्य भाव को भी प्राप्त कर सकते हैं ॥ ३६ ॥ दृढ पुरुष ही मनो-वाछिन पा सकते हैं स्वर्ग से भी अविजात, अगम्य और अवाप्य कोई वस्तु नहीं है ॥ ३७ ॥ मन, आत्मा और इन्द्रिय को वश में करने वाले पुरुष मनोरथ को प्राप्त कर लेते हैं । देखो चीटी किननी छोटी होती है, किन्तु अधिक उद्योग वाली होने के कारण चलते-चलते महस्र योजन तक जा सकती है ॥ ३८ ॥ पक्षिराज गरुड उद्योग न कर के एक पग भी नहीं जा सकते, जो उद्योग नहीं करते उनके लिए कुछ भी शक्य नहीं, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पृथ्वी में होकर ही अत्यंत दुर्लभ स्थान को प्राप्त हो गये, कहाँ वह ध्रुव का स्थान और कहाँ वह पृथ्वी ? इसलिए जिम प्रकार उस राजपुत्र का कार्य हो मके, वह बताओ ॥ ३९-४० ॥ तथा तुम भी मित्र-ऋण से बच सको । पुत्र बोले—हे तात ! उन महात्मा राजपुत्र ने इस प्रकार बताया था ॥ ४१ ॥

कौमारकेयथातस्यवृत्त सद्वृत्तशालिन ।

तस्यशत्रुजिततातपूर्वकश्चिद्द्विजोत्तम ॥४२॥

गालवोभ्यागमद्धीमान्गृहीत्वातुरगोत्तमम् ।

प्रत्युवाचचराजानसमुपेत्याश्रममम ॥४३॥

कोपिदैत्याधमोराजन्विध्वसयतिपापकृत् ।

तत्तद्रूपसमास्थायसिहेभवनचारिणाम् ॥४४॥

अन्येषाचातिकायानामर्हनिशमकारणात् ।

समाधिध्यानयुक्तस्यमौनव्रतरतस्यच ॥४५॥

तथाकरोतिविघ्नानियथानेच्छामिपार्थिव ।

दग्धु कोपाग्निनासद्य समर्थास्तवयनतु ॥४६॥

दु.खार्जितस्यतपसोव्ययमिच्छामिपार्थिव ।

एकदानुमयाराजन्नतिनिर्विण्णचेतसा ॥४७॥

तत्क्लेशितेननि श्वासोनिरीक्ष्यांबरमुज्जित. ।

ततोवरतलात्सद्य पतितोयतुरगम् ॥४८॥

उन राजपुत्र की कुमारावस्था में जो हुआ सो सुनो, शत्रुजित् नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है ॥ ४२ ॥ एक समय गालव नामक द्विजवर ने सुन्दर अश्व लेकर आश्रम में आकर राजा से कहा ॥४३॥ कोई पाप कर्मवाला दैत्याधम मेरे आश्रम में आकर विध्वंस करना है, वह मिह, गज अथवा अन्य जन्तु के रूप में आकर मेरे समाधि मग्न होने या मौन व्रत रखने पर मेरा मन विचलित कर देता है, हे राजन् ! मैं स्वयं ही उसे अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर सकता हूँ ॥ ४४-४५ ॥ परन्तु, मैं ऐसा करके अपनी अधिक दिनों में दुःख पूर्वक सचित तपस्या को क्षीण नहीं करना चाहता हूँ हे राजन् ! एक दिन मैंने अत्यंत दुःखित हृदय में ॥ ४७ ॥ क्लेश युक्त होकर आकाश की ओर अपना दीर्घश्वाम छोड़ा, जिमसे यह अश्व उमी समय आकाश में आ गिरा ॥ ४८ ॥

वाक्चाशरीरिणीग्राह्नरनाथशृणुष्वतत् ।

अश्रात सकलभूर्मेर्वलयतुरगोत्तम ॥४९॥

समर्थं क्रातुमर्केणतवायप्रतिपादित ।

पातालावरतोयेषुनास्यप्रतिहतागति ॥५०॥

समस्तदिक्षुव्रजतौनसग पर्वतेषुच ।

यतोभूलयसर्वमश्रातोयचरिष्यति ॥५१॥

तत कुवलोनाम्नाख्यातिलोकेषुयास्यति ।

क्लिश्नात्यर्हनिशपापोयश्चत्वादानवाधम ॥५२॥

तमप्येनममारुह्यद्विजश्रेष्ठहनिष्यति ।

शत्रुजिन्नामभूपालस्तस्यपुत्रऋतध्वज ॥५३॥

प्राप्यैतदश्वरत्नचख्यातिमेतेनयास्यति ।

सोहत्वामनुसंप्राप्तस्तपसोविघ्नकारिणम् ॥५४॥

तनिवारयभूपालभागभाङ् नृपतिर्यत ।

तदेवदश्वरत्नतेमयाभूपनिवेदितम् ॥५५॥

पुत्रमाज्ञापयतथायथाधर्मो न लुप्यते ।

सतस्यवचनाद्राजातवैपुत्रमृतध्वजम् ॥५६॥

तदश्वरत्नमारोप्यकृतकौतुकमगलम् ।

अप्रैपयतधर्मात्मागालवेनसमतदा ॥५७॥

स्वमाश्रमपदसोपितमादायययौमुनि ॥५८॥

उम समय जो आकाशवाणी हुई उमे सुनो—हे द्विजवर ! तुम्हे जो अश्व प्राप्त हुआ है, वह बिना कही रुके, सूर्य के ममान सर्वत्र गमन करने मे समर्थ है, पाताल, आकाश अथवा जल, कही भी इसकी गांत का अवरोध नहीं होता ॥ ४६—५० ॥ यह सब दिशाओ और पर्वतो तथा पृथ्वीवलय सर्वत्र बिना रुके गमन कर सकता है, इसलिए यह सभी लोको मे 'कुवलय' नाम से प्रसिद्ध होगा और जो दानवाधम तुम्हारे लिए दिन-रात्रि क्लेश उपस्थित करता है ॥ ५१-५२ ॥ उमे इम अश्व पर चढ कर शत्रुजित् राजा के पुत्र ऋतुध्वज मारेगे ॥ ५३ ॥ तथा इम अश्वरत्न द्वारा अत्यन्त ख्याति को प्राप्त होंगे, इसीलिए मै यहाँ आया हूँ, अब आप भी उग्र तप मे विघ्न उपस्थित करने वाले को ॥ ५४ ॥ निवारण करे और मेरे द्वारा प्रदत्त इम अश्वरत्न को लेकर ॥ ५५ ॥ अपने पुत्र को ऐसी आज्ञा दीजिये, जिसमे धर्म लुप्त न हो पावे, उम ब्राह्मण की यह वात मुनकर राजा शत्रुजित् ने अपने पुत्र ऋतुध्वज को ॥ ५६ ॥ मगलाचार आदि करा कर उम अश्व पर चढाया और गालव मुनि के साथ भेज दिया ॥ ५७ ॥ जिन्हे साथ लेकर मुनि भी अपने आश्रम की ओर चल दिये ॥ ५८ ॥

### १६—मदालसा उपाख्यान (१)

गालवेनसमगत्वानृपपुत्रेणतेनयत् ।

कृततत्कथ्यतापुत्रौविचित्रायुधयोविना ॥१॥

सगालवाश्रमेरम्येतिष्ठन्भूपालनदन ।

सर्वविघ्नोपशमनचकारब्रह्मवादिनाम् ॥२॥

वीर कुवलययाश्रं तवसतगालवाश्रमे ।

मदावलेपोपपतोनाजानादानवाश्रम ॥३॥

ततस्तगालवंविप्रसध्योपासनतत्परम् ।

सौकररूपमास्थायप्रधर्षयितुमागम् ॥४॥

मुनिशिष्यैरथोत्कुष्टे शीघ्रमारूह्यतहयम् ।

अन्वधावद्वराहतनृपपुत्र.शरासनी ॥५॥  
 आजघानचबाणेनचन्द्रार्धाकारवर्चसा ।  
 आकृष्यवलवच्चापचारुचित्रोपशोणितम् ॥६॥  
 नाराचाभिहत शीघ्रमात्मत्राणपरोमृग ।  
 गिरिपादपसवाधासोत्यक्रामन्महाटवीम् ॥७॥

पिता ने कहा—गालव मुनि के साथ जाकर राजकुमार ने क्या किया था, वह मुझे बताओ, यह वर्णन अत्यन्त विचित्र है ॥ १ ॥ पुत्र बोले—राज-पुत्र ऋतुध्वज ने गालव मुनि के आश्रम में निवास करके ब्रह्मवादी मुनियों के सभी विघ्न नष्ट कर दिये थे ॥ २ ॥ गालव मुनि के आश्रम में निवास करने वाले वीर कुवलयाश्व के रहने की बात को नहीं जान सका ॥ ३ ॥ इसलिए वह शूकर का रूप धारण करके सध्योपासन में लीन गालव मुनि के शरीर से अपना शरीर रगड़ने लगे ॥ ४ ॥ उस समय मुनिशिष्यो ने उच्च स्वर से चीत्कार किया, तब उस अश्व पर चढ़कर राजपुत्र भी उस शूकर को लक्ष्य करते हुए दौड़े ॥ ५ ॥ और सुन्दर धनुष को खींच कर अर्धचन्द्राकार बाण से उस पर प्रहार किया ॥ ६ ॥ उस बाण से आहत हुआ दैत्य आत्म रक्षार्थ पर्वत और महावन में घूमने लगा ॥ ७ ॥

तमन्वधावद्वेगेनतुरगोसौमनोजव ।  
 चोदितोराजापुत्रेणपितुरादेशकारिणा ॥८॥  
 अतिक्रम्याथवेगेनयोजनानिसहस्रश ।  
 धरण्याविवृतेगतेनिपपातलघुक्रम ॥९॥  
 तस्यानतरमेवाथसचाश्वीनृपते सुत ।  
 निपपातमहागतेतिमिरौघसमावृते ॥१०॥  
 ततोनादृश्यतमृग सतस्मिन्नाजसूनुना ।  
 प्रकाशचसपातालमपश्यत्तत्रर्चाचिषा ॥११॥  
 ततोपश्यत्ससौवर्णप्रासादशतसकुलम् ।  
 पुरदरपुरप्रख्यपुरप्राकारशोभितम् ॥१२॥  
 तत्प्रविश्यसनापश्यत्तत्कचिन्नरपुरे ।  
 भ्रमताचततोदृष्टातत्रयोषित्वरान्विता ॥१३॥

सापृष्टातेनतन्वगीप्रस्थिताक्वेतिकस्यवा ।  
 नोवार्चाक्चित्प्रासादमारोहचभामिनी ॥१४॥  
 सोप्यश्वमेकतोवद्वानामैवानुसमारवै ।  
 विस्मयोत्फुल्लनयनोनि शकोनृपते मुत ॥१५॥

वह वेगवान् अश्व भी राजकुमार की प्रेरणा से उमका पीछा करने लगा ॥ ८ ॥ फिर वह हजार योजन लॉघ कर पृथिवी के गर्भ में स्थित एक विशाल गर्त में गिर पडा ॥ ९ ॥ उम का पीछा करने हुए अश्वारोही राजकुमार भी उम घोर अधिकार पूर्ण गर्त में जा गिरे ॥ १० ॥ उम समय राजपुत्र को वह शूकर दिखाई न दिया और जब वह प्रकाशमय पानाल में प्रविष्ट हुए तब भी उन्हें वह दैत्य दिखाई न पडा ॥ ११ ॥ उम समय वहाँ उन्होंने सैकड़ों स्वर्णिम भवनो से युक्त परकोटे वाले, अमरावती के समान अत्यन्त शोभायमान एक नगरी देखी ॥ १२ ॥ उसमें प्रविष्ट होने पर उन्हें वहाँ एक भी मनुष्य दिखाई न दिया, परन्तु शीघ्रता पूर्वक इधर उधर घूमती हुई एक स्त्री को उन्होंने देखा ॥ १३ ॥ राजकुमार ने उससे पूछा—तुम किमकी भेजी हुई, किसके पास जा रही हो ? परन्तु, उस स्त्री ने कुछ उत्तर न दिया और वह वेग पूर्वक एक भवन पर चढ गई, राजकुमार ने भी अश्व को एक स्थान पर बाँध दिया और उम स्त्री का पीछा करने के लिए उसी भवन पर चढ गये ॥ १४-१५ ॥

ततोपश्यत्सुविस्तीर्णोपर्यकेसर्वकाचने ।  
 निपण्णाकन्यकामेकाकामयुक्तारतियथा ॥१६॥  
 विस्पष्टेदुमुखीमुभ्रू पीनश्रोणीपयोधराम् ।  
 विवाधरोडीतन्वगीनीलोत्पलविलोचनाम् ॥१७॥  
 रक्ततुंगनखाश्यामामृदुताम्रकराद्रिकाम् ।  
 करभोरु सुदशनानीलसूक्ष्मस्थिरालकाम् ॥१८॥  
 तादृष्ट्वाचारुसर्वांगीमनगागलतामिव ।  
 सोमन्यत्पार्थिवसुतस्तारसातलदेवताम् ॥१९॥  
 साचदृष्ट्वैवतबालानीलकु चितमूर्धजम् ।  
 पीनोर स्कधवाहु तममस्तमदनशुभा ॥२०॥

उत्तस्थौचगुभाचाराचित्तक्षोभमवापसा ।  
 लज्जाविस्मयदैन्यानासद्यस्तन्वीवशगता ॥२१॥  
 कोयदेवोथयक्षोनुगधर्वोवोरगोपिवा ।  
 विद्याधरोवासप्राप्त कृतपुण्यापतिर्नर ॥२२॥

वहाँ पहुँच कर उन्होंने देखा कि रति के समान साक्षात् चन्द्रमुखी परम सुन्दरी एक नारी स्वर्ण-निर्मित एक पर्यंक पर लेट रही है, वह कृशाङ्गी नीलपद्म के समान नयन वाली है ॥ १६-१७ ॥ उसके नख लाल रंग के कुछ ऊँचे, देह कोमल, नवीनावस्था, हाथ-पावो के तलुए लाल रङ्ग के, दोनो ऊरु गज-मुण्ड के समान, सुन्दर शन्तावलि और अलके नीलवर्ण की थी ॥ १८ ॥ कामलता के समान उम मर्वाग सुन्दरी रमणी को देखकर राजपुत्र ने उसे पाताल की अधिष्ठात्री समझा ॥ १९ ॥ उस रमणी ने भी घुँघराले केश, विशाल वक्ष स्थल, पुष्ट स्कंध, और लम्बे बाहु वाले राजकुमार को देख कर सोचा कि यह रतिपति अनग है ॥ २० ॥ तब वह अत्यन्त भाग्य शालिनी रमणी महमा धुमित होकर उठी और लज्जा, विनय तथा दीनता के वण में होकर ॥ २१ ॥ विचार करने लगी कि यह देवता, यक्ष, गधर्व, नाग, विद्याधर अथवा कोई पुण्यवान् मनुष्य है, जो यहाँ आया है ॥ २२ ॥

एवविचित्यवहुधानि श्वस्यचमहीतले ।  
 उपविश्यतदाभेजेसामूर्छीमिदिरेक्षणा ॥२३॥  
 सोपिकामशराघातमवाप्यनृपते सुत ।  
 तासमाश्रवासयामासनभेतव्यमितिब्रुवन् ॥२४॥  
 साचछीयातदादृष्टापूर्वतेनमहात्मना ।  
 तालवृत्तमुपादायपर्यवीजयदाकुला ॥२५॥  
 समाश्वस्तातदापृष्टातेनसामोहकारणम् ।  
 किचिल्लज्जान्विताबालातस्यैसख्यैन्यवेदयत् ॥२६॥  
 साचास्मैकथयामासनृपपुत्रायविस्तरात् ।  
 मोहस्यकारणसर्वतद्दर्शनमुद्भवम् ॥२७॥  
 यथातयामसाख्याततद्वृत्तान्तंचभामिनी ।  
 विश्वावसुरितिख्यातोदिविगधर्वराट्प्रभो ॥२८॥



वह लालनेत्र वाली रमणी विभिन्न प्रकार से विचार करती हुई दीर्घ श्वाभ छोड़ कर मूर्च्छित हो गई ॥ २३ ॥ यह देख कर राजकुमार भी 'भय न करो' कहने हुए उसे नमझाने लगे ॥ २४ ॥ जो स्त्री राजपुत्र ने प्रथम देखी थी, वह ताड का पखा हाथ में लेकर उस रमणी की हवा करने लगी ॥ २५ ॥ फिर राजपुत्र ने उसकी मूर्च्छा का कारण पूछा तो उस लज्जावती ने उसे कुछ न बता कर अपनी मर्खी में नव वान कधी ॥ २६ ॥ राजपुत्र द्वारा पूछे जाने पर उस मर्खी ने उनके देखने में मूर्च्छित होने का तथा उस रमणी का विस्तार सहित वृत्तान्त कहा ॥ २७ ॥ उसने जो कहा था सो मुनिये मर्खी बोली— एक विश्वावसु नामक विद्वान् गन्धर्वाज स्वर्ग में रहते हैं ॥ २८ ॥

तस्येयमात्मजानुभ्रन्स्निान्यानामदालमा ।

वज्रकेतो मृतश्रोत्रोदानवो विदारण ॥२९॥

पातालकेतुर्विख्यात पातालातरमथय ।

तेनेयमुद्यातगनाकुत्रामायातमोमर्याम् ॥३०॥

अपहृत्यसमानीतावातेयदुष्टयुद्धिना ।

आगामिन्यात्रयोदश्यामुद्यतिक्विलामुर ॥३१॥

सतुनार्हचिन्तार्वागीशुद्रोवेदश्रुतियथा ।

अतीतेचदिनेवात्मात्मव्यापादनोद्यताम् ॥३२॥

मुरभि प्राहनायत्वाप्राप्स्यतेदानवावस ।

मर्त्यलोकमनुप्राप्तयत्नमेत्स्यनेशरै ॥३३॥

सतेभतमिहाभागेत्यचिरेणभविष्यति ।

अहृत्वस्या मर्खीनाम्नाकु डलेतिमनस्विनी ॥३४॥

यह मदालमा नाम वाली उन्नी की कन्या है, एक दिन यह उद्यान में क्रीडा रत थी, तभी वज्रकेतु दानव का पुत्र पातालकेतु अपनी तामसी माया के द्वारा ॥ २९-३० ॥ इसे हरण कर लाना और आगामी त्रयोदशी को इसके साथ विवाह करेगा ॥ ३१ ॥ परन्तु वह इस मौदर्यमयी के लिए योग्य पात्र नहीं है, यह कल जिस समय आत्मघात हेतु तत्पर हुई थी ॥ ३२ ॥ तभी मुरभि ने कहा कि यह दानव तुम्हें नहीं पा सकेगा, जो पुरुष मर्त्य लोक से भाकर बाणों में इसे मारेगा ॥ ३३ ॥ वही तुम्हारा स्वामी होगा, मैं इसकी

कुण्डला नाम त्वी सती ह ॥ ३४ ॥

मुताविध्यवन पत्नीवीरपुष्करमालिन ।

हतेभर्तृरिग् भेत्तनीर्थनीर्थमनुव्रता ॥३५॥

नराभिदित्ययागत्यापरलोकार्थमुद्यता ।

पातालकेतुर्दृष्टात्माशाराहवपुगस्थित ॥३६॥

केनापिविद्वोवाणेनगुनीना नाराकारणे ।

तथाहृतत्वतोन्विप्यत्वग्निहन्निहागता ॥३७॥

मत्तनेवनकेनापिताडिनोदोष्टचमावरन् ।

दध्नमूच्छगिरमद्येनतत्कारणशृणु ॥३८॥

त्वयिप्रीतिपत्नीवात्तदर्शनादेवमानद ।

देवपुत्रोदमेचाहवावप्ररूपाङ्गिनिति ॥३९॥

भायिचान्यविद्विनायेतविद्वसदानव ।

एतस्मात्कारणान्मोहमहान्तमियमागता ॥४०॥

यावज्जीव्यचनत्वगीतुश्चमेवोपभोक्ष्यति ।

त्यय्यस्य्राहृदयगनिभन्तचान्योभविष्यति ॥४१॥

यातर्ज्जीवमतोतु खनुरभ्यानान्यथावच ।

अहृत्वस्याप्रमौप्रत्यादु खितासमागता ॥४२॥

मैं विद्यवान की मनस्विनी पुत्री तथा वीर पुष्करमाली की भार्या हूँ, मेरे पति की मृत्यु शत्रु के द्वारा हुई थी, अब मैं तीर्थ-नीर्थ में दिव्यगति से यात्रा करती हूँ, उम दुःखान्त पातालकेतु ने आज शूकर का रूप धारण किया था ॥ ३५-३६ ॥ उसे किन्ती पुरुष ने मुनियों के रक्षणार्थ वाण से बीधा है, यह सत्य है या नहीं, इसकी खोज में यहाँ आई थी ॥ ३७ ॥ यहाँ आकर देखा कि उम अधम को किन्ती ने अवश्य ही मारा है, अब इसकी मूर्च्छा का भी कारण सुनो ॥ ३८ ॥ आपको देखते ही यह आपके प्रति अत्यन्त प्रीतिमती हुई है, क्योंकि आप देव पुत्र के समान मनोहर और वाणी से गुणज है ॥ ३९ ॥ परन्तु, इस दानव को जिन पुरुष ने बीधा है, यह उनके अतिरिक्त अन्य किसी की पत्नी नश्री बन सकती। इसलिए यह अत्यन्त मोहित हुई है ॥ ४० ॥ क्योंकि यह आपके प्रति अनुरक्त हुई है और अन्य पुरुष इसका पति होगा, इस लिए

इसे जीवन पर्यन्त दुःख ही भोगना होगा ॥ ४१ ॥ क्योंकि मुनि का वचन कभी मिथ्या नहीं होता, इसलिए जीवन पर्यन्त दुःख भोगना, न दुःखिन वित्त में इसके स्नेहवश ही यहाँ आई हूँ ॥ ४२ ॥

यतोविशेषो नैवास्तिस्वप्नस्त्रीनिज्जदेहो ।

यद्येपाभिमतवीरपतिमाप्नोतिशोभना ॥४३॥

ततस्त्वहनप कुर्यानिव्येकीकेतचेतसा ।

त्वनुकोवाविमार्थवासप्राप्तोवगहामते ॥४४॥

देवोदैत्योनुगधर्व पन्नग किन्नरोपिवा ।

नह्यत्रमानुपगतिर्नैहृत्मानुगीरति ॥४५॥

तत्त्वमाख्याहिकोमिन्वयर्थेवावितथनया ।

यन्मापृच्छसिधर्मज्ञोऋस्त्वकिं प्राप्तमागत ॥४६॥

तच्छृणुष्वामलप्रज्ञेकथयाम्यादिनस्तत्र ।

गज्ज शत्रुजित पुत्र पित्नामप्रेपित शत्रे ॥४७॥

मुनिरक्षणमुद्दिश्यगालवाश्रमागत ।

कुर्वतोममरक्षाचमुनीनाम्रमचारिणाः ॥४८॥

विघ्नार्थमागत कोपिशौकरवपुनाम्भितः ।

मयासविटोवाणेनचद्राड्यकिरवर्चरा ॥४९॥

क्योंकि मैं इसके और अपने देह में पृथक्त्व नहीं जानती यदि इसे अपनी इच्छानुसार पति मिल जाय ॥ ४३ ॥ तो मैं स्वस्थ मन में तप करूँ । हे महामते ! तुम कौन हो ? यहाँ क्यों आये हो ? ॥ ४४ ॥ क्या तुम देवता, दैत्य, गधर्व, नाग या उरग हो ? क्योंकि मनुष्य का तो गरीर ही ऐसा नहीं होता, जिसमें वह यहाँ आ सके ॥ ४५ ॥ इसलिए जैसे मैंने अपना सत्र वृत्तान्त सुनाया है वैसे ही तुम भी अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त मन्त्र सुनाओ । कुवल्याश्रम बोले—तुमने पूछा है कि तुम कौन हो और कहाँ क्यों आये हो ? ॥ ४६ ॥ वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, मुनो ! मैं राजा शत्रुजित् का पुत्र हूँ और अपने पिता की प्रेरणा से ॥ ४७ ॥ मुनिद्वो के रक्षणार्थ गालव मुनि के आश्रम में रह कर मुनियों की रक्षा करता था ॥ ४८ ॥ उसी समय एक शूकर उनके कर्म में विघ्न उपस्थित करने को वहाँ आया और मैंने उसे अर्धचन्द्र बाण से

बीध दिया ॥ ४६ ॥

अपक्रान्तिवेगेनतमम्प्रनुगतोहयी ।  
पपातसहनागर्त्तं सक्रोशोश्चश्चमामक ॥५०॥  
सोहमश्च समारूढस्तनस्येक परिभ्रमन् ।  
प्रकाशमामादितवान्पृष्ठाचनवर्तामया ॥५१॥  
पृष्ठाचनचमेकिञ्चिद्भ्रुवत्यादत्तमृत्तमम् ।  
त्वाचेवानुप्रविष्टोऽस्मिन्प्रासादमुत्तमम् ॥५२॥  
इत्येतत्कथितमत्यन्तदेवोहनदानव ।

स्रगोनगधर्व किन्नरान्नाचिस्मिते ॥५३॥  
समस्ता पूज्यपक्षावेदवाद्याममकुडल ।  
मनुष्योस्मिन्विश्रान्तिनवर्त्याःकहिचिन् ॥५४॥  
तत प्रहृष्टासाकन्यासञ्जावदगमुत्तमम् ।  
लज्जाजडवीक्षमाणान्किन्नोनाचभामिनी ॥५५॥  
तत्सखीपुनरप्यनाप्रहृष्टाप्रत्युवाचह ।  
यथावत्कथिततेनसुखावचनानुगम् ॥५६॥

तब वह अत्यन्त वेग में दाउ आर मैं भी अश्वारोहण पूर्वक उसका पीछा किया, फिर वह एक त्रिगाल गर्त्त में गिरा और मैं भी उसका पीछा करता हुआ अपने अश्व सहित उसमें गिर गया, परन्तु अपने अश्व पर चढा हुआ चलता रहा और इस प्रकाशमय स्थान मैं आकर तुम्हें देखा ॥ ५०-५१ ॥ तुमसे पूछने पर तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तब मैं तुम्हारे पीछे-पीछे इस भवन में चला आया ॥ ५२ ॥ यह मैंने सत्य ही कहा है, मैं देव, दानव पन्नग, गधर्व अथवा किन्नर में से कोई भी नहीं हूँ ॥ ५३ ॥ मैं मनुष्य हूँ देवता इत्यादि तो सभी मेरे पूज्य हैं, तुम मेरे मनुष्य हो ने में किसी प्रकार का सदेह मत करो ॥ ५४ ॥ पुत्रों ने कहा-हांपता, तब वह कन्या मदालसा अत्यन्त हर्षित होकर लज्जा से मोन हुई सखी की ओर देखने लगी ॥ ५५ ॥ तब सखी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर मदालसा से कहा—हे सखि ! तू सुरभि के वचन में तत्पर है, इन्होंने यथार्थ वृत्तान्त कहा है, फिर वह राजकुमार से बोली ॥ ५६ ॥

वीरसत्यमसदिग्धंभवताभिहितवच ।  
 नान्यत्रहृदयह्यस्यादृष्ट्वास्थैर्यप्रयास्यति ॥१७॥  
 चद्रमेवधिकाकाति समुपैतिरविप्रभा ।  
 भूतिर्धन्यधृतिर्धीरक्षातिरभ्येतिचोत्तमम् ॥१८॥  
 त्वयैवविद्धोसदिग्धसपापोदानवाधम ।  
 मुरभि सागवामाताकथमिथ्यावदिष्यति ॥१९॥  
 तद्धन्येयमभाग्याचत्वत्वमवधमवेत्यवै ।  
 कुरुष्ववीरयत्कार्यविधिनैवममाहितम् ।६०॥  
 परवानहमित्याहराजपुत्र सदापितु ।  
 सचापितत्क्षणात्प्राप्तोनिगृहीतसमित्कुश ।  
 मदालमाया सप्रीत्याकु डलागौग्रेणच ॥६२॥  
 प्रज्वाल्यपावकहुत्वामत्रवित्कृतमगलाम् ।  
 वैवाहिकेविधौकन्याप्रतिपाद्यायथागतम् ॥६३॥

कुण्डला ने कहा—हे वीर ! आपने जो कुछ कहा है वह सत्य न होता तो यह आपके दर्शन मात्र से ही अपने हृदय में स्थिरता को क्यों प्राप्त होती ? ॥ ५७ ॥ क्योंकि चन्द्रमा को ही अधिक कान्ति और सूर्य को ही अधिक प्रभा प्राप्त है, ऐश्वर्य पुरुष को धन्य करता है, धृति धीर को और शान्ति श्रेष्ठ पुरुष को ही प्राप्त होती है ॥ ५८ ॥ इसलिए आपने ही इम दानवाधम को विद्ध किया है, इममे मदह नहीं, गोमाता सुरभि कभी मिथ्या नहीं बोल सकती ॥ ५९ ॥ इसलिए आपके साथ मम्बन्ध प्राप्त करके यह सखी सौभाग्यवती और धन्य हुई है, अब आप विधिवत् कर्त्तव्य का अनुष्ठान करिये ॥ ६० ॥ पुत्रो ने कहा—हे पिता ! राजपुत्र उससे बोले—मैं पराधीन हूँ, पिता की आज्ञा के बिना इस बाला से विवाह कैसे कर सकता हूँ ! इस पर कुण्डला ने कहा है, यह देवकन्या है, आप इसके साथ विवाह कीजिये, तब राजपुत्र ने स्वीकृति दी और विवाह के लिए तत्पर हुए, उस समय मदालसा ने अपने कुल गुरु तुम्बरु का स्मरण किया ॥ ६१ ॥ तभी तुम्बरु समिध और कुश लेकर वहाँ आगए ॥ ६२ ॥ और घृताहुति देकर अग्नि को प्रज्वलित करके विधि पूर्वक मदालसा और राजपुत्र का विवाह सम्पन्न कराया और फिर अपने

स्थान को चले गये ॥ ६३ ॥

जगामतपसेधीमान्स्वमाश्रमपदतत ।  
 साचाहतासखीवालाकृतार्थास्मिवरानने ॥६४॥  
 सयुक्तामनुनादृष्ट्वात्वामहरूपशालिनीम् ।  
 तपस्तप्स्येहमनुलनिर्व्यलीकेनचेतसा ॥६५॥  
 तीर्थाबुध्रौतपापाचभवित्रीनेदृशीयथा ।  
 तचाहराजपुत्रसाप्रथयोपनतवच ॥६६॥  
 गतुकामानिजमखीस्नेहविक्लवभापिणी ।  
 पुभिरप्यमितप्रज्ञेनोपदेशोभवद्विधे ॥६७॥  
 दातव्य किमुतस्त्रीभिरतो नोपदिशामिते ।  
 कित्वस्यास्तनुमध्याया स्नेहाकृष्टेनचेतसा ॥६८॥  
 त्वयाविश्रभिताचास्मिस्मारयाम्यरिसूदन ।  
 भर्त्तव्यारक्षितव्याचभार्याहिपतिनासदा ॥६९॥  
 धर्मार्थकामससिद्धयैभार्याभर्त्तुं सहायिनी ।  
 याचभार्याचभर्त्ताचपरस्परमनुव्रतौ ॥७०॥

वह अपने आश्रम में तप करने के लिए जब चले गये तब कुण्डला ने मदालसा से कहा—कि अब मैं कृतार्थ हो गई ॥ ६४ ॥ हे रूपवती ! तुझे इनके साथ मिली देखकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई, अब मैं निर्विकार मन से तपस्या करूँगी ॥ ६५ ॥ अब मुझे फिर इस प्रकार न रहना पड़े, इसलिए तीर्थ जल से स्नान कर पाप-रहित होऊँगी, फिर उसने राजकुमार से नम्रता पूर्वक कहा ॥ ६६ ॥ इच्छित स्थान में जाने को तत्पर अपनी सखी के स्नेह से व्याजुल कुण्डला ने कहा—हे अत्यन्त बुद्धिमान् ! आपके समान पुरुष को ज्ञानी पुरुष भी उपदेश देने में ममर्थ नहीं है ॥ ६७ ॥ मैं तो स्त्री हूँ, आपको उपदेश नहीं देती, फिर भी मेरा मन अपनी सखी के स्नेह में आकर्षित है ॥ ६८ ॥ हे शत्रुनाशक ! आप पर विश्वास करती हुई मैं आपको याद दिलाती हूँ कि पति को पत्नी की सदैव रक्षा करनी चाहिये ॥ ६९ ॥ पत्नी भी पति की सहायिका होती है और धर्म, अर्थ तथा काम की सिद्धि के लिए दोनों ही परस्पर वशीभूत रहते हैं ॥ ७० ॥

तदाधर्मार्थकामानात्रयाणामपिसगतम् ।  
 कथभार्यामृतेधर्ममर्थवापुरुष प्रभो ॥७१॥  
 प्राप्नोतिकाममर्थवातस्यात्रितयमाहितम् ।  
 तथैवभर्तारमृतेभार्याधर्मादिसाधने ॥७२॥  
 नसमर्थात्रिवर्गोयदापत्यसमुपाश्रिता ।  
 देवतापितृभृत्यानामतिथीनाचपूजनम् ॥७३॥  
 नपु भि शक्यतेकत्तुमृतेभार्यान्ृपात्मज ।  
 प्राप्नोपिचार्योमनुजैरानीतोपिनिजगृहम् ॥७४॥  
 क्षयमेतिविनाभार्याकुभार्यासग्रहेपिवा ।  
 कामस्तुनस्यनैवास्तिप्रत्यक्षेणोपलक्ष्यते ॥७५॥  
 दपत्यो सहधर्मोणत्रयीधर्ममवाप्नुयात् ।  
 पुत्राणायोनिरन्यावैनान्यनोभार्ययाविना ।  
 पितृन्पुत्रैस्तथैवान्नसाधनैरतिथीनपि ॥७६॥  
 पूजाभिरमरास्तद्वत्साध्वीभार्यानरोवति ।  
 स्त्रियाश्चापिविनाभर्त्राधर्मकामार्थसतति ॥७७॥

तभी धर्म, अर्थ और काम का मिद्धि सभव है, यह तीनों धर्म पत्नी मे समाहित होने से, जैसे पत्नी के बिना कभी धर्म, अर्थ ॥ ७१ ॥ प्राप्त करने मे समर्थ नहीं होता वैसे ही धर्मादि के साधन मे पति के बिना पत्नी भी ॥ ७२ ॥ समर्थ नहीं होती, क्योंकि धर्म, अर्थ और काम पति-पत्नी दोनों के ही आश्रित है । हे राजकुमार ! देवता, पितर भृत्य और अतिथियो का सत्कार ॥ ७३ ॥ न हो तो धर्माचरण नहीं हो सकता तथा पुरुष द्वारा अनायास उपाजित धन भी गृह मे लाने पर ॥ ७४ ॥ यदि पत्नी न हो अथवा कुभार्या हो तो वह सब नष्ट हो जाता है, पत्नी के बिना, न होने वाला यह कार्य तो प्रत्यक्ष ही है ॥ ७५ ॥ यदि स्त्री-पुरुष दोनों ही समान धर्म को पाले तभी, अर्थ, काम मे समर्थ होते है, साध्वी पत्नी को प्राप्त करके पुत्रोत्पादन द्वारा पितरों को तथा अन्नदि से अतिथियो को ॥ ७६ ॥ और पूजन द्वारा देवताओ को प्रसन्न करने मे समर्थ होते है, स्वामी के बिना नारी के भी धर्म और काम का भले प्रकार विस्तार नहीं हो सकता ॥ ७७ ॥

नैवतस्मात्त्रिवर्गोयदापत्यमधिगच्छति ।  
 एतन्मयोक्त युवयोर्गमिष्यामियथेप्सितम् ॥७८॥  
 वर्धत्त्वमनयासाद्ध धनपुत्रसुखायुषा ।  
 इत्युक्त्वासपरिष्वज्यस्वसखीतनमस्यच ॥७९॥  
 जगामदिव्ययागत्यायथाभिप्रेतमात्मन ।  
 सोपिशत्रुजित पुत्रस्तामारोप्यतुरगमम् ॥८०॥  
 निर्गतुकाम पातालाद्विज्ञातोदनुसभवै ।  
 ततस्तै सहसोत्क्रुष्ट ह्लियतेह्लियतेत्विति ॥८१॥  
 कन्यारत्नयदानीतदिव पातालकेतुना ।  
 तत परिघनिस्त्रिशगदाशूलशरायुधम् ॥८२॥  
 दानवानाबलप्राप्तसहपातालकेतुना ।  
 निष्ठतिष्ठेतिजल्पतस्तेतदादानवोत्तमा ॥८३॥  
 शरवर्षेस्तथाशूलैर्ववर्षुर्नृपनदनम् ।  
 सतुशत्रुजित पुत्रस्ततस्तान्प्रतिवीर्यवान् ॥८४॥

यह त्रिवर्ग दोनो मे ही आश्रित है, यही मेरा कहना है, अब मुझे आज्ञा दीजिये, जिससे मे अपने इच्छित स्थान मे चली जाऊ ॥ ७८ ॥ मेरा आशीर्वाद है कि आप इससे युक्त होकर धन, पुत्र, आयु और सुख मे वृद्धि को प्राप्त हो नागपुत्रो ने कहा-इस प्रकार कहती हुई कुण्डला अपनी सखी को आलिंगन और राजकुमार को नमस्कार करके ॥ ७९ ॥ दिव्यगति से अपने इच्छित स्थान को गई और ऋतुध्वज ने मदालमा को अश्व पर चढा कर ॥ ८० ॥ जैसे ही पाताल से निकलना चाहा, वैसे ही दानवो को उसका पता लग गया कि 'स्वर्ग' से जिस कन्या को पाताल केतु लाया था, उसे हरण किये ले जा रहा है, यह कहते हुए दानव चीत्कार करने लगे और पातालकेतु के साथ मिल कर दानव सेना परिध, खड्ग, गदा, शूल, बाण इत्यादि ॥ ८१-८२ ॥ आयुधो को ग्रहण कर ठहरो, ठहरो, कहने हुए ॥ ८३ ॥ राजकुमार पर शस्त्र-वर्षा करने लगे ॥ ८४ ॥

चिच्छेदशरजालेनप्रहसन्निवलीलया ।

क्षणेनपातालतलमसिशक्त्यष्टिसायकै ॥८५॥



छिन्नं सछन्नमत्यर्थमृतुध्वजशरोत्करै ।  
 ततोस्त्र त्वाष्ट्रमादायचिक्षेपप्रतिदानवान् ॥८६॥  
 तेनतेदानवा सर्वेसहपातालकेतुना ।  
 ज्वालामालातितीव्रेणस्फुटदस्थिचयास्तदा ॥८७॥  
 निर्द्ग्धा कापिलतेज समासाद्येवसागरा ।  
 तत सराजपुत्रोश्चीनिहृत्यामुरसत्तमान् ॥८८॥  
 स्त्रीरत्नेनसमतेनसमागच्छत्पितु पुरम् ।  
 प्रणिपत्यचनत्सर्वसतुपित्रेन्यवेदयत् ॥८९॥  
 पातालगमनचैवकु डलायाश्चदर्शनम् ।  
 तद्वन्मदालमाप्रामिदानवैश्चापिसगरम् ॥९०॥  
 वधश्चतेपामस्त्रेणपुनरागमनतथा ।  
 इतिश्रुत्वापितातस्यचरिनचात्रचेतस ॥९१॥  
 प्रीतिमानभवच्चैनपरिष्वज्याहचात्मजम् ।  
 सत्पुत्रेणत्वयापुत्रतारितोहमहात्मना ॥९२॥

तब शत्रुजित् के अत्यन्त बली पुत्र ने अपने बाणों से उनके सब शस्त्र बात की बात में काट डाले और उनके बाणों से कट-कट कर गिरे शस्त्रास्त्रों से पातालतल ॥ ८५ ॥ भर गया, तब राजकुमार ने बड़े-बड़े बाण चलाये और फिर त्वाष्ट्र अस्त्र लेकर दानवों पर छोड़ा ॥ ८६ ॥ उम ज्वाल-माला वाले भयकर अस्त्र ने सभी दानवों के सहित पातालकेतु की हड्डियों तोड़ डाली ॥ ८७ ॥ और वह तुरन्त ही, जैसे कपिल मुनि के तेज से सगरपुत्र भस्म हुए थे, उमी प्रकार भस्म हो गये, इस प्रकार दैत्य क्रूल का नाश करके वह राजकुमार स्त्री के सहित अश्व पर चढ़ कर अने नगर में आये और अपने पिता को प्रणाम पूर्वक सम्पूर्ण वार्त्ता सुनायो ॥ ८८-८९ ॥ पाताल में जाना, कुण्डला का देखना, मदालसा का प्राप्त होना, दैत्यों के साथ युद्ध ॥ ९० ॥ अस्त्र से उनका सहार और पुन वापिस लौटना आदि सब वृत्तान्त कहा, जिसे सुन कर वह सुन्दर चित्त वाले राजा ॥ ९१ ॥ अत्यन्त प्रसन्न हुए और पुत्र को आलिगन पूर्वक बोले कि हे सत्पुत्र ! तूने मुझे तार दिया ॥ ९२ ॥

भयेभ्योमुनयस्त्रातायेनसद्धर्मचारिणा ।  
 मत्पूर्वे ख्यातिमानीतमयाविस्तारितपुन ॥६३॥  
 पराक्रमवतावीरत्वयातद्बहुलीकृतम् ।  
 यदुपात्तयश पित्राधनवीर्यमथापिवा ॥६४॥  
 तन्नहापयतेयस्तुसनरोमध्यम स्मृत ।  
 तद्वीर्यादधिकयस्तुपुनरन्यत्स्वशक्तित ॥६५॥  
 निष्पादयतितप्राज्ञावदतिनरमुत्तमम् ।  
 य पित्रासमुपात्तानिधनवीर्ययशाजिवै ॥६६॥  
 न्यूनतानयतिप्राज्ञास्तमाहु पुरुषाधमम् ।  
 तन्मयाब्रह्मणत्वाणकृतमासीद्यथात्वया ॥६७॥  
 पातालगमनयच्चयच्चासुरविनाशनम् ।  
 एतदभ्यधिकवत्सतेनत्वपुरुषोत्तम ॥६८॥

जिके द्वारा मुनियो की रक्षा हुई उमी सत्पात्र द्वारा मै भी तर गया,  
 मेरे पूव पुरुष जिससे विद्यान हुए और मैने भी जिसका विस्तार किया  
 ॥ ६३ ॥ वह यश तुम्हारे द्वारा और भी वृद्धि को प्राप्त हुआ, जो यश, बल  
 अथवा धन पिता के द्वारा उपार्जित है ॥ ६४ ॥ उसकी रक्षा करने वाला  
 पुरुष मध्यम है परन्तु जो उसे अपनी शक्ति से बढ़ाता है ॥ ६५ ॥ उसे पडित-  
 जन उत्तम पुरुष कहते है । तथा जो पिता द्वारा उपार्जित यश, बल धन  
 को ॥ ६६ ॥ नष्ट करता है, अधम कहा जाता है, पहिले मैने तुम्हारे समान  
 ब्राह्मणो का रक्षण मात्र किया था ॥ ६७ ॥ तुमने पाताल मे जाकर असुरो का  
 नाश और ब्राह्मणो की रक्षा की, इस प्रकार मुझसे अधिक कार्य किया है,  
 इसलिए तुम उत्तम पुरुष हो ॥ ६८ ॥

तद्धन्योस्म्यथवानत्वमहमेवगुणाधिक ।  
 त्वापुत्रमीदृशप्राप्यश्लाघ्यपुण्यवतामपि ॥६९॥  
 नसत्पुत्रकृताप्रीतिमन्य प्राप्नोतिमानव ।  
 पुत्रेणनातिशयितोय प्रज्ञादानविक्रमै ॥१००॥  
 धिक्वतस्यजन्मय पित्रालोकेविज्ञायतेनर ।  
 यत्पुत्रात्ख्यातिमभ्येतितस्यजन्मसुजन्मनः ॥१०१॥

आत्मज्ञानीयतोधन्योमध्य पितृपितामहै ।  
 मातृपक्षेणमालाचख्यातियानिनराधम ॥१०२॥  
 तत्पुत्रधनवीर्यस्त्वविवर्धस्वसुखेनच ।  
 गधर्वननयाचेयमावियुज्यतुवैत्वया ॥१०३॥  
 इतिपिवाबहुविश्रप्रियमुक्त्वापुन पुन ।  
 परिष्वज्यस्वमावाममभार्य मविमर्जित ॥१०४॥  
 मतयाभार्ययामावर्गमेतत्रपितु परे ।  
 अन्येषुचतथोद्यानवनपर्वतसानुषु ॥१०५॥  
 श्वश्रूश्वशुरयो पादाप्रणिपत्यचसाद्युभा ।  
 प्रात प्रातस्तनस्तेनप्रणिपत्यमुमध्यमा ॥१०६॥

हे पुत्र ! तू धन्य हो, तुम्हारे जैसे अधिक गुण वाले पुत्र को पाकर मैं पुण्यवानो मे अधिक श्लाघा के योग्य हुआ हूँ ॥ १०२ ॥ जो पुरुष पुत्र के द्वारा प्रजा, दान अथवा पराक्रम से वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, उम पुत्र से उत्पन्न प्रीति का लाभ नहीं हो सकता ॥ १०० ॥ पिता के द्वारा जो ख्याति अर्जित करे, उसके जन्म को धिक्कार है, परन्तु पुत्र के द्वारा ख्याति का अर्जन करने वाला पुरुष श्रेष्ठ जन्म वाला होता है, ॥ १०१ ॥ अपने नाम से विद्यान होने वाला पुरुष धन्य है, मातृपक्ष में क्यानि पाने वाला पुरुष नराधम होता है ॥ १०२ ॥ हे पुत्र तू धन, बल और सुख से सदा वृद्धि को प्राप्त होओ और इस गधर्व कुमारी से कभी तुम्हारा वियोग न हो ॥ १०३ ॥ पिता के ऐसे वचन सुन कर राजकुमार अपनी पत्नी महित अपने निवास स्थान को गये ॥ १०४ ॥ तथा मदालमा के साथ भवन, उद्यान, वन, पर्वत आदि में क्रीडा करने लगे ॥ १०५ ॥ तथा वह शुभमयी मदालमा भी श्वशुर के चरणों की वदना करती हुई अपने पति के साथ रहने लगी ॥ १०६ ॥

इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे मदालसाख्याने एकोनविंशोऽध्याय ।

## २०—मदालसा उपाख्यान (२)

तत कालेबहुतित्येगतेराजापुन सुतम् ।

हिप्रगच्छाशुविप्राणात्राणायचरमेदिनीम् ॥१॥

अश्वमेतसमारुह्यप्रात प्रातर्दिनेदिने ।  
 आवाधाद्विजमुख्यानामन्वेष्टव्यासदैवहि ॥२॥  
 दुर्वृत्ता सतिशतशोदानवा पापबुद्धय ।  
 तेभ्योनस्याद्यथावाधामुनीनात्वतथाकुरु ॥३॥  
 सतथोक्तस्तदापिन्नातथाचक्रेनृपात्मज ।  
 परिक्रम्यमहीकृत्स्नाववदेचरणौपितु ॥४॥  
 अहन्यनिसप्राप्तेपूर्वाह्णे नृपनदन ।  
 ततश्चशेषदिवसतयारेमेसुमध्यया ॥५॥  
 एकादातुचरन्सोथददर्शयमुनातटे ।  
 पातालकेतोरनुजतालकेतु कृताश्रमम् ॥६॥  
 मायावीदानव सोथमुनिरूपसमाश्रित ।  
 सप्राहराजपुत्र तपूर्ववैरमनुस्मरन् ॥७॥

नागपुत्रो ने कहा—कुछ काल व्यतीत होने पर राजा शत्रुजित् ने अपने पुत्र ऋतुध्वज से कहा—हे पुत्र ! तुम ब्राह्मणों के रक्षणार्थ जाकर पृथिवी में विचरण करो ॥ १ ॥ प्रतिदिन प्रातः काल इम घोड़े पर चढ़कर श्रेष्ठ विप्रों के विघ्नो को दूर करो ॥ २ ॥ सैकड़ों पापात्मा एव दुष्कर्मों दानव मुनियों के कार्य में विघ्न उपस्थित न कर पावे, वही यत्न करो ॥ ३ ॥ इस प्रकार राजा की आज्ञा प्राप्त कर, वह नित्य प्रति पूर्वाह्न काल में पृथिवी में भ्रमण करके पिना के चरणों की बन्दना करने और शेष दिन में पत्नी के सहित क्रीडा करते ॥ ४-५ ॥ एक समय इमी प्रकार भ्रमण करने में उन्होंने पातालकेतु के छोटे भाई तालकेतु को यमुनातट स्थित आश्रम में अवस्थान करने देखा ॥ ६ ॥ वह मुनि रूप धारण करके रहता था, पुरानी शत्रुता का स्मरण करके वह राजकुमार से बोला ॥ ७ ॥

राजपुत्रब्रवीमित्वातत्कुह्वयदीच्छसि ।  
 नचतेप्रार्थनाभग कार्य सत्यप्रतिश्रव ॥८॥  
 यक्षयेयज्ञेनधर्मायकर्त्तव्याश्चमयेष्टय ।  
 चितयेतन्नकर्त्तव्यानास्तिमेदक्षिणायत ॥९॥  
 तत प्रयच्छमेवीरदक्षिणार्थेस्वभूषणम् ।

यदेतत्कठलग्नतेरक्षचेमममाश्रमम् ॥१०॥  
यावदतर्जलेदेववरुणयादसापत्तिम् ।  
वैदिकैर्वारुणैर्मन्त्रै प्रजानापुष्टिहेतुकै ॥११॥  
अभिष्टूयत्वरायुक्त ममभ्येमीतिवादिनम् ।  
तप्रणम्यतत प्रादात्मतस्मैकठभूषणम् ॥१२॥  
प्राहचैनभवान्यातुनिर्व्यलीकेनचेतसा ।  
स्थास्यामितावदत्तैवतवाश्रमसमीपत ॥१३॥  
तवादेशान्महाभागयावदागमनतव ।  
नतेवक्रञ्चिदात्राधाकरिप्यतिमयिस्थिते ॥१४॥  
विश्रब्धस्त्वमुनिश्रेष्ठकुर्व्वचमनोगतम् ।  
एतदुक्त्वनस्ततस्तेनसममञ्जनटीजले ॥१५॥

हे राजकुमार ! यदि तूम चाहो तो मैं जो कहता हूँ, वह करो, मैं जो कि आपने कभी किसी की प्रार्थना को अमान्य नहीं किया है ॥ ८ ॥ हे राजकुमार ! मैं यज्ञ करूँगा तथा इष्टि और अग्नि का चयन करूँगा, परन्तु मैं दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ ॥ ९ ॥ इसलिए, सुवर्ण दान के लिए अपना यह कठा मुझे दो और आश्रम की रक्षा करो ॥ १० ॥ मैं वैदिक वारुण मन्त्र के द्वारा वरुणदेव का जल में स्तवन करके जब तक यहाँ न लौट आऊँ तब तक तुम्हें इस आश्रम की रक्षा करनी है ॥ ११ ॥ मैं शीघ्र ही आऊँगा, ऐसा कहते हुए मुनि को प्रणाम करके राजकुमार ने अपना कठा उतार कर उन्हें दे दिया ॥ १२ ॥ और बोला—हे महाभाग ! आप विश्वस्त होकर जाइये, आपके आने तक मैं इसी आश्रम के निकट रहूँगा ॥ १३ ॥ आप जब तक नहीं लौटते तब तक आपकी आजानुसार मैं यही रहूँगा, मेरे रहते हुए आपके कार्य में कोई विघ्न नहीं करेगा ॥ १४ ॥ हे मुनिवर ! आप शकारहित मन से जाकर इच्छित कर्म सम्पादन कीजिये, राजपुत्र के यह वचन सुन कर वह मायामुनि तालकेतु नदी के जल में मग्न हो गया ॥ १५ ॥

अरक्षत्सोपितस्यैवमायाविहितमाश्रमम् ।  
गत्वाजलाशयात्तस्मात्तालकेतुश्चतत्पुरम् ॥१६॥  
मदालसाया प्रत्यक्षमन्येषाचैतदुक्तवान् ।

वीर कुवलययाश्वोमौममाश्रमममीपत ॥१७॥  
 केनापिदुष्टद्वैत्येनकुर्वन्नक्ष्मातपस्विनाम् ।  
 युध्यमानोयथाशक्तिनिघ्नन्ब्रह्मद्विपोयुधि ॥१८॥  
 मायामाश्रित्यपापेनभिन्न शूलेनवक्षसि ।  
 अत्रयमाणेनतेनेददत्त मेकठभूषणम् ॥१९॥  
 प्रापितश्चाग्निसयोगनश्वेशूद्रतापसै ।  
 कृतार्तहंपाशब्दोवैलस्त साश्रुविलोचन ॥२०॥  
 नीत सोश्वश्चतेनैवदानवेनदुरात्मना ।  
 एमन्मयानृशसेनदृष्टदुष्कृतकारिणा ॥२१॥

उमके माया से निर्मित आश्रम की राजपुत्र रक्षा करने लगे, फिर जल से निकल कर तालकेतु राजा शत्रुजित् के नगर में जाकर ॥ १६ ॥ मदालसा आदि के समक्ष बोला कि वीर कुवलायाश्व मेरे आश्रम के निकट ॥ १७ ॥ तपस्वियों की रक्षा कर रहे थे, तभी उन्हें किसी दुष्ट दानव से युद्ध करना पड़ा और उन्होंने ब्रह्मद्वेषता शक्ति का असुर पर प्रहार किया ॥ १८ ॥ परन्तु, उम दानव के माया रूपी शूल से हृदय विदीर्ण होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन्होंने यह कथा भूषण मरते समय मुझे दिया है ॥ १९ ॥ तथा वन में शूद्र तपस्वियों ने उनका अग्नि सस्कार किया है और अश्रुपूर्ण दुःखित ॥ २० ॥ अश्व उसी दानव ने ले लिया, यह सम्पूर्ण घटना उस नृशम के द्वारा होती हुई देखी है ॥ २१ ॥

यदलानतरकृत्यकुरष्वोत्तरकालिकम् ।  
 हृदयाश्वासनचैतद्गृह्यताकण्ठभूषणम् ॥२२॥  
 नास्माकहिसुवर्णेनकृत्यमस्तितपस्विनाम् ।  
 इत्युक्तवोत्सृज्यतद्भ्रूमौसजगामयथागतम् ॥२३॥  
 निपपातजनःसोथशोकार्तोमूर्च्छयातुरः ।  
 क्षणेनचेतनाप्राप्यसर्वास्तानृपयोषित ॥२४॥  
 राजपत्न्यश्चराजाचविलेपुरतिदु खिताः ।  
 मदालसातुतद्दृष्ट्वातदीयकठभूषणम् ॥२५॥  
 तत्याजसुप्रियान्प्राणाञ्श्रुत्वाविनिहतप्रियम् ।

तत पुरे महाक्रद पौराणा भवनेष्वभूत् ॥२६

यथैव तस्य नृपते स्वगृहे समवर्तत ।

राजा च ता मृता दृष्ट्वा विना भर्त्रा मदालसाम् ॥२७

प्रत्युवाच जन सर्व विमृश्य स्वस्थमानस ।

न रोदितव्य पश्यामि भवतामात्मनस्तथा ॥२८

अब जो आपको करना हो, वह करिये और उनका यह कठा भी लीजिये, मुझ तपस्वी का स्वर्ण से क्या प्रयोजन ? ऐसा कह कर तालकेतु जहाँ से आया, वही चला गया ॥२२-२३॥ इसके पश्चात् वहाँ सभी मूर्च्छित होकर गिर पड़े, फिर राजा और रानी चैतन्यता लाभ करके ॥२४॥ तथा अन्य राजस्त्रियाँ भी अत्यत दुःखित होकर विलाप करने लगी तब मदालसा ने उस कठभूषण को देखा ॥२५॥ और स्वामी की मृत्यु की बात सुन कर उसने दुःख से कातर होकर प्रारण त्याग दिये, राजभवन में होने वाला कुन्दन प्रतिध्वनित होने लगा, फिर राजा शत्रुजित् अपनी पुत्रवधू को मरी हुई देख कर ॥२६-२७॥ तथा सावधान चित्त होकर सब से कहने लगे कि हम सबको रोना नहीं चाहिये ॥२८॥

सर्वेषामेव सचित्य सबधानामनित्यताम् ।

किनु शोचामि तनय किनु शोचाम्यह स्नुषाम् ॥२९

विमृश्य कृतकृत्यत्वान्मन्ये शोच्याबुभावपि ।

मच्छुश्रूषुर्मद्वचनाद्द्विजरक्षणात्तत्परः ॥३०

प्राप्तो मेघ सुतो मृत्यु कथ शोच्यः सधीमताम् ।

अवश्य याति यद् ह तद्विजानां कृते यदि ॥३१

मम पुत्रेण सत्यक्त नन्वभ्युदयकारि तत् ।

इय च सत्कुलोत्पन्ना भर्तृयेवमनुव्रता ॥३२

कथ तु शोच्या नारीणा भर्तुरन्यन्न दैवतम् ।

अस्माक बाधवाना च तथान्येषां दयावताम् ॥३३

शोच्या ह्येषा भवेदेव यदि भर्त्रा वियोगिनी ।

यातुभर्तुर्वंध श्रुत्वा तत्क्षणादेव भामिनी ॥३४

भर्तारमनुयातेय न शोच्यातो विपश्चिताम् ।

ता शोच्या या वियोगिन्य सह भर्त्रा कुलागना ॥३५

सभी प्राणियो का सम्बन्ध अनित्य है, मैं पुत्र या पुत्रवधू किसका शोक करूँ ? । २६॥ दोनो ही कृतकृत्य थे, इसमे शोक के योग्य नहीं है, क्योंकि मेरी आज्ञानुसार ही जिसने ब्राह्मणो की रक्षा मे लगे रह कर ॥३०॥ प्राण दिया है, उस पुत्र के लिए शोक करना उचित नहीं है मेरे पुत्र ने अपने नाशवानु देह को ब्राह्मणो के लिए ॥३१॥ त्यागा है, तब वह अशोचनीय और कल्याणकारी है और जब सत्कुल मे उत्पन्न हुई इस नारी ने भी अपने पति का अनुगमन किया है ॥३३॥ तो वह भी शोचनीय नहीं हो सकती । क्योंकि स्त्री के लिए पति के अतिरिक्त अन्य कोई देवता नहीं है, यदि यह अपने पति की मृत्यु के अनन्तर जीवित रहती तो हम सब की शोचनीय दशा होती, इसने तो अपने पति का मरना मुन्ते ही प्राण छोड दिया है ॥३३-३४॥ इसलिए पंडितजनो के लिए यह शोचनीय नहीं है, स्वामी की मृत्यु होने पर भी जो नारी जीवन धारण करे, वह शोचनीय होती है ॥३५॥

कष्टभ्रात्या न गच्छन्ति कष्टदा स्यु कुलात्मनो ।

भर्तु वियोगस्त्वनया नानुभूतः कृतज्ञया ॥३६

दातार सर्वसौख्यानामिह चामुत्र चोभयोः ।

लोकयो का हि भर्तार नारी मन्येत मानुषम् ॥३७

न स शोच्यो न चैवेह नाय तज्जननी नच ।

त्यजता ब्रह्मणार्थयि प्राणान्सर्वेस्मत्तारिता ॥३८

विप्राणा मम धर्मस्य गत सतु महामतिः ।

आनृण्यमद्धं भुक्तस्य त्यागाद्देहस्य मे सुत ॥३९

मातु सतीत्व मद्धं शवैमल्य शौर्यमात्मन ।

सग्रामे सत्य चन्प्राणान्सोविदद्द्विजरक्षणात् ॥४०

तत कुवल्याश्रस्य माता भर्तु रनतरम् ।

श्रुत्वा पुत्रवध तादृक्प्राह हृष्टानु त पतिम् ॥४१



न मे जनन्या स्वप्ना वा प्राप्ता प्रीतिर्नृपेदृशी ।

श्रुत्वा मुनिपरि त्राणे हत पुत्र यथा मया ॥४२

जो स्वामी के सहित जाती है, वह कभी शोचनीय नहीं, जो गमन मे कष्ट मान कर नहीं जाती, वह अपने कुल को कष्ट देने वाली है, कृतज्ञा होने के कारण इसने अपने स्वामी के वियोग का अनुभव नहीं किया ॥३६॥ इहलोक और परलोक दोनो मे सुख देने वाले स्वामी को कौन स्त्री मनुष्य मानती है ? ॥३७॥ हमारा पुत्र, पुत्रवधू, मैं अथवा उसकी माता हम मे से कोई भी शोचनीय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों की रक्षा मे प्राण देने वाले पुत्र के कारण हम सभी का उद्धार हुआ है ॥३८॥ मेरा पुत्र अपने अर्धमुक्त शरीर को छोड कर ब्राह्मण के प्रति, धर्म के प्रति और मेरे प्रति भी उन्मत्त हो गया है ॥३९॥ ब्राह्मणों की रक्षा के युद्ध मे मरने से माता का सतीत्व, वश की स्वच्छता और अपनी शूरता किमी का भी त्याग उसने नहीं किया ॥४०॥ कुवलयश्व की माता ने पुत्र का मृत्यु समाचार मुन कर अपने स्वामी को देख विपाद रहित चित्त से बोली ॥४१॥ हे महाराज ! मुनियों की रक्षा करते-करते सन्तान का मरण सुन कर मैं जैसी सुखी हुई वैसा सुख मुझे माता-बहिन किसी के द्वारा नहीं मिल सकता ॥४२॥

शोचता ब्राह्मणाना ये निःस्वनेनातिदुःखिताः ।

अन्यतेव्याधिना क्लिष्टास्तेषा माता वृथा प्रजा ॥४३

सग्रामे युध्यमाना ये भीता गोद्विजरक्षणे ।

क्षुण्णा शर्खं विपद्य ते त एव भुवि मानवा ॥४४

अर्थिना मित्रवर्गस्य विद्विषाच पराडूमुख ।

योन याति पिता तेन पुत्री माता चवीरसू ॥४५

गर्भक्लेशः स्त्रियो मन्ये साफल्य भजते तदा ।

यदारिजियी वास्यात्सग्रामे वाहत सुत. ॥४६

तत सराजा सस्कार पुत्रपत्नीमलभयत् ।

निर्गम्यचबहिः स्नातो ददौ पुत्रायचोदकम् ॥४७

तालकेतुश्च निर्गम्य तथैवयमुनाजलात् ।  
 राजपुत्रमुवाचेद प्रणावन्मधुरवच ॥४८  
 गच्छभूपाल पुत्रत्व कृतार्थोहकृतस्त्वया ।  
 वाञ्छित तुकृतकार्यत्वय्यत्रा विचले स्थिते ॥४९  
 वारुणयज्ञकार्यं च जलेशस्य महात्मन ।  
 तन्मया साधित सर्वं यन्ममासीद भोप्सितम् ॥५०  
 प्रणिपत्य सतप्रागाद्राजपुत्र पुरपितु ।  
 समारुह्यतमेवाश्च सुपर्णानिल विक्रमम् ॥५१

जो बधुओ के लिए दुख से श्वास लेते हुए या रोगाक्रान्त हुए प्राण  
 त्याग करने है, उनकी माताओ का सतति-प्रजनन व्यर्थ ही है ॥४३॥ जो गौ-  
 ब्राह्मण की रक्षा के निमित्त युद्ध में भय-रहित चित्त से शस्त्र से मरता है, उसे  
 ही मनुष्य कहते हैं ॥४४॥ जिसके द्वारा याचक, मित्र और शत्रुगण विमुख नही  
 होते, उसी से पिता पुत्रवान् होता है ॥४५॥ जब पुत्र युद्ध में मर जाता या शत्रु  
 पर विजय प्राप्त करके लौटता है तभी स्त्री का गर्भ-क्लेश सफल होता है ॥४६॥  
 नागपुत्र बोले—फिर राजा शत्रुजित् ने पुत्रवधू का सस्कार कर नगर के बाहर  
 जाकर स्नान किया और पुत्र के निमित्त जलाञ्जलि दी ॥४७॥ उधर तालकेतु  
 उसी प्रकार यमुना जल से निकल कर प्रणाम करता हुआ मीठे वचनो से राज-  
 कुमार से बोला ॥४८॥ हे राजकुमार ! आपके द्वारा मैं कृतार्थ हुआ क्योंकि  
 आपने यहाँ रह कर मेरा अभिलषित कार्य किया है ॥४९॥ इस प्रकार जलपति  
 वरुण का यज्ञ मेरी माया से सिद्ध हो गया, हे राजपुत्र ! अब आप जाइये  
 ॥५०॥ यह सुन कर राजपुत्र ने मुनि को प्रणाम किया और उस बाधु वेग वाले  
 अश्व पर चढ़ कर पिता के नगर को गये ॥५१॥

## २१—कुवलयाश्व पातालप्रवेश

सराजपुत्र सम्प्राप्यवेगादात्मपुरन्तत ।  
 पित्रोर्वच दिपु पादौ दिदृक्षुश्च मदालसाम् ॥१

सदृशतदुद्विग्नमप्रहृष्टमुखं पुरम् ।  
 पुनश्चविस्माताकारप्रहृष्टवदनपुन ॥२  
 अन्यमुत्फुल्लनयनदिष्ट्यादिष्ट्येतिवादिनम् ।  
 परिष्वजन्तमन्योन्यमतिकौतूहलान्वितम् ॥३  
 मराजपुत्रोमित्रतनुत्फुल्लनयनशुभम् ।  
 आलिलिगतदाकानिमौहृदेनपरिगात्र ॥४  
 तनपौरास्नदालोक्यदिष्ट्यादिष्ट्येतिवादिन ।  
 चिरञ्जीवोरुकल्याणहतास्तेपरिपथिन ॥५  
 पित्रोप्रल्हादयमनस्तथास्माकमकटक ।  
 इत्येतवादिभिर्पौरैः पुनपृथेचमवृत ॥६  
 नन्क्षणप्रभवानन्दप्रविवेगपितुर्गृहम् ।  
 पिताचतपरिष्वज्यमाताचान्येन्नवाधवा ॥७  
 चिरञ्जीवोरुक्लेशः सगददौचास्मैतदाशिप ।  
 प्रणिपत्यतनसोथकिमेतदिति विस्मित ॥८

नागपुत्रो ने कहा— राजकुमार ने पिता-माता के चरणों में बन्दना कर  
 ने और मदालसा को देखने की इच्छा करके अपने नगर में जाकर देखा ॥१॥  
 नगर निवासी अत्यन्त उद्विग्न है, परन्तु उन्हें देखकर प्रमत्त और विस्मित हो  
 रहे हैं ॥२॥ फिर प्रफुल्लित नेत्रों में भाग्य को मराहते हुए परस्पर आर्लिंगन  
 करने लगे ॥३॥ उस राजपुत्र ने प्रफुल्लित नेत्र वाले अपने श्रेष्ठ मित्र को अत्यत  
 प्रीति सहित हृदय से लगाया ॥४॥ फिर नगरवासी उनके प्रति कहने लगे कि  
 अत्यन्त भाग्यशाली और दीर्घजीवी होवे, तुम्हारे सभी शत्रु नाश को प्राप्त हो  
 ॥५॥ हमारे तथा माता-पिता के हृदय को प्रमत्त करो, ऐसा कहते हुए उनके  
 अगे पीछे इकट्ठे हो गये ॥६॥ राजकुमार ने उनसे घिरे हुए पिता के भवन  
 में प्रवेश किया, तब पिता, माता तथा अन्यान्य बाधवगण ॥७॥ उन्हें आशीर्वाद  
 देने लगे, तब राजकुमार ने उनको प्रणाम करके विस्मित चित्त से पूछा— हे  
 तात ! यह क्या है ? ॥८॥

प्रपच्छपितरंचाथसोस्मैसर्वतदुक्तवान् ।  
 सभार्यातामृताश्रुत्वाहृदयेष्टामदालसाम् ॥६  
 पितरौचपुरादृष्ट्वालज्जाशोकविमध्यगः ।  
 चितयामाससाबालामाश्रुत्वानिधनगतम् ॥१०  
 तत्याजजीवितसाध्वीधिङ्मॉनिष्ठुरमानसम् ।  
 नृशसोहमनार्योहविनातामृगलोचनाम् ॥११  
 मत्कृतेनिधनप्राप्तायज्जीवाम्यतिनिर्घृण ।  
 पुन सचितयामासपरिसस्तभ्यमानसम् ॥१२  
 मोहोद्गममपास्यैवनि श्रस्योच्छ्वस्यचातुरः ।  
 मृतेतिसामन्निमित्तत्यजामियदिजीवितम् ॥१३  
 किमयोपकृततस्या श्लाघ्यमेतत्तुयोषिताम् ।  
 यदिरोदिमिवादीनहाप्रियेतिवदन्मुहु ॥१४  
 तथाप्यश्लाघ्यमेतन्नोवयहिपुरुषा किल ।  
 अथशोकजडोदीनोऽसृजाहीनोबलान्वित ॥१५  
 विपक्षस्यभविष्यामितत परिभवास्पदम् ।  
 मयारिशातनात्कार्यंराज्ञ षुश्रूषणापितु ॥१६

तब उन्होने राजकुमार को सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया, राजकुमार मदा लसा का मरण—समाचार सुन कर शोक सागर में डूब कर शोक करने लगे कि जब उस साध्वी ने मेरा मृत्यु वृत्तान्त सुन कर ॥६-१०॥ प्राण छोड़ दिये तो मुझ निष्ठुर को धिक्कार है, मैं नृशम और अनार्य हूँ जो उसके बिना जीवित हूँ ॥११॥ जिसने मेरे लिये प्राण त्याग दिये, उसके बिना जीवित रहूँ तो मैं अत्यन्त निर्दय सिद्ध हूँगा, यह सोचते हुए ॥१२॥ अत्यन्त कातर हो कर दीर्घ श्वास लेते हुए सोचा कि उसने मेरे लिये प्राण त्यागे है तो मैं भी यदि उसके लिये प्राण का त्याग कर दूँ ॥१३॥ तो ? परन्तु यह स्त्रियों के लिये ही उचित है, यदि मैं 'हा प्रिये' कहता हुआ बारम्बार विलाप करूँ ॥१४॥ तो वह भी निन्दा के योग्य होगा, यदि शोक सताप में माल्यादि का त्याग कर दूँ ॥१५॥

तो शत्रु अपमान करेंगे, मेरा एक मात्र धर्म शत्रुओं का महार और पिता की सेवा करना है ॥१६॥

जीविततस्यचायत्तामत्याज्यतत्कथमया ।  
 कित्वत्रमेन्यत्कर्त्तव्यत्यागोभोगस्ययोषित ॥१७  
 सचापिनोपकारायतन्वग्या किनुसर्वथा ।  
 मयानृशस्यकर्त्तव्यनापकार्युपकारिवा ॥१८  
 प्रामदर्थेत्यजत्प्राणास्तदर्थेल्पमिदमम ।  
 इतिकृत्वामतिसोथनिष्पाद्यौदकदानिकम् ॥१९  
 क्रियाश्राननरकृत्वाप्रत्युवाचऋतध्वज ।  
 यदिसाममनन्वगीनस्याद्भार्यामिदालसा ॥२०  
 अस्मिञ्जन्मनिनान्यामेभवत्रीसहचारिणी ।  
 तामृतेमृगशावाक्षीगधर्वतनयामहम् ॥२१

मेरे जीवन का अवलम्ब यही है, इस लिए प्राण त्याग कदापि उचित नहीं है, यदि मैं अन्य स्त्री के गमन का त्याग करूँ ॥१७॥ तो भी उसका कोई उपकार न होगा, परन्तु उसका उपकार हो या अपकार मुझे तो इसी नृशस आचरण का पालन करना होगा ॥१८॥ जिसने मेरे लिये प्राण त्यागा है, उस के लिये यह कार्य सामान्य था । ऐसा निर्णय कर राजकुमार ने जलदानादि करके ॥१९॥ तथा सब सस्कार से निवृत्त हो कर कहा कि जब मेरी पत्नी मदालसा ही नहीं है ॥२०॥ तब इस जन्म में कोई अन्य नारी मेरी सहधर्मिणी नहीं हो सकती, मैं सत्य कहता हूँ कि मैं उस गन्धर्व की सुता के अतिरिक्त अन्य स्त्री से समागम नहीं करूँगा ॥२१॥

नभोक्ष्येयोषितकाचिदितिसत्यमयोदितम् ।  
 सधर्मचारिणीपत्नीतामुक्त्वागजगामिनीम् ॥२२  
 काचिन्नान्याकरिष्यामितेनसत्यमयोदितम् ।  
 एवसर्वान्परित्यज्यस्त्रीभोगास्तातसर्वदा ॥२३  
 क्रीडन्नास्तेसमतुल्यैर्वयस्यै शीलसपदा ।  
 एतत्तस्यपरकार्यतातत्केनसाध्यते ॥२४

कर्तुं मृत्युतदुःप्राप्यमश्वरं किमुतेतरं ।  
 इतिवाक्यतयो श्रुत्वाविमर्शमगमत्पिता ॥२५  
 विमृश्यचाहतौपुत्रौनागराट्प्रहसन्निव ।  
 यद्यशक्यमिति श्रुत्वानकरिष्यतिमानवा ॥२६  
 कर्मरथुद्यममुद्योगहान्याहानिस्तत परम् ।  
 आरभेतनर कर्मस्वपौरुषमहापयत् ॥२७  
 निष्पत्ति कर्मणादैवैपौरुषेचव्यवस्थिता ।  
 तस्मादह तथायत्नकरिष्येपुत्रकार्यत ॥२८

मैं उस सद्धर्म का आचरण करने वाली भार्या को छोड़ कर किसी दूसरी नारी को स्वीकार नहीं करूँगा । नागपुत्रो ने कहा—हे तात ! मदानसा के अतिरिक्त वह सम्पूर्णा स्त्री—संग त्याग कर ॥२२-२३॥ अपने स्वभावादि मे समान तथा समवयस्को के साथ क्रीडा करते रहते हैं, उनके हित मे यही एक प्रमुख कार्य है, जिममे किसी का वश नहीं चल सकता ॥२४॥ बयो कि यह ईश्वर के लिये भी दुष्प्राप्य है तो मनुष्य की तो बात ही क्या है ? उनकी बात सुन कर नागराज अश्वतर विचारमग्न हो गये ॥२५॥ और फिर हँसते हुए उन्होंने अपने द्योनो पुत्रो मे कहा—सामर्थ्य से परे होने के कारण जो मनुष्य उद्योग नहीं करते ॥२६॥ उससे उनकी अत्यन्त हानि होती है अपने पौरुष को नष्ट न करके ही मनुष्य कार्यारम्भ करते हैं ॥२७॥ परन्तु देव या पौरुष मे ही कर्म की निष्पत्ति है, इस लिये हे पुत्रो ! जिस प्रकार यह कार्य बन सके, मैं वह कार्य करूँगा ॥२८॥

तपश्चर्या समास्थाययथैतत्साध्यतेचिरात् ।  
 एवमुक्त्वासनाग्रेद्र प्लक्षावतरणगिरे ॥२९  
 तीर्थहिमवतोगत्वातपस्तेपेसुदुश्चरम् ।  
 तुष्टाववाग्भरिष्ठाभिस्तत्रदेवीसरस्वतीम् ॥३०  
 तन्मनानियताहारोभूत्वात्रिषवणाप्लुत ।  
 जगदात्रीमद्भदेवीमारिराधयिषु शुभाम् ॥३१

स्तोष्येप्रगाम्यगिरमात्रह्ययोनिमरस्वतीम् ।  
 सदमर्हो वियत्किचिन्मोक्षवधार्थवत्पदम् ॥३२  
 तत्सर्वत्वय्यमयोगयोगवद्देविमस्थितम् ।  
 स्वमक्षरपरदेवियत्रमर्वप्रतिष्ठितम् ॥३३  
 अक्षरपरमब्रह्मजगच्चैतत्क्षराम्कम् ।  
 दारुण्यवस्थितोवह्निभौमाश्रपरमाणव ॥३४  
 तथात्वयिस्थितब्रह्मजगच्चैतदमशेषतः ।  
 श्लोकागक्षरमस्यानयन्तदेविस्थिरास्थिरम् ॥३५

मै तपस्या के द्वारा इमे शीघ्र निष्ठ करन का यत्न कर पा, गिमा कह कर नागराज अश्वतर त्रिमालय के पञ्चावतरणा नामक तीर्थ में जाकर ॥३२॥ दुष्कर तप करने लगे, परिमित भोजन, तीनों समय स्नान और वागी द्वारा मरस्वती का स्नान करते हुए अश्वतर ने कहा—मैं जगज्जनीनी भगवती के आराधना की इच्छा से ॥३०-३१॥ ब्रह्म स्थान मरस्वती की प्रणाम पूर्वक स्तुति करता हूँ, हे देवी ! मोक्ष अथवा अर्थ मयुक्त मत् अमत् रूप जो पद है ॥३४॥ वह सभी आप में मयुक्त न होकर मयुक्त के समान ही अवस्थित रहते हैं, हे देवी ! आर परम अक्षर है, आप में नय प्रतिष्ठित है ॥३३॥ सभी अक्षर परमाणु के तुल्य आप में स्थित हैं, अक्षर रूप पर ब्रह्म और क्षराम्क जगत् भी तुम में प्रतिष्ठित है, जैसे अग्नि के सभी परमाणु काष्ठ में रहते हैं वैसे ही ब्रह्म और विश्व तुम में ही विद्यमान है ॥३४-३५॥

तत्रमात्रात्रयमर्वमस्तियद्देविनास्तिच ।  
 त्रयो लोकास्त्रयोदेवास्त्रैविद्य पावकत्रयम् ॥३६  
 त्रीणिज्योतीपिवर्गाश्रत्रयोधर्मादियस्तथा ।  
 त्रयोगुणाम्त्रय शब्दाम्त्रयोदोपास्तथाश्रमा ॥३७  
 त्रय कालास्तथावस्था पितरोर्हृनिगादय ।  
 एतन्मात्रात्रयदेवितवरूपमरम्बति ॥३८  
 त्रिभिन्नदर्शिनामाद्याब्रह्मणोहिसनातना ।  
 सोममस्थाह्वि सस्था पाकसस्थाश्रसप्तया ॥३९

तास्त्वदुच्चारणाद्देविक्रियतेब्रह्मवादिभि ।  
प्रनिर्द्देश्यतथाचान्यदद्धं मात्राश्रितपरम् ॥४०

अविकार्यक्षयदिव्यपरिणामविवर्जितम् ।

तवैवचपररूपयन्नशक्यमयेरितुम् ॥४१

नचास्येननवाजिह्वातात्वोडादिभिरुच्यते ।

इन्द्रोपिवसवोब्रह्माचन्द्राकौज्योतिरेवच ॥४२

ओकार, अक्षर सन्धान, स्थिर, अस्थिर अर्थात् सत् असत् तुम्ही मे विद्यमान रहते है, तीन लोक, तीन वेद, तीन विद्या, तीन अग्नि ॥३६॥ तीन ज्योति तीन वर्ग, तीन धर्म, तीन गुण, तीन शब्द, तीन दोष, तीन आश्रम ॥३७॥ तीन काल, तीन अवस्था, पितर तथा दिन-रात्रि इत्यादि जितनी भी वस्तुएँ तीन मात्रा स्वरूप है ॥३८॥ तथा पृथक्-पृथक् सम्प्रदाय वाले पुरुषो को आद्य और मनातन मस्रिवि व्याहृति का वेद मे निरूपण हुआ है ॥३९॥ वह सब तुम्हारे ही कीर्तन मे ब्रह्मवादी समाहित करते है । हे माता ! इसके अतिरिक्त आपका जो एक और परम रूप है, जिसे अर्द्धमात्रा कहते है ॥४०॥ वह भी इन्ही प्रकार विकार रहित, क्षय रहित और जेप रहित है, हे माता ! मैं इतना शक्ति युक्त नहीं हूँ कि आपकी इस परम रूप का निरूपण कर सकूँ ॥४१॥ क्यो कि उसका मुख, जिह्वा, तालु तथा ओष्ठादि से उच्चारण सम्भव नहीं है, इन्द्र, सूर्य अथवा अन्य ज्योतिर्मय पदार्थ उसी के रूप है ॥४२॥

विश्वावासविश्वरूपविश्वेशपरमेश्वरम् ।

साख्यावेदातवेदोक्तं बहुशाखास्थिरीकृतम् ॥४३

अनादिमध्यनिधनसदसन्न सदेबनु ।

एकत्वनेकमप्येकभवभेदसमाश्रितम् ॥४४

अनाख्यपङ्गुणाख्यचषट्काख्यत्रिगुणाश्रयम् ।

नानाशक्तिमतामेकशक्तिवैभाविकपरम् ॥४५

सुखामुखमहत्सौख्यरूपतवविभाव्यते ।

एवदेवित्वयाव्याप्त सकलनिष्कलजगत् ॥४६



अद्वैतावस्थितब्रह्मायच्चद्वैतेव्यवस्थितम् ।  
 यथानित्यायेविनश्यतिचान्येयेवास्थूलायेचसूक्ष्माच्चसूक्ष्मा ।  
 येवाभूमौयेतरिक्षेन्यतोवातेपासत्यत्वत्तएवोपलब्धि ॥४७  
 यच्चामूर्तयच्चमूर्तममस्नन्यद्वाभूतेप्वेकमेकचकिचित् ।  
 यद्विव्येस्तिक्ष्मातलेखेन्यतोवातत्सम्बन्धन्त्वत्स्वरैर्व्यजनैश्च ॥४८  
 एवस्तुनातदादेवीविष्णोर्जिह्वासरस्वती ।  
 प्रतुवाचमहात्माननागमश्रुतरतत ॥४९

वही विश्व स्थान, ईश्वर एव परब्रह्म है, माँग्य, वेदान्त और नर्क शास्त्र मे जिसका वर्णन हुआ तथा वेद की अनेक शाखाओ द्वारा जिमे स्थिर क्रिया गया ॥४३॥ तथा जिमका न आदि है, न मध्य अथवा अन्त भी नही है, जो मत् असत् रूप है तथा ममार के भेद मे अनेकरूप और विभिन्न प्रकार वाला है ॥४४॥ जिमकी आख्या गुण पटक् और वर्ग है तथा जो त्रिगुणावतम्बी और शक्तिमानो की शक्ति के परम वैभव मे सम्पन्न ॥४५॥ एव सुख, असुख और महामुख रूप है, हे माना ! तुम मे वह सभी लक्षण होता है, इस प्रकार सम्पूर्णा कलायुक्त एवं कलानीत विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त हो रहा है ॥४६॥ तथा द्वैतावस्थित या अद्वैतावस्थित ब्रह्म भी तुम्हारे द्वारा ही व्याप्त है, जो नित्य, अनित्य, स्थूल या सूक्ष्म, पृथिवी, अन्तरिक्ष अथवा अन्यत्र विद्यमान है, तुममे ही उसका प्राप्ति होनी है ॥४७॥ जो मूर्त या अमूर्त है, सब प्राणियो मे विद्यमान है, स्वर्ग पृथिवी, अन्तरिक्ष अथवा अन्य सभी स्थानो मे जिमका निवास है, उन सब पदार्थो का ज्ञान तुम्हारे ही स्वर व्यञ्जन द्वारा होता है ॥४८॥ नागगज द्वारा इस प्रकार स्तुत हुई मरस्वती ने उनसे कहा ॥४९॥

वरन्तेकम्बलभ्रात प्रयच्छाम्युरगाधिप ।

तदुच्यताप्रदास्यामियत्तं मनसि वर्त्तते ॥५०

साहाय्यदेविदेहित्वपूर्वकम्बलमेवच ।

ममस्नस्वरमम्बद्धमुभयो सम्प्रयच्छच्च ॥५१

सप्तस्वराग्रामरागा सप्तपन्नगसत्तम ।

गीतकानिचपप्तैवतावतावत्यश्चापिमूर्च्छना ॥५२

तानाश्चैकोनपचागन्तथाग्रामत्रयचयत् ।  
 एतत्मर्वभवान्वेत्ताकम्बलश्चैवतेनव ॥५३  
 जाम्यतेमत्प्रसादेनभुजगेद्रपरतथा ।  
 चतुर्विधपरतालत्रि प्रकारलयत्रयम् ॥५४  
 गतित्रयतथातालमयादत्त चतुर्विधम् ।  
 एतद्भुवान्मत्प्रसादात्पन्नगेद्रापरचयत् ॥५५  
 आम्यानर्गनमयात्त स्वरव्यजनयोश्चयत् ।  
 तदशेषमयादत्त भवत कम्बलस्यच ॥५६

मरुस्वती बोली—हे उरगाधिप ! मैं वर देने को उद्यत हूँ, इमलिये तुम्हारी जो इच्छा हो, माग लो, वही दूँगी ॥५०॥ अश्वतर ने कहा—हे माता ! मेरे पूर्व महायक और कम्बल और मुझे दोनो को ही श्रुतियाम और मूर्च्छनादि सब प्रदान कीजिये ॥५१॥ मरुस्वती देवी ने कहा—हे पन्नग श्रेष्ठ ! तुम और कम्बल दोनो ही मेरी कृपा से श्रेष्ठ गायक हो जाओगे तथा सप्तस्वर ग्राम के सप्तराग, गान्गन एव मूर्च्छना ॥५२॥ तथा उनचाम तरह की ताल और तीन प्रकार का ग्राम है, तुम सभी प्रकार का गयन कर सकोगे ॥५३॥ हे नाग राज ! तुम चार प्रकार के अन्य पद तथा तीन ताल और तीन प्रकार की लय का ज्ञान भी प्राप्त करोगे ॥५४॥ मैं तुम्हे तीन प्रकार की गति और चतुरप्रकार बाद्य ताल भी तुम्हे देती हूँ, यह तथा इनके अतिरिक्त और ममस्त ज्ञान तुम्हे मेरे प्रसाद से हो जायगा ॥५५॥ इनके अन्तर्गत आयत्त स्वर, व्यञ्जनादि जो कुछ है, वह सब विषय तुम दोनो को दिया ॥५६॥

यथानान्यस्यभूलोकेपातालेवापिपन्नग ।  
 प्रणेतारौभवतौचसर्वस्याद्यभविष्यत् ॥५७  
 पातालेदेवलोकेचभूलोकेचैवपन्नगौ ।  
 इत्युक्त्वासातदादेवीसर्वजिह्वासरस्वती ॥५८  
 जगामादर्शनमद्योनागस्यकमलेक्षणा ।  
 तयोश्चतद्यथावृत्तभ्रात्रो सर्वप्रजायत ॥५९

त्रिजातमुभयोरग्न्यपदतालम्बरादिकम् ।  
 तत कैलामशौलेद्रगिखरस्थितमीश्वरम् ॥६०  
 गीतक सप्तभिर्तापोतत्रीलयनमन्वितै ।  
 आरिगधयिपदेवगतगाग हरहरम् ॥६१  
 प्रचक्रतु पर्यन्तमुभोमहतवाक्कलौ ।  
 प्राननिशायामध्याह्नौ मध्ययोश्चापितत्परौ ॥६२  
 तत कालेनमहतामृत्यमानोऽृषध्वज ।  
 तुनोपगीतकैस्तोच्चप्राहमृह्यतावर ॥६३

तुम स्वर्गलोक, पृथिवी और पाताल में समस्त विषय में अनुपम प्रणीता रहोगे ॥५७॥ त्रैलोक्य में तुम्हारे समान अन्य नहीं होगा, जड़ बोला—एसा कह कर भगवती मरुस्वर्ना ॥५८॥ तत्काल अन्तर्धान हो गई और उनकी कृपा में यह दोनों भाई सभी विषय के ज्ञाता होगे ॥५९॥ पद, ताल तथा स्वरादि में उनको अनुपम मिट्टि हुई, तब वह कैलाश में स्थित ईश्वर ॥६०॥ अतगहारी शिव की तन्त्रीलय युक्त सप्त स्वर में गायन पूर्वक आराधना प्रारम्भ की ॥६१॥ वह वारी और इन्द्रियो को समय में करके प्रान, मध्याह्न एव साय त्रिकाल में शिवजी की उपासना में तत्पर हुए ॥६२॥ तब देव देव शङ्कर बहुत काल में प्रसन्न हुए और उन दोनों में बोले कि 'वर माँग लो' ॥६३॥

ततःप्रणम्याश्वतर कबलेनसमतदा ।  
 विज्ञापयन्महादेव शितिकठमुमापतिम् ॥६४  
 यद्विनौभगवन्प्रीतोदेवदेवत्रिलोचन ।  
 ततोयथाभिलपितवरमेतप्रयच्छतौ ॥६५  
 मृताकुवलयाम्बस्यपत्नीदेवमदालसा ।  
 तेनेववयमासद्योदुहितृत्वप्रयातुमे ॥६६  
 जातिस्मरायथःपूर्वतद्वत्क्षातिसमन्विता ।  
 योगिनीयोगमाताचजायतावचनात्तव ॥६७  
 यथोक्त पन्नगश्चोष्ठसर्वमेतद्भ्रुविष्यति ।  
 मत्प्रसादादसदिग्धशृगुचेदभुजगम ॥६८

श्राद्धावसानेप्राशनीथामध्यपिण्डमात्मना ।  
 कामचेमामनुध्यायःकुस्त्वपितृपूजनम् ॥६९  
 तत्क्षणादेवसासुभूर्भद्रतोमध्यमात्फणात् ।  
 ममुत्पत्स्यतिकल्याणीतथारूपायथामृता ॥७०

तव कम्बल सहित अश्वतर ने प्रणाम कर पार्वती-पति भगवान् शङ्कर मे निवेदन किया ॥६४॥ हे प्रभो ! आप सर्व शक्ति सम्पन्न है, यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो हमे यह इच्छित वर दीजिये ॥६५॥ कुवलयश्व की पत्नी मदालसा ने प्राण त्याग किया है, वह जिस अवस्था मे मरण को प्राप्त हुई है, उसी अवस्था मे मेरी कन्या के रूप मे उत्पन्न हो ॥६६॥ वह पूर्ववत् कान्तिमती तथा जातिस्मरा होकर मेरे गृह मे जन्म धारण करे ॥६७॥ शिवजी बोले—हे पन्न-गोत्तम ! तुम्हारा कहा हुआ मेरी कृपा से अवश्य होगा, अब जो कहता हूँ उसे सुनो ॥६८॥ श्राद्ध का समय उपस्थित होने पर पवित्र एव सावधान मन से तुम स्वयं मध्यम पिरण्ड का भोजन करना तथा मेरा ध्यान करके पितरो का का यजन करना ॥६९॥ मध्यम पिरण्ड का भक्षण करने से मदालसा ने जिस अवस्था मे प्राण त्यागा है, उसी अवस्था मे तुम्हारे मध्य फण से उत्पन्न हो जायगी ॥७०॥

स्वयमेवोपभु जस्वयत सर्वभविष्यति ।  
 उत्पत्स्यतेततःसातुसत्यवैमध्यमात्फणात् ॥७१  
 एतच्छ्रुत्वाततस्तौतुप्रणिपत्यमहेश्वरम् ।  
 रसातलमनुप्राप्तौपरितोषसमन्वितौ ॥७२  
 तथाचकृतवाञ्छाद्ध सनाग कबलानुज ।  
 पिण्ड चमध्यमतद्वद्यथावदुपभुक्तवान् ॥७३  
 उपभुक्ते तत पिण्डेतस्यसातनुमध्यमा ।  
 जज्ञेनि श्वसत सद्यस्तद्रूपामध्यमात्फणात् ॥७४  
 नचापिकथयामासकस्यचित्सभुजगम ।  
 अतर्गृहेतासुदतीस्त्रीभिर्गुप्तामधारयत् ॥७५

तौचानुदिनमागत्यपुत्रौ नागपते सुवम् ।  
 ऋतुध्वजेनमहिनीचिक्रीडातेमराविव ॥७६  
 एकदातुसतौप्राहसनागोश्चतरोमुदा ।  
 तन्मयापूर्वमुक्तनुक्रियतेकिनुतत्तया ॥७७  
 मराजपुत्रोयुवयोरुपकारीमभातिकम् ।  
 किनुनानीयतेवत्मावुपकारायमानद ॥७८

तुम ऐसी कामना करके पितरों का तर्पण करो, जिमसे वह जिम अवस्था में मृत हुई उमी अवस्था में स्वाम त्याग के समय तुम्हारे मध्यम फण से निकलेगी ॥७१॥ यह सुनकर दोनों भाई शिवजी को प्रणाम करके पाताल में गये ॥७२॥ फिर अश्वतर ने उमी प्रकार पितर श्राद्ध करते हुए मध्यम पिण्ड का भोजन किया ॥७३॥ अन्त में अपने इच्छित का ध्यान करके श्वास छोड़ा तभी उनके मध्यम फण में मदालमा अपने उसी रूप में उत्पन्न होगई ॥७४॥ अश्वतर ने यह बात किसी को न बनाई और मदालसा को स्त्रियों के साथ छिपा कर घर में रखा ॥७५॥ उवर उनके दोनों पुत्र देवकुमारों के सामने ऋतुध्वज के पाम आकर नित्य प्रति आनन्द पूर्वक खेलने लगे ॥७६॥ एक दिन नागराज ने उन दोनों से कहा—पूर्व में मैंने तुममें जो कुछ कहा था, तुम उसे क्यों नहीं करते ? ७८-७८॥

एवमुक्तौपुनस्तेनपुत्रौस्नेहवतातुतौ ।  
 गत्वातस्यपुरसख्युरेमातेतेनधीमता ॥७९  
 ततःकुवलयाश्च तकृत्वाकिञ्चित्कथातरम् ।  
 अब्रूताप्रणिपातेनस्वगृहागमनप्रति ॥८०  
 तावाहनृपपुत्रोसौनन्विदभवतोर्गृहम् ।  
 धनवाहनवस्त्रादियन्मदीयतदेवाम् ॥८१  
 यस्यवावाञ्छितदातु धनरत्नमथापिवा ।  
 तद्दीयताद्विजमुतौयदिवाप्रणयोमयि ॥८२  
 एतावताहृदैवैवचितोस्मिदुरात्मना ।  
 यद्भवद्भ्राममत्वनोमदीयेकियतागृहे ॥८३

यद्विवाभेप्रियकार्यमनुग्राह्योस्मिवायदि ।  
तद्धनेमग्गेहेवममत्वमनुकल्प्यताम् ८४।

स्नेही पिता द्वारा ऐसा कहा जाने पर उनके दोनो पुत्र ऋतुध्वज के नगर मे जाकर उनके साथ खेलने लगे ॥७९॥ फिर उन्होने प्रीति पूर्वक कुवलयश्व को अपने गृह चलने का अनुरोध किया ॥८०॥ राजकुमार बोला—मेरा गृह, धन, बन्धु, यान आदि जो कुछ है, सब तुम्हारा ही है ॥८१॥ यदि मेरे प्रति तुम्हारी अधिक प्रीति हुई है और मुझे जो धन, रत्न देना चाहते हो, वह दो ॥८२॥ यदि तुम मेरे घर को अपना नहीं मानते तो मैं दैव द्वारा वचित हुआ ही समझिये ॥८३॥ मेरा प्रिय करने की इच्छा करते हो और मुझे अपना कृपापात्र मानते हो तो मेरे गृह और धन मे अपनात्व रखो ॥८४॥

युवयोर्यन्मदीयतन्मामकयुवयो स्वयम् ।  
एतत्सर्वविजानीयसखाप्राणोबहिश्चरः ॥८५  
पुनर्नैवविभिन्नार्थवक्तव्यद्विजसत्तमौ ।  
मत्प्रसादपरौप्रीत्यागापितौहृदयेनमे ॥८६  
तत स्नेहार्द्रवदनौतावुभौनागनदनौ ।  
ऊचतुर्नृपते पुत्रकिञ्चित्प्रणयकोपितम् ॥८७  
ऋतुध्वज नसदेहोयथैवाहभवानिदम् ।  
तथैवचास्मन्मनसिनात्रचित्यमतोन्यथा ॥८८  
कित्वावयो समपित्राप्रोक्तमेतन्महात्मना ।  
द्रष्टु कुवलयश्वतमिच्छामीतिपुन पुन ॥८९  
तत कुवलयश्वोथसमुत्थायवरासनात् ।  
यथाहतातेतिवदन्प्रणाममकरोद्भुवि ॥९०  
धन्याहमिति पूण्योहकोन्योस्तिसदृशोमया ।  
यत्तातोमामभिद्रष्टु करोतिप्रवणमनः ॥९१  
तदुत्तिष्ठतगच्छामताताज्ञाक्षणमप्यहम् ।  
नातिक्रा तुमिहेच्छामिपद्भ्यातस्यशपाम्यहम् ॥९२  
तुम्हारा हे, वह मेरा और मेरा है वह तुम्हारा, मेरी इस इस बात को

यथार्थ समझो, क्योंकि तुम मेरे बाह्य प्राण स्वरूप हो ॥८५॥ अतएव हे विप्रो! ऐसी भेद स्थापित करने वाली बात न कहना, मैं तुम्हें अपथ देता हूँ कि तुम प्रीतिपूर्वक प्रसन्न होओ ॥८६॥ तब दोनों नागपुत्रों ने स्नेहमिक्त मुख से प्रीतिपूर्वक कुछ गोप व्यक्त करते हुए कहा ॥८७॥ हे राजकुमार ! जो तुमने कहा है, वही हम सोचते हैं, इसमें कुछ भेद मन समझो ॥८८॥ परन्तु हमारे पिता ने तुम्हें देखने की वारम्भार इच्छा प्रकट की है ॥८९॥ तब कुवलययाश्च श्रेष्ठ आसन में 'स्वयं पिताजी ने इच्छा की है' यह कहते हुए उठकर प्रणाम किया ॥९०॥ और कहा—अवश्य ही मैं धन्य एव पुण्यवान् हूँ, क्योंकि मुझे देखने के लिए स्वयं पिताजी उत्सुक हुए हैं ॥९१॥ इमनिग, चलो, क्षणमात्र को भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता, मैं उनके चरण स्पर्श पूर्वक तथा अपथ से कहता हूँ ॥९२॥

एवमुक्त्वाययौसोथसहताभ्यानृपात्मज ।

प्राप्तश्चगौतमीपुण्यानिर्गम्यनगराद्बहि ॥९३

तन्मध्येनययुस्तेवैनागेद्रनृपनदना ।

मेनेचराजपुत्रोऽसौपारेतस्यास्तयोगृहम् ॥९४

ततश्चाकृष्यपातालताभ्यानीतोनृपात्मजः ।

पातालेददृशेचोभौसपन्नगकुमारकौ ॥९५

फणामणिक्कृतोद्द्योतौव्यक्तस्वस्तिकलक्षणौ ।

विलोक्यतौसुरूपागौविस्मयोत्फुल्ललोचन ॥९६

विहस्यचान्नवीत्प्रेम्णासाधुभोद्विजसत्तमौ ।

कथयामासतुस्तौतुपितरपन्नगेश्वरम् ॥९७

शातमश्वतरनागमाननीयदिवौकसाम् ।

रमणीयततोपश्यत्पातालसन्तृपात्मज ॥९८

यह कहकर ऋतध्वज उनके साथ चले और नगर के बाहर जल से परिपूर्ण गोमती नदी पर पहुँचे ॥९३॥ उसके मध्य से तीनों चलने लगे, राजकुमार ने समझा कि गोमती के पार ही उनका घर है ॥९४॥ परन्तु उन्होंने राजकुमार को खीचा और पाताल में लेगये, वहाँ पहुँच कर, राजकुमार ने

देखा कि दोनो नागपुत्रो ने अपना यथार्थ रूप धारण कर लिया है ॥६५॥  
फणो मे स्थित मणि के प्रकाश से उनका हृदय और स्वस्तिक चिह्न प्रकाशित  
होगया, राजकुमार ने उनके स्वरूप को देखकर विस्मय से विस्फारित नेत्रो  
द्वारा ॥६६॥ हँसते हुए साधुवाद दिया, फिर देवताओ द्वारा भी स्तुत पितृदेव  
अश्वतर से राजकुमार के आगमन का वृत्तान्त कहा गया । राजकुमार ने देखा  
कि पाताल का वह नगर अत्यन्त रमणीक है ॥६७-६८॥

कुमारैस्तरुणैर्वृद्धैरुरगैरुपशोभितम् ।  
तथैवनागकन्याभिः क्रीडतीभिरितस्तत ॥६९॥  
चारुकुडलहाराभिस्ताराभिर्गगनयथा ।  
गीतशब्दैस्तथान्यत्रवीणावेणुस्वरानुगैः ॥१००॥  
मृदगपणावातोद्यहारिवेश्मशताकुलम् ।  
वीक्षमाणसपातालययौशत्रुजितसुतः ॥१०१॥  
सहताभ्यामभीष्टाभ्यापन्नगाभ्यामरिदम ।  
ततः प्रविश्यते सर्वेनागराजनिवेशनम् ॥१०२॥  
ददृशुस्तमहात्मानमुरगाधिपतिस्थितम् ।  
दिव्यमाल्यावरधरमणिकुडलभूषणम् ॥१०३॥  
स्वच्छमुक्ताफललताहारिहारोपशोभितम् ।  
केयूरिणामहाभागमासने सर्वकाचने ॥१०४॥  
मणिविद्रुमवैडूर्यजालातरीतरूपके ।  
सताभ्यादशितस्तस्यतातोस्माकमसाविति ॥१०५॥

बाल, युवा, वृद्ध सब जाति के सर्प सुशोभित हैं और उनके चारो ओर  
नागकन्याएँ क्रीडा करती घूम रही हैं ॥६९॥ उनके हार और कुण्डल अत्यन्त  
सुन्दर हैं, उनके सामीप्य से तारावलि से विभूषित आकाश के समान पाताल  
की नगरी सुशोभित हो रही है, कहीं सङ्गीत की ध्वनि, कहीं वशी और कहीं  
वीणाएँ बज रही हैं ॥१००॥ मृदङ्ग, पणव एव आतोद्य के शब्द से प्रतिध्वनित  
सैकड़ो रमणीक घर सुशोभित हैं, उस नगरी को देखते हुए राजकुमार अपने  
समवयस्क मित्रो के साथ चल रहे थे, फिर उन्होंने नागराज के स्थान में प्रवेश



करके ॥१०१-१०२॥ उन्हें वहाँ निवाम करते देखा, उनका दिव्य बिछौना, दिव्य माला तथा दिव्य मणिमय कुण्डल शोभायमान हैं ॥१०३॥ स्वच्छ मनोरम हार से अत्यन्त सुशोभित, हाथों में केयूर धारण किये हुए वह स्वर्ग सिंहासन पर बैठे हैं ॥१०४॥ मणि, मूँगा, बैदूर्य आदि के कारण उनका प्राकृत स्वरूप ढक गया है, सखाश्री ने राजकुमार से कहा कि हमारे पिता यही है ॥१०५॥

वीर कुवल्याश्रयेपित्रेचासौनिवेदितः ।

ततोनामचरणौनागेद्रस्यश्रुतुध्वजः ॥१०६

समुत्थाप्यबलाद्गाढसनाग परिपस्वजे ।

मूर्ध्निचैवमुपाघ्रायचिरजीवेत्युवाचह ॥१०७

निहतामित्रवर्गश्रपित्रो शुश्रूणकुरु ।

वत्सधन्यस्यकथ्यतेपरोक्षस्यापितेगुणा ॥१०८

भवतोममपुत्राभ्यामभ्यायेमेनिवेदिता ।

तदेनैरेववद्धथामनोवाक्कायचेष्टितैः ॥१०९

जीवितगुणिन श्लाघ्यजीवन्नपिमृतोजगुणी ।

गुणवास्त्रिवृत्तिपित्रो शत्रुणाहृदयेज्वरम् ॥११०

करोत्यात्महितकुर्बन्विश्वासचमहाजने ।

देवता पित्तरोविप्रामित्रार्थिविभवादय ॥१११

वाधवाश्रतथेच्छतिजीवितगुणिनश्चिरम् ।

परवादनिवृत्तानादुर्गतेषुदयावताम् ॥११२

फिर पिता से कहा कि यही वीर कुवल्याश्र हैं, तब श्रुतुध्वज ने नागराज के चरणों में प्रणाम किया ॥१०६॥ नागराज ने राजकुमार का आलिङ्गन कर शिर सूँघते हुए कहा—चिरजीव होओ ॥१०७॥ तथा शत्रुकुल का विनाश करते हुए माता-पिता की सेवा करो । तुम धन्य हो, मेरे पुत्र तुम्हारे पीछे भी तुम्हारे अनौकिक गुण ॥१०८॥ गया करते हैं, इससे भी तुम्हारा मन, चाणी, शरीर और चेष्टा की सर्वांश में वृद्धि होगी ॥१०९॥ गुणवान् पुरुष ही प्राण चारण के योग्य है, जो गुणहीन है, वह जीवित रहकर भी मरे हुए के समाब है, क्योंकि गुणवान् पुरुष माता-पिता को शान्ति देते और शत्रुकुल को सतप्त

करते हैं ॥११०॥ महाजनो के विश्वास को प्राप्त करके अपना कल्याण साधन करते हैं, देव, पितर, ब्राह्मण, मित्र, प्रार्थी एव विभव इत्यादि ॥१११॥ एव बधुजन गुणवान् के ही दीर्घजीवी होने की कामना करते हैं, गुणवान् व्यक्ति बुरे कर्म करने वालो को निवृत्त करते और दुखियो के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं ॥११२॥

गुणिनासफलजन्मसश्रितानाविपद्गतै ।

एवमुक्त्वासतवीरपुत्राविदमथान्नवीत् ॥११३

पूजाकुवलयेश्वस्यकर्तुं कामोभुजगम ।

स्नानादिकक्रमकृत्वासर्वमेवयथाक्रमम् ॥११४

मधुपानादिसभोगमाहारचयथेप्सितम् ।

तत कुवलयाश्वेनहृदयोत्सवभूतया ॥११५

कथयास्वल्पकालस्थास्यामोहृष्टचेतस ।

अनुमेनेचतमौनीवच शत्रुजित सुत ॥११६

तथाचकारचर्पति पन्नगानामुदारधी ॥११७

समेत्यतैरात्मजभूपनदनैर्महोरगाणामधिप ससत्यवाक् ।

मुदायुतौन्नानिमधूनिचात्मवान्यथोपजोषबुभुजेसभोगभाक् ॥११८

दुखियो के आश्रयदाता होने से भी उनका जन्म सफल है, ऐसा कहकर राजकुमार का पूजन करने लगे तथा अपने दोनो पुत्रो से बोले कि हम सब एकत्र होकर स्नानादि से निवृत्त होकर ॥११३॥ इच्छानुसार मधु-पान एव आहार भक्षण कर कुवलयाश्व सहित उत्सव पूर्वक ॥११५॥ प्रसन्न मन से रहेंगे, इस पर कुवलयाश्व ने मौन रहकर ही उनकी बात का अनुमोदन किया ॥११६॥ फिर उदार चैता नागराज ने उसके अनुरूप कार्यारम्भ किया ॥११७॥ सत्य-भाषी नागराज अश्रुतर के दोनो पुत्र राजकुमार के साथ प्रसन्न चित्त से अन्न-मधु का सेवन करने लगे ॥११८॥

## २२—कुवल्याश्व को पुनः मदालसा प्राप्त

कृताहारमहात्मानमधिपवनाशिनाम् ।  
 उपासाचक्रिरेपुत्रौभूपालतनयस्तथा ॥१  
 कथाभिरनुरूपाभि प्रहृष्टात्माभुजगम् ।  
 प्रीतिसजनयामासपुत्रसख्युरुवाचह ॥२  
 तवभद्रसुखत्रू हिगेहमभ्यागतस्ययत् ।  
 कर्तव्यमुत्मृजाशकापितरीवसुतेमयि ॥३  
 हिरण्यवामुवर्णावावस्त्रवाहनमासनम्  
 यद्वाभिमतमत्यर्थदुर्लभतद्वृणुष्वमाम् ॥४  
 भवत्प्रमादाद्भगवन्मुवर्णादिगृहेमम् ।  
 पितुरस्तिममाद्यापिनकिञ्चित्कार्यमीदृशै ॥५  
 तातेवर्षसहस्रायु गासतीमावसु धराम् ।  
 तथैवत्वयिपातालनमेयाच्च्रोन्मुखमन ॥६  
 तेसुभाग्या सुपुण्याश्चयेपापितरिजीवति ।  
 तृणाकोटिसमवित्तनारुण्यवित्तकोटिषु ॥७

जड बोला—फिर नागराज अश्वतर के भोजन कर लेने पर उनके दोनो पुत्र और राजकुमार उनकी उपामना मे लगे ॥१॥ तब नागपति अश्वतर ने अनुरूप वचनो से राजकुमार को प्रसन्न करते हुए कहा—हे भद्र ! ॥२॥ तुम मेरे गृह आये हो जैसे शङ्कारहित होकर पुत्र अपने पिता से बाते करता है, वैसे ही तुम भी करो, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ? ॥३॥ इस बात को स्वच्छन्द होकर कहो, स्वर्ण, रजत, वस्त्र, वाहन अथवा जो कुछ इच्छित हो, वह यदि दुर्लभ भी हो तो मुझसे माँग लो ॥४॥ कुवल्याश्व बोला—हे भगवन् ! आपकी कृपा से मेरे पिता के गृह मे स्वर्णादि सब वस्तुएँ है, मुझे अभी तक ऐसे किमी वस्तु की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ॥५॥ मेरे पिता सहस्र वर्ष हुए, जब इस पृथिवी पर शासन करते थे और आप भी पाताल मे निवास करते थे, तब कभी भी मेरा मन प्रार्थना मे प्रवृत्त नहीं हुआ ॥६॥ जिनके पिता जीवित है, वह पुरुष धन्य है इसलिए युवावस्था मे

करोड सख्यक घन को भी जो तिनके के समान मानते है, वह परम पुण्यवान् महापुरुष है ॥७॥

मित्रागितुल्यशिष्टानितद्वद्दह्मनामयम् ।  
 जनेवाधितेवित्तयौवनकित्तुनास्तिमे ॥८  
 असत्यर्थेनृणायाच्ञामप्रवसुजायतेमनः ।  
 सत्यशेषेकथायाच्ञाममजिह्वाकरिष्यति ॥९  
 यैर्नचित्यधनकिचिन्ममगेहेस्तिनास्तिवा ।  
 पितृबाहुतरुच्छायासश्रिता सुखिनोहिते ॥१०  
 येतुबाल्यात्प्रभृत्येवविनापित्राकुटु बिन ।  
 तेसुखास्वादविभ्रं शान्मन्येधात्रैववचिताः ॥११  
 तद्वयंतत्प्रसादेनधनरत्नादिसचयम् ।  
 पितृभक्ताःप्रयच्छाम कामतो नित्यमर्थिनाम् ॥१२  
 तत्सर्वमिहसप्राप्तं यदघ्नियुगलतव ।  
 मच्चूडामणि नाघृष्ट यच्चागस्पर्शमाप्तवान् ॥१३  
 इत्येवप्रश्रितवाक्यमुक्त पन्नगसत्तमः ।  
 प्राहराजसुतप्रीत्यापुत्रयोरुपकारिणाम् ॥१४

मेरे मित्र उचित शिष्टाचार से युक्त हैं, मेरा देह युवा एवं रोग रहित है, तो मेरे पास क्या नहीं है ॥८॥ मेरा पिता विलक्षण धन से सम्पन्न हैं, जिनके पास धन नहीं, वही याचना मे प्रवृत्त होते है, मेरे यहाँ प्रचुर धन होने से मेरी जिह्वा याचना क्यों करे ? ॥९॥ घर मे धन हो या न हो, जो पिता रूपी वृक्ष की भुजलताओं के आश्रित हैं, उन्हें कोई चिन्ता नहीं होती, क्योंकि यथार्थ रूप सुखी वही है ॥१०॥ परन्तु, जो बाल्यकाल से ही पितृहीन होकर परिवार के भरण पोषण मे व्यस्त होते हैं, उन्हें विधना ने सुख से वंचित कर दिया है ॥११॥ आपकी कृपा से मैं अपने पिता के द्वारा प्रदत्त असंख्य धन-रत्नादि को याचको को देता हूँ ॥१२॥ फिर जब अपनी चूडामणि के द्वारा आपके चरणारविन्दो का स्पर्श किया है और आपका सग लाभ हुआ तो मुझे निःसदेह सम्पूर्ण लाभ

होगये है ॥१३॥ ऐसे वचन सुन कर नागराज अपने पुत्रों के हित में तत्पर उस राजकुमार से बोले ॥१४॥

यदिरत्नसुवर्णादिमत्तोवाप्तु नतेमनः ।

यदन्यन्मनस प्रीत्यैत्रू हितत्तेददाम्यहम् ॥१५

भगवस्त्वत्प्रसादेनप्रार्थितस्यगृहेमम ।

सर्वमस्तिविशेषेणसंप्राप्तंनवदर्शनात् ॥१६

कृतकृत्योस्मिचैतेनसफलजीवितमम ।

यद्वंगसश्लेषमितस्तवदेवस्यमानुपः ॥१७

ममोत्तमागेत्वत्पादरजमायदिहास्पदम् ।

कृततेनैवनप्राप्त किमयापन्नगेश्वर ॥१८

यदित्ववक्ष्यदातव्योवरोमेमनसेप्सितः ।

तत्पुण्यकर्मसस्कारोहृदयान्माव्यपैतुमे ॥१९

सुवर्णमरिणरत्नादिवाहनगृहमासनम् ।

स्त्रियोन्नपानपुत्राश्चचारुमाल्यानुलेपनम् ॥२०

एतेचविविधाभोगागीतवाद्यादिकचयत् ।

सर्वमेतन्मममतफलपुण्यवनस्पते ॥२१

तस्मान्नरेणतन्मूलसेकेयत्न कृतात्मना ।

कर्त्तव्य पुण्यसक्तानानकिचिद्भुवि दुर्लभम् ॥२२

स्वर्ण रत्नादि की कामना न होते हुए भी जिससे तुम्हारे अन्तर की प्रीति का संचार हो सके, वह विषय मुझसे कहो, उसे मैं प्रदान करूँगा ॥१५॥ कुवलययाश्व बोले—भगवान् ! मेरे गृह में आपकी कृपा से सम्पूर्णा प्रार्थनीय वस्तुएँ विद्यमान हैं, तथा आपका दर्शन लाभ करने से समस्त वस्तुएँ ही मुझे मिल गयी हैं ॥१६॥ आप देवता के अग्र-संग का लाभ करके मैं अपने को धन्य मानता हूँ, इससे मेरा जीवन धारण करना भी सफल हुआ है ॥१७॥ हे नागेश्वर ! आपके चरणरज ने मेरे मस्तक पर निवास किया है, इससे मुझे क्या नहीं प्राप्त हुआ ? ॥१८॥ तो भी यदि आप मुझे इच्छित वर देना चाहते हैं तो यही दीजिये कि मेरे हृदय से कभी पुण्यकर्म के सस्कार न निकले ॥१९॥ स्वर्ण,

मरिग, रत्न, वाहन, घर, आसन, स्त्री, पुत्र, अन्न, रस, माला, अनुलेपन ॥२०॥  
तथा गायन वादन आदि सब वस्तुएँ पुरण्य का ही फल हैं ॥२१॥ इसलिए कृत  
चित्त होकर उसी की जड सीचनी चाहिये, पुरण्य मे आसक्त मनुष्यो के लिए  
पृथिवी मे कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है ॥२२॥

एवभविष्यतिप्राज्ञतवधर्माश्रितामति ।  
सत्यचैतत्फलसर्वधर्मस्योक्त यथात्वया ॥२३॥  
तथाप्यवश्यमद्गोहेमागतेनत्वयाधुना ।  
ग्राह्य यन्मानुषेलोकेदुष्प्रापभवतोमतम् ॥२४॥  
तस्यतद्वचनश्रुत्वा सतदानृपनदन ।  
मुखावलोकनचक्रपन्नगेश्वरपुत्रयो ॥२५॥  
ततस्तौप्रणिपत्योभौराजपुत्रस्ययन्मतम् ।  
तत्पितुःसकलवीरौकथयामासतु स्फुटम् ॥२६॥  
तातास्यपत्नीदयिताश्रुत्वेम विनिपातितम् ।  
अत्यजदयिताप्राणान्विप्रलब्धादुरात्मना ॥२७॥  
केनापिकृतवैरेणदानवेनकुबुद्धिना ।  
गधर्वराजस्यसुतानाम्नाख्यातामदालसा ॥२८॥

अश्वतर बोले—ऐसा ही होगा, तुम्हारा मन सदा पुरण्य कार्यों मे रहेगा,  
तुम्हारा सब कथन सत्य है, धर्म का एक मात्र फल यही है ॥२३॥ फिर भी  
जब तुम मेरे गृह पर आये हो तो मर्त्यलोक मे जो तुम्हे दुष्प्राप्य हो, वह अवश्य  
लेना चाहिये ॥२४॥ जड बोला—नागराज का वचन सुन कर राजकुमार ने  
उनके पुत्रो के मुख की ओर देखा ॥२५॥ तब उन दोनो ने अपने पिता को  
प्रणाम करके राजकुमार की कामना को स्पष्ट रूप से कहा ॥२६॥ दोनो पुत्र  
बोले—इनकी प्रियतमाने किसी दुरात्मा दानव द्वारा छल पूर्वक इनकी मृत्यु का  
समाचार पाकर प्राण त्याग किया है ॥२७॥ उस दानव ने शत्रुतावश ही ऐसा  
किया था, इनकी पत्नी का नाम मदालसा था, वह गधर्वराज की पुत्री थी ॥२८॥

कृतज्ञोर्यततस्तातप्रतिज्ञांकृतवानिमांम् ।

नान्याभार्याभिवित्रीभेवर्जयित्वामदालसाम् ॥२९॥

द्रष्टुताचारुसर्वांगीमयवीरोऋतध्वज ।  
 तातवाच्छनियद्येतात्क्रियतेतत्कृतभवेत् ॥३०  
 भूतैर्वियोगिनोयोगस्तादृशैरेवतादृगः ।  
 कथमेतद्विनास्वप्नमायावागवरोदिताम् ॥३१  
 प्रणिपयत्यभुजगेशपुत्र शत्रुजितस्तत ।  
 प्रत्युवाचमहात्मानप्रेमलज्जासमन्वित ॥३२  
 मायामयीमप्यधुनाममतातोमदालसाम् ।  
 यदिदर्शयतेमन्येपरकृतमनुग्रहम् ॥३३  
 तस्मात्पश्येहवत्सत्वमायाचेद्द्रष्टुमिच्छसि ।  
 अनुग्राह्योभवान्गोहेवालोप्यभ्यागतोऽगुरु ॥३४  
 आनयामासनागोद्रोगुहेगुणामदालसाम् ।  
 दर्शयामासचतदाराजपुत्रायताशुभाम् ॥३५

मदालसा के मग्ने पर, उमके प्रति कृपज्ञता प्रकाश करने के लिए इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि उमके अतिरिक्त अन्य किसी नारी को पत्नी नहीं बनाऊँगा ॥२६॥ यह उम सर्वांग मुन्दरी के दर्शन को अत्यंत लालायित है, यदि ऐसा हो सके तो इनका यथार्थ उपकार हो सकता है ॥३०॥ अश्वतर बोले—पचभूतात्मक देह का वियोग होने पर पूर्ववत् मयोग आमुगी माया के अतिरिक्त अन्य प्रकार से संभव नहीं है ॥३१॥ यह सुन कर ऋतध्वज ने नागराज को प्रणाम किया और लज्जा महित कहा ॥३२॥ हे तान ! यदि आप उम मदालसा को माया पूर्वक ही मुझे दिखा सके तो मैं उसे परम अनुग्रह ही समझूँगा ॥३३॥ अश्वतर ने कहा—हे वत्स ! यदि तुम माया देखना चाहते हो तो अनुग्रह के पात्र होने के कारण देखो, यद्यपि तुम बालक होकर यहाँ आये हो, फिर भी अतिथि होने के कारण गुरु के समान सम्मान के योग्य हो ॥३४॥ नागराज ने यह कह कर घर में छिपी हुई मदालसा को वहाँ बुलाकर राजकुमार को दिखाया ॥३५॥

तेपासमोहनाथयिजजल्पचतत स्फुटम् ।  
 सेयनवेतितेभार्याराजपुत्रमदालसा ॥३६

स दृष्ट्वा तां तदा तन्वी तत्क्षणा द्विगतत्रप ।  
 प्रियेतितामभिमुखययौ वाचमुदीरयन् ॥३७  
 निवारयामास च तनाग सोश्र्वतरस्त्वरन् ।  
 मायेय पुत्रमासप्राक्षी प्रागेव कथिततव ॥३८  
 अ तर्द्धानिमुपैत्याशुमायासस्पर्शनादिभि ।  
 तत पपातमेदिन्यासतुमूच्छिपरिप्लुतः ॥३९  
 हाप्रियेतिवदन्सोथचितयामासभामिनीम् ।  
 मोहोममायनोवेतिनालप्रत्ययवानहम् ॥४०  
 अहोममेत्यहचेतिबलप्रत्यययोर्महत् ।  
 येनाहपातनोरीणाविनाशश्च निपातितः ॥४१  
 ममेतिदर्शितानेन मिथ्यामायेतिविस्फुटम् ।  
 वाय्वबुतेजसाभूमेराकाशस्यचचेष्टया ॥४२

तथा सब को मोहित करने के लिए मन्त्रोच्चार पूर्वक मदालसा को दिखाते हुए राजकुमार से कहा—हे वत्स ! तुम्हारी भार्या मदालसा यही है, इसे तुम देखो ॥३६॥ उसे देखते ही राजकुमार लज्जा त्याग कर 'प्रिये' कहते हुए तत्काल उसके सामने पहुँचे ॥३७॥ अश्र्वतर ने उन्हे निषेध करते हुए कहा—हे वत्स ! यह माया है, इसे स्पर्श मत करना, यह मैं पहिले ही कह चुका हूँ ॥३८॥ स्पर्शादि से माया तत्काल नष्ट हो जाती है, ऐसा सुन कर ऋतध्वज मूच्छित होकर पृथिवी में गिर पड़े ॥३९॥ फिर हा प्रिये ! कहते हुए बोले—क्या मुझे मोह हो गया है अथवा कुछ और बात है, यह बात समझ में नहीं आती है ॥४०॥ परतु मुझे बल पूर्वक निश्चय है कि यह मेरी ही है, जिससे मुझे बिना शस्त्र मारा है ॥४१॥ वह मिथ्या माया ही मुझे दिखाई है, अथवा यह वायु, जल, तेज या आकाश की कोई चेष्टा है ? ॥४२॥

तत कुवलयाश्र्व समाश्रास्यभुजगम् ।  
 कथयामास तत्सर्वमृतसजीवनादिकम् ॥४३  
 तत प्रहृष्ट प्रतिलभ्यकाताप्रणम्यनागनिजमाजगाम ।  
 सस्तूयमान स्वपुरतमश्र्वमारुह्यसचितितमभ्युपेतम् ॥४४



श्रृगुयाङ्गुक्तिपूर्वयोनैरतर्येणमानव ।  
 वेदघोपफलतेनप्राप्तवैभुविदुर्लभम् ॥४५॥  
 सप्राप्तोत्सुखनित्यसर्वकामसमन्वित ।  
 लोकेचदुर्लभतस्यनास्तिकिचिन्नतीवहि ॥४६॥

जड बोले—फिर नागराज अश्वतर ने कुवलाश्व को समझा बुझा कर जिस प्रकार मदालमा को प्राप्त किया था वह सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया ॥४३॥ तब कुवलाश्वको अपनी भार्या की प्राप्ति में अत्यन्त आनन्द हुआ और उन्होंने अपने अश्व को स्मरण किया याद करते ही वह अश्व वहाँ आ गया और राजकुमार ने नागराज को प्रणाम कर भार्या महित घोड़े पर बैठ कर अपने नगर को प्रस्थान किया ॥४४॥ जो मनुष्य इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनते हैं, वे वेदपाठ के फल को प्राप्त होते हैं, यह उपाख्यान पृथिवी में अत्यन्त दुर्लभ है, इसमें सदेह नहीं है ॥४५॥ सब कामनाओं की प्राप्ति एवं नित्य सुख की प्राप्ति होती है, लोक में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता ॥४६॥

### २३—मदालमा का पुत्र--उल्लापन

आगम्यस्वपुरसोथपित्रो सर्वमशेषत ।  
 कथयामासतन्वगीयथाप्राप्तापुनर्मृता ॥१॥  
 ननामसापिचरणौश्वश्च श्वशुरयो शुभा ।  
 स्वजनचयथापूर्ववदनाश्लेषणादिभि ॥२॥  
 पूजयामासतन्वगीयथान्याययथावय ।  
 ततोमहोत्सवोजज्ञो पौराणातत्रवैपुरे ॥३॥  
 ऋतध्वजश्चसुचिरतयारेमेसुमध्यया ।  
 निर्भरेषुचशैलानानिम्नगापुलिनेषुच ॥४॥  
 काननेषुचरम्येषुवनेषूपवनेषुच ।  
 पुण्यक्षयवाङ्मानासापिकामोपभोगत ॥५॥

सहतेनातिकातासुरेमेरम्यासुभूमिषु ।  
 तत कालेनमहताशत्रुजित्सनराधिप ॥६  
 सम्यक्प्रशास्यवसुधाकालधर्ममुपेयिवान् ।  
 तत पौरामहात्मानपुत्रतस्यऋतध्वजम् ॥७  
 अभ्यपिचत राजानमुदाराचारचेष्टितम् ।  
 सम्यक्पालयतस्तस्यप्रजाःपुत्रानिवौरसान् ॥८

पुत्र बोला—अपने नगर मे पहुँच कर ऋतध्वज ने मृतक मदालसा को जिम प्रकार पुन प्राप्त किया वह सब वृत्तान्त अपने माता-पिता से कहा ॥१॥ कल्याणी मदालसा ने भी अपने सास-श्वसुर के चरणो मे प्रणाम पूर्वक ॥२॥ सभी स्वजनो की यथा योग्य वदना, पूजन आदि किया और फिर नगरी मे पुरवासियो ने महोत्सव मनाया ॥३॥ तथा राजकुमार ऋतध्वज ने मदालसा के साथ पर्वत, भरने नदी, पुलिन ॥४॥ वन, उपवन आदि मे बहुत समय विहार किया, मदालसा भी कामोपभोग द्वारा वामना सहित ॥५॥ सुन्दर कान्ति युक्त ऋतध्वज के साथ विविध मनोहर स्थानो मे विहार करने लगी, इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हो गया तब राजा शत्रुजित् ॥६॥ काल धर्म के दशीभूत हो गए और नगर निवासियो ने उनके पुत्र ॥७॥ उदार आचरण वाले ऋतध्वज को राज्य पर बैठाया और वे भी भले प्रकार से प्रजा-पालन मे तत्पर हुए ॥८॥

मदालसाया सज्जेपुत्र प्रथमजस्तत ।  
 तस्यचक्रेपितानामविक्रातइतिधीमत ॥९  
 तुतुपुस्तेनवैभृत्याजहासचमदालसा ।  
 सावैमदालसापुत्रबालमुत्तानशायिनम् ॥१०  
 उल्लापनच्छलेनाहृदमानमविस्वरम् ।  
 शुद्धोसिरेतातनतेस्तिनामकृताचतेकल्पनयाधुनैव ॥११  
 पचात्मकदेहमिदनतेस्तिनैवास्यत्वरोदिपिकस्यहेतो ।  
 नवाभवात्रोदितिवैस्वजन्माशुद्धोयमासाद्यमहीसमूहम् ॥१२  
 विकल्प्यमानौविविधैर्गुणाश्रभौता सकलेन्द्रियेषु ।  
 भूतानिभूतै परिदुर्बलानिवृद्धिसमायातियथेहपु स ॥१३

अन्नावुपानादिभिरेवकस्यततेस्मितवृद्धिर्नचतेस्मिहानि ।

त्वकवुकेशीर्यमाणोनिजेस्मिस्तस्मिन्स्वदेहेमृढतामात्रजेथा ॥१४

इमके पठ्चात् मदालमा ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, जिमका नाम 'विक्रान्त' रखा गया ॥१॥ पुत्र होने के कारण भृत्यगण प्रत्यत प्रसन्न हुए, मदालमा हँसने लगी, उम पुत्र के पाँव पमार कर मोने पर ॥१०॥ अथवा अस्फुट स्वर से रोने पर मदालमा उमसे कहती है—हे पुत्र ! तुम नाम विहीन का नाम करण कतपना मे ही हुआ है ॥११॥ तुम इम शरीर को पचभूतात्मक ममभो, क्योंकि जैसे यह शरीर तुम्हारा नहीं है, वैसे ही तुम भी इमके नहीं हो, फिर क्यों रोते हो ? यह शब्द भी स्वय ही प्रकट होता है ॥१२॥ विभिन्न भौतिक गुण अथवा अगुण तुम्हारी इन्द्रियो मे ह, जैसे अत्यन्त दुर्लभ भूतगण भूत की महायता मे ही अन्न जलादि के दान से बढ़ते है ॥१३॥ उमके समान तुम्हारी वृद्धि अथवा क्षय नहीं है, यह शरीर तो केवल आच्छादन है, यह तो क्षीण हो जायगा, इमलिए तुम इमके मोह मे मत पडना ॥१४॥

शुभाशुभै कर्मभिर्देहेतन्मदादिमूढे कचुकस्तेपिनद्ध ।

तातेतिकिचित्तनयेतिकिचिदवेतिकिचिद्दयितेतिकिचित् ॥१५

ममेतिकिचिन्नममेतिकिचिद्भूतामघवहुधामालपेथा ।

दु खानिदुःखापगमायभागान्सुखायजानातिविमूढचेता ॥१६

तान्येवदु खानिपुन सुखानिजानातिविद्वानविमूढचेता ।

हासोस्थिरादर्शनमक्षियुग्ममत्युज्ज्वलायत्कलुषवसाया ॥१७

कुचादिपीनपिशिताघनतत्स्थानरते किरकोनयोपित् ।

यानाक्षितौयानगतश्चदेहोदेहेपिचान्य पुरुषोनिविष्ट ॥१८

ममत्वमुर्व्यानतथायथास्वेदेहेतिमात्रचविमूढतैषा ॥१९

त्यजधर्ममधर्मचउभेसत्यानृतेत्यज ।

उभेसत्यानृतेत्यक्त्वायेनत्यजसितत्यज ॥२०

शुभाशुभ कर्म से ही इसका आच्छादन हुआ ममभो, पिता, पुत्र, माता, स्त्री अथवा अन्य आत्मीयजन ॥१५॥ अपना कुछ नहीं है, इनका अधिक मान न करना मूढ चेता पुरुष ही दु ख को दु खनाश का तथा भोगो को मुख का कारण

मानते है ॥१६॥ अविद्या से ही अन्धे हो मोह मे पडे है, वह दु ख को सुख ही मानते है, स्त्री हँसती है तो हड्डी दिखाई पडती है और उसके नेत्रो मे बसा की कलुपता प्रनीत होती है ॥१७॥ उमके स्तनादि भी मॉसपिण्ड मात्र है, उमका गुह्य स्थान भी वैसा ही है, तब क्या स्त्री साक्षात् नरक का ही स्वरूप नहीं है ? पृथिवी मे यान, यान मे शरीर और शरीर मे अन्य पुरुष का निवास है ॥१८॥ जैसी ममता शरीर के प्रति है, वैसी पृथिवी के प्रति भी नहीं है, यही मूर्खता है, क्योंकि शरीर पृथिवी का ही सूक्ष्म अंश है ॥१९॥ धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य का त्याग करो, इसे त्यागने के पश्चात् जिससे त्याग किया जाय, उसे भी त्याग दो ॥२०॥

वर्धमानसुतसातुराजपत्नोदिनेदिने ।

तमुल्लापादिनोबोधमनयन्निर्मलात्मकम् ॥२१

यथायथाबललेभेयथालेभेमतिपित ।

तथातथात्मबोधचसोवापन्मातृभाषितै ॥२२

इत्थतयासतनयोजन्मप्रभृतिबोधित ।

चकाग्निमतिप्राज्ञोगार्हस्थ्यप्रतिनिर्मम ॥२३

द्वितीयोस्या सुतो जज्ञेतस्यनामाकरोत्पिता ।

सुबाहुरयमित्युक्तसाजहासमदालसा ॥२४

तमप्येवयथापूर्वबालमुल्लादवादिनी ।

प्राहबाल्यात्सचप्रापतथाबोधमहामति ॥२५

तृतीयन्तनयञ्जान्तन्त राजाशत्रुमर्दनम् ।

यदाहन्तेनसामुभ्रूर्जहासातिचिरपुन ॥२६

तथैवसोपितन्वग्याबालत्वादेवबोधित ।

क्रियाश्चकारनिष्कामानकिञ्चित्फलकारणम् ॥२७

चतुर्थस्यसुतस्याथचिकीर्षुर्नामभूपति ।

ददर्शताशुभाचारामीपद्धासामदालसाम् ॥२८

जड बोला—इस प्रकार यह राजपुत्र दिनो-दिन बढने लगा, रानी मदालसा भी पुत्र को खिलाने के मिस उस स्वच्छ आत्मा वाले पुत्र को ज्ञान ॥२१॥

देने में लगी, क्रम-क्रम करके पुत्र जैसे पिता के द्वारा बल वृद्धि को पाने लगा वैसे ही माता के उपदेश द्वारा आत्मज्ञान भी प्राप्त करने लगा ॥२२॥ जन्म से ही माता ने आत्मज्ञान विषयक उपदेश को पाकर ममता दूर हो गई और गृहस्थ धर्म के प्रति राजकुमार निस्पृह हो गये ॥२३॥ कुछ कालोपरान्त मदालसा के दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम पिता ने 'सुबाहु' रखा, मदालसा उम्र समय भी हँसी ॥२४॥ वह उसे भी उमो प्रकार आत्मबोध देने लगी, इससे उसका मन भी ज्ञान प्राप्त करके विरक्त हो गया ॥२५॥ फिर तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ तो राजा ने उसका नाम शत्रुमर्दन रखा, उसे सुन कर मदालसा बहुत देर तक हँसती रही ॥२६॥ वह इसे भी पहिले के समान आत्मज्ञान देने लगी, जिससे यह भी काम-रहित हो गया ॥२७॥ फिर चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसका नामकरण करने के लिये राजा ने मदालसा की ओर देखा तो वह हँस पड़ी ॥२८॥

तामाहराजाहसतीकिचित्कौतूहलान्वित ।  
 क्रियमारोऽसकृन्नाम्निकथ्यताहास्यकारणम् ॥२९॥  
 विक्रातश्चसुबाहुश्चयथान्य शत्रुमर्दन ।  
 शोभनानीतिनामानितानिमन्येकृतानिवै ॥३०॥  
 योग्यानिक्षत्रवधूनाशौर्याटोपयुतानिच ।  
 असत्येतानिवैभद्रेयदितेमनसिस्थितम् ॥३१॥  
 तदस्यक्रियतानामचतुर्थस्यसुतस्यमे ।  
 मयाज्ञाभवत कार्यामहाराजयथात्थमाम् ॥३२॥  
 तथानामकरिष्यामिचतुर्थस्यसुतस्यमे ।  
 अलर्कइतिधर्मज्ञःख्यातिलोकेगमिष्यति ॥३३॥  
 कनीयानेपतेपुत्रोमतिमाश्रभविष्यति ।  
 तच्छ्र त्वानामपुत्रस्यकृतमात्रामहीपति ॥३४॥  
 अलर्कइत्यसम्बद्ध प्रहस्येदमथान्नवीत् ।  
 भवत्यायदिदनाममत्पुत्रस्यकृतशुभे ॥३५॥

किमीदृशमसम्बद्धमर्थं कोस्यमदालमे ।

कल्पनेयमहाराजकृतासाव्यावहारिकी ॥३६

यह देख कर राजा ने पूछा—मैं जब-जब पुत्र होने के पश्चात् नाम-करण के लिये उद्यत हुआ, तब-तब ही तुम हँस पड़ती हो, इगका क्या कारण है ? ॥२६॥ मैंने इन पुत्रों के नाम विक्रान्त, मुवाहु और शत्रुमर्दन रखे, यह मेरे विचार से युक्ति सङ्गत ही है, ॥३०॥ क्यों कि क्षत्रियो का नाम शौर्य और बर्ष से युक्त होना ही ठीक है, फिर भी तुम्हारे विचार से यह तीनों नाम अयुक्त हो तो ॥३१॥ इस चौथे पुत्र का नाम तुम ही रखो, मदालमा ने कहा— हे महाराज ! आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्त्तव्य है ॥३२॥ इस लिये मैं आपकी आज्ञानुसार नामकरण करती हूँ, यह पुत्र भूमण्डल में 'अलर्क' नाम से प्रसिद्ध होगा ॥३३॥ आपका यह सबसे छोटा पुत्र अत्यन्त बुद्धिमान् होगा । परन्तु इस असम्बद्ध नाम को सुन कर ॥३४॥ राजा ने हँसते हुए कहा—तुमने जो पुत्र का नाम रखा है ॥३५॥ वह असम्बद्ध है, इस नाम का क्या अर्थ है ? मदालमा ने कहा—हे राजन् ! नामकरण तो केवल लोकाचार और नितान्त कल्पना है ॥३६॥

त्वत्कृतानातथानाम्नाश्रुगुभूपनिरर्थाताम् ।

वदन्तिपुरुषा प्राज्ञाव्यापिनपुरुषसत ॥३७

क्रातिश्चगतिरुद्दिष्टादेशाद्देशात्सन्तुया ।

सर्वं गोनप्रयातीहव्यापीदेशेश्वरोयत ॥३८

ततोविक्रातसज्ञेय मताममनिरर्थिका ।

सुबाहुरितियासज्ञाकृतातस्यमुतस्यते ॥३९

निरर्थासाप्यमूर्त्तस्यपुरुषस्यमहीपते ।

पुत्रस्ययत्कृतनामतृतीयस्यारिमर्दन ॥४०

मन्येतच्चाप्यसम्बद्धंश्रुगुवाप्यत्रकारणम् ।

एकएवशरीरेषुसर्वेषुपुरुषोयदा ॥४१

तदास्यराजन्क शत्रु कोवामित्रमिहेष्यते ।

भूतैर्भूतानिमर्द्यन्तेअमूर्त्तोमर्द्यते कथम् ॥४२

नाम रखना है ऐसा ममभ कर एक नाम रख लिया, वैसे आपने भी जिन नामों को रखा है, उनका भी कोई अर्थ नहीं है, क्यों कि षण्डितजन आत्मा को सर्वव्याप्त कहते हैं ॥३७॥ एक देशके अन्य देश में जाने को क्रान्ति कहते हैं, आत्मा सर्वगत एव सर्वव्यापी होने से शरीर का ईश्वर है, उसकी गति सम्भव नहीं ॥३८॥ इसीलिये मैं विक्रान्त नाम का कोई अर्थ नहीं समझती । हे राजन्! आत्मा तो स्वरूप रहित है, फिर हमारे पुत्र के सुबाहु नाम का भी ॥३९॥ कोई अर्थ नहीं है और तृतीय पुत्र का अरिमर्दन नाम भी ॥४०॥ मैं निरर्थक ही समझती हूँ, क्यों कि एक आत्मा ही सब शरीरों में विद्यमान रहता है ॥४१॥ उसका शत्रु मित्र कोई नहीं हो सकता, भूत के द्वारा ही भूत का मर्दन होता है, परन्तु आकार हीन का मर्दन कैसे हो सकता है ? ॥४२॥

क्रोधादीनापृथरभगभावात्कल्पनेयनिरर्थिका ।

यदिसध्यवहारार्थमसन्नामप्रकल्प्यते ॥४३

नाम्नि कस्मादलकार्ख्येनैरर्थ्यं भवतोमतम् ।

एवमुक्तास्तयासाधुमहिष्यासमहीपतिः ॥४४

तथेत्याहमहाबुद्धिर्दयितातथ्यवादिनीम् ।

तचापिसामुतसुभूर्यथापूर्वसुतास्तथा ॥४५

प्राहावबोधजननतामुवाचसपार्थिव ।

करोपिकिमिदमूढेममाभावायसन्तते ॥४६

दुष्टावबोधदानेनयथापूर्वसुतेषुमे ।

यदितेमत्प्रियकार्यमनुग्राह्यं वचोमम ॥४७

तदेन तनय मार्गप्रवत्त सन्नियोजय ।

कर्ममार्गं समुच्छेदनैवदेविगमिष्यति ॥४८

पितृपिडनिवृत्तिश्चनैवसाध्विभविष्यति ।

पितरोदेवलोकस्थास्तथातिर्यवत्वमागता ॥४९

तद्वन्ममनुष्यतायाताभूतवर्गेषुयेस्थिताः ।

सपुण्यानसपुण्याश्चक्षुक्षामास्तृट्परिप्लुतान् ॥५०

क्रोध इत्यादि भाव भी आत्मा से पृथक् ही है, सब प्रकार निर्दोष आत्मा शत्रु का मर्दन नहीं कर सकती, यदि लोकाचार वश ही निरर्थक नाम की कल्पना की जाती है ॥४३॥ तो मेरे द्वारा रखा गया अलर्क नाम किस प्रकार अर्थहीन है ? रानी के ऐसे वचन कहने पर महा बुद्धिमान् राजा ने ॥४४॥ उस सत्यभाषिणी से कहा—तुम्हारा कथन सत्य है, तब मदालसा ने चौथे पुत्र को भी उन तीनों पुत्रों के समान ही ॥४४॥ आत्मज्ञान देने लगी । इस प्रकार राजा ने कहा— तुम यह क्या कर रही हो ? क्या मेरी मन्तान को भावहीन करना चाहती हो ? ॥४६॥ जैसे आत्मज्ञान देकर उन तीनों पुत्रों का अमंगल किया है, क्या वैसा ही इसे करोगी ! यदि तुम मेरा प्रिय करना कर्तव्य मानती हो और मेरे वचन का पालन करना उचित समझती हो ॥४७॥ तो इस पुत्र को प्रवृत्ति मार्ग में प्रेरित करो, क्यो कि कर्म में प्रवृत्त करने से कर्म मार्ग का नाश नहीं हो सकता ॥४८॥ ऐसा करने से पिण्ड के लुप्त होने की आशका नहीं रहेगी, क्यो कि शुभा शुभ कर्म से स्वर्ग प्राप्ति या तिर्यग् योनि को प्राप्त पितरगण ॥४९॥ नरत्व प्राप्त अथवा अन्य योनियों में सक्रमण करते हुए क्षुधा पिपासा से अत्यस्त व्याकुल क्षीण होते हैं ॥५०॥

पिण्डोदकप्रदानेननर कर्मण्यवस्थित ।

सदाप्याययतेसुभ्रूस्तद्वद्देवातिथीनपि ॥५१॥

देवैर्मनुष्यैः पितृभिः प्रेतैर्भूतैः सगुह्यकैः ।

वयोभिः कृमिभिः कीटैर्नरैर्वोपजीव्यते ॥५२॥

तस्मात्तन्वगिमेपुत्रयत्कार्यक्षत्रयोनिभिः ।

ऐहिकामुष्मिकायालन्तत्कर्मप्रतिपादय ॥५३॥

तेनैवमुक्तासासाध्वीवरनारीमदालसा ।

अलर्कनामतनय प्रोवाचोल्लापवादिनी ॥५४॥

पुत्रवद्धं स्वमेभर्तुर्मनोनन्दयकर्मभिः ।

ऐहिकामुष्मिकफलन्तत्सम्यक्परिपालय ।

मित्राणामुपकारायदुर्हदानानाशनायच ॥५५॥



धन्योमिरेयोवमुधामगत्रुरेकश्चिरपालयितासिपुत्र ।

तत्पालनादिद्रममोपभोग्यधर्मफलप्राप्त्यसिचामरत्वम् ॥५६

उम समय कर्म मार्ग के अबलम्बन से पिण्डोदक द्वारा उनका और उन्ही के समान देवताओं और अनियियों का पूजन करते है ॥५१॥ क्यों कि देवता, मनुष्य, पितर, प्रेत, भूत, गुह्यक, पक्षी, कृमि, कीटादि सभी मनुष्यों के आश्रय से जीवन निर्वाह करते है ॥५१॥ इमत्रिये हे तन्वन्गी ! क्षत्रियोचित कर्त्तव्य और इहलोक परलोक के फल लाभ के लिये जो उचित है, वही शिक्षा इसे दो ॥५३॥ पति की बात मुन कर मदालमा ने उम पुत्र को खिलाने के मिम कहा ॥५४॥ हे पुत्र ! तुम वृद्धि को प्राप्त होओ, मित्रों के उपकार और शत्रुओं के महार कर्म द्वारा मेरे स्वामी के हृदय को आनन्दित करो ॥५५॥ हे पुत्र ! तुम धन्य हो, क्यों कि तुम शत्रु रहित होकर दीर्घ काल तक वसुधरा का पालन करोगे, जिससे सभी लोको मे मुख का सञ्चार होगा और इस प्रकार परम धर्म सचय करके अमरत्व को प्राप्त होगे ॥५६॥

धरामरान्पर्वमुतर्पयेथा समीहितम्बन्धुपूपुरयेथा ।

हितपरम्महृदिचितयेथामन परस्त्रीपुनिवर्तयेथा ॥५७

सदामुगर्हिदिचितयेथास्तद्धधानतोत पडरीञ्जयेथा ।

मायाप्रबोधेननिवारयेथाह्यनित्यनामेवविचितयेथा ॥५८

अर्थागमायक्षिनिपाञ्जयेथायगोर्ज्जनायार्थमपिव्ययेथा ।

परापवादश्रवणाद्विभीथाविपत्समुद्राञ्जनमुद्धरेथा ॥५९

यज्ञरनेकैविवुधानजस्रमन्तैद्विजान्प्रीणयसथिताश्च ।

स्त्रियश्चकामरतुलैश्चिराय युद्धैश्चागीस्तोपयितासिवीर ।'६०

वालामनोनन्दयबान्धवानागुरोस्तथाजाकरगौ कुमार ।

स्त्रीणायुवासत्कुलभूपगानावृद्धोवनेवत्सवनेचरणाम् ॥६१

राज्यकुर्वन्सुमृदानन्दयेथा साधून्क्षस्तातयज्ञैर्यजेथा ।

दुष्टान्निघ्नन्वैरिणश्चाजिमध्येगोविप्रार्थेवत्समृत्युं भजेथा ॥६२

तुम प्रत्येक पर्व दिन मे ब्राह्मणों की तृप्ति करो, बन्धुजनो का इच्छित करो और परहित साधन की इच्छा करने हुए, पर नागी मे मन मत लगाओ

॥५७॥ सदा भगवान् वा ध्यान करते हुए कामादि छै शत्रुओं को वश में करो, ज्ञान के द्वारा माया को दूर करो और विश्व की अनित्यता का सदा ध्यान रखो ॥५८॥ अर्थ प्राप्त करते हुए पाँच वस्तुओं को जीतो और यश के लिये व्यय करो, पर निन्दा से डरो, लोगो को उत्पत्ति सागर से उबारो ॥५९॥ विभिन्न यज्ञानुष्ठानो से देवताओं को, निरन्तर दान से विप्रों को और आश्रितों को प्रसन्न करो, विभिन्न भोगों से स्त्रियों और युद्ध से शत्रुओं को सन्तुष्ट करो ॥६०॥ बाल्यकाल में बाँधवों का, कौमरावस्था में आज्ञा पालन द्वारा माता-पिता का, युवावस्था में स्त्री का और वृद्धावस्था में वनवास पूर्वक वनचरों का उपकार करो ॥६१॥ हे वत्स ! तुम राज्य में प्रतिष्ठित हो कर सुहृदों को आनन्दित करोगे, यज्ञानुष्ठान, गौ, ब्राह्मण और साधुजन की रक्षा के लिये युद्ध में शत्रुओं को जीत कर परलोक गमन करोगे ॥६२॥

## २४-राजधर्म कथन

एवमुल्लाप्यमानस्तुसतुमात्रादिनेदिने ।  
 ववृधेवयसाबालोबुद्ध्याचालर्कसञ्जित ॥१॥  
 सकौमारकमासाद्यऋतध्वजसुतस्तदा ।  
 कृतोपनयनप्राज्ञपणिपत्याहमातरम् ॥२॥  
 मयायदम्ब्रकर्तव्यमैहिकामुष्मिकायवै ।  
 सुखायवदत्सर्वप्रश्रयावनतस्यमे ॥३॥  
 ममार्थचैवधर्मार्थप्रजानाचैवयद्वितम् ।  
 श्रेयसेयच्चत्सर्वप्रजारञ्जनमादितः ॥४॥  
 वत्सराज्याभिषिक्तेनप्रजारञ्जनमादित ।  
 कर्तव्यमविरोधेनस्वधर्मश्चमहीभूताम् ॥५॥  
 व्यसनानिपरित्यज्यसत्यमूलहराणिवै ।  
 आत्मारिपुभ्यःसरक्ष्योबहिर्मन्त्रविनिर्गमात् ॥६॥

दुष्टादुष्टाश्चजानीयादमान्यानरिदोपत ।  
 अष्टधानाशमाप्नोतिस्वचक्रात्म्यन्दनाद्यथा ॥७  
 तथाराजाप्यमन्दिग्धवर्हिर्मन्त्रविनिर्गमात् ।  
 चरैश्चरास्तथाशत्रोरन्वेष्य्या प्रयत्नत ॥८

पुत्र बोला—माता मदालसा इस प्रकार पुत्र को नित्य प्रति उपदेश देने लगी और यह बालक बुद्धि तथा अवस्था में वृद्धि को प्राप्त होने लगा ॥१॥ कौशागवस्था प्राप्त होने पर अलर्क का यज्ञोपवीत हुआ तब उमने प्रणाम पूर्वक अपनी माता से कहा ॥२॥ हे माता ! इहलोक और परलोक के सुख के लिये मुझे जिस प्रकार का कर्म करना चाहिये उसे विस्तार पूर्वक कहिये ॥३॥ धर्म, अर्थ प्रजाहित, प्रजापालन में मोक्ष की प्राप्ति आदि का यथा योग्य वर्गान करो मदालसा ने कहा—हे पुत्र ! राज्याभिषेक होने पर धर्मानुसार प्रजा को सुखी करना ही राजा का प्रथम कर्तव्य है ॥४-५॥ सत्य महित, व्यसनों का त्याग करके, अपना मन्त्र बाहर न जाय इस प्रकार शत्रुओं का तिरस्कार करने के कार्य में प्रवृत्त रह कर शत्रुओं से अपनी रक्षा करो ॥६॥ शत्रुओं के मिलने से अमात्यगण की दुष्टता या स्वामिभक्ति को जाने तथा श्रेष्ठ पहिये वाले रथ से गिरने में जैसे आठ प्रकार का आघात होता है ॥७॥ वैसे ही मन्त्रणा के फूटने पर राजा को प्राप्त होता है, राजा को इसका ज्ञान अवश्य करना चाहिये कि शत्रुओं ने किसी प्रकार अमान्यवर्ग को अपनी ओर तो नहीं मिलारखा है ॥८॥

विश्वासीनतुकर्तव्योराज्ञामित्राप्तवधुषु ।  
 कार्ययोगादमित्रेषुविश्वसीतनराधिप ॥९  
 स्थानवृद्धिक्षयज्ञेनपाङ्गुण्यविदितात्मना ।  
 भवितव्यनरेन्द्रेणानकामवशप्रवर्तिना ॥१०  
 प्रागात्ममत्रिणश्चैवततोभृत्यामहीभृता ।  
 जयाश्चानतरपौराविरुध्येतततोरिभि ॥११  
 यस्त्रेतानविजित्यैवैरिणोविजिगीषते ।  
 सोजितात्माजितामात्य शत्रुवर्गेणबाध्यते ॥१२

तस्मात्कामादय पूर्वजेया पुत्रमहीभृता ।  
 तज्जयेहिजयोराज्ञोराजानव्यतितैर्जित ॥१३  
 कान क्रोधश्चलोभश्चमदोमानस्तथैवच ।  
 हर्षश्चगत्रवोह्य तेनागायकुमहीभृताम् ॥१४

मित्र, आम या बन्धु किसी का भी विश्वास करना राजा को उचित नहीं, किन्तु समयान्तर देखकर शत्रु का भी विश्वास किया जा सकता है ॥६॥ राजा काम के वशीभूत न हो, स्थान वृद्धि और क्षय को मदा जाने तथा सधि, विग्रह आदि छ गुराणो मे बुद्धि से काम ले ॥१०॥ प्रथम स्वय को, फिर अमात्यो को, भृत्यो को और प्रजाओं को वश मे करले तब शत्रुओ से विग्रह करे ॥११॥ जो पहिले आत्मा पर विजय प्राप्त किये बिना ही शत्रु को जीतने की इच्छा करे, वह राजा अमात्यगणो द्वारा वश मे कर लिया जाता है और शत्रुओ मे पराजित होता है ॥१२॥ हे वत्स ! इमीलिए सर्व प्रथम कामादि शत्रुओ पर विजय प्राप्त करे, उन्हे जीतने से मभी पर विजय मिलती है, जो राजा कामादि के वशीभूत होता है, वह नष्ट हो जाता है ॥१३॥ काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष यही शत्रु राजा के नाश के कारण है ॥१४॥

कामप्रसक्तमात्मानस्मृत्वापाडु निपातितम् ।  
 निवर्त्तयेत्तथाक्रोधादनुत्त्वादहतात्मजम् ॥१५  
 हतमैलतथालोभान्मदाद्दे नद्विजैर्हतम् ।  
 मानादनायुष पुत्रहृत्कर्पात्पुरजयम् ॥१६  
 एभिर्जितैर्जितसर्वमरुत्तेनमहात्मना ।  
 स्मृत्वाविवर्जयेदेतान्पद्दोषाश्चमहीपति ॥१७  
 काककोकिलभृ गाराणवकव्यालशिखडिनाम् ।  
 हसकुक्कुटलोहानाशिक्षेतचरितनृप ॥१८  
 कौशिकस्याक्रियाकुर्याद्विपक्षेऽनुजेश्वर ।  
 चेष्टापिपीलिकानाचकालेभूप प्रदर्शयेत् ॥१९  
 ज्ञेयाग्निविस्फुल्लिगानाबीजचेष्टाचशाल्मले ।  
 चद्रसूर्यस्वरूपचनीत्यर्थेपृथिवीक्षिता ॥२०

बधकीपद्मशरभृत्तिकागुन्निगीम्तनात् ।

एवमास्नाच्चभेदेनप्रदानेनचपार्थिव ॥२१

काम के बगीभूत होकर ही राजा पारडु नाग को प्राप्त हुए, क्रोध के बल से होने से अनुह्लाद को पुत्र धन से वंचित रह जाना पडा ॥१५॥ लोभ के बगीभूत हुए ऐल नष्ट होगए, मद के बल से पड कर वेन ब्राह्मणों द्वारा नष्ट हुए,अभिमान के कारण अनायु का पुत्र हन हुआ और हर्ष के कारण पुरञ्जय का मरण हुआ ॥१६॥ परन्तु राजा मरुत ने इन सभी शत्रुओं को जीत कर अखिल विश्व को बल से कर लिया, इन सब दानों के स्मरण पूर्वक सभी दोषों का परिन्धाग करना चाहिए ॥१७॥ कारु, कोकिल, भौग, मृग, ब्याल, मोर, हन, कुक्कुट और लोह से जिक्षा लेनी चाहिए ॥१८॥ शत्रु के पति उलूक जैसा कोई आउम्बर न करके शत्रुओं को नष्ट करे, क्योंकि शत्रुओं के प्रति भी उचित व्यवहार करना चाहिये, विपिनिका के समान यथा समय सज्ज करे ॥१९॥ राजा को अग्नि की विगाही और शान्तली बीज के समान व्यापक होने वाला होना चाहिए, वह सूर्य और चन्द्रमा के समान राजनीति के प्रयोग पूर्वक पृथिवी को देखने वाला हो ॥२०॥ व्यभिचारिणी, कमल, शरभ, शूलिका, गुन्निगीम्तन तथा गोपाङ्गना इन सबसे राजा जिक्षा ग्रहण करे ॥२१॥

दडेनचप्रकुर्वीननीत्यर्थपृथिवीक्षिता ।

प्रज्ञानृपेणवादेयातथाचडालयोपितः ॥२२

शक्रार्कयममोमानानद्वद्वायोर्महं पतिः ।

रूपाणिपचकुर्वीतमहीपालनकर्मणि ॥२३

यथेद्रश्चनुरोमामान्वार्योधिगैवभूतलम् ।

आप्याययेत्तथालोकान्परिचारैर्महीपतिः ॥२४

मासानष्टौयथासूर्यस्तोयंहरतिरश्मिभिः ।

सूक्ष्मेगैवाभ्युपायेनतथाशुल्कादिनानृप ॥२५

यथायमःप्रियद्वेष्यौप्राप्तेकालेनियच्छति ।

तथाप्रियाप्रियेराजादुष्टादुष्टेसमोभवेत् ॥२६

पूर्णेदुमालोक्ययथाप्रीतिमाञ्जायतेनर ।

एवयत्रप्रजा सर्वानिवृतास्तच्छिशित्रतम् ॥२७

मारुत सर्वभूतेषुनिगूडश्चरतेयथा ।

एवचरेन्नुपश्चरै पौरामात्यारिबधुषु ॥२८

नीति पूर्वक दण्ड से पृथिवी का पालन करे, चाण्डाल स्त्री से बुद्धि प्राप्त करे, क्योंकि वह किमी प्रकार के व्यवहार से विमुख नहीं होती ॥२२॥ इन्द्र, सूर्य, यम चन्द्रमा और वायु के अनुरूप आचरण करके पृथिवी का पालन करे ॥२३॥ जैसे इन्द्र चार मास वृष्टि करके पृथिवी के प्राणियों को तृप्त करते है, वैसे ही राजा दानादि के द्वारा सबको प्रसन्न करे ॥२४॥ जैसे किरणों के द्वारा सूर्य आठ मास जल का शोषण करते है, वैसे ही सूक्ष्म रीति से राजा कर आदि ले ॥२५॥ जिस प्रकार यम काल आने पर प्रिय अथवा द्वेषी सभी को ममान रूप से ग्रहण करते है वैसे ही राजा भी समदर्शी हो ॥२६॥ पूर्ण चन्द्रमा को देखकर जैसे सब जीव प्रसन्न होते है, वैसे ही राजा के आचरण से प्रजा प्रसन्न रहे ऐसा प्रयत्न करे, जिस प्रकार वायु सब भूतो मे गुप्त रहकर विचरण करता है, वैसे ही गुप्त रीति से राजा भी अमात्य, बाँधव और प्रजाजन के चरित्रादि पर दृष्टि रखे ॥२८॥

नलोभार्थेनकामार्थेनार्थार्थैर्यस्यमानसम् ।

पदारथैःकृष्यतेधर्मत्सराजास्वर्गमृच्छति ॥२९

उत्पथग्राहिणोमूढान्स्वधर्माच्चलितान्नरान् ।

यः करोतिनिजधर्मसराजास्वर्गमृच्छति ॥३०

वर्गधर्मानसीदतियस्यराष्ट्रे तथाश्रमाः ।

राज्ञस्तस्यसुखतातपरत्रेहचशाश्वतम् ॥३१

एतद्राज्ञ परकृत्यंतथैतद्वृद्धिकारणम् ।

स्वधर्मस्थापननृणाञ्चाल्यतेनकुबुद्धिभिः ॥३२

पालनेनैवभूतानाकृतकृत्योमहीपतिः ।

सम्यक्पालयिताभागधर्मस्याप्नोतिवैयतः ॥३३

एवमाचरते राजा चातुर्वर्ण्यस्य रक्षणम् ।

ससुखी विहरत्येपशक्रस्यैतिसलोकताम् ॥३४॥

जिस राजा का मन लोभ, अर्थ, काम अथवा अन्य किसी भी कारण से आकृष्ट नहीं होता, उमी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है ॥२९॥ मूढ, कुमार्गी, धर्म से विचलित व्यक्तियों को स्वधर्म पर लाने वाला राजा अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होता है ॥३०॥ हे पुत्र ! जिसके राज्य में वर्णाश्रम धर्म नाश को प्राप्त नहीं होते, वह राजा इहलोक-परलोक दोनों में निरन्तर सुख भोगता है ॥३१॥ राजा का कर्तव्य है कि वह बुद्धिमानों के परामर्श से मदा कार्य करे और सभी को अपने-अपने धर्म में लगाये रखे, इसी में राजा की सिद्धि होती है ॥३२॥ जिस प्रकार प्रजा के भले प्रकार पालन करने से राजा कृतकृत्य होता है, वैसे ही उमको धर्माश की भी प्राप्ति होती है ॥३३॥ इस प्रकार जो राजा चारों वर्णों की रक्षा में नियम पूर्वक लगा रहता है, वह इहलोक में अत्यन्त सुख पूर्वक विहार करता हुआ अन्त में इन्द्र के सालोक्य को प्राप्त होता है ॥३४॥

## २५—वर्णाश्रम धर्म कीर्तन

तन्मातुर्वचनश्रुत्वा सोलर्कोमातरं पुन ।

पप्रच्छ वर्णधर्माश्च धर्मान्ये चाश्रमेषु च ॥१॥

कथितो यमहाभागे राज्यतत्र श्रितस्त्वया ।

ऋषधर्मो ह्यस्मिन् द्यामिश्रोतु वर्णाश्रमात्मकम् ॥२॥

दानमध्ययनयज्ञो ब्राह्मणस्य त्रिधा दित ।

धर्मो नान्यश्चतुर्थोऽस्ति धर्मस्तस्यापदविना ॥३॥

याजनाथ्योदने शुद्धस्तथा पुत्रप्रतिग्रह ।

एतत्सम्यक्समाख्यातत्रितयचास्य जीविका ॥४॥

दानमध्ययमयज्ञा क्षत्रियस्याप्ययत्रिधा ।

धर्मप्रोक्तक्षितेरक्षाशस्त्राजीवश्च जीविका ॥५॥

दानमध्ययनयज्ञो वैश्यम्यापि त्रिधैवस ।  
 वाणिज्यपशुपाल्यचक्रुपिश्चैवास्वजीविका ॥६  
 दानयज्ञोथशुश्रूपाद्विजातीनात्रिधामया ।  
 व्याख्यात शूद्रधर्मोपि जीविकाकारु कर्मजा ॥७  
 तद्वद्विजातिशुश्रूपापोषणक्रयविक्रये ।  
 वर्णधर्मास्त्वमेप्रोक्ता श्रूयतामाश्रमाश्रया ॥८

पुत्र ने कहा—अलर्क जननी के इस प्रकार वचन सुनकर फिर वर्णधर्म और आश्रम धर्म का विषय पूछने लगा ॥१॥ अलर्क ने कहा—हे महाभागे ! तुमने राज धर्म का तो वर्णन किया किन्तु अब मैं वर्ण धर्म और आश्रम धर्म सुनने की इच्छा करता हूँ ॥२॥ मदानसा बोली, हे वत्स ! दान अध्ययन और यज्ञ यह तीन ब्राह्मण के धर्म हैं इनके अतिरिक्त चौथा धर्म और कुछ नहीं है अन्य धर्म उसके पक्ष में आपत्ति में है ॥३॥ शुद्धता पूर्वक यज्ञ कराना, ग्रह्यापन और पवित्र भाव से प्रतिग्रह, यह तीन कर्म ही ब्राह्मणों की जीविका के साधन हैं ॥४॥ दान, यज्ञ और अध्ययन, यह तीन कर्म क्षत्रियों के कर्तव्य रूप हैं तथा पृथिवी पालन और शस्त्राभ्यास उनकी जीविका के साधन हैं ॥५॥ दान, अध्ययन और यज्ञ यह तीन धर्म वैश्यों के हैं तथा पशु-पालन, वाणिज्य और खेती यह उनकी जीविका के साधन हैं ॥६॥ शूद्र के कर्म दान, यज्ञ और तीनों जाति की सेवा करना, यह तीन हैं, तथा कारु कर्म ॥७॥ ब्राह्मण-मेवा, पशु-पालन और क्रय-विक्रय उनकी जीविका के साधन हैं, यह वर्णों का धर्म मैंने कहा है, अब आश्रम धर्म श्रवण करो ॥८॥

स्ववर्णधर्मात्सिद्धिनर प्राप्नोति नच्युतः ।  
 प्रयाति नरकप्रेत्यप्रतिषिद्धनिषेवणात् ॥९  
 यावत्तु नोपनयनक्रियते वैद्विजजन्मनः ।  
 कामचेष्टोक्तिभक्षस्तुतावद्भवति पुत्रक ॥१०  
 कृतोपनयन मम्यग्रह्याचारी गुरोर्गृहे ।  
 वसेत्तत्र धर्मोस्य कथ्यते तन्निबोधमे ॥११



स्वाध्यायोयाग्निगुश्रूपास्नानभिक्षाटनतथा ।  
 गुर्गेनिवेद्यतच्चाद्यमनुजातेनसर्वदा ॥१२  
 गुरो कर्मणि-भोद्योग सम्यक्प्रीत्युपरादकः ।  
 तेनाहूत पठेच्चैत्रतत्परोनान्यमानस ॥१३  
 एकद्वीसकलान्वापिवेदान्प्राप्यगुरोर्मुखात् ।  
 अनुज्ञातोवरादत्त्वादक्षिणागुरवेनत ॥१४

अपने-अपने धर्म का पालन करने में ही सब निद्वियो की प्राप्ति सभव है, दूनगी जानि वाले के धर्म पर चलने में स्वधर्म की हानि हो-गी है और नरक की प्राप्ति होनी है ॥१२॥ हं व म । द्विजानियो का जब तक उपनयन सम्कार न हो, तभी तक वे स्वेच्छा से व्यवहार, ग्राह्यार और आलापादि में प्रवृत्त हो सकते हैं ॥१०॥ उपनयन सम्कार के सम्पन्न होने के पश्चात् ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक गुण के पाम रहे, उम समय जिम धर्म का आचरण करना चाहिये, उमे मुनो ॥११॥ स्वाध्याय, अग्नि मुश्रूपा, स्नान, भिक्षाटन करके पहिले गुरु को भोजन करावे फिर उनकी आज्ञा से स्वयं भोजन करे ॥१२॥ गुरु के कार्य में सदैव तत्पर रहना तथा उनके सन्तोष और आदेश के अनुसार कार्य करना तथा अनन्य चित्त से अध्ययन करना ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य है ॥१३॥ गुरु के मुख में एक, दो अथवा चारो वेदो को पढकर उनकी चरण-वन्दना करे और आज्ञा लेकर दक्षिणा दे ॥१४॥

गार्हस्थ्यश्रमकामस्तुगृहस्थाश्रममावसेत् ।  
 वानप्रस्थाश्रमवापिचतुर्वेच्छयात्मन ॥१६  
 तथैववागुरार्गेहेद्विजोनिष्ठामवाप्नुयात् ।  
 गुरोरभावेनत्पुत्रेतच्छिष्येतत्सुतविना ॥१७  
 शुश्रूषूर्णिरभीमानोब्रह्मचर्याश्रमवसेत् ।  
 उपावृत्तस्ततस्तस्माद्गृहस्थाश्रमकाम्यथा ॥१७  
 तनोऽनमानपिकुलातुल्याभार्यामरोगिणीम् ।  
 उद्वहेन्यायतोऽव्यगागृहस्थाश्रमकारणात् ॥१८

स्वकर्मणाधनलब्ध्वापितृदेवातिथीस्तथा ।  
 सम्यक्संप्रीणयेद्भुक्त्यापोपयेच्चाश्रितास्तथा ॥१६  
 भृत्यात्मजाञ्जामयोयद्दीनार्थिपतितानपि ।  
 यथाशक्त्यन्नदानेनवयासिपशवस्तथा ॥२०  
 एषधर्मोऽगृहस्थस्य ऋतावभिगमस्तथा ।  
 पचयज्ञविधानतुयथाशक्तिनहापयेत् ॥२१

इसके पच्चात् गृहस्थाश्रम मे प्रविष्ट होना चाहे तो विवाहादि कार्य करे, अन्यथा अपनी इच्छा के अनुसार वानप्रस्थ या चतुर्थाश्रम मे प्रवेश करे ॥१५॥ अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर गुरु के घर पर ही रहे, गुरु न हो तो उनके पुत्र अथवा शिष्य के पास निवास करे ॥१६॥ सदा सेवा-परायण रहे तथा अभिमान को पास न आने दे, इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, अथवा गुरु के घर से निकल कर गृहस्थाश्रम की इच्छा करे तो ॥१७॥ अपने अनुरूप कन्या देखकर उसका पाणिग्रहण करे, वह कन्या समान गोत्र की, रोगी और विकलांगी न हो ॥१८॥ अपने विहित कर्म द्वारा न्याय पूर्वक धन का उपार्जन करे और भक्ति पूर्वक पितर, देवता और अतिथि को तृप्त करने का प्रयत्न करे तथा आश्रितों का भले प्रकार पालन करे ॥१९॥ भृत्य, पुत्र, दीन, अन्धा, पतिन आदि को अपनी शक्ति के अनुसार अन्नादि देकर उनका सदा पोषण करना चाहिये ॥२०॥ स्त्री सहगमन केवल ऋतुकाल में ही करे, शक्ति के अनुसार पचयज्ञ करे, यह गृहस्थ का धर्म है ॥२१॥

पितृदेवा तिथिज्ञातिभुक्तशेषस्वयं नर ।  
 भु जीतचसमभृत्यैर्यथाविभवमात्मनः ॥२२  
 एषतूद्देशत प्रोक्तोऽगृहस्थस्याश्रमोमया ।  
 वानप्रस्थस्यधर्मतेकथयाम्यवधार्यताम् ॥२३  
 अपत्यसततिदृष्ट्वाप्राज्ञोदेहस्यचानतिम् ।  
 वानप्रस्थाश्रमगच्छेद्वात्मन शुद्धिकारणात् ॥२४  
 तत्रारण्योपभोगश्चतपोभिश्चात्मकर्षणम् ।  
 भूमौऽप्यब्रह्मचर्यं पितृदेवातिथिक्रिया ॥२५

होमस्त्रिपवरास्नानजटावल्कलधारणम् ।

मौनादिकरणचैवनन्यस्नेहनिषेवणम् ॥२६

इत्येपपापशुद्धचर्थात्मनश्चोपकारक ।

वानप्रस्थाश्रमस्तमाद्भिक्षोस्तुचरमोपर ॥२७

चतुर्थीयस्यस्वरूपतुश्रूयतामाश्रमस्यमत् ।

यश्चधर्मोस्यधर्मज्ञै प्रोक्तस्तातमहात्मभि ॥२८

यथा सामर्थ्यं पितरो, देवताओ, अतिथियो और जाति वालो को भोजन कराने के पश्चात् भृत्यो के सहित स्वयं उस बच्चे हुए अन्न का भोजन करे ॥२२॥ यह गृहस्थाश्रम धर्म सक्षिप्त रूप में कहा है, अब वानप्रस्थ धर्म को कहती हूँ, उसे सावधान चित्त से श्रवण करो ॥२३॥ बुद्धिमान् पुरुष का कर्तव्य है कि वह धन सन्तानादि की सम्पन्नता और अपने शरीर की अवनति को देखकर आत्म शुद्धि के लिये वानप्रस्थाश्रम ग्रहण करे ॥२४॥ वहाँ फल, मूलादि का आहार करे और तपस्या का आचरण करके आत्मोत्कर्ष का सम्पादन करे, पृथिवी में शयन, ब्रह्मचर्य—पालन तथा पितर, देवता और अतिथि की सेवा, ॥२५॥ हवन त्रिकाल सध्या में स्नान, जरा—वल्कल का धारण, मौन, योगाभ्यास तथा स्नेह सेवन पूर्वक रहे ॥२६॥ इस प्रकार पाप के शोधन और आत्मा के उत्कर्ष के लिये वानप्रस्थाश्रम का अवलम्बन करे, इस आश्रम के पश्चात् भिक्षु नाम का एक अन्य चरम आश्रम है ॥२७॥ हे पुत्र ! इस चतुर्थाश्रम का जो स्वरूप धर्मजाता महात्मा पुरुषो द्वारा निरूपित किया है, उसे कहती हूँ, श्रवण करो ॥२८॥

सर्वसगपरित्यागो ब्रह्मचर्यमकोपता ।

जितेन्द्रियत्वमावासेनैकस्मिन्वसतिश्चिरम् ॥२९

अनारभस्तथाहारेभिक्षान्नचैककालिकम् ।

आत्मज्ञानावबोधश्च तथा चात्मावलोकनम् ॥३०

चतुर्थेत्वाश्रमेधर्मो मयायते निवेदितः ।

सामान्यमन्यवर्णानामाश्रमाणाचमेश्रुणु ॥३१

सत्यशौचमहिंसा च अनसूया तथा क्षमा ।

आनृशस्यमकार्पण्यसतोषश्चाष्टमोगुणः ॥३२

एतेसक्षेपत प्रोक्ताधर्मावर्णाश्रमेषु च ।  
 एतेषु नित्यधर्मेषु नित्यतिष्ठेत्समतत ॥३३  
 सयाति ब्रह्मलोकहियावदिद्राश्रतुर्दश ।  
 यश्चोल्लघ्यस्वकधर्मस्ववर्णाश्रमसञ्जितम् ॥३४  
 नरोन्यथाप्रवर्त्ततसदङ्घोभूभृतोभवेत् ।  
 येचस्वधर्मसत्यागात्पापकुर्वतिमानवा ॥३५  
 उपेक्षतस्तान्नुपतेरिष्ठापूर्त्तप्रयात्यध ।  
 तस्माद्राज्ञाप्रयत्नेनसर्वेवर्णा स्वधर्मत ॥३६  
 प्रवर्त्यन्तेन्यथादङ्घा स्थाप्याश्चैवस्वकर्मसु ॥३७

सर्व सग का त्याग करे, क्रोध—रहित, इन्द्रिय सयम, ब्रह्मचर्य आदि के पालन पूर्वक भ्रमणशील रहे, बहुत दिनों तक एक स्थान में न रहे ॥२९॥ कर्म का विसर्जन, भिक्षा में प्राप्त अन्न का केवल एकबार भोजन, आत्मज्ञान की कामना और आत्म दर्शन यह सब चतुर्थाश्रमी को करना चाहिये ॥३०॥ चतुर्थाश्रम में जो धर्मानुष्ठान कर्त्तव्य है, वह तुमसे कह दिया, अब अन्यान्य वर्णाश्रमों के साधारण धर्म को तुमसे कहती हूँ, उसे सुनो ॥३१॥ सत्य, शौच, अहिंसा, अन्नमूया, क्षमा, आनृशस्य, अकृपणता और सन्तोष यह आठ गुण सभी वर्णाश्रमों का साधारण धर्म माना गया है ॥३२॥ इस प्रकार सम्पूर्ण वर्णाश्रम धर्म का मैंने तुमसे सक्षिप्त वर्णन किया है, सभी को अपने—अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना कर्त्तव्य है ॥३३॥ अपने धर्म में दृढ़ रहने वाला मनुष्य तब तक ब्रह्मलोक में निवास करता है, जब तक कि चौदह इन्द्रों का पतन नहीं होजाता और जो अपने वर्णाश्रम धर्म का उल्लघन करके ॥३४॥ अन्य के धर्म को ग्रहण करता है, वह राज—दण्ड का भागी होता है अथवा जो मनुष्य अपने धर्म को त्याग कर पाप—कर्म करता है ॥३५॥ उसे यदि राजा दण्ड नहीं देता तो वह राजा अपने इष्ठापूर्त्त को नष्ट करता है, इसलिये राजा का कर्त्तव्य है कि वह सभी वर्णों को अपने—अपने धर्म में स्थित करे ॥३६॥ और जो इसके विरुद्ध आचरण करे उसे दण्ड देकर अपने कर्म में लगावे ॥३७॥

## २६—गार्हस्थ्यधर्म-निरूपण

यत्कार्यपुरूपेणोहगार्हस्थ्यमनुवर्त्तता ।  
 बन्धश्चस्यादकरणोक्रियायायस्यचोच्छ्रिति ॥१॥  
 उपकाराययन्नृणायच्चवर्ज्यगृहेसताम् ।  
 यथाचक्रियतेतन्मेयथायत्पृच्छतोवद ॥२॥  
 वत्सगार्हस्थ्यमास्थायनर सर्वमिदजगत् ।  
 पुष्णानितेनलोकाश्चसजयत्यभिवाञ्छितान् ॥३॥  
 पितरोभुनयोदेवाभूतानिमनुजास्तथा ।  
 कृमिकीटपतगाश्चवयासिपशवोऽसुरा ॥४॥  
 गृहस्थमुपजीवतिततस्तृप्तिप्रयातिच ।  
 मुखचास्यनिरीक्षतेअपिनोदास्यतीतिथै ॥५॥  
 सर्वस्याधारभूतेयवन्सधेनुस्त्रयीमयी ।  
 यस्याप्रतिष्ठितविश्वविश्वहेतुश्चयामता ॥६॥

अलर्क ने कहा—गृहस्थाश्रम में रहने वाले पुरुष अपने जिम कर्त्तव्य को न करके बन्धन और कर्त्तव्य को करके मोक्ष को प्राप्त होना है ॥१॥ और जो मनुष्यो के उपकार का कारण तथा वर्जन के योग्य कर्त्तव्य है, वह सभी जानने को मैं उत्कठित हूँ, मुझे विस्तार सहित वह सब विषय बताओ ॥२॥ मदालसा ने कहा—हे पुत्र ! गृहस्थाश्रम में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों का पालन करता है और उसी पुण्य के बल से उसे इच्छित लोको की प्राप्ति होती है ॥३॥ पितर, ऋषि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतङ्ग, पक्षी, पशु, असुर यह सभी गृहस्थाश्रम से ही अपना जीवन-निर्वाह करते हैं, इसी आश्रम से उनकी तृप्ति होती है, क्योंकि वे सब अन्न के लिये गृहस्थ के मुख को ताकते रहते हैं ॥४-५॥ हे पुत्र ! वेदमयी धेनु के रूप में गृहस्थ ही सबका आश्रय स्थापित है, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड इसी धेनु में प्रतिष्ठित है, क्योंकि यही धेनु ब्रह्माण्ड की कारण रूपा है ॥६॥ ✓

ऋकपृष्ठासौयजुर्मध्यासावक्त्रशिरोधरा ।  
 इष्टापूर्तविषाणाचसाधुसूक्ततनूरुहा ॥७  
 शातिपुष्टिशकृन्मूत्रा वर्णपादप्रतिष्ठिता ।  
 आजीव्यमानाजगतासाऽक्षयानापचीयते ॥८  
 स्वाहाकार स्वधाकारोवषट्कारश्चपुत्रक ।  
 हतकारस्तथैवान्यस्तस्या स्तनचतुष्टयम् ॥९  
 स्वाहाकारस्तनदेवा पितरश्चस्वधामयम् ।  
 मुनयश्चवषट्कारदेवभूतसुरेतरा ॥१०  
 हतकारमनुष्याश्चपिवतिसततस्तनम् ।  
 एवमाप्याययत्येषादेवादीनखिलास्त्रयी ॥११  
 एतद्वत्सचतुष्कतुनरस्तनचतुष्टये ।  
 ननियुज्याद्यथाकालतेनस्युस्तेविमानिता ॥१२  
 देवादीनखिलान्येषुसतर्पयतिमानव ।  
 तेषामुच्छेदकर्त्तार्य पुरुषोत्यतपापकृत् ॥१३

इस धेनु की पीठ ऋग्वेद, मध्य यजुर्वेद, मुख सामवेद और ग्रीवा  
 इष्टापूर्त है, साधु सूक्त रोम ॥७॥ शान्ति और पुष्टि कर्म उसका मलमूत्र तथा  
 वर्णाश्रम ही प्रतिष्ठा है, यह धेनु कभी क्षीण नहीं होती, सम्पूर्णा विश्व को आश्रय  
 रूप होकर जीवन धारण करती हुई भी यह धेनु कभी क्षय को प्राप्त नहीं होती  
 ॥८॥ इस धेनु के स्वाहाकार, स्वधाकार, वषट्कार, और हतकार यह चार  
 स्तन है ॥९॥ इन चार स्तनों में देवता स्वाहाकार, पितर स्वधाकार, मुनि  
 वषट्कार और इनसे इतर ॥१०॥ मनुष्यगण हन्तकार रूप स्तन को पीते हैं,  
 इस प्रकार हे वत्स यह धेनु ही सब की तृप्ति को सम्पादित करने वाली है  
 ॥११॥ इन चार स्तनों को यह चार योनि वाले पान करते हैं जो यथा समय  
 नियुक्त न हो तो इस धेनु की अवमानता होती है ॥१२॥ जिसके द्वारा मनुष्य-  
 गण सब देवता इत्यादि की तृप्ति करने में समर्थ होते हैं, उसके नष्ट करने में  
 प्रयत्नशील व्यक्ति महापापी होता है ॥१३॥

सतमस्यधतामिस्रो तमिस्रो चनिमज्जति ।  
 यस्त्वेतामानबोधेनु स्वर्वत्सैरमरादिभिः ॥१४  
 प्रापयत्युचितेकालेसस्वर्गायोपपद्यते ।  
 तस्मात्पुत्रमनुष्येणदेवर्षिपितृमानवाः ॥१५  
 भूतानिचानुदिवसपोष्याणिस्वतनुर्यथा ।  
 तस्मात्स्नात शुचिर्भूत्वादेवर्षिपितृतर्पणम् ॥१६  
 प्रजापतेस्तथैवाद्भिःकालेकुर्यात्समाहित ।  
 सुमनोगधधूपैश्चदेवानभ्यर्च्यमानत्र ॥१७  
 ततोग्नेस्तर्पणकुर्याद्दद्याच्चबलिमित्यथ ।  
 ब्रह्मणोगृहमध्येतुविश्वो देवेभ्यएवच ॥१८  
 धन्वतरिसमुद्दिश्यप्रागुदीच्याबलिक्षिपेत् ।  
 प्राच्याशक्राययाम्यायायमायबलिमाहरेत् ॥१९  
 प्रतीच्यावरुणोयाथसामायोत्तरतोबलिम् ।  
 दद्याद्धोत्रविधत्रेचबलिद्वारैर्गृहस्यच ॥२०  
 अर्यम्पोथबहिर्दद्याद्गृहेभ्यश्चसमतत ।  
 नक्त चरेभ्योभूतेभ्योबलि प्राकाशतोहरेत् ॥२१

तथा उसे अन्वतामिस्र और तामिस्र नामक नरको की प्राप्ति होती है, इस धेनु के वत्सों को जो मनुष्य यथा समय ॥१४॥ उपर्युक्त प्रकार से स्नान पान कराता है, वह देवलोकको जाता है, इसलिये अपनी यथाशक्ति देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य ॥१५॥ तथा भूतो का पोषण करना चाहिये, इसलिये स्नान से पवित्र होकर सावधान चित्त से देवता, पितर, ऋषि ॥१६॥ और प्रजापति का उदकदान पूर्वक तर्पण करे तथा चन्दन, गंध और धूपादि के द्वारा देवाचन करे ॥१७॥ फिर अग्नि तर्पण करके बलि प्रदान करे, घर में ब्रह्म और विश्वे-देवा को ॥१८॥ तथा धन्वन्तरि को पूर्व और उत्तर दिशा में बलि दे, इन्द्र को पूर्व में, यम को दक्षिण में ॥१९॥ वरुण को पश्चिम में और सोम को उत्तर में बलि देनी चाहिये तथा गृहद्वार में धाता और विधाता को बलि दे ॥२०॥ अर्यमा

को घर की बाहरी भाग में सब ओर से बलि दे तथा निशाचर और भूतो के लिये आकाश मार्ग में बलि दे ॥२१॥

पितृणानिर्वपेच्चैवदक्षिणाभिमुख स्थित ।  
गृहस्थस्तत्परोभूत्वामुसमाहितमानस ॥२२  
ततस्तोयमुपादायतेषामाचमनायवै ।  
स्थानेषुनिक्षिपेत्प्राज्ञस्तास्ताउद्दिश्यदेवता ॥२३

एवगृहबलिकृत्वागृहेगृहपतिःशुचि ।  
आप्ययनायभूतानाकुर्याद्वृत्तमर्गमादरात् ॥२४  
श्वम्यश्वपचेम्यश्ववयोभ्यश्चावपेद्भुवि ।  
वैश्वदेवहिनामैतत्सायप्रातरुदाहृतम् ॥२५

आचम्यचतत.कुर्यात्प्राज्ञोद्वारावलोकनम् ।  
मुहूर्तस्याष्टमभागमुदीक्ष्योह्यातिथिर्भवेत् ॥२६  
अतिथितत्रसप्राप्तमन्नाद्ये नोदकेनच ।  
सपूजयेद्यथाशक्तिगधपुष्पादिभिस्तथा ॥२७

पितरो के निमित्त बलि प्रदान करने के लिए गृहस्थ को दक्षिण की ओर मुख करके बैठना चाहिये, फिर सावधानी से एकाग्र चित्त होकर ॥२२॥ आचमन के लिये जल लेकर उस-उस स्थान में उस-उस देवता के निमित्त जल दे ॥२३॥ गृहस्वामी इस प्रकार से बलि दे और पवित्र भव से भूतो की तृप्ति के लिये आदर पूर्वक उत्सर्ग कार्य को सम्पन्न करे ॥२४॥ श्वान, श्वपच और पक्षी के लिए भूमि में बलि दे, यही वैश्वदेव बलि कही गई है, यह बलि प्रातः काल और सायंकाल देने का विधान है ॥२५॥ इस प्रकार गृहस्थ वैश्वदेव बलि देकर आचमन करे और फिर द्वार को देखे तथा मुहूर्त के आठवें भाग तक अतिथि की प्रतीक्षा करे ॥२६॥ अतिथि के आगमन पर यथाशक्ति अन्न, जल, गध पुष्पादि से उसका सत्कार करे ॥२७॥

नमित्रमतिथिकुर्यान्नैकग्रामनिवासिनम् ।  
अज्ञातिकुलनामानतत्कालसमुपस्थितम् ॥२८



बुभुक्षुभागतश्रातयाचमानमकिचनम् ।  
 ब्राह्मणप्राहुरतिथिसपूज्य शक्तितो बुधै ॥२९  
 नपृच्छेद्गोत्रचरणस्वाध्यायचापिपडितः ।  
 शोभनशोभनाकारतमन्येतप्रजापतिम् ॥३०  
 अनित्यहिस्थितोयस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ।  
 तस्मिस्तृप्ते नृत्यज्ञोत्थादृणान्मुच्येद्गृहाश्रमी ॥३१  
 तस्यादत्त्वातुयोभु क्ते स्वयकिल्बिषभुङ्नरः ।  
 सपापकेवलभु क्ते पुरीषचान्धजन्मनि ॥३२  
 अतिथिर्यस्य भग्नाशोगृहात्प्रतिनिवर्तते ।  
 सदत्त्वादुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥३३  
 अप्यबुशाकदानेन यच्चाप्यश्रातिसस्वयम् ।  
 पूजयेत्तर शक्त्या तेनैवातिथिमादरात् ॥३४  
 कुर्याच्चाहरहः श्राद्धमन्नाद्ये नोदकेन च ।  
 पितृनुद्दिश्य विप्राश्च भोजयेद्विप्रमेव वा ॥३५

अपने मित्र अथवा ग्राम में रहने वाले को अतिथि न माने, जो पुरुष  
 उसी समय आया हुआ हो और जिनका कुल, गोत्र, नाम इत्यादि ज्ञात न हो  
 ॥२८॥ और यथार्थ रूप से भोजन की इच्छा से आया हो, जिसके पास कुछ भी  
 न हो, श्रम से थका हुआ हो, ऐसा ही ब्राह्मण अतिथि कहा गया है, ऐसे ही  
 अतिथि का यथाशक्ति पूजन करे ॥२९॥ बुद्धिमान् गृहस्थ उस अतिथि का गोत्र,  
 वेद, स्वाध्याय आदि किसी भी विषय का प्रश्न न करे, वह सुन्दर या कुरूप जैसा  
 भी हो, उसे साक्षात् प्रजापति स्वरूप ही समझे ॥३०॥ नित्य न रहने वाले को  
 ही अतिथि की तृप्ति न करने पर गृहस्थ नृत्यज्ञ के श्रृण से नहीं छूटता ॥३१॥  
 इसलिये जो गृहस्थ अतिथि को भोजन कराये बिना, स्वय ही भोजन कर लेता  
 है वह पाप का भोगने वाला होता है, उसे अन्य जन्म में भोजन के निमित्त विद्या  
 की प्राप्ति होती है ॥३२॥ जिसके गृहस्थ के घर से जो अतिथि विमुख लौटता है  
 वह उस गृहस्थ के पुण्य को लेकर अपने पाप को उसे दे जाता है ॥३३॥

पूजन करे ॥३४॥ नित्य प्रति अन्न जल आदि के द्वारा पितरो के निमित्त श्राद्ध करे और एक अथवा अनेक विद्वान् ब्राह्मणो को भोजन करावे ॥३५॥

अन्नस्यान्न तदुद्धृत्यब्राह्मणायोपपादयेत् ।  
 भिक्षाचयाचितादद्यात्परित्राट्ब्रह्मचारिणाम् ॥३६॥  
 ग्रासप्रमाणाभिक्षास्यादग्र ग्रासचतुष्टयम् ।  
 अग्र चतुर्गुणप्राहृहृतकारद्विजोत्तमा ॥३७॥  
 भोजनहृतकारवाग्र भिक्षामथापिवा ।  
 अदत्त्वातुनभोक्तव्ययथाविभवमात्मन ॥३८॥  
 पूजयित्वातिथीनिष्ठाञ्जातीन्बधू स्तथार्थिन ।  
 विकलान्बालवृद्धाश्चभोजयेच्चातुरास्तथा ॥३९॥  
 वाछतेक्षुत्परीतात्मायच्चान्योन्नमकिचनः ।  
 कुटु बिनाभोजनीय स्वसमविभवेसति ॥४०॥  
 श्रीमतज्ञातिमासाद्योज्ञातिरवसीदति ।  
 सीदतायत्कृततेनतत्पापससमश्नुते ॥४१॥  
 सायचैषविधिःकार्यं पूर्वोक्त तत्रचातिथिम् ।  
 पूजयेच्चयथाशक्तिशयनासनभोजनैः ॥४२॥

अन्न का अग्रभाग तोड़ कर ब्राह्मण को दे तथा परिव्राजक और ब्रह्मचारी के याचक होने पर उन्हें भीख दे ॥३६॥ एक ग्रास को भिक्षा कहते हैं, चार ग्रास को अग्र और चार चतुष्टय अर्थात् सोलह ग्रास को हन्तकार कहा गया है ॥३७॥ यथा वैभव हन्तकार अथवा अग्र और यह भी न बने तो भिक्षा अवश्य दे, इसके बिना कभी भोजन न करे ॥३८॥ अतिथि का सत्कार करने के पश्चात् जाति बधु, याचक, विकल, बालक, वृद्ध और आतुर इनको भोजन करावे ॥३९॥ अन्य कोई अकिचन व्यक्ति भूखा हो तो उसके द्वारा याचना करने पर उसे भी भोजन दे अथवा जो कुछ बन पड़े वही प्रदान करे ॥४०॥ धनवान् होते हुए भी जिसकी जाति दु खित हो तो उस जाति का मनुष्य विवश होकर जो पाप करता है, उसका पापाश उस धनवान् को प्राप्त होता है ॥४१॥ सध्या समय में भी

इसी विधि को करे और सायंकाल में आने वाले अतिथि को यथाशक्ति आसन, शय्या और भोजनादि द्वारा उसे सतुष्ट करे ॥४२॥

एवमुद्धृतस्तातगार्हस्थ्यभारमास्थितम् ।  
 स्कधेविधातादेवाश्चपितरश्चमहर्षय ॥४३  
 श्रेयोभिर्वर्षिण सर्वेभवत्यतिथिबाधवा ॥  
 पशुपक्षिमृगास्तृप्तायेचान्येसूक्ष्मकीटका ॥४४  
 गाथाश्चात्रमहाभागस्वयमन्निरगायत ।  
 ता शृणुष्वमहाभागगृहस्थाश्रममस्थिता ॥४५  
 देवान्पितॄंश्चातिथीश्चतद्वत्सपूज्यबाधवान् ।  
 जामयश्चगुरुं श्र्वं वगृहस्थोविभवेसति ॥४६  
 श्र्वभ्यश्चश्वपचेभ्यश्चवयोभ्यश्चावपेद्भुवि ।  
 वैश्वदेवहिनामैतत्कुर्यात्सायतथादिने ॥४७

हे पुत्र ! इस प्रकार गृहस्थ अपने कंधे पर रखे हुए गार्हस्थ्य रूपी भार को वहन करके विधाता, देवता, पितर, महर्षि ॥४३॥ अतिथि, बाधवा, पशु, पक्षी, कीटादि सभी को प्रसन्न करके अपना कल्याण-साधन करते हैं ॥४४॥ हे महाभाग उस विषय में महर्षि अत्रि ने जो कथा गायी है, उस गृहस्थाश्रम वाली कथा को सुनो ॥४५॥ यदि धन हो तो देवता, पितर, अतिथि, बधु, जाति और गुरु का पूजन करके श्वान, श्वपच और पक्षियों के लिये पृथिवी में अन्न प्रदान करे, इस वैश्वदेव नामक बलि कर्म को पूर्वाह्न और सायंकाल में करे ॥४६-४७॥

## २७---सदाचार वर्णन

एवपुत्रगृहस्थेनदेवता.पितरस्तथा ।  
 सपूज्यहव्यकव्याभ्यामन्नेनातिथिबाधवाः ॥१  
 भूतानिभृत्याविकलापशुपक्षिपीलिका ।  
 भिक्षवोयाचमानास्तुयेचान्येवसतागृहे ॥२

सदाचारवतातातसाधुनागृहमेधिना ।  
 पापभुक्तेसमुल्लघ्यनित्यनैमित्तिकी.क्रिया ॥३॥  
 सदाचारमहश्रोतुमिच्छामिकुलनदिनि ॥४॥  
 यकुर्वन्सुखमाप्नोतिपरत्रेहचमानव ॥५॥  
 गृहस्थेनसदा कार्यमाचारपरिपालनम् ।  
 नह्याचारविहीनस्यसुखमत्रपरत्रवा ॥६॥  
 यज्ञदानतपासीहपुरुषस्यनभूतये ।  
 भवतिय सदाचारसमुल्लघ्यप्रवर्त्तते ॥७॥

मदालसा ने कहा—हे पुत्र ! गृहस्थ को सदाचार परायण हो कर हव्य, कव्य और अन्नदान करते हुए पितर, देवता, अतिथि और बाधवो का पूजन करने वाला होना चाहिए ॥१॥ इनके अतिरिक्त भूत, भृत्य, पशु, पक्षी, पिपीलिका, भिशुक, याचक या पर, अपर जो कोई भी जैसी प्रार्थना करे ॥२॥ उन-उन का वैसे ही सत्कार करे, गृहस्थी यदि नित्य नैमित्तिकी क्रिया का उल्लघन करे तो उसे पाप-भागी होना पडता है ॥३॥ अलर्क बोला—हे माता ! तुमने मुझसे नित्य नैमित्तिक आदि पुरुषोचित कर्म-विषय का यथा प्रकार वर्णन किया ॥४॥ जिसके अनुष्ठान से मनुष्य इहलोक और परलोक दोनो मे सुखी होता है, उसी सदाचार को सुनने की मेरी इच्छा हुई है ॥५॥ मदालसा ने कहा— गृहस्थ को सदैव ही सदाचार का पालन करना चाहिये, आचारहीन पुरुष को लोक मे कभी भी सुख नहीं मिल सकता, जो पुरुष सदाचार को छोड कर ससार मार्ग मे प्रवृत्त होता है, उसके द्वारा किये हुए यज्ञ, दान और तपस्या आदि सभी अमगलजनक होते है ॥६-७॥

दुराचारोहिपुरुषोनेहायुर्विदतेमहत् ।  
 कार्योयत्नःसदाचारोआचारोहंत्यलक्षणम् ॥८॥  
 तस्यस्वरूपवक्ष्यामिसदाचारस्यपुत्रक ।  
 समाहितमना श्रुत्वातथैवपरिपालय ॥९॥  
 त्रिवर्गसाधनेयत्नःकर्त्तव्योगृहमेधिना ।  
 तत्ससिद्धौगृहस्थस्यसिद्धिरत्रपरत्रच ॥१०॥

पादेनार्थस्यपारग्यंकुयत्सिचयमात्मवान् ।  
 अर्धेनचात्मभरणानित्यनैमित्तिकान्वितम् ॥११  
 पादचात्मार्यमायस्यमूलभूतविवर्द्धयेत् ।  
 एवमाचरत पुत्रअर्थसाफल्यमृच्छति ॥१२  
 तद्वत्पापनिषेधार्थधर्मकार्योविपश्चिता ।  
 परत्रार्थतथाचान्यकाम्योत्रैवफलप्रद ॥१३

दुराचार मे प्रवृत्त मनुष्य दीर्घजीवी कदापि नहीं हो सकता, इस लिये सदाचार मे ही प्रवृत्त होवे, सदाचार से बुरे लक्षण नष्ट हो जाते है ॥८॥ अब मैं उस सदाचार के स्वरूप को कहनी हू तुम उसे एकाग्र चित्त से सुनो और तदनु रूप कार्य करो ॥९॥ गृहस्थ को त्रिवर्ग साधन मे प्रवृत्त होना चाहिये, त्रिवर्ग के सिद्ध होने पर उसे इहलोक और परलोक दोनों की सिद्धि होती है ॥१०॥ गृहस्थ को उपार्जन किये हुए धन का चतुर्थ भाग धर्म के लिये सञ्चित करना चाहिये, आधे भाग से अपना पोषण और नित्य नैमित्तिक कार्य करे ॥११ और शेष भाग की मूल धन के रूप मे वृद्धि करे, इस प्रकार के आचरण से ही सफलता है ॥१२॥ धन के उपार्जन मे जैसा आचरण करे, वैसा पाप को नष्ट करने के लिये धन सञ्चय करने मे करे, धर्म काम्य और निष्काम भाव से दो प्रकार का है—काम्य इहलोक मे फल-प्रकाश करता है और निष्काम परलोक मे फल देता है ॥१३॥

प्रत्यवायभयात्कामस्तथान्यश्चाविरोधवान् ।  
 द्विधाकामोनिगदितस्त्रिवर्गोस्यविरोधत ॥१४  
 परस्परानुबन्धांश्चसर्वानैतान्विचितयेत् ।  
 विपरीतानुबन्धाश्चधर्मादीस्ताञ्छृणुष्वमे ॥१५  
 धर्मोधर्मानुबन्धार्थोधर्मोनात्मार्यबाधकः ।  
 उभाभ्याचद्विधाकामस्तेनतौचद्विधापुन ॥१६  
 ब्राह्मेमुहूर्त्तबुध्येतधर्मार्थौचानुचितयेत् ।  
 कायवलेशांश्चतन्मूलान्वेदतत्त्वार्थमेवच ॥१७

उत्थायावश्यकंकृत्वाकृतशौच समाहित ।  
 समुत्थायतथाचम्यप्राङ्मुखोनियतःशुचि ॥१८  
 पूर्वसध्यासनक्षत्रापश्चिमासदिवाकराम् ।  
 उपासीतयथान्यायनैनाजह्यादनापदि ॥१९  
 असत्प्रलापमनृतवाक्पारुष्यचवर्जयेत् ।  
 असच्छास्त्रमसद्वादमसत्सेवांचपुत्रक ॥२०  
 सायप्रातस्तथाहोमकुर्वीतनियतात्मवान् ।  
 नोदयास्तमयेबिबमुदीक्षेतविवस्वतः ॥२१

विघ्न तथा व्यय के होने से काम्य और निष्काम दोनो धर्मों को करे, त्रिवर्ग भेद से काम्य भी दो प्रकार का है ॥१४॥ धर्म, अर्थ और काम यह त्रिवर्ग परस्पर बँधे हुए है, वैसे ही उन्हें परस्पर बधन-रहित भी समझे, अब मैं इनके अनुबन्धादि का वर्णन करती हूँ ॥१५॥ धर्म तथा धर्म के अनुबन्ध के लिये वह धर्म आत्मा को बाधा नहीं पहुँचाता, जैसे काम दो प्रकार का है, वैसे ही काम के द्वारा धर्म और अर्थ को भी दो भागो में विभक्त समझो ॥१६॥ ब्राह्ममुहूर्त्त में उठ कर गृहस्थ को धर्म, अर्थ, कायक्लेश और वेदतत्त्वार्थ का चिन्तन करना चाहिये ॥१७॥ फिर शय्या से उठ कर आचमन करे और नियत तथा पवित्र भाव से पूर्वाभिमुख बैठे ॥१८॥ और नक्षत्र के स्थित रहते हुए ही सध्या करे, इसी प्रकार सायकालीन सध्या भी सूर्य के स्थित रहते में ही करे, आपत्तिकाल को छोड़ कर नित्य सध्योपासन विधि सहित करना चाहिये ॥१९॥ असत्, मिथ्या और कठोर वचनो का त्याग करे तथा असत् शास्त्र, असत् वाद और असत् सेवा का भी परित्याग कर दे ॥२०॥ नियतात्मा हो कर प्रातः सायं हवत् करे, सूर्य के उदय और अस्तकाल में सूर्य बिम्ब को न देखे ॥२१॥

केशप्रसाधनादर्शदर्शनदतधावनम् ।  
 पूर्वाल्लुएवकुर्वीतदेवतानाचतर्पणम् ॥२२  
 ग्रामावसथतीर्थानांक्षेत्राणांचैववर्त्मनि ।  
 नमूत्रमनुतिष्ठे तनकृष्टेनचगोब्रजे ॥२३

नगनापरस्त्रियनेक्षेत्रपश्येदात्मनःशकृत् ।  
 उदक्वयादर्शनस्पर्शोवर्ज्यसम्भापणतथा ॥२४  
 नाप्सुमूत्रपुरीषवानिष्ठीवनसमाचरेत् ।  
 नाधितिष्ठेच्छकृन्मूत्रकेशभस्मकपालिका ॥२५  
 तुपागारास्थिचूर्णानिरजोवस्त्राणिकानिचित् ।  
 नाधितिष्ठेत्तथाप्राज्ञा पथिपत्राणिवाभुवि ॥२६  
 पितृदेवमनुष्याणाभूतानाचतथार्चनम् ।  
 कृत्वाविभवत् पश्चाद्गृहस्थोभोक्तुमर्हेति ॥२७  
 उदङ्मुख प्राङ्मुखोवास्वाचातोवाग्मत शुचि ।  
 भुञ्जीतान्न चतच्चित्तोह्यन्तर्जानु सदानर ॥२८

केशविन्यास, दन्तधावन, दर्पण मे मम्मूख दर्शन और देव तर्पण कार्य पूर्वाह्न मे करे ॥२२॥ ग्राम, निवास, तीर्थ, क्षेत्र, मार्ग जुता खेत गौओ के स्थान मे मल मूत्र का त्याग न करे ॥२३॥ पर नारी को नगी न देखे, अपने मल को भी न देखे, ऋतुमती स्त्री का देखना, स्पर्श करना या उससे वार्त्तालाप करना अनुचित है ॥२४॥ जल मे मल-मूत्र का त्याग और मैथुन कर्म न करे, मल-मूत्र बाल, भस्म, कपाल तुष, अगार, अस्थि, रजी, वस्त्रादि मार्ग की मिट्टी के ऊपर कभी न बैठे ॥२५-२६॥ अपने वित्तानुसार सर्व प्रथम पितर, देवता, मनुष्य, भूत आदि का पूजन कर फिर स्वय भोजन करे ॥२७॥ आचमन के अन्त मे वाणी सयम, पवित्रता और अन्तर्जानु से पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठ कर एकाग्र चित्त से भोजन करे ॥२८॥

उपघातमृतेदोषनात्रस्योदीरयेद्बुध ।  
 प्रत्यक्षलवणावर्जमन्नमत्युष्णामेवच ॥२९  
 नगच्छन्नैवतिष्ठन्वैविष्णुमूत्रोत्सर्गमाचरेत् ।  
 कुर्वीतनैवचाचामेन्नकिचिदपिभक्षयेत् ॥३०  
 उच्छिष्टोनालपेटिकचित्स्वाध्यायचविवर्जयेत् ।  
 गात्राह्यणतथाचाग्निस्वमूर्धानचनस्पृशेत् ॥३१

नचपश्येद्रविनेन्दु ननक्षत्राणिकामत ।  
 भिन्नासनतथाशय्याभाजनचविवर्जयेत् ॥३२  
 गुरूणामासनदेयमभ्युत्थानादिसत्कृतम् ।  
 अनुकूलतथालापमभिवादनपूर्वकम् ॥३३  
 तथानुगनकुर्यात्प्रतिकूलनसलपेत् ।  
 नैकवस्त्रश्चभुञ्जीतनकुर्याद्देवतार्चनम् ॥३४  
 नागर्हयेद्विजान्नाग्नौमेहकुर्वीतबुद्धिमान् ।  
 नस्नायीतनरोनग्नीनशयीतकदाचन ॥३५

किसी प्रकार का अनिष्ट या उत्तेजन करने वाले व्यक्ति के दोषो को न खोले, अधिक नमक या अत्यन्त गरम अन्न का भोजन न करे ॥२९॥ चलते हुए या बैठे हुए मल-मूत्र का त्याग न करे, आचमन करके फिर किंचित् भी अन्न न खाय ॥३०॥ उच्छिष्ट देह से किसी से बात न करे तथा इस अवस्था में वेदाध्ययन न करे, तथा गौ, ब्राह्मण, अग्नि और अपने मस्तक का स्पर्श न करे ॥३१॥ उच्छिष्ट देह से सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र का दर्शन भी स्वेच्छा से न करे, टूटे आसन, टूटी शय्या और टूटे पात्र को त्याग दे ॥३२॥ गुरु को देख कर उष्ट्र कर खड़े होने इत्यादि से सत्कार पूर्वक आसन दे और प्रणाम करके अनुकूल वार्त्तालाप करे ॥३३॥ उनके गमन समय उनके पीछे चले, प्रतिकूल वचन न कहे, एक ही वस्त्र से भोजन और देव पूजन न करे ॥३४॥ द्विजाति की निन्दा न करे अग्नि में मूत्रादि न छोड़े, नग्न हो कर स्नान अथवा शयन न करे ॥३५॥

नपाणिभ्यामुभाभ्याचकण्डूयेतशिरस्तथा ।  
 नचाभीक्ष्णशिरस्नानकार्यनिष्कारणानरैः ॥३६  
 शिरःस्नातश्चतैलेननाङ्गच्छिदपिस्पृशेत् ।  
 अनध्यायेषुसर्वेषुस्वाध्यायचविवर्जयेत् ॥३७  
 ब्राह्मणानलगोसूर्यान्नमेहेतकदाचन ।  
 उदङ्मुखोदिवा रात्रावुत्सर्गदक्षिणामुख ॥३८



आवाधासुयकथाकामकुर्यान्मूत्रपुरीषयो ।  
 दुष्कृतनगुरोर्ब्रूयात्क्रुद्धचैनप्रसादयेत् ॥३६  
 परीवादनश्वरगुयादन्येषामपिकुर्वताम् ।  
 पन्थादेयोब्राह्मणानाराज्ञोदुखातुरस्यच ॥४०  
 विद्याधिकस्यगुर्विष्याभारतस्ययवीयस ।  
 मूकान्धबधिराणाचमत्तस्योन्मत्तकस्यच ॥४१  
 पुश्चलथाकृतवैरस्यवालस्यपतितस्यच ।  
 देवालयचैत्यतरुतथैवचचतुष्पथम् ॥४२  
 विद्याधिकगुरुचैवबुधकुर्यात्प्रदक्षिणाम् ।  
 उपानद्वस्त्रमाल्यादिधृतमन्यैर्नधारयेत् ॥४३

दोनो हाथो से मस्तक न खुजावे, अकारण स्नान तथा सदैव शिर से स्नान न करे ॥३६॥ शिर से स्नान करने के अन्त में किसी अङ्ग में तेल न लगावे, अन्ध्याय के दिनो से वेदाध्ययन को न करे ॥३७॥ गौ, ब्राह्मण, सूर्य और अग्नि के सामने मल-मूत्र का त्याग न करे, दिन में उत्तर की ओर मुख कर के तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके ॥३८॥ निर्विघ्न स्नान मल मूत्र का त्याग करे, गुरु के दुष्कर्म को किसी प्रकार प्रकट न करे तथा उनके कुपित होने पर उन्हें प्रसन्न करे ॥३९॥ यदि कोई अन्य उनकी मिथ्या निन्दा करे तो उसे न सुने, ब्राह्मण, राजा, दुःख से आतुर ॥४०॥ अपने से विद्वान्, गर्भिणी नारी, भयातुर, युवक, गूगा, अन्धा, बहिरा, मत्ता, उन्मत्ता ॥४१॥ पुश्चली, बैरी, बालक और पतित इनको मार्ग दे, देवालय, चैत्य, चौराहा ॥४२॥ अपने से अधिक विद्या वाला, गुरु, देवता तथा बुद्धिमान् की परिक्रमा करे, किसी के पहिने हुए जूता, वस्त्र और माला आदि को धारण न करे ॥४३॥

उपवीतमलकारकरकचैववर्जयेत् ।  
 प्रशस्तानिचकर्माणि कुर्वाणादीर्घजीविनः ॥४४  
 चतुर्दश्यातथाष्टम्यापञ्चदश्याचपर्वसु ।  
 तैनाभ्यङ्ग तथाभोगयोषितश्चविवर्जयेत् ॥४५

नक्षत्रपादजङ्घाश्चप्राज्ञस्तिष्ठेत्कदाचन ।  
 नचापिविक्षिपेत्पादौपादपादेननाक्रमेत् ॥४६॥  
 मर्माभिघातमाक्रोशपैशुन्यचविवर्जयेत् ।  
 दम्भाभिमानतैक्ष्ण्यानिनकुर्वीद्विचक्षण ॥४७॥  
 मूर्खोन्मत्तव्यसन्तनोविरूपान्मायिनस्तथा ।  
 न्यूनाङ्गाश्चाधिकाङ्गाश्चनोपहासे नदूषयेत् ।  
 परस्यदण्ड नोद्यच्छेच्छिक्षार्थपुत्रशिष्ययो ॥४८॥  
 तद्वन्नोपविशेत्प्राज्ञपादेनाक्रम्यचासनम् ॥४९॥

दूसरे का पहिना हुआ जनेऊ, विभूषण और कमरलु ग्रहण न करे, जो प्रशस्त कर्म करता है, वही दीर्घजीवी होता है ॥४४॥ चौदश, पंद्रस, अष्टमी और पर्व दिवस में तेल न मले तथा स्त्री सङ्ग भी न करे ॥४५॥ पैर या जाँघ फैला कर न बैठे, पैर पर पैर मारना और लात मारना भी अनुचित है ॥४६॥ किसी के मर्म को व्यथित न करे, किसी को न कोसे, चुगली न करे, दम्भ, अभिमान और तीखे व्यवहार को छोड़ दे ॥४७॥ मूर्ख, उत्तम, दुखी आपद्ग्रस्त, विरूप, मायावी, अङ्गहीन अथवा अधिकाङ्ग को हँसी उड़ाकर न छेड़े, दूसरे के प्रति दड का प्रयोग न करे, परन्तु पुत्र या शिष्य को उपदेश देने के लिए आवश्यक हो तो दड का प्रयोग करे ॥४८॥ पाँवों से आक्रमण करता हुआ आसन पर न बैठे, केवल उदर पूर्ति के लिये भोजन करे ॥४९॥

सायप्रातश्चभोक्तव्यकृत्वाचातिथिपूजनम् ।  
 उदङ्मुख प्राङ्मुखोवावाग्यतोदन्तधावनम् ॥५०॥  
 कुर्वीतसततवत्सवर्जयेद्वर्ज्यवीरुधः ।  
 नोदक्छिरा स्वपेज्जातुनचप्रत्यक्छिरानर ॥५१॥  
 शिरस्यगस्त्यमास्थायशयीताथपुरन्दरम् ।  
 नतुगन्धवतीष्वप्सुस्नायीतनतथानिशि ॥५२॥  
 उपरागेपरस्नानमृतेदिनमुदाहृतम् ।  
 अपमृज्यान्नचास्नातोगात्राप्यम्बरपाणिभिः ५३

नचापिधूनयेत्केशान्वाससीनचधूनयेत् ।  
 नानुलेपनमादद्यादस्नात कर्हिचिद्बुध ॥५४  
 नचापिगृत्तवामा स्याच्चित्रासितधरोऽपिवा ।  
 नचकुर्याद्विपर्यासवाससोर्नापिभूषणो ॥५५

प्रातः साय अतिथि का पूजन करके स्वयं भोजन करे तथा वाणी को रोककर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठ कर दाँतुन करे ॥५०॥ वर्जित काष्ठादि का दाँतुन में प्रयोग न करे, उत्तर अथवा पश्चिम को शिर करके न सोवे ॥५१॥ दक्षिण या पूर्व की ओर शिर करके सोवे, दुर्गधिन जल अथवा रात्रि के समय स्नान न करे ॥५२॥ रात्रि स्नान ग्रहण काल में ही करे, स्नान के पश्चात् वस्त्र या हाथ से शरीर का मार्जन न करे ॥५३॥ गीले केश या गीले वस्त्र को न फटकारे, बिना स्नान किये चन्दनादि धारण न करे ॥५४॥ लाल, काले या चित्रित वस्त्र न पहिने, उत्तरीय वस्त्र या भूषण आदि को विपरीत ढङ्ग से न पहिने ॥५५॥

वर्ज्यंचविदशवस्त्रमत्यन्तोपहतचयत् ।  
 केशकीटावपन्नचक्षुष्णश्चभिरवेक्षितम् ॥५६  
 अवलीढावपन्नचसारोद्धरगादूपितम् ॥५७  
 नभक्षयीतसततप्रत्यक्षलवणानिज ।  
 वर्ज्यंचिरोषितपुत्रभक्तपयुषितचयत् ॥५८  
 पिष्टशाकेशुपयसाविकारानृपनदन्न ॥५९  
 उदयास्तमनेभानो शयनचविवर्जयेत् ।  
 नास्नातो नैवसविष्टोनचैवान्यमनानर ॥६०  
 नचैवशयनेनोव्यमुपविष्टोनशब्दवत् ।  
 नचैकवस्त्रोनवदन्प्रेक्षतामप्रदायच ॥६१  
 भुजीतपुरुषस्नातःमायप्रातर्यथाविधि ।  
 परदारानगन्तव्या पुरुषेणविपश्चिता ॥६२  
 इष्टापूर्त्तायुषाहन्त्रीपरदारगतिर्नृणाम् ।  
 नहीदृशमनायुष्यलोकेकिचनविद्यते ॥६३

यादृशपुरुषस्येहपरदाराभिर्दर्शनम् ।

देवार्चनाग्निकार्याग्नितागुर्वभिवादनम् ॥६४

दशाशून्य, जीर्ण एव छिन्न वस्त्रो का सर्वथा त्याग करे, बाल या कीड़े से युक्त, श्वान द्वारा देखा हुआ ॥५६॥ अथवा चाटा हुआ या सार निकाला हुआ दूषित अन्न ॥५७॥ तथा प्रत्यक्ष रूप से नमक कभी न खाय, बहुत दिनों का रखा हुआ अथवा बासी अन्न का भी भोजन न करे ॥५८॥ हे पुत्र ! पिट्टी, शाक, ईख और दूध के विकार को त्याग दे ॥५९॥ सूर्योदय या सूर्यास्त के समय न सोवे अथवा दूसरी ओर मन लगा कर भी शयन न करे ॥६०॥ शय्या में या मृत्तिका में 'हा' कहकर न बैठे, उत्तरीय उतार कर एक वस्त्र से भोजन न करे, बात करते हुए भी भोजन न करे, जो मामने बैठा हो उसे खिलाये बिना स्वयं न खाय ॥६१॥ प्रातः सायं विधि सहित स्नान करके ही भोजन करे, परनारी गमन कभी न करे ॥६२॥ क्योंकि परनारी गमन से इष्टापूर्त नष्ट होता है और दीर्घायु का ह्रास होता है, इस लोक में इस पाप के समान अन्य कोई पाप नहीं है, देव-पूजन, अग्नि कार्य और गुरुजनो को प्रणाम सदा कर्तव्य है ॥६३-६४॥

कुर्वीतसम्यगाचम्यतद्वदन्नभुजिक्रियाम् ।

अफेनाभिरगन्धाभिरद्भिरच्छाभिरादरात् ॥६५

आचामेत्पुत्रपुण्याभि प्राङ्मुखो नाप्युदङ्मुखः ।

अन्तर्जलादावसथाद्वल्मीकान्मूषिकस्थलात् ॥६६

कृतशौचावशिष्टाच्चवर्जयेत्पञ्चवैमृदः ।

प्रक्षाल्यहस्तौपादौचसमभ्युक्ष्यसमाहितः ॥६७

अन्तर्जानुस्तथाचामेत्त्रिंशत्तुर्वीपिवेदपः ।

परिमृज्यद्विरास्यान्तखानिभूर्धानमेवच ॥६८

सम्यगाचम्यतोयेनक्रियाकुर्वीतवैशुचिः ।

देवतानामृषीणाञ्चपितृणाञ्चैवयत्नतः ॥६९

समाहितमनाभूत्वाकुर्वीतसततनरः ।

धुत्त्वानिष्ठीव्यवासश्चपरिधयाचमेद्बुधः ॥७०

भले प्रकार आचमन करके अन्न भोजन कार्य को सम्पूर्ण करे । फेन-

रहित, गन्ध-रहित, स्वच्छ और पवित्र जल लेकर ॥६५॥ पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर आचमन करे, जल के भीतर की, निवास गृह की, बाँबी की चूहे के बिल की ॥६६॥ तथा शौच क्रिया से बची हुई मिट्टी को न ले, एक ग्र मन से हाथ-पाँव धोकर शौच करे ॥६७॥ दोनों जानु समेट कर बैठे तीन-चार बार जलपान सहित आचमन करे, दो बार मुख के इधर-उधर तथा मुख में, दो बार मस्तक और इन्द्रिय द्वार को मॉजते हुए ॥६८॥ भले प्रकार आचमन करके क्रिया का अनुष्ठान करे तथा सदैव एकाग्र मन से देव, ऋषि और पितरो का ॥६९॥ कार्य करे, हिचकी या खखार के पश्चात् आचमन करना चाहिये और वस्त्र पहिने के पश्चात् भी आचमन करना उचित है ॥७०॥

ध्रुतेऽवलीढेवान्तेचतथानिष्ठीवनादिषु ।

कुर्यादाचमनस्पर्शगोपृष्ठस्यार्कदर्शनम् ॥७१॥

कुर्वीतालम्बनचापिदक्षिणश्रवणस्यवै ।

यथाविभवतोह्ये नत्पूर्वाभावेतत् परम् ॥७२॥

अविद्यमानेपूर्वोक्तेउत्तरप्राप्तिरिष्यते ।

नकुर्याद्दन्तसवर्पनात्मनोदेहताडनम् ॥७३॥

स्वप्नाध्यापनभोज्यानिस्वाध्यायचविवर्जयेत् ।

सन्ध्यायामैथुनचापितथाप्रस्थानमेवच ॥७४॥

पूर्वाह्ने तातदेवानामनुष्याणाचमध्यमे ।

भक्त्यातथापरोह्ने चकुर्वीतपितृपूजनम् ॥७५॥

शिर स्नातश्चकुर्वीतदैवपैत्र्यमथापिवा ।

प्राङ्मुखोदङ्मुखोवापिश्मश्रुकर्म चकारयेत् ॥७६॥

व्यङ्गाविवर्जयेत्कन्यामकुलाचापिरोगिणीम् ।

विकृतापिगलाचैववाचालासर्वदूषिताम् ॥७७॥

छीक, वमन, निष्ठीवन अथवा किसी वस्तु के चाटने पर भी आचमन करे, गोपृष्ठ का अवलोकन या सूर्य का दर्शन ॥७१॥ अथवा अपने दक्षिण श्रोत्र का स्पर्श करे । इनमे क्रमश पहिले के अभाव मे दूसरे को करे ॥७२॥ क्योंकि पहिले का अभाव होने पर दूसरे का ग्रहण ही श्रेष्ठ कहा है दाँत से दाँत को न

धिमे तथा अपने शरीर का ताडन न करे ॥७३॥ प्रातः सध्या या साय सध्या क ममय शयन, अध्ययन और भोजन न करे, सध्याकाल में मैथुन अथवा प्रस्थान का निषेध है ॥७४॥ पूर्वाह्न में देवताओं का, मध्याह्न में मनुष्यों का एव अपराह्न में पितरों का पूजन करे ॥७५॥ गिर से स्नान करके पितरों या देवताओं के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर क्षीर कर्म न करावे ॥७६॥ रोगिणी, विकलांगी, पिगल वर्ण वाली, वाचाल अथवा दूषित कन्या चाहे मद्रवश में ही उत्पन्न क्यों न हुई हो, उसे ग्रहण न करे ॥७७॥

अव्यगागीसैम्यनाम्नीसर्वलक्षणलक्षिताम् ।  
तादृशीमुद्वहेत्कन्याश्रेय कामोनर सदा ॥७८॥  
उद्वहेत्पितृमात्रोश्चसप्तमीपचमीतथा ।  
रक्षेद्दारान्त्यजेयेदीर्षादिवाचस्वप्नमैथुने ॥७९॥  
परोपतापककर्मजन्तुपीडाचवर्जयेत् ।  
उदक्या सर्ववर्णानावर्ज्यारान्त्रिचतुष्टयम् ॥८०॥  
स्त्रीजन्मपग्निहारार्थपचमीमपिवर्जयेत् ।  
तत षष्ठ्यात्रजेद्रात्र्याश्रेष्ठायुगासुपुत्रक ॥८१॥  
पर्वाणिवर्जयेन्नित्यमृतुकालेपियोषित ।  
तस्मान्नित्यनरोगच्छेच्छेषयुग्मासुपुत्रक ॥८२॥  
युग्मासुपुत्राजायन्तेस्त्रियोऽयुग्मासुरात्रिषु ।  
तस्माद्युग्मासुपुत्रार्थीमविशेतसदानर ॥८३॥

कत्याण के इच्छुक पुरुष को सर्वांग पूर्ण, सुघर नासिका एव सब सुलक्षणों से युक्त कन्या से विवाह करना चाहिये ॥७८॥ पिता या माता की सात अथवा पाँच पीढ़ी छोड़कर ही परस्पर विवाह करे पुरुष का कर्तव्य है कि स्त्री की रक्षा करे और ईर्ष्या का त्याग करे, दिन में शयन या मैथुन न करे ॥७९॥ दूसरों को सताप देने वाले या प्राणियों को क्लेशप्रद कार्यों को न करे, सभी वर्णों को ऋतुमयी स्त्री का चार दिन सङ्ग-त्याग करना चाहिये ॥८०॥ जो पुरुष कन्या का जन्म नहीं चाहता, वह पाँचवी रात छोड़कर छठवी रात में स्त्री-संग करे, क्योंकि इसके लिये युग्म रात्रि ही श्रेष्ठ मानी गयी है ॥८१॥

ऋतुकाल के दिन, चौदश, अमावश, अष्टमी अथवा सक्रांति काल में नारी-समागम न करे ॥८२॥ युग्म रात्रि के सगम से पुत्र और अयुग्म रात्रि के समागम से कन्या की उत्पत्ति होती है, इसलिये पुत्रेच्छुको को युग्म रात्रि में सङ्ग करना चाहिये ॥८३॥

विधर्मिणोऽह्निपूर्वाख्येसध्याकालेचपरुढका ।

क्षुरकर्मणि वान्तेचस्त्रीसभोगेचपुत्रक ॥८४

स्नायीतचैलवान्प्राज्ञ कटभूमिमुपेत्यच ।

देववेदद्विजातीनासाधुसभ्यमहात्मनाम् ॥८५

गुरो पतिव्रतानाचतथायज्वितपस्विनाम् ।

परीवादनकुर्वीतपरिहासचपुत्रक ॥८६

कुर्वतामविनीताना नश्रोतव्यकथचन ।

देवपित्र्यातिथेयाश्चक्रिया कुर्वीतवैबुध ॥८७

स्वाध्यायचापिकुर्वीतयथाशक्त्या ह्यतन्द्रित ।

नोत्कृष्टशय्यासनयोन्नपिकृष्टस्यचारुहेत् ॥८८

नचामङ्गल्यवेप स्यान्नचामङ्गल्यवाग्भवेत् ।

धवलाम्बरसवीतःसितपुष्पविभूषितः ॥८९

नोद्धतोन्मत्तमूढैश्चनाविनीतैश्चपण्डित ।

गच्छेन्मैत्रीनचाशीलैर्नचचौर्यादिदूषितै ॥९०

नचातिव्ययशीलैश्चनलुब्धैर्नापिवैरिभि ।

नानृतकैस्तथाक्रूरै सहासीतकदाचन ।

नबन्धकीभिर्नन्यूनैर्बन्धकीपतिभिस्तथा ॥९१

साद्धनबलिभि कुर्यान्नचन्यूनैर्ननिन्दितै ।

नसर्वशङ्किभिर्नित्यनचदैवपरैर्नरै ॥९२

पूर्वाह्ने में नारी-सग से विधर्मों और सायकाल में सग करने से नपु सक पुत्र की उत्पत्ति होती है, क्षौर कर्म, वमन और स्त्री-सग के पश्चात् ॥८४॥ तथा श्मशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करे । देवता, वेद, ब्राह्मण, सत्यनिष्ठ महात्मा ॥८५॥ गुरुजन, पतिव्रता, यज्ञ और तप परायण पुरुष इनकी

सी न उडावे ॥८६॥ यदि कोई अविनय वाला पुरुष इनकी निन्दा करे तो घर ध्यान न दे, देवता, पितर और अतिथि का पूजन सदा करे ॥८७॥ सावधान चित्त से वेदाध्ययन करे, अपने से श्रेष्ठ या निम्न मनुष्य की गय्या अथवा गसन पर न बैठे ॥८८॥ अमङ्गल वेश न धारे, अमङ्गल वचन न कहे, श्वेतस्त्र और सित पुष्प धारण करे ॥८९॥ उद्धत, उन्मत्त, मूर्ख, विनय-रहित, शत्रु-कर्म से दूषित ॥९०॥ अपरिमित व्यय करने वाला, लुब्ध, शत्रु, व्यभिचारिणी का पति ॥९१॥ नीचाशय, निन्दित, सदा शका युक्त, इनके साथ कभी मित्रता न करे ॥९२॥

कुर्वीतसाधुभिर्मत्रीसदाचारावलम्बिभि ।  
 प्राज्ञैरपिशुनै शक्तै कर्मण्युद्योगभागिभि ॥९३॥  
 वेदविद्याव्रतस्नातै सहासीतसदाबुध ।  
 सुहृद्दीक्षितभूपालस्नातकश्वशुरैःसह ।  
 ऋत्विगादीन्षडर्धाहर्निर्चयेच्चगृहागतान् ॥९४॥  
 यथाविभवत् पुत्रद्विजान्सवत्सरोषितान् ।  
 अर्चयेन्मधुपर्कणयथाकालमतन्द्रितः ॥९५॥  
 तिष्ठेच्चशासनेतेषाश्चेयस्कामोद्विजोत्तम ।  
 नचतान्विवदेद्धीमानाक्रुष्टश्चापितै सदा ॥९६॥  
 सम्यग्गृहार्चनकृत्वायथास्थानमनुक्रमात् ।  
 सपूजयेत्ततोर्वह्निदद्याच्चैवाहुती क्रमात् ॥९७॥

सदाचारी साधु मनुष्यो के साथ ही मित्रता करे, बुद्धिमान्, उद्योगी को मित्र बनावे ॥९३॥ वेदज्ञान से युक्त, विद्वान्, व्रत परायण और स्नानक का सग करे, सुहृद, दीक्षित, राजा, स्नातक, श्वशुर तथा ऋत्विक् यह छैओ अर्घ्य देने के लिए उपर्युक्त पात्र हैं, जब यह घर पर आवे तो इनका पूजन करे ॥९४॥ हे पुत्र ! उपर्युक्त छ जनो के आगमन पर, यदि वे सवत्सर के व्यतीत होने पर आवे तो मधुपर्क से उनका पूजन करे ॥९५॥ यदि कल्याण चाहे तो उनकी आज्ञा का पालन करे और उनके द्वारा क्रोध व्यक्त करने पर भी उनसे विवाद



न करे ॥६६॥ भले प्रकार गृह पूजन करके अग्नि का पूजन करे और आहुति दे ॥६७॥

प्रथमाब्रह्मणोदद्यात्प्रजानापतयेततः ।  
 तृतीयाचैवगुह्येभ्य कश्यपायतथापराम् ॥६८  
 ततोऽनुमतयेदत्त्वादद्याद्गृहबलिततः ।  
 पूर्वख्यातोमयायस्तेनित्यकर्मक्रियाविधिः ॥६९  
 वैश्वदेवतन कुर्याद्विलयस्तत्रमेशृणु ।  
 यथाम्थानविभागतुदेवानुद्दिश्यवैपृथक् ॥१००  
 पर्जन्याद्भूचाधरित्र्यैचदद्याच्चमणिकेत्रयम् ।  
 ततोधानुविधातुश्चदद्याद्द्वारेगृहस्यतु ।  
 वायवेचप्रतिदिग्दिग्भ्य प्राच्यादित क्रमात् ॥१०१  
 ब्रह्मणोचान्तरिक्षायसूर्यायचयथाक्रमम् ।  
 विश्वेभ्यश्चैवदेवेभ्योविश्वभूतेभ्य एवच ॥१०२  
 उपसेभूतपतयेदद्याच्चोत्तरतस्ततः ।  
 स्वधानमइतीत्पुक्त्वापितृभ्यश्चापिदक्षिणे ॥१०३  
 कृत्वापस्व्यवायव्या यक्ष्मेतत्तेतिभाजनात् ।  
 अन्नावगेपमिच्छन्वैतोयदद्याद्यथाविधि ॥१०४  
 ततोन्नाग्र समुद्धृत्यहन्तकारोपकल्पनम् ।  
 यथाविधि यथान्यायब्राह्मणायोपपादयेत् ॥१०५

प्रथम आहुति ब्रह्माजी के निमित्त दूसरी आहुति प्रजापति को, तीसरी गुह्यकणल को और चौथी आहुति कश्यप को दे ॥६८॥ फिर पाँचवी आहुति अनुमति के उद्देश्य से दे और फिर जिस नित्य कर्म का वर्णन तुमसे किया जा चुका है, उसी के अनुसार गृहबलि प्रदान करे ॥६९॥ फिर वैश्वदेव बलि प्रदान करे उसका नियम यह है कि स्थान विभाग के अनुसार देवताओं के लिए पृथक्-पृथक् बलि प्रदान करे ॥१००॥ फिर पर्जन्य, अन्न और पृथिवी को तीन बलि तथा वायु को भी बलि दे तथा पूर्वादि के क्रम से प्रत्येक दिशा में बलि दे ॥१०१॥ फिर उत्तर दिशा में ब्रह्मा, अन्तरिक्ष में सूर्य, विश्वेदेवा और विश्वभूतगण ॥१०२॥

उषा और भूतपति के निमित्त बलि देकर स्वधा नम उच्चारण करके दक्षिण दिशा में पितरो के लिए बलि दे ॥१०३॥ फिर अन्नावशेष की कामना करे और अपसव्य होकर वायुकोण में 'यक्षमैतत्ता' इत्यादि मन्त्र पढ़ कर जलाधार से जल लेकर विधिवत् जल दे ॥१०४॥ फिर अन्न के अग्र भाग को तोड़े और हन्तकार की कल्पना कर ब्राह्मण को दे ॥१०५॥

कुर्यात्कर्माणितीर्थेनस्वेनेस्वनयथाविधि ।  
 देवादीनातथाकुर्वद्ब्राह्मणैराचमनक्रियाम् ॥१०६॥  
 अ गुष्ठोत्तरतोरेखापारोर्थादक्षिणस्यतु ।  
 एतद्ब्राह्ममितिख्याततीर्थमाचमनायवै ॥१०७॥  
 तर्जन्यङ्गुष्ठयोरन्तर्पैत्र तीर्थमुदाहृतम् ।  
 पितृणातेनतोयादिदद्यान्नान्दीमुखादृते ॥१०८॥  
 अ गुल्यग्रं तथादेवतेनदिव्यक्रियाविधि ।  
 तीर्थकनिष्ठिकामूलेकायतेनप्रजापते ॥१०९॥  
 एवमेभि सदातीर्थेदेवानापितृभिःसह ।  
 सदाकार्याणि कुर्वीतानान्यतीर्थेनर्कह्चित् ॥११०॥  
 ब्राह्मणैराचमनशस्तपिथ्यपैत्रेणसर्वदा ।  
 देवतीर्थेनदेवानाप्राजापत्यनिजेनच ॥१११॥  
 नान्दीमुखानाकुर्वीतप्राज्ञपिण्डोदकक्रियाम् ।  
 प्राजापत्येनतीर्थेनयच्चकिञ्चित्प्रजापते ॥११२॥

फिर स्वीय तीर्थ योग में विधान के अनुसार कर्म करे और देवतादि के निमित्त ब्राह्मतीर्थ द्वारा आचमन करे ॥१०६॥ दक्षिण हाथ के अगुष्ठ की उत्तर दिशा में जो रेखा है, वही ब्राह्मतीर्थ है, इसी तीर्थ के द्वारा आचमन का विधान है ॥१०७॥ तर्जनी और अगुठ का मध्य स्थल पितृतीर्थ है, नान्दीमुख के अतिरिक्त अन्यान्य सब क्रियाओं में पितरो के निमित्त इसी पितृतीर्थ से जलादि दे ॥१०८॥ अँगुली के अग्र भाग में देवतीर्थ है, उसी के द्वारा देवक्रिया की विधि का समापन करे, कनिष्ठा के मूल में काय नामक तीर्थ है, उसके द्वारा प्रजापति का कार्य करना चाहिये ॥१०९॥ इस प्रकार इन सब तीर्थों द्वारा

सदैव देवता और पितरो की क्रिया करे, अन्य तीर्थ के द्वारा कभी न करे ॥११०॥ ब्रह्मतीर्थ द्वारा ही आचमन करने का विधान है, पितृतीर्थ द्वारा पितृ-कार्य, देवतीर्थ द्वारा देवकार्य और कायतीर्थ द्वारा प्रजापति का कार्य करना चाहिये ॥१११॥ जिस प्रकार कायतीर्थ अर्थात् प्राजापत्य तीर्थ द्वारा प्रजापति का कार्य करने का विधान है, उसी प्रकार कायतीर्थ द्वारा ही नान्दीमुख पिएडो-दक कर्म करना चाहिये ॥११२॥

युगपज्जलमग्निचविभृयान्नविचक्षण ।  
 गुरुदेवान्प्रतितथानचपादौप्रसारयेत् ॥११३  
 नाचक्षीतधयन्तीगाजलनाञ्जलिनापिवेत् ।  
 शौचकालेषुसर्वेषुगुरुष्वल्पेषुवापुन ॥११४  
 नविलम्बेतशौचार्थंनमुखेनानलधमेत् ।  
 तत्रपुत्रनवस्तव्ययत्रनास्तिचतुष्टयम् ॥११५  
 ऋणप्रदातावैद्यश्चभ्रोत्रिय सजलानदी ।  
 जितामित्रोनुपौयत्रबलत्रान्धर्मतत्परः ॥११६  
 तत्रनित्यवसेत्प्राज्ञ कुत कुनृपत मुखम् ।  
 यत्राप्राधृष्योनुपतिर्यत्रसस्यवतीमही ॥११७  
 पौरा सुसयतायत्रसततन्यायवर्त्तिन ।  
 यत्रामत्सरिणोलोकास्तत्रवास सुखोदय ॥११८  
 यस्मिन्कृषीवलाराष्ट्रे प्रायशोनातिभोगिन ।  
 यत्रौषधान्यशेषाग्निवसेत्तत्रविचक्षण ॥११९  
 तत्रपुत्रनवस्तव्ययत्रैतत्त्रितयसदा ।  
 जिगीषुःपूर्ववैरश्चजनश्चमततोत्सव ॥१२०  
 वसेन्नित्यमुशीलेषुसहवासिषुपण्डित ।  
 इत्येतत्कथितपुत्रमयातेहितकाम्यया ॥१२१

एक साथ ही जल और अग्नि का धारण करना अनुचित है, गुरु या देवता के सामने पैर फँलाना भी निषिद्ध है ॥११३॥ बछड़े को दूध पिलाने में लगी हुई गौ को न बुलावे और अञ्जलि से जल न पीवे, अधिक अथवा न्यून

॥११४॥ सब प्रकार की शौच क्रिया शीघ्रता से करे तथा मुख की फूँक में अग्नि को प्रज्वलित न करे तथा जहाँ यह चार वस्तुएँ न हों, वहाँ न रहे ॥११५॥ ऋण देने वाला, वैद्य, श्रोत्रिय तथा जल वाली नदी । जिस स्थान पर शत्रु विजेता बली एव धर्मज्ञ राजा रहता हो ॥११६॥ उस स्थान में सदा रहे, क्योंकि कुराजा के राज्य में सुख नहीं हो सकता । जिस देश का राजा दुर्धर्ष है तथा जहाँ की भूमि धान्य से परिपूर्ण है ॥११७॥ जहाँ के पुरवासी नियमों का पालन करते और न्याय मार्ग पर चलते हैं, जहाँ के मनुष्यों में मात्सर्य नहीं है, वहाँ निवास करने से सुख का उदय होता है ॥११८॥ जहाँ के किसान अति भोग वाले नहीं हैं, और जहाँ अस्वस्थ्यासख्य औषधियाँ उत्पन्न होती हैं उसी स्थान में निवास करना चाहिये ॥११९॥ जहाँ जिगीषा युक्त, पूर्व शत्रु और उत्सवोन्मत्त मनुष्य रहते हों वहाँ कभी न रहे ॥१२०॥ सुशील मनुष्यों का निवास हो वहाँ रहना चाहिये, यह सब मैंने तुम्हारे हित के लिए ही कहा है ॥१२१॥

## २८--अलर्क को शासन युक्त अंगूठी की प्राप्ति

सएवमुनिशिष्ट सन्मात्रासम्प्राप्ययौवनम् ।  
 ऋतध्वजसुतश्चक्रे सम्यग्दारपरिग्रहम् ॥१॥  
 पुत्राश्चोत्पादयामासयज्ञैश्चाप्ययजद्विभु ।  
 पितुश्चसर्वकालेषुचकाराज्ञानुपालनम् ॥२॥  
 तत कालेमहतासम्प्राप्यचरमवय ।  
 चक्रे ऽभिषेकपुत्रस्यतस्यराज्येऋतध्वज ॥३॥  
 भार्ययासहधर्मात्मायियासुस्तपसेवनम् ।  
 अवतीर्णोमहीरक्षोमहाभागोमहीपतिः ॥४॥  
 मदालसाचतनयंप्राहेदपश्चिमवचः ।  
 कामोपभोगससर्गप्रहाणायसुतस्यवै ॥५॥

यदादुःखमसह्यन्तेप्रियबन्धुवियोगजम् ।  
 शत्रुबाधोद्भववापिवित्तनाशात्मसम्भवम् ॥६  
 भवेत्तत्कुर्वतोराज्यगृहधर्मावर्लाम्बन ।  
 दुःखायतनभूतोहिममत्वालम्बनोगृही ॥७  
 नदास्मात्पुत्रनिष्कृध्यमहत्तादगुलीयकात् ।  
 वाच्यतेशासनपट्टे मूक्षमाक्षरनिवेशितम् ॥८  
 इत्युक्त्वाप्रददौतस्मैसौवर्णसागुलीयकम् ।  
 आशिपञ्चापियायोग्या पुरुपस्यगृहेसत ॥९  
 तत कुवलयाश्वोऽसौसाचदेवीमदालसा ।  
 पुत्रायदत्त्वातद्राज्यतपसेकाननङ्गतौ ॥१०

जड ने कहा—माता के इस प्रकार उपदेश देने पर ऋतध्वज के पुत्र ने युवावस्था प्राप्त होने पर विधि पूर्वक विवाह किया और पुत्रोत्पादन और विविध यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए पिता की आज्ञा के अनुवर्ती हुए ॥१-२॥ फिर बहुत काल व्यतीत होने पर धर्मात्मा राजा ऋतध्वज ने पत्नी सहित वन में जाने की इच्छा से पुत्र को राज्यपद में अभिषिक्त किया ॥३-४॥ तब पुत्र को भोगादि से निवृत्त करने के विचार से मदालसा ने इस प्रकार कहा—जब तुम्हारे समक्ष किसी प्रिय अथवा बन्धु का वियोग, शत्रुबाधा या धननाश का दुःख उपस्थित हो ॥५-६॥ क्यो कि गृहस्थ सदा ममता परायण है अतः स्वाभाविक रूप से ही आपद्काल आवे तो मेरे द्वारा प्रवृत्त इस अगुलीय से पत्र बाहर निकाल कर मध्यस्थ मूक्षम अक्षरो में लिखे शासन का पाठ करना ॥७-८॥ जड बोला—इस प्रकार कहती हुई मदालसा ने अपनी स्वर्ण की अगूठी देते हुए, अपने पुत्र को गृहस्थोचित आशीर्वाद दिया ॥९॥ फिर अपने पुत्र को राज्य देकर कुवलयाश्व तप करने के लिये मदालसा के सहित वन में गये ॥१०

## २६--अलर्क को आत्म विवेक

सोऽप्यलर्कोयथान्यायपुत्रवन्मुदिता प्रजा ।  
 पालयामासधर्मात्मास्वेस्वेकर्मण्यवस्थिता ॥१॥  
 दुष्टेषुदडशिष्टेषुसम्यक्चपरिपालनम् ।  
 कुर्वन्परामुदलेभेइयाजचमहामखै ॥२॥  
 अजायन्तसुताश्चास्यमहाबलपराक्रमाः ।  
 धर्मात्मानोमहात्मानोविमार्गपरिपन्थित ॥३॥  
 चकारसोऽर्थधर्मैर्गधर्ममर्थेनवापुन ।  
 तयोश्चैवाविरोधेनबुभुजेविषयानपि ॥४॥  
 एवबहूनिवर्षाणितस्यपालयतोमहीम् ।  
 धर्मार्थकामसक्तस्यजग्मुरेकमहर्ष्यथा ॥५॥  
 वैराग्यनास्यसजज्ञेभुञ्जतोविषयान्प्रियान् ।  
 नचाप्यलमभूत्तस्यधर्मार्थोपार्जनप्रति ॥६॥  
 तंतथाभोगससर्वप्रमत्तमजितेन्द्रियम् ।  
 सुबाहुनामिशुश्रावभ्रातातस्यवनेचर ॥७॥

जड बोला—धर्मात्मा अलर्क ने न्याय पूर्वक प्रजा का पुत्र के समान पालन किया, इस प्रकार आनन्द को प्राप्त होते हुए वे अपने नियत कार्यानुष्ठान में लगे ॥१॥ उन्होंने दुष्टों को दण्ड और शिष्ट पुरुषों की रक्षा करते हुए अत्यंत आनन्द पूर्वक अनेक यज्ञ किये ॥३॥ समयानुसार उनके अनेक पुत्र हुए, वे सब बली, पराक्रमी, धर्मज्ञ, महात्मा और कुमार्ग के नाशक थे ॥३॥ आत्मवान् हुए अलर्क धर्म से अर्थ और अर्थ से धर्म की रक्षा तथा धर्म और अर्थ के द्वारा विषयो का उपभोग करने लगे ॥४॥ इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग में प्रवृत्त होकर पृथिवी का पालन करते हुए बहुत वर्ष, एकदिन के समान ही व्यतीत हो गये ॥५॥ प्रिय विषयो का भोग करके भी उनके चित्तमें वैराग्य और धर्म, अर्थ के उपार्जन में उदासीनता उत्पन्न न हुई ॥६॥ अलर्क का एक भाई सुबाहु

पहिले से ही बनवास करता था, उसने अलर्क के विषय भोग मे लगे रहने की वार्त्ता सुनी ॥७॥

तम्बुबोधयिषु सोऽथचिरध्यात्वामहामति ।  
 तद्वैरिसश्रयन्तस्यश्चोयोऽमन्यतभूपते. ॥८  
 तत सकाशिभूपालमुदीर्णबलवाहनम् ।  
 स्वराज्यमाप्तुमागच्छद्बहुश शरणाकृती ॥९  
 सोऽपिचक्रे बलोद्योगमलर्कप्रतिपार्थिव ।  
 दूतचप्रेषयामास गज्यमस्मै प्रदीयताम् ॥१०  
 सोऽपिनैच्छत्तदादातुमाज्ञापूर्वस्वधर्मवित् ।  
 प्रत्युवाच च तदूतमलर्कं काशिभूभृत ॥११  
 मामेवाभ्येत्यहार्देनयाचताराज्यमग्रज ।  
 नाक्रात्यासप्रदास्यामिभयेनाल्पामपिक्षितम् ॥१२  
 सुबाहुरपिनोयाञ्चाचकारमतिमास्तदा ।  
 नधर्मक्षत्रियस्येतियाञ्चावीर्यधनोहिस ॥१३  
 तत समस्तसैन्येनकाशीश परिवारित ।  
 आक्रान्तुमभ्यगाद्राष्ट्रमलर्कस्यमहीपतेः ॥१४

अपने भाई को तत्त्वज्ञान हो मके इसके लिए उम महामति ने बहुत समय तक विचार किया और अन्त मे शत्रु के आश्रय मे जाना ही उचित समझा ॥८॥ फिर चतुर सुबाहु राज्य लाभ की इच्छा करके काशी नरेश की शरण मे अनेक बार गया ॥९॥ काशी नरेश ने भी अलर्क की प्रतिकूलता के लिये उनके पास दूत द्वारा मदेश भेजा कि सुबाहु को राज्य दे दो ॥१०॥ क्षात्रधर्मज्ञाता अलर्क ने इसे स्वीकार न करके दूत को उत्तर दिया ॥११॥ मेरे बडे भाई मेरे पास आकर कहे, आक्रमण से डर कर तो मै एक कण मात्र पृथिवी भी नही दे सकता ॥१२॥ महामति सुबाहु ने उनसे विनती नही की, क्यो कि क्षत्रियो का एक मात्र धर्म बल ही है ॥१३॥ तब काशी नरेश ने सेना से सुसज्जित हो कर राजा अलर्क के राज्य पर आक्रमण किया ॥१४॥

यनन्तरैश्चसश्लेषमभ्येत्यतदनन्तरम् ।  
 तेषामन्यतमैभृत्यै समाक्रम्यानयद्वशम् ॥१५  
 अपीडयश्चसामतास्तस्यराष्ट्रोपरोधनै ।  
 तथादुर्गतिपालाश्चक्रु चाटविकान्वशे ॥१६  
 काश्चिच्चोपप्रदानेनकाश्चिद्भू देनपार्थिवान् ।  
 साम्नैवान्यान्यन्वश निन्येनिभृतास्तस्ययेऽभवन् ॥१७  
 तत सोऽल्पवलोराजापरचक्रावपीडित ।  
 कोशक्षयमवापोच्चै पुरचारुध्यातारिणा ॥१८॥  
 इत्थसपीड्यमानस्तुक्षीणकोशोदिनेदिने ।  
 विषादमागात्परमव्याकुलत्वचचेतस ॥१९  
 आर्तिसपरमाप्राप्यतत्सस्मारागुलीयकम् ।  
 यदुद्दिश्यपुराप्राहमातातस्यमदालसा ॥२०  
 तत स्नात शुचिभूर्त्वावाचयित्वाद्विजोत्तमान् ।  
 निःकृष्यशासनतस्माद्दृशेप्रस्फुटाक्षरम् ॥२६

अपने सामन्त राजाओं से युक्त हो कर आक्रमण के पश्चात् उन्होंने अलर्क को वश में कर लिया ॥१५॥ उन्होंने अलर्क के सामन्तों को पीडित किया और दुर्ग रक्षक तथा वनवासियों को वशीभूत किया ॥१६॥ किसी को धन से, किसी को भेद से तथा किसी को दरङ्ग से अधीन कर लिया ॥१७॥ इस प्रकार परचक्र से पीडित हुए अलर्क का कोष खाली हो गया और नगर भी शत्रु द्वारा घेर लिया गया ॥१८॥ इससे अलर्क अत्यन्त विषाद को प्राप्त हुआ और उसका चित्त भी व्याकुल हो उठा ॥१९॥ फिर अत्यन्त आर्त हो गये, तब उन्हें अपनी माता मदालसा के वचन और वह अग्रूठी याद आई ॥२०॥ तब उन्होंने स्नान करके स्वमिन्त वाचन कराके बँधे हुए शासन को बाहर निकाल कर देखा तो वह स्पष्ट अक्षरो में लिखा हुआ था ॥२१॥

तत्रैवलिखितमात्रावाचयामासपार्थिव ।

प्रकाशपुलकागोऽसौप्रहर्षोत्फुल्ललोचन ॥२२



सग सर्वात्मनात्याज्य सचेत्यक्तुं नशक्यते ।  
 ससद्भिः सहकर्त्तव्य सतासगोहिभेषजम् ॥२३॥  
 काम सर्वात्मनाहेयोहातु चेच्छक्यतेनस ।  
 मुमुक्षाप्रतितत्कार्यसैवतस्यापिभेषजम् ॥२४॥  
 वाचयित्वातुबहुशोनृणाश्रय कथत्विति ।  
 मुमुक्षयेतिनिश्चित्यसाचतत्सङ्गतोयतः ॥२५॥  
 तत ससाधुसम्पर्कचिन्तयन्पृथिवीपति ।  
 दत्तात्रेयमहाभागमगच्छत्परमार्तिमान् ॥२६॥  
 तसमेत्यमहात्मानमल्कमपमसङ्गिनम् ।  
 प्रणिपत्याभिसम्पूज्यग्रथान्यायमभापत ॥२७॥

माता द्वारा लिखे उस शासन के पढने ही उनका देह पुलकित होगया और दोनो नेत्र आनन्द से फूल गये ॥२२॥ शासन मे लिखा था 'काम को सर्वान्त करण से त्याग दे' यदि सग का त्याग न कर सके तो साधु सग करे, क्योकि साधु-सग ही विश्व का औषधि स्वरूप है ॥२३॥ काम का सर्वान्त करण से त्याग करने मे समर्थ न हो तो मोक्ष की कामना के लिये ही करे, क्योकि मोक्ष का वही महान् उपाय है ॥२४॥ इस प्रकार माता प्रदत्त शासन का पाठ करके, मनुष्य का कल्याण कैमे हो, मोक्ष की कामना ही उसका उपाव है और सत्संग ही उमका साधन है ॥२५॥ ऐमा सोचकर अलर्क साधु सग के लाभ का विचार करने लगे, अत्यन्त भाव मे आतुर होकर अन्त मे वह दत्तात्रेयजी की शरण मे गये और उनको प्रणाम करके पूजन किया और न्यायानुसार निवेदन किया ॥२६-२७॥

ब्रह्मन्कुरुप्रसादमेशरण्य शरणार्थिनाम् ।  
 दुःखापहारकुरुमेदुःखार्त्तस्थातिकामिनः ॥२८॥  
 दुःखापहारमच्चैवकरोमितवपार्थिव ।  
 सत्यब्रूहिकिमर्थतेदुःखतत्पृथिवीपते ॥२९॥  
 कस्यत्वक्कस्यवाद्दुःखतत्त्वमेवविचार्यताम् ।  
 अगान्यंगीन्निरगचससर्वागानिविचितय ॥३०॥

इत्युक्तश्चिन्तयामाससराजातेनधीमता ।  
 त्रिविधस्यापिदु खस्यस्थानमात्मानमेवच ॥३१  
 सविमृश्यच्चिरराजापुन पुनरुदारधी ।  
 आत्मानमात्मनाधीर प्रहस्येदमथाब्रवीत् ॥३२  
 नाहमुर्वीर्नसलिलनज्योतिरनिलोनच ।  
 नाकाशकितुशारीरसमेत्यसुखमिष्यते ॥३३  
 न्यूनातिरिक्ततायातिपञ्चकेऽस्मिन्सुखसुखम् ।  
 यदिस्यान्ममकिनस्यादन्यस्थेऽपिहितमयि ॥३४

हे ब्रह्मन् ! प्रसन्न हो, शरणा आने वालो के लिए आप ही आश्रय स्वरूप है, मैं विषय भोगो में लिप्त होकर दुःख से अभिभूत होगया हूँ, उससे आप मुझे छुड़ाइये ॥२८॥ दत्तात्रेयजी ने कहा—हे राजन् ! मैं तुम्हारे दुःख को अवश्य दूर करूँगा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस प्रकार से दुःख प्राप्त हुआ है ? ॥२९॥ प्रथम यह विचार करो कि तुम किसके हो ? दुःख किसका है ? अग, अग्नी भाव और निरग इन सबका विचार करो ॥३०॥ जड ने कहा—दत्तात्रेयजी के इस प्रश्न से राजा तीन प्रकार के दुःख का स्थान एव आत्मा इन दो विषयो का चिन्तन करने लगे ॥३१॥ राजा ने बारम्बार आत्मा द्वारा आत्म विचार करते हुए हँस कर कहा ॥३२॥ मैं पृथिवी, जल, ज्योति, वायु, आकाश आदि में से कुछ भी नहीं हूँ किन्तु देह का आश्रय करता हुआ सुख चाहता हूँ ॥३३॥ इस पाचभौतिक देह में सुख-दुःख उत्पन्न होकर न्यूनाधिक्य की प्राप्ति होती है ॥३४॥

नित्यप्रभूतसद्भावैर्न्यूनाधिकयान्नतीन्नते ।  
 तथाचममतात्यक्तोविशेषेणोपलभ्यते ॥३५  
 तन्मात्रावस्थितेसूक्ष्मेतृतीयाशेचपश्यत ।  
 तथैवभूतसद्भावशारीरकिसुखासुखम् ॥३६  
 मनस्यवस्थितदुःखसुखवामानसचयत् ।  
 यतस्ततो नमेदुःखसुखवानह्यहमन ॥३७  
 नाहङ्कारो न च मनो बुद्धिर्नाहियतस्तत ।  
 अन्त करणजदुःखपारक्यममतत्कथम् ॥३८

नाहशरीरनमनोयतोऽहृथक्छरीरान्मनसस्तथाहम् ।  
 तत्सन्तुचेतस्यथवापिदेहेसुखानिदु खानिचकिममात्र ॥३६  
 राज्यस्यवाह्याकुस्तेऽग्रजोऽस्यदेहस्यचेत्पचमयोहिराशिः ।  
 गुणप्रवृत्त्याममकिनुतत्रतत्स्थ सचाहचशरीरतोऽन्य ॥४०  
 नयस्यहस्तादिकप्यशेषमासनचास्थीनिशिराविभाग ।  
 कस्तस्यनागाश्वरथादिकोशै स्वल्पोपिसम्बन्धइहास्तिपु सः ॥४१  
 तस्मान्ममेऽरिर्नचमेऽस्तिदु खनमेसुखनापिपुरनकोशम् ।  
 नचाश्वनागादिवलनतस्यनान्यस्यवाकस्यचिद्वाममास्ति ॥४२  
 यथाघटीकुम्भकमण्डलुस्थमाकाशमेकबहुधाहिदृष्टम् ।  
 तथासुबाहु सचकाशिपोऽहमन्येचदेहेषुशरीरभेदै ॥४३

इस प्रकार होने पर भी मेरी क्या हानि है ? क्योंकि वह देह नहीं है, स्वतन्त्र भाव से देह में अवस्थान करता हूँ, मेरे घटने-बढने की सम्भावना नहीं है, मुझे नित्य प्रभूत सद्भाव की प्राप्ति है। न्यूनाधिक्य के कारण नीचा ऊँचा भी होता हूँ, इमलिये ममता को छोडकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, मैं तन्मात्रा मे तथा सूक्ष्म तृतीयाश मे अवस्थित हूँ, मेरा देह भी भूत सद्भाव युक्त है अतः सुख-दुःख की सम्भावना कदापि नहीं है ? ॥३५-३६॥ सुख, दुःख मन का धर्म होने से, मन मे ही रहते है, जब मैं वह मन भी नहीं हूँ तो मुझे सुख-दुःख भी नहीं है ॥३७॥ जब मैं अहङ्कार, मन, बुद्धि आदि मे से भी कुछ नहीं हूँ तो मुझ मे अन्त करण से उत्पन्न पारक्य ही कैसे सम्भव है ? ॥३८॥ मैं शरीर नहीं, मन नहीं तथा इन दोनो से ही पृथक् हूँ, इसलिये सुख मन मे या शरीर मे कही भी रहे, उसमे मेरा क्या ? उसमे मेरी हानि या लाभ नहीं है ॥३९॥ इसी शरीर के बडे भाई राज्य चाहते है और यदि यह शरीर पाचभौतिक है तो उसकी गुण-प्रवृत्ति मे मेरा क्या होगा ? बडा भाई अथवा मैं, दोनो ही देह से पृथक् वस्तु हैं ॥४०॥ जिसके हस्तादि अंग, माँस, अस्थि और शिरा आदि कुछ नहीं, उसकी अश्व, गज, रथ, कोष आदि मे क्या आवश्यकता है ? आत्मा का इससे कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता ॥४१॥ जिस प्रकार मेरा कुछ नहीं है, वैसे ही मेरे अग्रज अथवा अन्यान्य पुरुष या शत्रु का भी सुख, दुःख, नगर, कोष,

सैन्यादि नहीं है ॥४२॥ जैसे घटी, कुम्भ और कमण्डलु के भेद से एक आकाश ही अनेक दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा एक होकर भी काशीराज, सुबाहु तथा मेरे इस प्रकार के भेद से अनेक दिखाई देता है ॥४३॥

### ३०—दत्तात्रय से अलकी की योग जिज्ञासा

दत्तात्रेयततोविप्रप्रणिपत्यसपार्थिव ।  
 प्रत्युवाचमहात्मानप्रश्रयावनतोवच ॥१  
 सम्यक्प्रपश्यतोब्रह्मान्ममदुःखनकिचन ।  
 असम्यग्दर्शिनोमग्ना सर्वदैवासुखार्णवे ॥२  
 यस्मिन्यस्मिन्ममत्वेनबुद्धिं पु स प्रजायते ।  
 ततस्तत समादायदु खान्येवप्रयच्छति ॥३  
 मार्जारभक्षितेदु खयादृशगृहकुक्कुटे ।  
 नतादृडममताशून्येकलविद्धोऽथमूषिके ॥४  
 सोऽहनदु खीनसुखीयतोऽहप्रकृते पर ।  
 योभूताभिभवोभूतै सुखदु खात्मकोहिस ॥५  
 एवमेतन्नरव्याघ्रयथैतद्वचाहृतत्वया ।  
 ममेतिमूलदुःखस्यनममेतिचनिर्वृति ॥६  
 मत्प्रश्नादेवतेज्ञानमुत्पन्नमिदमुत्तमम् ।  
 ममेतिप्रत्ययोयेनक्षिप्त शाल्मलितूलवत् ॥७

जड बोला—इसके पश्चात् राजा ने विनय पूर्वक महर्षि दत्तात्रेयजी से प्रणाम पूर्वक कहा ॥१॥ हे ब्रह्मन् ! मुझे भले प्रकार दृष्टि प्राप्त होने से अब कुछ भी दुःख नहीं रहा है, क्योंकि असम्यक् दृष्टि वाले पुरुष ही दुःख सागर में डूबते हैं ॥२॥ मनुष्य की बुद्धि जिस-जिस विषय में आसक्त होती है, उस-उस से ही दुःख की उत्पत्ति होती है ॥३॥ घर में पाले हुए कुक्कुट के बिल्ली द्वारा भक्षित होने पर जो दुःख उदय होता है, वह दुःख, ममता न होने के कारण

चूहे के भक्षित होने पर नहीं होता ॥४॥ मैं न सुखी हूँ, न दुःखी हूँ क्योंकि प्रकृति के परे हूँ, क्योंकि समार मे आसक्ति वाले को ही सुख-दुःख होता है ॥५॥ दत्तात्रेयजी ने कहा—हे राजन् ! तुम्हारा कथन सत्य है, ममता ही दुःख का कारण और ममता ही उसे निवृत्त करने वाली है ॥६॥ मेरे प्रश्न करते ही तुम्हारे हृदयमे सर्वोत्कृष्ट ज्ञान उदित हुआ है और उस ज्ञान के बलसे ही तुम्हारी ममता जैसे मेमर की रुई उड़ जाती है, वैसे ही उड़ गई है ॥७॥

अहमित्यकुरोत्पत्नोममेतिस्कन्धवान्महान् ।  
 गृहक्षेत्रोच्चशाखश्चपुत्रदारादिपल्लव ॥८  
 धनधान्यमहापत्रोन्नैककालप्रवर्धित ।  
 पुण्यापुण्याग्रपुष्पश्चमुखदुःखमहाफल ॥९  
 अपवर्गपथव्यापीमूढसम्पर्कसेचन ।  
 विधित्साभृङ्गमालाढ्योऽकृत्यज्ञानमहातरु ॥१०  
 ससाराध्वपरिश्रान्तायेतच्छायासमाश्रिता ।  
 भ्रान्तिज्ञानमुखाधीनास्तेपामात्यन्तिककुत ॥११  
 यैस्तुमत्सङ्गपापाणशितेनममतातरु ।  
 छिन्नोविद्याकुठारेणतेगतास्तेनवर्त्मना ॥१२  
 प्राप्यब्रह्मवनशीतनीरजस्कमकण्टकम् ।  
 प्राप्नुवन्तिपराप्राज्ञानिवृत्तिवृत्तिवर्जिता ॥१३  
 भूतेन्द्रियमयस्थूलनत्वरजन्नचाप्यहम् ।  
 नतन्मात्रमयावाच्यनैवान्त करणात्मकौ ॥१४

अहङ्कारी रूप अकुर ने ही अज्ञान रूपी महावृक्ष को उत्पन्न कर दिया, घर और खेत उसकी ऊँची शाखाएँ तथा स्त्री-पुत्रादि उसकी पत्तियाँ हैं ॥८॥ धन-धान्य उसके बड़े पत्ते, पुण्यापुण्य उसके पुष्प और सुख-दुःख उसके महाफल हैं ॥९॥ मोह से अभिभूत समान सम्बन्ध इसका थाबला है, यह वृक्ष दिनोदिन वृद्धि को प्राप्त है तथा मोक्ष मार्ग को ढक कर खड़ा है ॥१०॥ भ्रान्ति से जो सुख मान कर इस वृक्ष का आश्रय लेते हैं, उन्हें किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति होगी ? ॥११॥ जो पुरुष विद्यारूपी कुठार को सत्सङ्ग रूपी पत्थर से तीक्ष्ण

करके, उसके द्वारा ममता रूपी इस महावृक्ष को काटने में समर्थ होते हैं ॥१२॥ वही उस मार्ग में ब्रह्म रूपी वन को प्राप्त हो सकते हैं, यह वन अत्यन्त शीतल, धूलि-रहित तथा निष्कटक है, इसमें पहुँचने से निर्वृत्ति युक्त परमबुद्धि का लाभ होता है ॥१३॥ हे राजन् ! तुम भी भूतेन्द्रिय युक्त या स्थूल नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, हम दोनों में कोई भी तन्मात्रिक या अन्त करणात्मक नहीं है ॥१४॥

कवापश्यामिराजेद्रप्रधानमिदमावयो ।  
 यत परोहिक्षेत्रज्ञसघातोहिगुणात्मक ॥१५  
 मशकोदुम्बरेषीकामुञ्जमत्स्याम्भसायथा ।  
 एकत्वेऽपिपृथग्भावस्तथाक्षेत्रात्मनोर्नृप ॥१६  
 भगवस्त्वत्प्रसादेनममाविभूतमुत्तमम् ।  
 ज्ञानप्रधानचिच्छक्तिविवेकरमीदृशम् ॥१७  
 किन्त्वत्राविषयाक्रान्तेस्थैर्यवत्त्वनचेतसि ।  
 नचापिवेद्भिमुच्येयकथाप्रकृतिबन्धनात् ॥१८  
 कथनभूयाभूयश्चकथनिर्गुणतामियाम् ।  
 कथाचब्रह्मराोकत्वव्रजयेयशाश्वतेनवै ॥१९  
 तन्मेयोगतथाब्रह्मप्रणतायाभियाचते ।  
 सम्यग्ब्रह्मिमाहाप्राज्ञसत्सङ्गोह्युपकृन्तृणाम् ॥२०

हम में से किसी को भी तुम प्रधान से युक्त देखते हो ? क्योंकि क्षेत्रज्ञ पुरुष प्रकृति के परे तथा पञ्च भौतिक पदार्थ गुणात्मक और प्रधानात्मक है ॥१५॥ हे राजन् ! मच्छर गूलर में, सीक मूज में और मछली जल में एकी भाव से रह कर भी पृथक्-पृथक् है, इसी प्रकार क्षेत्र और आत्मा को भी पृथक्-पृथक् समझो ॥१६॥ अलर्क बोला—हे प्रभो ! मुझे आपके प्रसाद से विवेक उत्पन्न करने वाले ज्ञान की प्राप्ति हुई है ॥१७॥ परतु, मेरा चित्त विषयो में आकर्षित है, इसलिये वह स्थिर नहीं हो सकता, अतः प्रकृति के बन्धन से कैसे मुक्त हो सकूँगा, यह नहीं जानता ॥१८॥ पुनर्जन्म से किस प्रकार बचा जाय ? क्या करने से शाश्वत ब्रह्म से एकी भाव की प्राप्ति हो ॥१९॥ ऐसे योग का उपदेश

मेरे प्रति कीजिये, मैं प्रार्थी होकर आपके समीप प्रार्थना करता हूँ । सत्सङ्ग से ही मनुष्य का उपकार सिद्ध हो सकता है ॥२०॥

### ३१—योगाध्याय

ज्ञानपूर्वोवियोगोयोऽज्ञानेनसहयोगिनः ।  
 सामुक्तिर्ब्रह्मणाचैक्यमनैक्यप्राकृतैर्गुणै ॥१  
 योगेचशक्तिर्विदुषायेनश्रेय परभवेत् ।  
 मुक्तियोगात्तथायोग सम्यग्ज्ञानान्महीपते ।  
 सगदोषोद्भवदुःखममत्वासक्तचेतसाम् ॥२  
 तस्मात्सङ्ग प्रयत्नेनमुमुक्षु सत्यजेन्नर ।  
 सङ्गाभावेममेत्यस्या ख्यातेर्हीनि प्रजायते ॥३  
 निर्ममत्वसुखायैववैराग्याद्दोषदर्शनम् ।  
 ज्ञानादेवचवैराग्यज्ञानवैराग्यपूर्वकम् ॥४  
 तद्गृह्यत्रवसतिस्तद्भोज्ययेनजीवति ।  
 यन्मुक्तयेतदेवोक्तज्ञानमज्ञानमन्यथा ॥५  
 उपभोगेनपुण्यानामपुण्यानाचपार्थिव ।  
 कर्तव्यमिति नित्यानामकामकरणात्तथा ॥६  
 असचयादपूर्वस्यक्षयात्पूर्वीर्जितस्यच ।  
 कर्मणोबन्धमाप्नोतिशरीरचपुन पुनः ॥७  
 कर्मणामोक्षमाप्नोतिवैपरीत्येनतस्यतु ।  
 एतत्तेकथितज्ञानयोगचेमनिबोधमे ।  
 यप्राप्यब्रह्मणोयोगीशाश्वतान्मान्यतारंजित् ॥८

दत्तात्रेय बोले—योग में आरूढ पुरुषों का ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् अज्ञान से जो वियोग होता है, वही मोक्ष कहा जाता है, तथा प्राकृतिक गुणों से पृथक्ता ही ब्रह्म की एकता कही गयी है ॥१॥ हे राजन् ! ममता में आसक्त

चित्त से दुःख, दुःख से सम्यक् ज्ञान, ज्ञान से योग और योग से मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥२॥ इसलिए मुमुक्षु को सग का त्याग करना चाहिये, विषयो से आसक्ति दूर होते ही यह मेरा है, ऐसा ज्ञान नहीं रहता ॥३॥ ममता के त्याग में ही सुख है, वैराग्य होने पर ही ससार के सब दोष स्पष्ट हृदयगम होते हैं, जैसे ज्ञान से वैराग्य होता है, वैसे ही वैराग्य से ज्ञान की उत्पत्ति होती है ॥४॥ जहाँ रहे वही घर, जिससे जीवन धारण हो वही भोज्य, जिससे मोक्ष मिले वही ज्ञान है तथा इसके विपरीत को अज्ञान कहते हैं ॥५॥ पुण्यापुण्य के उप-भोग से कामना-रहित नित्य कर्म के करने पर ॥६॥ पूर्वोपाजित कर्मों के क्षीण होने पर और नवीन कर्मों का सचय न होने पर देह के बन्धन को प्राप्त नहीं होता, हे राजन् ! तुमसे जो कहा है, वही योग है, इसे पाकर योगीजन शाश्वत ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय नहीं लेते ॥७-८॥

प्रागेवात्मात्मनाजेयोयोगिनासहिदुर्जय ।

कुर्वीततज्जयेयत्नतस्योपायशृणुष्वमे ॥६

प्राणायामैर्दहेद्दोषान्धारणाभिश्चकिल्बिपम् ।

प्रत्याहारेणविषयान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान् ॥१०

यथापर्वतधातूनाध्मातानादह्यतेमलम् ।

तथेन्द्रियकृतादोषादह्यन्तेप्राणनिग्रहात् ॥११

प्रथमसाधनकुर्यात्प्राणायामस्ययोगवित् ।

प्राणापाननिरोधस्तुप्राणायामउदाहृत ॥१२

लघुमध्योत्तरीयाख्यप्राणायामस्त्रिधोदित ।

तस्यप्रमाणवक्ष्यामितदलर्कशृणुष्वमे ॥१३

लघुर्द्वादशमात्रस्तुद्विगुणसतुमध्यम ।

त्रिगुणाभिस्तुमात्राभिरुत्तमपरिकीर्तित ॥१४

सर्व प्रथम आत्मा से आत्मा को जीते, क्योंकि आत्मा ही योगियों के लिये कठिनता से जीता जाने वाला है, आत्मा को किस प्रकार जीतना चाहिये, वह भी कहता हूँ ॥६॥ प्राणायाम से दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों को और ध्यान से अनीश्वर गुणों को भस्म करे ॥१०॥ जैसे अग्नि



मे पड कर सब धातु दोष-रहित होती हैं, वैसे ही प्राणवायु के निग्रह से इन्द्रियो के सब दोष नष्ट होते हैं ॥११॥ योगज्ञाता प्रथम प्राणायाम का साधन करे, प्राणायाम के निरोध को प्राणायाम कहते हैं ॥१२॥ प्राणायाम के तीन प्रकार हैं—लघु, मध्यम और उत्तरीय, अब इनका प्रमाण कहता हूँ ॥१३॥ लघु प्राणायाम द्वादश मात्रा वाला, मध्यम प्राणायाम उससे दुगुना और उत्तरीय उससे त्रिगुनी मात्रा में कहा गया है ॥१४॥

निमेषोन्मेषरोमात्राकालोलघ्वक्षरस्तथा ।  
 प्रथमेनजयेत्स्वेदमध्यमेनचवेपथुम् ।  
 विषादहितृतीयेनजयेद्दोषाननुक्रमात् ॥१६  
 मृदुत्वसेव्यमानास्तुसिंहशार्दूलकुञ्जराः ॥१७  
 वक्ष्यमत्तयथेच्छातोनागनयतिहस्तिप ।  
 तथैवयोगीच्छन्देनप्राणनयतिसाधितम् ॥१८  
 यथाहिसाधितसिंहोमृगान्हतितनमानवान् ।  
 तद्वन्निषिद्धपवनःकिल्बिषननृणातनुम् ॥१९  
 तस्माद्युक्तसदायोगीप्राणायामपरोभवेत् ।  
 श्रूयतामुक्तिफलदतस्यावस्थाचतुष्टयम् ॥२०  
 ध्वस्तिप्राप्तिस्तथासवित्प्रसादश्चमहीपते ।  
 स्वरूपशृणुचैतेषाकथ्यमानमनुक्रमात् ॥२१

निमेष और उन्मेष का समय ही मात्रा है ऐसी बारह मात्रा होने पर लघु प्राणायाम होता है ॥१५॥ पहले प्राणायाम होता है ॥१५॥ पहले प्राणायाम से स्वेद, दूसरे से कम्प और तीसरे से विषादादि दोषों की जीते ॥१६॥ जैसे सेवा के द्वारा सिंह, व्याघ्र और हाथी भी कोमल स्वभाव हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम द्वारा योगियों को प्राण को वश करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है ॥१७॥ जैसे हाथी का स्वामी मत्त हाथी को वश करके इच्छानुसार चलाता है, वैसे ही योगीजन प्राण के द्वारा ही इच्छानुसार कार्य करने में समर्थ होते हैं ॥१८॥ जैसे पाला हुआ सिंह मृगों को मारता है, मनुष्यादि की हिंसा नहीं करता, वैसे साधित प्राणवायु के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, देह नष्ट नहीं होता ॥१९॥

इसलिये योगियो को प्राणायाम परायण होना चाहिये, प्राणायाम की अवस्था चार प्रकार की है, जिससे मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, अब इसका वर्णन करता हूँ ॥२०॥ हे राजन् ! प्राणायाम के ध्वस्ति, प्राप्ति, सवित् और प्रसाद यह चार भेद है । अब इनके स्वरूप को क्रमशः बताता हूँ ॥२१॥

कर्मणाऽमिष्टदुष्टानाजायतेफलसक्षय ।

चेतसोऽपकषायत्वयत्रसाध्वस्तिरुच्यते ॥२२

ऐहिकामुष्मिकान्कामाल्लोभमोहात्मकन्स्वयम् ।

निरुध्यास्तेसदायोगीप्राप्ति सासार्वकालिकी ॥२३

अतीतानागतानर्थान्विप्रकृष्टतिरोहितान् ।

विजानातीन्दुसूर्यर्क्षग्रहाराज्ञानसम्पदा ॥२४

तुल्यप्रभावस्तुयदायोगीप्राप्नोतिसविदम् ।

तदासम्बदितिख्याताप्राणायामस्यसास्थिति ॥२५

यान्तिप्रसाद येनास्यमन पञ्चचवायव ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्चसप्रसादइतिस्मृत ॥२६

शृणुष्वचमहीपालप्राणायामस्यलक्षणम् ।

युञ्जतश्चसदायोगयादृग्विहितमासनम् ॥२७

पद्ममर्द्धासनचापितथास्वस्तिकमासनम् ।

आस्थाययोगयुञ्जीतकृत्वाचप्रणवहृदि ॥२८

ध्वस्ति उसे कहते हैं जिससे दूषित, अदूषित कर्मों का फल क्षीण हो और चित्त की मलीनता नष्ट हो ॥२२॥ प्राप्ति वह अवस्था कही गई है, जिसमें योगीजन लोभमोहात्मक समस्त काम को स्वयं ही निरुद्ध करते हैं ॥२३॥ जिस अवस्था में चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह और नक्षत्र के समान ज्ञान शक्ति को प्राप्त हुए योगीजन ॥२४॥ अतीत, अनागत और तिरोहित, इन सब विषयों को जान लेते हैं, वह अवस्था सवित् कही गयी है ॥२५॥ जिस अवस्था द्वारा पञ्चवायु, इन्द्रिय और उसके विषयों से योगी का चित्त शुद्ध हो जाता है, वह अवस्था ही प्रसाद कही जाती है ॥२६॥ हे राजन् ! अब प्राणायाम के लक्षण और योगारम्भ में जिस आसन का अनुष्ठान उचित है, उसे सुनो ॥२७॥ पद्मासन, अर्द्धा-

सन, स्वस्तिकासन इत्यादि का अवलम्बन करके हृदय में प्रणव का जप करता हुआ योगानुष्ठान में लगे ॥२८॥

सम समासनोभूत्वासहृद्यचरणवुभौ ।  
 सवृतास्यस्तथैवोरूसम्यग्विषष्टभ्यचाग्रत ॥२९॥  
 पार्श्विर्गाम्यालिङ्गवृषणावस्पृशन्प्रयत स्थित ।  
 किचिदुन्नामितशिरादन्तैर्दन्तान्नसस्पृशेत् ॥३०॥  
 सपश्यन्नासिकाग्रं स्वदिशश्चानवलोकयन् ।  
 रजसातमसोवृत्तिसत्त्वेनरजसस्तथा ॥३१॥  
 सरुद्धाद्यनिर्मलेसत्त्वेस्थितोयुञ्जीतयोगवित् ।  
 इन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्य प्राणादीन्मनएवच ॥३२॥  
 निगृह्यसमवायेनप्रत्याहारमुपक्रमेत् ।  
 यस्तुप्रत्याहरेत्कामान्सर्वाङ्गानीवकन्छप ॥३३॥  
 सदात्सरतिरेकस्थ पश्यस्यात्मानमात्मनि ।  
 सबाह्याभ्यन्तरशौचनिष्पाद्याकण्ठनाभित ॥३४॥  
 (पूरियित्वाबुधोदेहप्रत्याहारमुपक्रमेत् ।  
 प्राणायामादशद्वौचधारणासाभिधीयते ॥३५॥)

सरल चित्त से सम आसन में बैठे, दोनो पाँवों को सकोड कर मुख बंद करे तथा अग्र भाग में दोनो ऊरु स्तब्ध करे ॥२९॥ तथा संयुक्त मन से इस प्रकार बैठे, जिससे उपस्थ और अरुडकोष का हाथ से स्पर्श न हो, शिर कुछ ऊपर की ओर उठावे तथा दाँत से दाँत का स्पर्श न होने दे ॥३०॥ अपनी नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखे, दूसरी ओर न देखे । इसी अवस्था में रजोगुण में तमोगुण और सत्वगुण से रजोगुण को ॥३१॥ नष्ट करके केवल निर्मल सत्त्व में अवस्थान करता हुआ योगाभ्यास करे, इन्द्रिय के विषय से मन प्राणादि को ॥३२॥ निवृत्त करके जैसे कछुआ अपने अङ्गों को समेट लेता है, वैसे ही प्रत्याहार में प्रवृत्त हो ॥३३॥ इस प्रकार आत्मा में आसक्त रहने पर आत्मा के द्वारा ही आत्मा का दर्शन होता है, कण्ठ से नाभि तक बाह्याभ्यन्तर-शुद्धि

करता हुआ ॥३४॥ देह को परिपूर्ण कर प्रत्याहार का साधन करे । प्राणायाम के दश प्रकार और धारणा के दो प्रकार कहे गये हैं ॥३५॥

द्वे धारणोऽस्मृतेयोगेयौ, गिभिस्तत्त्वदृष्टिभिः ।

तथा वैयोगयुक्तस्य योगिनो नियतात्मन ॥३६॥

सर्वे दोषा प्रणश्यन्ति स्वस्थश्चैवोपजायते ।

वीक्षते च परब्रह्म प्राकृताश्च गुणान्पृथक् ॥३७॥

व्योमादिपरमाणुं श्रुत्वात्मानमकल्मषम् ।

इत्थयोगीयताहारः प्राणायामपरायण ॥३८॥

जिताजिताशनैर्भूमिमारोहेतयथागृहम् ।

दोषव्याधीस्तथामोहमाक्रान्ताभूरनिर्जिता ॥३९॥

विवर्धयति नारोहेत्तस्माद्भूमिमनिर्जिताम् ।

प्राणानामुपसरोधात् प्राणायाम इति स्मृत ॥४०॥

तत्त्वदर्शी योगीजनो ने दो प्रकार की ही धारणा बतायी है नियतात्मा हो कर साधन करने पर ॥३६॥ योगी के सभी दोषों का शमन होता है और शान्ति मिलती है तथा सभी प्राकृत गुण और परब्रह्म का पृथक् रूप से दर्शन प्राप्त होता है ॥३७॥ तथा आकाशादि परमाणु एवं विशुद्ध आत्मा से साक्षात्कार होता है, इस प्रकार नियताहार करता हुआ योगी प्राणायाम—परायण हो ॥३८॥ धीरे धीरे योगभूमि को जीत कर घर के समान उसी में आरूढ़ रहे, यदि भूमि न जीती जाय तो उससे कामादि व्याधियों की ॥३९॥ और मोह की वृद्धि होती है, इस लिये बिना जीती हुई भूमि पर आरूढ़ न हो, जिससे पञ्च-प्राण सयत हों, वही प्राणायाम है ॥४०॥

(धारणोत्पुच्यते चेय धार्यते यन्मनोयया ।

शब्दादिभ्यः प्रवृत्तानियदक्षायित्वात्मभिः ॥४१॥

प्रत्याह्वियन्ते योगेन प्रत्याहारस्ततः स्मृत ।

उपायश्चात्र कथितो योगिभिः परमर्षिभिः ॥४२॥

येन व्याध्यादयो दोषान् जायन्ते हियोगिनः ।

यथा तोयार्थिनस्तोयन्त्रनालादिभिः शनैः ॥४३॥

आपिवेद्युस्तथावायुं पिवेद्योगीजितश्रमः ।  
 प्राङ्नाभ्याहृदयेचाथतृतीयेचतथोरसि ॥४४  
 कण्ठमुखेनासिकाग्रं नेत्रभ्रूमध्यमूर्द्धं सु ।  
 किञ्चतस्मात्परस्मिश्चधारणापरमास्मृता ॥४५  
 दशैताधारणा प्राप्यप्राप्नोत्यक्षरसाम्यताम् ।  
 नाध्मात क्षुधितःश्रान्तोनचव्याकुलचेतन ॥४६  
 युञ्जीतयोग राजेन्द्रयोगीसिद्धचर्थमाहृत ।  
 नातिशीतेनचोष्णोवैनद्वन्द्वेनानिलात्मके ॥४७  
 कालेष्वेतेपुयुञ्जीतनयोगध्यानतत्पर ।  
 सशब्दाग्निजलाभ्याशेजीर्णागोष्ठे चतुष्पथे ॥४८  
 शुष्कपर्णाचयेनद्याश्मशानेससरीसृपे ।  
 सभयेकूपतीरेवाचैत्यवल्मीकसचये ॥४९  
 देशेष्वेतेपुतत्त्वज्ञोयोगाभ्यासविवर्जयेत् ।  
 सत्त्वस्यानुपपत्तौचदेशकालविवर्जयेत् ॥५०

जिमसे मन का धारणा हो, वह धारणा है तथा जिस अवस्था में  
 इन्द्रियो को अपने-अपने विषय से नियतात्मा पुरुष ॥४१॥ प्रत्याहरण करते हैं,  
 वही प्रत्याहार है, योग सिद्ध ऋषियो ने इस विषय मे जो उपाय कहा है ॥४२॥  
 उससे योगी के देह मे व्याधियो का आक्रमण नही हो सकता । पिपासु जैसे  
 पात्रादि से धीरे धीरे जल पीते हैं ॥४३॥ वैसे ही श्रम को जीत कर योगीजन  
 धीरे-धीरे वायु का पान करते हैं, पहिले नाभि मे, फिर हृदय मे, फिर वक्ष स्थल  
 मे ॥४४॥ फिर कण्ठ, वदन, नासाग्र, नेत्र, भौ, ऊर्ध्व प्रदेश और अन्त मे पर-  
 ब्रह्म मे धारणा करनी उचित है ॥४५॥ इस दश प्रकार से धारणा का निर्देश  
 हुआ है, इसकी सिद्धि से ब्रह्म सारूप्य की प्राप्ति होती है, योगी जन सिद्धि प्राप्त  
 करने के लिये अति भाषण, क्षुधा, श्रम एव चित्त की चञ्चलता को ॥४६॥  
 हटाकर प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यास करते हैं, अति शीत, अति ग्रीष्म या अत्यन्त  
 वायु चलती हो उस समय ॥४७॥ ध्यान मे तत्पर हो कर योगाभ्यास करने  
 का निषेध है, शब्द युक्त स्थान, अग्नि और जल के समीप, प्राचीन गोशाला या

चौराहा ॥४८॥ शुष्क पत्रो से युक्त स्थान, नदी तट, श्मशान, सर्पादि वाले स्थान, कुएँ के किनारे अथवा जहाँ मात्स्यिक पदार्थ उपलब्ध न हों, उन सब स्थानों का परित्याग करे ॥४९-५०॥

नासतोदशर्नयोगेतस्मात्तत्परिवर्जयेत् ।  
 दोषानेताननादृत्यमूढत्वाद्योयुनक्तिवै ॥५१  
 विघ्ननायतस्यवैदोषाजायन्तेतन्निबोधमे ।  
 बाधिर्यजडतालोप स्मृतेर्मूकत्वमन्धता ॥५२  
 ज्वरश्चजायतेसद्यस्तत्तदज्ञानयोगिनः ।  
 प्रमादाद्योगिनोदोषायद्येतेस्युश्चिकित्सितम् ॥५३  
 तेषानाशायकर्त्तव्ययोगिनातन्निबोधमे ।  
 स्निग्धायवागूमत्युष्णाभुक्त्वातत्रैवधारयेत् ॥५४  
 वातगुल्मप्रशान्त्यर्थमुदावर्त्ततथोदरे ।  
 यवागू वापिपवनवायुग्रन्थिप्रतिक्षिपेत् ॥५५  
 तद्वत्कपेमहाशैलस्थिरमनसिधारयेत् ।  
 विघातेवचसोवाचबाधिर्येश्रवणोन्द्रियम् ॥५६  
 यथैवाभ्रफलध्यायेत्तृष्णात्तोरसनेन्द्रियम् ।  
 यस्मिन्यस्मिन्नुजादेहेतस्मिस्तदुपकारिणीम् ॥५७

अमृत बातो को न देखे, जो मूर्खता से इन सब बातों का विचार न करके योगाम्यास करता है ॥५१॥ उसके कार्य में सब दोष उत्पन्न होकर विघ्न रूप हो जाते हैं, उसे बधिरता, जडता, मूकता, अन्धता, स्मृति लोप ॥५२॥ या ज्वर की उत्पत्ति होती है, यदि प्रमाद वश यह दोष उत्पन्न हो जायें तो उनकी शान्ति के लिये जो चिकित्सा करनी चाहिये ॥५३॥ उसे भी सुनो, भले प्रकार पकायी हुई खिचड़ी स्निग्ध करके भोजन करे ॥५४॥ वात गुल्म, अफरा अथवा उदर रोगों के शमनार्थ खिचड़ी अवश्य खाय, इससे वायु रोग तथा वायु ग्रन्थि रोग भी दूर हो जाता है ॥५५॥ कम्प के उत्पन्न होने पर मन में अत्यन्त भारी पर्वत का धारण करे, वाणी के विलुप्त होने पर वाक्य धारणा करे और श्रवण शक्ति नष्ट हो जाय तो ॥५६॥ जैसे प्यासा मनुष्य जिह्वा से ही लाभ चिन्तन करता

है, वैसे ही श्रवणेन्द्रिय की धारणा करनी चाहिए, इसी प्रकार जिस-जिस अंग मे जो व्याधि हो जाय, उस-उस अंग का उपकार करने वाली क्रिया को करे ॥५७॥

धारयेद्वारणामुष्णोशीताशीतेचदाहर्न.म् ।

कीलशिरसिसस्थाप्यकाष्ठ काष्ठेनताडयेत् ॥५८

लुप्तस्मृतेस्मृति.सद्योयोगिनस्तेनजायते ।

द्यावापृथिव्यौवाव्यग्नीव्यापिनावपिधारयेत् ॥५९

अमानुपात्सत्त्वजाद्वाबाधास्त्वितिचिकित्सितम् ।

अमानुपसत्त्वमन्तर्योगिनप्रशेविद्यदि ॥६०

वाय्वग्निधारणोनैनदेहसस्थविनिर्दहेत् ।

एवसर्वात्मनारक्षाकार्ययोगविदानृप ॥६१

धर्मार्थकाममोक्षाणाशरीरसाधनयतः ।

प्रवृत्तिलक्षणाख्यानाद्योगिनोविस्मयात्तथा ।

विज्ञानविलथयातितस्माद्गोप्या प्रवृत्तय ॥६२

अलौल्यमारोग्यमनिष्ठुरत्वगन्धशुभीमूत्रपुरीषमल्पम् ।

कान्ति प्रसाद स्वरसौम्यताचयोगवृत्ते प्रथमहिचिह्नम् ॥६३

अनुरागजनोयातिपरोक्षेगुणकीर्त्तनम् ।

नबिभ्यतिचसत्त्वानिसिद्धेर्लक्षणमुत्तमम् ॥६४

शीतोष्णादिभिरत्युग्रैर्यस्यबाधानविद्यते ।

नभीतिमेतिचान्येभ्यस्तस्यसिद्धिरुपस्थिता ॥६५

उष्ण मे शीतल और शीतल मे उष्ण धारणा करे, शिर मे सूक्ष्म काल को स्थित कर काष्ठ से उसे ठोके तो उससे ॥५८॥ रोगी की लुप्त स्मृति तुरत उदित हो जाती है, अथवा स्मृति नष्ट होने पर आकाश, पृथिवी, वायु और अग्नि की धारणा करनी चाहिये ॥५९॥ अमानुष सत्व से उत्पन्न विघ्नो मे, इस प्रकार उपचार करे, योगियो के हृदय मे अमानुष सत्व के प्रवेश करने पर वह ॥६०॥ उसे वायु और अग्नि की धारणा से जलावे, इस प्रकार सर्वान्त करण से अप्र देह की रक्षा करना योग ज्ञानियो को कर्त्तव्य है ॥६१॥ क्योकि धर्म, अर्थ, काम

भोक्ष की प्राप्ति का मूल देह ही है, प्रवृत्ति रूप वर्णन और विस्मय से ही योगी के विज्ञान का नाश होता है, इसलिए प्रवृत्ति को गुप्त ही रखे ॥६२॥ अचचलता, आरोग्य, अनिष्टुरता, देह मे सुगन्धि का सञ्चार, मूत्र-पुरीष की न्यूनता, कान्ति, प्रमाद और स्वर माधुर्य यह सब योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण है ॥६३॥ जिस अवस्था के प्राप्त होने पर मनुष्य पीछे मे उसका गुणगान करे और सब जीव जिमसे निर्भय रहे, वही सिद्धि का श्रेष्ठ लक्षण है ॥६४॥ जिसके लिए अत्युग्र शीत या उष्णता आदि बाधक न हो सके और जिस किसी अन्य को भय न हो, उसी को सिद्धि प्राप्त हुई समझो ॥६५॥

### ३२—योगसिद्धि

उपसर्गाःप्रवर्तन्तेदृष्टे ह्यात्मनियोगिनः ।  
 येतास्तेसप्रवक्ष्यामिसमासेननिबोधमे ॥१॥  
 काम्याःक्रियास्तथाकामान्मानुषानभिवाञ्छति ।  
 स्त्रियोदानफलविद्यामयाकुप्यधनदिवम् ॥२॥  
 देवत्वममरेशत्व रसायनवयःक्रियाम् ।  
 मरुत्प्रपतनयज्ञ जलाग्न्यावेशनतथा ॥३॥  
 श्राद्धानासर्वदानानाफलानिनियमास्तथा ।  
 तथोपवासात्पूत्तद्विदेवताभ्यर्चनादपि ॥४॥  
 तेभ्यस्तेभ्यश्चकर्मभ्यउपसृष्टोऽभिवाञ्छति ।  
 चित्तमित्य वर्तमानयत्नाद्योगीनिवर्तयेत् ॥५॥  
 ब्रह्मसङ्गमन कुर्वन्तुपसर्गात्प्रमुच्यते ।  
 उसर्गैजितैरेभिरुपसर्गास्तत पुनः ॥६॥

दत्तात्रेय बोले—आत्म-दर्शन होने पर जो उपसर्ग योगियों को उत्पन्न हौं जाते हैं, उन्हें सक्षिप्त रूप से कहता हूँ ॥१॥ उस समय विभिन्न प्रकार की काम्य क्रिया और अनेक प्रकार के भोगों के उपभोग की इच्छा होती है, स्त्री, दान,



फल, विद्या, माया, कुए का जल, धन, स्वर्ग ॥२॥ देवत्व, अमरत्व रसायन, वायु युक्त स्थान मे कूदना, यज्ञ, जल तथा अग्नि मे प्रविष्ट होना ॥३॥ सब श्राद्धो और दानो का फल एव नियम इत्यादि मे योगी की इच्छा का उदय होता है, उस समय उपवास, पूर्तादि, देव-पूजन ॥४॥ आदि उस उस कर्म मे जब जब युक्त होने की इच्छा हो, तब-तब उस-उस विषय से यत्न पूर्वक निवृत्ति प्राप्त करे ॥५॥ इस प्रकार विषयो से निवृत्ति लाभ करके ही ब्रह्म साक्षी करते हुए उपसर्ग से बचा जा सकता है ॥६॥

योगिन सप्रवर्तन्तेसास्वराजसतामसा ।  
 प्रातिभःश्रावणोदैवोभ्रमावर्त्तौतथापरौ ॥७  
 पञ्चैतेयोगिनायोगविघ्नायकट्टकोदया ।  
 वेदार्था काव्यशास्त्रार्थाविद्याशिल्पान्यशेषत ॥८  
 प्रतिभान्तियदस्येतिप्रातिभ सतुयोगिन ।  
 शब्दार्थानखिलान्वेत्तिशब्दगृह्णातिचैवयत् ॥९  
 योजनानासहस्रेभ्य श्रावण सोऽभिधीयते ।  
 समन्ताद्वीक्षतेचाष्टौसयदादेवयोनयः ॥१०  
 उपसर्गतमप्याहुर्देवमुन्मत्तवद्बुधा ।  
 भ्राम्यतेयन्निरालम्बमनोदोषेणयोगिन ॥११  
 समस्ताचारविभ्र शाद्भ्रम सपरिकीर्तितः ।  
 आवर्तैवतयस्यज्ञानावर्त्तौयदाकुल ॥१२  
 नाशयेच्चित्तमावर्तउपसर्ग सउच्यते ।  
 एतैर्नाशितयोगास्तुसकलादेवयोनय ॥१३  
 उपसर्गर्महाघोरैरावर्तन्तेपुन पुन ।  
 प्रावृत्त्यकम्बलशुक्लयोगीतस्मान्मनोमयम् ॥१४

इन सब उपसर्गों पर विजय कर लेने पर योगी के समक्ष सात्विक, राजमिक और तामसिक भेद से अपरापर विघ्न आक्रमण करते है उनमे प्रातिभ, श्रावण, दैत्य, आवर्त्त ॥७॥ यह उपसर्ग भयकर रूप से योग मे विघ्न उपस्थित करने के लिए प्रस्तुत होते है, जिससे वेदार्थ, काव्य, शास्त्रार्थ, विद्या और शिल्प

का ॥८॥ योगी के मन में प्रतिभात हो, वही प्रातिभ कहा है, जिससे सम्पूर्ण शब्द का अर्थ ज्ञात हो जाय ॥९॥ हजार-हजार योजन दूर का शब्द भी सुनाई पड़े वही श्रावणी है, जिसके द्वारा देवता के समान हुआ योगी उन्मत्त के समान आठों दिशाओं को देखता है ॥१०॥ उसे पड़ितो ने देव उपसर्ग कहा है, जिससे योगी का चित्त आचार भ्रष्टता और मन के दूषित होने से निराश्रय रूप से भ्रमण करता है ॥११॥ वही 'भ्रम' कहा जाता है, जिसके प्रभाव से ज्ञानावर्त्त के समान आकुल होकर ॥१२॥ चित्त को विनष्ट करता है, वही आवर्त्त उपसर्ग कहा गया है, इन सब उपसर्गों के प्रभाव से योगी सम्पूर्ण देवयोनि ॥१३॥ तथा योग से भ्रष्ट होकर ससार चक्र में बारम्बार घूमते हैं, इसलिए मन से निमित्त श्वेत कम्बल से आवृत्त हो ॥१४॥

शरीरमडलेदृष्ट्वागुरुज्ञानततोहियत् ।

ज्ञानपूर्वोपियोगोज्ञातव्योवैविपश्चिता ॥१५

चिन्तयेत्परमब्रह्माकृत्वातत्प्रवणमनः ।

योगयुक्त सदायोगोलब्धाहारोजितेन्द्रिय ॥१६

सूक्ष्मास्तुधारणाःसप्तभूराद्यामूर्ध्निधारयेत् ।

धरित्रीधारयेद्योगीतत्सौक्ष्म्यप्रतिपद्यते ॥१७

आत्मानमन्यतेचोर्वीतद्गधचजहातिस ।

तथैवाप्सुरससूक्ष्मतद्वद्रूपचतेजसि ॥१८

स्पर्शवायौतथातद्वद्विभ्रतस्तस्यधारणम् ।

व्योम्न सूक्ष्माप्रवृत्तिचशब्दतद्वज्जहातिस ॥१९

मनसासर्वभूतानामनस्याविशतेयदा ।

मानसी धारणाबिभ्रन्मनःसूक्ष्मचजायते ॥२०

तद्वद्बुद्धिमशेषाणासत्त्वानामेत्ययोगवित् ।

परित्यजतिसम्प्राप्यबुद्धिसौक्ष्म्यमनुत्तमम् ॥२१

शरीर मडल में गुरु ज्ञान का दर्शन करे, क्योंकि ज्ञान से योग करना सीखना चाहिये ॥१५॥ मन में परब्रह्म का चिन्तन और उन्हीं का ध्यान करे, निरंतर जितेन्द्रिय, अल्प भोजी तथा योग युक्त होकर ॥१६॥ मस्तक में भूराधि

सात प्रकार की सूक्ष्म धारणा धारण करने से उसे उसका सूक्ष्म ज्ञात होगा ।१७। इस प्रकार आत्म-चिन्तन करने से पृथिवी के वधन को काटने में समर्थ होगा, इसी प्रकार जल में सूक्ष्म रम, तेज में रूप ॥१८॥ वायु में स्पर्श और आकाश में सूक्ष्मा प्रवृत्ति तथा शब्द धारण पूर्वक परित्याग करे ॥१९॥ मन के द्वारा समस्त भूत के मन में प्रवेश करके मानसी धारणा करने से ही सूक्ष्म मन उत्पन्न होता है ॥२०॥ इम प्रकार योगी समस्त भूत की बुद्धि में प्रवेश करके अनुत्तमा सूक्ष्म बुद्धि रूप का लाभ करके उसे छोड़ता है ॥२१॥

परित्यजतिसूक्ष्माणिसप्तत्वेतानियोगवित् ।

सम्यग्विज्ञाययोऽलर्कतस्यावृत्तिर्नविद्यते ॥२२

एतासाधारणानानुसप्तानासौक्ष्म्यमात्मवान् ।

दृष्ट्वादृष्ट्वातत सिद्धित्यक्त्वात्यक्त्वापरान्नजेत् ॥२३

यस्मिन्यस्मिन्नकुसुतेभूतेरागमहीपते ।

तस्मिस्तस्मिन्समासक्तिमप्राप्यसविनश्यति ॥२४

तस्माद्विदित्वासूक्ष्माणिसप्तक्तानिपरस्परम् ।

परित्यजतियोदेहीसपर प्राप्नुयात्पदम् ॥२५

एतान्येवतुसधायसप्तसूक्ष्माणिपार्थिव ।

भूतादीनाविनाशोऽत्रसद्भावज्ञस्यमुक्तये ॥२६

गन्धादिषुसमासक्तिसम्प्राप्यसविनश्यति ।

पुनरावत्तंतेभूपसब्रह्मापरमानुषम् ॥२७

सप्तैताधारणायोगीसमतीत्यदिच्छति ।

तस्मिस्तस्मिन्ललयसूक्ष्मेभूतेयातिनरेश्वर ॥२८

देवानामसुराणावागन्धर्वोरगरक्षसाम् ।

देहेषुलयमायातिसगनाप्नोतिचक्रवर्चित् ॥२९

जो योगी सात प्रकार इन सूक्ष्म भावों को जानकर छोड़ता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना होता ॥२२॥ आत्मवान् योगी सात प्रकार की धारणाओं के सूक्ष्मत्व को बारम्बार देखकर, बारम्बार सिद्धि का विसर्जन करता हुआ परम-गति पाकर ॥२३॥ जिस-जिस भूत में अनुरागी होता है, उसी-उसी में आसक्ति

को प्राप्त होता हुआ विनष्ट होजाता है ॥२४॥ इसलिए परस्पर संसक्त भूतो को "ननु" वा उनका पणित्याग कर देता है, उमी को परमपद की प्राप्ति होती है ॥२५॥ प्रथम स्थान प्रकार के सूक्ष्म सधान पूर्वक भूतादि में राग छोड़कर ही "सूक्ष्म" को जानकर मोक्ष लाभ करता है ॥२६॥ हे भूपते ! गन्धादि में आसक्ति ही नाश का कारण है, उसीसे उसका ससार चक्र में पुनरावर्तन होता है ॥२७॥ योगी इन मात प्रकार की धारणाओं का अतिक्रमण करके उस-उस भूत में लीन होजाना है और देव, दानव, गन्धर्व, नाग, राक्षस आदि के देह में लीन होकर भी किमी में आसक्त नहीं होता ॥२८-२९॥

अणिमालधिमाचैवमहिमाप्राप्तिरेवच ।

प्राकाम्यचतथेशित्व वशित्वचतथापरम् ॥३०

यत्रकामवसायित्वगुणानेतास्तथैश्वरान् ।

प्राप्नोत्यष्टौनरव्याघ्रपरनिर्वाणसूचकान् ॥३१

सूक्ष्मात्सूक्ष्मतमोऽणीयाञ्छीघ्रत्वलधिमागुण ।

महिमाशेषपूज्यत्वात्प्राप्तिर्नाप्राप्यमस्ययत् ॥३२

प्राकाम्यमस्यव्यापित्वादीशित्वचेश्वरोयत ।

वशित्वाद्दशमानामयोगिन सप्तमोगुण ॥३३

यत्रेच्छास्थानमप्युक्त यत्रकामावसायिता ।

ऐश्वर्यकारणैरेभिर्योगिन प्रोक्तमष्टधा ॥३४

मुक्तिससूचकभूपपरनिर्वाणमात्मन ।

ततो न जायते नैव हर्षेन विनश्यति ॥३५

वह अणिमा, लधिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य ईशित्व, वशित्व और कामावसायित्व इन आठ प्रकार के निर्वाण प्रदायक ऐश्वर्यात्मक गुणों को प्राप्त करता है ॥३०-३१॥ जिसके द्वारा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो सके, वह अणिमा है, जिसके द्वारा सब कार्यों में शीघ्रता उत्पन्न हो सके वह लधिमा है, जिसके द्वारा सबका पूजनीय हो सके वह महिमा है, जिसके द्वारा समस्त इच्छित की प्राप्ति हो सके वह प्राप्ति है ॥३२॥ जिसके द्वारा व्यापित्व शक्ति उत्पन्न हो सके वह प्राकाम्य है, जिसके द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति हो वह ईशित्व है, जिसके द्वारा

सब वशीभूत हो सके, वह वशित्व है, यह वशित्व ही योगिप्रो का मातवाँ गुण है ॥३३॥ जिमके द्वारा स्वेच्छानुसार गमन कर सके और स्वेच्छानुसार कार्य मिद्ध हो सके वह कामावमायित्व है, इन आठ प्रकार के गुणो से ईश्वर के सब कार्य करने मे समर्थ होजाता है ॥३४॥ यह सब गुण मोक्ष के सूचक हैं, इनके मिलने पर मुक्ति काल उपस्थित ममके, फिर उसे जन्म ग्रहण वृद्धि और मरण के चक्र मे नही पडना होगा ॥३५॥

नापिक्षयमवाप्नोतिपरिणामनगच्छति ।  
 छेदक्लेदतथादाहशोषभूरादितो नच ॥३६॥  
 भूतवर्गादिवाप्नोतिशब्दाद्यैर्हियतेनच ।  
 नचास्यमन्तिशब्दाद्यास्तद्भोक्तातैर्नयुज्यते ॥३७॥  
 यथाहिकानकखण्डमपद्रव्यवदग्निना ।  
 दग्धदोषद्वितीयेनखण्डेनैकच ब्रजेन्तृप ॥३८॥  
 नविशेषमवाप्नोतितद्वद्योगाग्निनायति ।  
 निर्दग्धदोषस्तेनैक्यप्रयातिब्रह्मणासह ॥३९॥  
 यथाग्निरग्नौसक्षिप्त समानत्वमनुब्रजेत् ।  
 तदाख्यस्तन्मयोभूतो नगृह्येतविशेषत ॥४०॥  
 परेणब्रह्मणातद्वत्प्राप्यैक्यदग्धकिल्बिष ।  
 योगीयातिपृथग्भावनकदाचिन्महीपते ॥४१॥  
 यथाजलजलेनैक्यनिक्षिप्तमुपगच्छति ।  
 तथात्मासाम्यमभ्येतियोगिन परमात्मनि ॥४२॥

उसको क्षय की प्राप्ति कभी नही होगी, उसे कभी भूरादि भूतो से छिन्न, भिन्न, क्लिन्न, दग्ध अथवा शुष्क नही होना पडेगा ॥३६॥ शब्दादि उसे अपहृत न कर सकेंगे, विषयो के साथ उसका कोई सम्बन्ध न रहेगा, वह भोक्ता भी न होगा तथा उनसे उसका स्पर्श भी न हो सकेगा ॥३७॥ हे राजन् ! जैसे स्वर्ण के टुकडे को अपद्रव्य के समान अग्नि मे तपा कर दोष रहित करने पर एक निर्मल स्वर्ण खंड का सयोग होता है ॥३८॥ किसी प्रकार का प्रभेद उसमे नही दीखता, वैसे ही योगाग्नि मे रागद्वेषादि दोषो को तपाने से योगी भी ब्रह्म के

साथ सयोग प्राप्त करता है ॥३९॥ जैसे अग्नि में अग्नि डाले तो वह अभेद होती है तथा तदात्म हो जाती है ॥४०॥ वैसे ही दोषों के जल जाने पर योगी भी ब्रह्म में तदात्म रूप को प्राप्त होता है, उमका पृथक् भाव नहीं रहता ॥४१॥ जिम प्रकार जल में गिरा हुआ जल समभाव होता है, वैसे ही योगियों का आत्मा भी ब्रह्म में समभाव हो जाता है ॥४२॥

### ३३-योगचर्या

भगवन्योगिनश्चर्याश्रोतुमिच्छामितत्त्वत ।  
 ब्रह्मवर्त्मन्यनुसरन्त्यथायोगीनसीदति ॥१  
 मानापमानौयावेतौप्रत्युद्वेगकरौनृणाम् ।  
 तावेवविपरीताथौयोगिन सिद्धिकारकौ ॥२  
 मानापमानौयावेतौतावेवाहुर्विपामृते ।  
 अपमानोऽमृततत्रमानस्तुविषमविषम् ॥३  
 चक्षु पूतन्यसेत्पादवस्त्रपूतजलपिवेत् ।  
 सत्यपूतावदेद्वाराणीबुद्धिपूतचचिन्तयेत् ॥४  
 आतिथ्यश्चाद्धयज्ञेषुदेवयात्रोत्सवेषुच ।  
 महाजनेषुसिद्धयर्थनगच्छेद्योगवित्क्वचित् ॥५  
 व्यस्तेविधूमेव्यङ्गारेसर्वस्मिन्भुक्तवज्जने ।  
 अटेतयोगविद्भैक्ष्यनतुतेष्वेव नित्यशः ॥६  
 यथैवमवमन्यतेजना परिभवन्तिच ।  
 तथायुक्तश्चरेद्योगीसतावर्त्मनदूषयन् ॥७

अलर्क बोले—हे भगवन् ! योगियों के जिस आचरण से ब्रह्मपथ के अनुगामी होकर नाश को प्राप्त नहीं होना होता है उसे मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ ॥१॥ दत्तात्रेयजी बोले—मान और अपमान ही प्रीति और उद्वेग के कारण हैं, यदि योगी इन दोनों को विपरीतार्थक अर्थात् मान को अपमान और

अपमान को मान समझले तो यह सिद्धि देने वाले होते हैं ॥२॥ मान, अपमान ही अमृत और विष है, मान को विष और अपमान को अमृत माने ॥३॥ जल को बस्त्र से छान कर पीवे, सत्य से पवित्र हुए वचन ही बोले तथा बुद्धि पूर्वक विचार कर ही चिन्तन करे ॥४॥ आतिथ्य, श्राद्ध, यज्ञ, यात्रा और महोत्सव में कभी न जाय तथा सिद्धि के लिए महाजनो के पास भी गमन न करे ॥५॥ जब गृहस्थ के गृह की भी अग्नि शान्त होजाय, सब मनुष्य भोजन करके निश्चिन्त हो ले, उमी समय योगी को भिक्षा के लिये जाना चाहिये ॥६॥ जिमने मनुष्य अपमान करे, ऐसी चेष्टा करता हुआ, साधु-व को कभी दूषित न करता हुआ ही विचरण करे ॥७॥

भैक्ष्यचरेद्गृहस्थेषुयाथावरगृहेषुच ।  
 श्रेष्ठातुप्रथमाचेतिवृत्तिरस्यपदिश्यते ॥८॥  
 अथनित्यगृहस्थेषुशालीनेषुचरेद्यति ।  
 श्रद्धधानेपुदान्तेषुश्रोत्रियेषुमहात्मसु ॥९॥  
 अत ऊर्ध्वपुनश्चापिअदुष्टापतितेषुच ।  
 भैक्ष्यचर्याविवरणेषुजघन्यावृत्तिरिष्यते ॥१०॥  
 फलमूलप्रियगु वाकरापिण्याकसक्तव ॥११॥  
 इत्येतेचगुभाहारायोगिनासिद्धिकारका ।  
 तत्प्रयुज्यान्मुनिर्भक्त्यापरमेणसमाधिना ॥१२॥  
 अप पूर्वसकृत्प्राश्यत्षणीभूत्वासमाहित ।  
 प्राणायेतिततस्तस्यप्रथमाह्याहुति स्मृता ॥१३॥  
 अपानायद्वितीयानुसमानायेतिचापरा ।  
 उदानायचतुर्थीस्याद्विचानायेतिचपचमी ॥१४॥

गृहस्थो अथवा यायावर पुरुषो के घर से ही भिक्षा ले, उसमें प्रथम वृत्ति ही प्रवान मानी गयी है ॥८॥ जो गृहस्थ लज्जावान्, श्रद्धावान्, चतुर, श्रोत्रिय, महात्मा, निर्दोष तथा अपतित है, उसी के घर भिक्षा माँगे, विवरण पुरुषो के यहाँ से भिक्षा लेने को जघन्य वृत्ति कहा गया है ॥९-१०॥ यवागू, मट्ठा, दूध, यावक, कुलथी, फल, मूल, प्रियगु, करा, पिण्याक, सत्तू इनकी

भिक्षा ले ॥११॥ यह वस्तुएँ कल्याण करने और सिद्धि देने वाले आहार के रूप में निदिष्ट है, इसलिए सावधानी पूर्वक यह वस्तु उपभोग करे ॥१२॥ भोजन के पहिले मौन रहकर पहले एक बार जल पीकर प्राणाय स्वाहा कहता हुआ आहार करे, योगियो की यही प्रथम आहुति मानी गयी है ॥१३॥ फिर 'अपानाय' कहकर दूसरी, 'समानाय' कहकर तीसरी, 'उदानाय' कहकर चौथी और 'व्यानाय' कहकर पाँचवी आहुति दे ॥१४॥

प्राणायामे पृथक्कृत्वाशेषभुञ्जीतकामत ।  
 अप पुन सकृत्प्राश्यञ्चाचम्यहृदयस्पृशेत् ॥१५॥  
 अस्तेयब्रह्मचर्यचत्यागोऽलोभस्तथैवच ।  
 व्रतानिपचभिक्षूणामहिसापरमग्निवै ॥१६॥  
 अक्रोधोगुरुशुश्रूषागौचमाहारलाघवम् ।  
 नित्यस्वाध्यायइत्येतेनियमा परिकीर्तिता ॥१७॥  
 सारभूतमुपासीतज्ञानयत्कार्यसाधकम् ।  
 ज्ञानानाबहुतायेययोगविघ्नकरोहिसा ॥१८॥  
 इदज्ञेयमिदज्ञेयमितियस्तृषितश्चरेत् ।  
 अपिकल्पसहस्रेषुनेवज्ञेयमवाप्नुयात् ॥१९॥  
 त्यक्तसङ्गोजितक्रोधोलघ्वाहारीजितेन्द्रिय ।  
 विधायबुद्ध्याद्वारागिमनोध्यानेनिवेशयेत् ॥२०॥  
 शून्येध्वेवावकाशेषुगुहामुचवनेषुच ।  
 नित्ययुक्त सदायोगीध्यानसम्यगुपक्रमेत् ॥२१॥

फिर प्राणायाम द्वारा पृथक् करते हुए स्वेच्छानुसार शेष भोजन करे, फिर एकबार जल पीकर आचमन करे और हृदय को स्पर्श करे ॥१५॥ अस्तेय, ब्रह्मचर्य, त्याग, अलोभ, अहिंसा यह पाँच परम व्रत भिक्षुक के लिये कहे गये हैं ॥१६॥ तथा अक्रोध, गुरु सेवा, शौच, लघु, आहार और नित्य स्वाध्याय यह पाँच नियम बताये हैं ॥१७॥ कार्य सिद्धि वाले सार रूप ज्ञान की ही आलोचना करे, क्योंकि अनेक प्रकार की ज्ञान विषयक चर्चा से योग में विघ्न पडता है ॥१८॥ जो योगी ज्ञेय पदार्थ की जिज्ञासा करते हुए तृषित चित्त से भ्रमते हैं



उनको हजार कल्प मे भी ज्ञेय पदार्थ की उपलब्धि नहीं हो सकती ॥१६॥ सग का परित्याग करता हुआ अक्रोधी, लघुभोजी और जितेन्द्रिय होकर बुद्धि योग से विधान करके चित्त को ध्यान-मग्न करे ॥२०॥ निर्जन स्थान गुफा तथा वन मे जाकर सदा सम्यक् विधान पूर्वक ध्यान-रत हो ॥२१॥

वाग्दण्ड कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रय ।

यस्य ते नियतादण्डा स त्रिदण्डी महायति ॥२२

सर्वमात्ममययस्य सदसज्जगदीदृशम् ।

गुणागुणमयतम्यक प्रिय को नृपाप्रिय ॥२३

विशुद्धबुद्धि समलोष्ठकाञ्चन ममस्तभूतेषु सम समाहित ।

स्थानपरशाश्वतमव्ययचयति हि गत्वानपुन प्रजायते ॥२४

वेदाच्छ्रेष्ठा सर्वयज्ञक्रियाश्च यज्ञाज्जाप्यज्ञानमार्गश्च जप्यात् ।

जानाद्ध्यानसगरागव्यपेततस्मिन्प्राप्ते शाश्वतस्थोपलब्धि ॥२५

समाहितो ब्रह्मपरोऽप्रमादीशुचिस्तथैकान्तरतिर्यतेन्द्रिय ।

समाप्नुयाद्योगमिममहात्मा विमुक्तिमाप्नोति तत स्वयोगत ॥२६

वाग्दण्ड, कर्मदण्ड और मनोदण्ड को वश मे रखने वाला त्रिदण्डी ही महायती कहा जाता है ॥२२॥ इस अत्-अमत्, गुण, अगुण युक्त दिखाई पडने वाले विश्व को जो योगी आत्ममय मानते है, उनके लिए कौन प्रिय और कौन अप्रिय है ? ॥२३॥ जो विशुद्ध बुद्धि से लोहा और मुवर्ण को समान मानते तथा ममस्त भूत मे समाहित होकर सर्वाधार, शाश्वत एव अव्यय ब्रह्म को सर्वत्र विद्यमान देखते है, उन्हे पुनर्जन्म नहीं धारण करना होता ॥२४॥ निखिल वेद और सब प्रकार की यज्ञ क्रिया उत्कृष्ट है, उन यज्ञ से जप श्रेष्ठ है, जप से ज्ञानमार्ग और ज्ञानमार्ग से नि सग और राग हीन ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि इस ध्यान योग के द्वारा ही शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है ॥२५॥ जो सावधानी से ब्रह्मपरायण, प्रमाद रहित, एकान्तवासी और जितेन्द्रिय होकर योग-साधन करते है, वे आत्मा मे आत्मा के सयोग को पाकर मोक्ष लाभ करते है ॥२६॥

## ३४---- ओंकार स्वरूप कथन

एवयोवर्त्ततेयोगीसम्यग्योगव्यवस्थित ।  
 नसज्यावर्तितु शक्योजन्मान्तरशतैरपि ॥१  
 दृष्ट्वाचपरमात्मानप्रत्यक्षविश्वरूपिणम् ।  
 विश्वपादशिरोग्रीवविश्वेशविश्वभावनम् ॥२  
 तत्प्राप्तयेमहत्पुण्यमोमित्येकाक्षरजपेत् ।  
 तदेवाध्ययनतस्यस्वरूपशृण्वत परम् ॥३  
 अकारश्चतथोकारोमकारश्चाक्षरत्रयम् ।  
 एतास्तिस्त्र स्मृतामात्राःसात्त्वराजसतामसा ॥४  
 निर्गुणायोगिगम्यान्याच्चाधर्ममात्रोर्ध्वसस्थिता ।  
 गान्धारीतिचविज्ञेयागान्धारस्वरसश्रया ॥५  
 पिपीलिकागतिस्पशप्रयुक्तामूर्च्छिनलक्ष्यते ।  
 यथाप्रयुक्तओङ्कार प्रतिनिर्य्यातिमूर्द्धनि ॥५  
 तथोङ्कारमयोयोगीत्वक्षरेत्वक्षरोभवेत् ।  
 प्राणोधनुशरोह्यात्माब्राह्मवेध्यमनुत्तमम् ॥७

दत्तात्रेयजी बोले—जो योगी इस प्रकार सम्यक् विधान पूर्वक योग युक्त होते हैं, वह सौ-सौ जन्मान्तर मे भी अपने पद से निवृत्त नहीं होते ॥१॥ जो विश्व स्वरूप, विश्वेश्वर और विश्वभावन है तथा विश्व ही जिनके पाद, ग्रीवा और मस्तक है उन्हीं परब्रह्म को प्रत्यक्ष करके योगी ॥२॥ उनको पाने के निमित्त 'ॐ' इस एकाक्षर मन्त्र का जप करे, यही उनका स्वाध्याय है, इसी ओंकार स्वरूप का श्रवण करना चाहिये ॥३॥ अकार, उकार और मकार यही तीन अक्षर ओंकार स्वरूप है, इन्हे तीन मात्रा समझो यही मात्रा के क्रम से सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं ॥४॥ तथा ओंकार मे एक अर्द्ध मात्रा और है, वह तीनों गुणों से परे है, ऊर्ध्व मे अवस्थित योगियों को गम्य है, इसमे गांधार स्वर का आश्रय होने से यह गांधारी नाम से प्रसिद्ध है ॥५॥ यह मात्रा चीटी के समान गति और स्पर्श वाली है, यह शिरोभाग मे दिखाई देती

है, तथा जिम प्रकार ओकार प्रयुक्त यह गिरोभाग में जाती है ॥६॥ वैसे ही योगी अक्षर-अक्षर में ओकार युक्त होता है, प्राण को धनुष रूप, आत्मा को बाण रूप और ब्रह्म को लक्ष्य रूप जाने ॥७॥

अप्रमत्तेनवेद्धव्यशरवत्तन्मयोभवेत् ।  
 ओमित्येतत्त्रयोवेदास्त्रयोलोकास्त्रयोऽग्नय ॥८॥  
 विष्णुर्ब्रह्माहरश्चैवऋक्सामानियजू षिच ।  
 मात्रा साद्धाश्चित्तस्त्रविज्ञेयाःपरमार्थत ॥९॥  
 तत्रयुक्तस्तुयोगीसतल्लयमवाप्नुयात् ।  
 अकारस्त्वथभूलोकउकारश्चोच्यतेभुव ॥१०॥  
 सव्यञ्जनोमकारश्चस्वर्लोक परिकल्प्यते ।  
 व्यक्तातुप्रथमामात्राद्वितीयव्यक्तसञ्ज्ञिता ॥११॥  
 मात्रातृतीयाचिच्छक्तिरधमात्रापरपदम् ।  
 अनेनैवक्रमेणोताविज्ञेयायोगभूमय ॥१२॥

प्रमाद रहित होकर ही वाण के समान ब्रह्म को विद्ध करने में तन्मय हो सकना है, ओकार ही त्रिवेद, त्रैलोक्य और तीनो अग्नि ॥८॥ ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा ऋक्, यजु, साम स्वरूप है, परम अर्थ से ओकार की साढे तीन मात्रा है । ९॥ इस ओकार में मिलकर योगी उममें लीन होते हैं, अकार भूलोक, उकार भुवर्लोक ॥१०॥ तथा व्यञ्जन युक्त मकार स्वर्लोक कहा गया है, उसकी प्रथम मात्रा व्यक्ता, द्वितीय अव्यक्ता ॥११॥ तृतीय चिच्छक्ति और चतुर्थ परम-पद है, इस प्रकार क्रम पूर्वक इसे योगभूमि समझो ॥१२॥

ओमित्युच्चारणात्सर्वगृहीतसदसद्भवेत् ।  
 ह्रस्वातुप्रथमामात्राद्वितीयादैर्ध्यसयुता ॥१३॥  
 तृतीयाचलुतार्धाख्यावचस सानगोचरा ।  
 इत्येतदक्षरब्रह्मपरमोकारसञ्ज्ञितम् ॥१४॥  
 यस्तुवेदनर सम्यक्तयाध्यायतिवापुन ।  
 ससारचक्रमुत्सृज्यत्यक्तत्रिविधबन्धन ॥१५॥

प्राप्नोतिब्रह्मणिलयंपरमेपरमात्मनि ।  
 आक्षीणकर्मबन्धश्चज्ञात्वामृत्युमरिष्ठत ॥१६॥  
 उत्क्रान्तिकालेसम्मृत्युपूनर्योगित्वमृच्छति ।  
 तस्मादसिद्धयोगेनसिद्ध योगेनवापुन ।  
 ज्ञेयान्यरिष्ठानिसदायेनोत्क्रातौनसीदति ॥१७॥

केवल ॐ का उच्चारण करते ही सदैव सत्-असत् का ग्रहण होजाता है, प्रथम मात्रा ह्रस्व और द्वितीय मात्रा दीर्घ है ॥१३॥ तृतीय मात्रा प्लुत स्वरूप है और अर्द्ध मात्रा का तो स्वरूप वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इस प्रकार जो योगी ओकार स्वरूप अक्षर परब्रह्म को ॥१४॥ जानकर उनका ध्यान करते है वह ससार चक्र का अतिक्रमण करते हुए तीनों बन्धनों को छोड़ कर ॥१५॥ उम परब्रह्म मे ही लीन हो जाते है, यदि उनके कर्म-बन्धन क्षीण न हो तो वह अरिष्ट द्वारा मृत्यु काल को जानकर ॥१६॥ उस समय स्मृति लाभ पूर्वक योगित्व को पुन प्राप्त होते है, इसलिए सिद्ध या असिद्ध कैसा भी योगी हो, अरिष्ट का ज्ञान होना ही चाहिये, क्योंकि अरिष्ट के ज्ञान मे मरण-काल मे दुःख की प्राप्ति नहीं होती ॥१७॥

### ३५--अरिष्ट कथन

अरिष्ठानिमहाराजशृणुवक्ष्यामितानिते ।  
 येषामालोकनान्मृत्यु निजजानातियोगवित् ॥१॥  
 देवमार्गध्रुवशुक्रसोमच्छायामरुन्धतीम् ।  
 योनपश्येन्नजीवेत्सनरःसवत्सरात्परम् ॥२॥  
 अरश्मिबिम्बसूर्यस्यर्वाह्लिचैवाशुमालिनम् ।  
 दृष्ट्वाकादगमासेभ्योनरोनोर्ध्वनुजीवति ॥३॥  
 वान्तैर्मूत्रपुरीषेचय स्वर्णरजततथा ।  
 प्रत्यक्षकुरुतेस्वप्नेजीवेत्सदशमासिकम् ॥४॥

दृष्ट्वाप्रेतपिशाचादीन्गन्धर्वनगराणिच ।  
 सुवर्णवर्णान्वृक्षाश्चनवमासान्मजीवति ॥५॥  
 स्थूल कृश कृश स्थूलोयोऽकस्मादेवजायते ।  
 प्रकृतेश्चनिवर्तनेनस्यायुश्चाष्टमासिकम् ॥६॥  
 खण्ड यस्यपदपाष्ण्यापादस्याग्ने चवाभवेत् ।  
 पाशुकदंमयोर्मध्येसप्तमामान्मजीवति ॥७॥

दत्तात्रेयजी बोले—हे राजन्! अब तुम्हारे प्रति ममस्त अग्नि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो, इन्हें देख कर योगी अपना मृत्यु काल समझले ॥१॥ देवमार्ग, ध्रुव, शुक्र, चन्द्र, स्वच्छाया और अरुन्धती इनको जो नहीं देख सकता वह सम्वत्सर के पश्चात् ही मृत्यु को प्राप्त होता है ॥२॥ सूर्य का बिम्बरश्मियो से रहित तथा अग्नि को किरणो युक्त जो देखे, वह ग्यारह मास से अधिक जीवित नहीं रहता ॥३॥ स्वप्नावस्था में मूत्र पुरीष और वमन में जिसे स्वर्ण अथवा चाँदी दिखाई दे, वह दश महीने से अधिक नहीं जीता ॥४॥ जो प्रेत, पिशाच, गन्धर्वनगर अथवा स्वर्णम वृक्ष को देखता है वह नौ मास ही जीवित रहता है ॥५॥ जो महमा स्थूल हो कर कृश हो जाय और पुन कृश से स्थूल हो जाय वह आठ महीने ही प्राण धारण करता है ॥६॥ रेत अथवा अथवा कीचड में पाँच जमाने पर जिसकी एडी या पाँव के अगले भाग का चिह्न खंडित दिखाई पड़े उसकी परमायु मात महीने ही समझो ॥७॥

गृध्र कशोतकाकोलोवायसोवापिमूर्द्धनि ।  
 ऋव्यादोवाखगोलीन पण्मासायुःप्रदर्शक ॥८॥  
 हन्यतेकाकपत्नीभि पाशुवर्षेणवानर ।  
 स्वाच्छाया मन्यथादृष्ट्वाचतु पचसजीवति । ९  
 अनभ्रे विद्युत्तदृष्ट्वादक्षिणादिशमाश्रिताम् ।  
 रात्राविन्द्रधनुश्चापिजीवितहित्रिमासिकम् ॥१०॥  
 घृतेतैले तथादर्शतोयेवानात्मनस्तनुम् ।  
 य पश्येदक्षिरस्कामामाद्गन्धर्वनजीवति ॥११॥

यस्यवस्तसमोगन्धोगात्रेशवसमोऽपिवा ।  
 तस्यार्द्धमासिकज्ञेययोगिनो नृपजीवितम् ॥१२  
 प्रस्यवैस्नातमात्रस्यहृत्पादमवशुष्यते ।  
 पिवतश्चजलशोषोदशाहसोऽपिजीवति ॥१३  
 सभिन्नोमारुतोयस्यमर्मस्थानानिक्रन्तति ।  
 हृष्यतेनाम्बुसस्पर्शान्तस्यमृत्युरुपस्थित ॥१४

गृद्ध, उलूक, काक अथवा क्रव्याद या अन्य कोई नीलवर्ण का हिंसक पक्षी उड़ कर शिर पर आ बैठे तो छ मास ही जीवन रहता है ॥८॥ जो काक पक्षि से अथवा धूध की वर्षा से आहत हो जाय तथा जो अपने देह की छाया को विपरीत देखे वह चार या पाँच मास से अधिक जीवित नहीं रहता ॥९॥ विना मेघ के दक्षिण दिशा में जिसे बिजली चमकती दिखाई पड़े अथवा रात्रि के समय इन्द्र धनुष दिखायी दे वह दो-तीन मास तक ही जीवन धारण करता है ॥१०॥ जिसे घृत, तेल, दर्पण और जल में अपना म्वरूप दिखायी न पड़े अथवा अपने शरीर ही मस्तक रहित देखे, वह एक मास से अधिक जीवित नहीं रहता ॥११॥ जिसके शरीर से मृतक शरीर जैसी गन्ध निकलती हो वह एक पक्ष ही जीवित रहता है ॥१२॥ जिमका हृदय और पाँव स्नान करते ही सूख जाय अथवा जल पीते ही पुनः प्यास से कण्ठ सूखने लगे वह दश दिन ही जीवित रहता है ॥१३॥ जिसके मर्म स्थान को वायु छिन्न भिन्न करदे तथा जल के स्पर्श से जिसे रोमाच न हो, उसका मृत्यु काल ही उपस्थित समझे ॥१४॥

ऋक्षवानरयानस्थोगायन्योदक्षिणादिशम् ।  
 स्वप्नेययातितस्यापिनमृत्यु कालमिच्छति ॥१५  
 रक्तकृष्णाम्बरधरागायन्तीहसतीचयम् ।  
 दक्षिणाशानयेन्नारीस्वप्नेसोपिनजीवति ॥१६  
 नग्नक्षपणकस्वप्नेहसमानमहाबलम् ।  
 एवसवीक्ष्यवत्गन्तविद्यान्मृत्युमुपस्थितम् ॥१७  
 आमस्तकतलाद्यस्तुनिमग्नपङ्कसागरे ।  
 स्वप्नेपश्यत्यथात्मानससद्योऽभ्रयतेनर ॥१८

केशाङ्गारास्तथाभस्मभुजङ्गान्निर्जलानदीम् ।

दृष्ट्वास्वप्नेदशाहात्तुमृत्युरेकादशेदिने ॥१६

करालैर्विकटै कृष्णै पुरुषैरुद्यतायुधै ।

पापाणैस्ताडितस्वप्नेसद्योमृत्युलभेन्नर ॥२०

सूर्योदयेयस्य शिवाक्रोशन्तीयातिसमुखम् ।

विपरीतपरीतवाससद्योमृत्युमृच्छति ॥२१

जो स्वप्नावस्था में रीछ या बन्दर के यान में चढ़ कर गाता हुआ दक्षिण दिशा की तरफ जाय उसका मृत्यु काल आया समझे ॥१५॥ जिसे लाल, काले वस्त्र पहिने हुए हास्य मुख से गाती हुई स्त्री स्वप्न में दक्षिण दिशा में ले जाय उसकी भी मृत्यु शीघ्र होती है ॥१६॥ स्वप्न में महाबल, नग्न, क्षपणक मन्यासी को एकाकी हँसता हुआ जाता देखे तो मृत्यु काल समीप जाने ॥१७॥ तथा जिसे स्वप्न में अपना शरीर मस्तक तक कीचड़ में घुसा हुआ दिखाई दे, उमका मरण काल भी निकट समझे ॥१८॥ स्वप्न में केश, अङ्गार, भस्म, सर्प, शुष्क नदी दिखाई दे तो ग्यारहवें दिन उसकी मृत्यु होती है ॥१९॥ स्वप्न में जिसे कराल तथा विकट आकार वाले कृष्ण वर्ण पुरुष सशस्त्र आकर पत्थर में मारे उमकी मृत्यु शीघ्र ही होने वाली समझे ॥२०॥ जिस के सामने, पीछे अथवा चारों ओर सूर्योदय काल में गीदड़ी जाय वह शीघ्र ही मरता है ॥२१॥

यस्यवैभुक्तमात्रस्यहृदयवाध्यतेक्षुधा ।

जायतेदन्तघर्षश्चसगतायुर्नसशय ॥२२

दोपगन्धनयोवेन्नित्रस्यत्यह्नितथानिशि ।

नात्मानपरनेत्रस्थवीक्षतेनसजीवति ॥२३

शक्रायुधचाङ्गं रात्रेदिवाग्रहतारास्तथा ।

दृष्ट्वा मन्येतसक्षीरमात्मजीवितमात्मवित् ॥२४

नासिकावक्रतामेतिकर्णयोर्नमनोन्नती ।

नेत्रचवामस्रवतियस्यतस्यायुरुद्गतम् ॥२५

आरक्ततामेनिमुखजिह्वावाध्यामतायदा ।  
 तदाप्राज्ञोत्रिजानीयान्मृत्युमासन्नमात्मनः ॥२६॥  
 उष्ट्ररासभयानेनय स्वप्नेदक्षिणादिशम् ।  
 प्रयातित्तचजानीयात्सद्योमृत्यु नरेश्वर ॥२७॥  
 पिधायकर्णौनिर्घोषनशृणोत्यात्मसम्भवम् ।  
 नश्ययेच्चक्षुषोर्ज्योतिर्यस्यसोऽपिनजीवति ॥२८॥

भोजन करके उठते ही जो तुरन्त भूख से व्याकुल हो जाय तथा दन्त  
 घर्षण होने लगे, उसकी आयु समाप्त ही समझो ॥२२॥ जिसकी नासिका को  
 दीप गन्ध का ज्ञान न हो, जो दिन और रात्रि भय को प्राप्त हो तथा जो अपने  
 प्रतिविम्ब को दूरके के नेत्र में न देख सके उसकी भी आयु समाप्त हुई समझो  
 ॥२३॥ यदि आधी रात में द्बन्ध धनुष और दिन में वारे दिखाई दे तो उसकी  
 भी आयु को नि शेष हुआ समझे ॥२४॥ जिसकी नाक टेडी हो जाय, दोनो  
 कान ऊँचे नीचे प्रतीत हो अथवा बाँए नेत्र से आँसू गिरते हो, उसकी आयु भी  
 सम्पूर्णा हुई समझिये ॥२५॥ मुख लाल जिह्वा श्याम हो जाय तो अपना काल  
 समीप समझे ॥२६॥ स्वप्न में ऊँट या गधे के यान में चढ़ कर दक्षिण की  
 ओर जाय तो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है ॥२७॥ दोनो कान ढक लेने पर  
 अपना शब्द सुनाई न पड़े अथवा जिनके नेत्रो में कुछ दिखाई न पड़े वह शीघ्र  
 ही मरता है ॥२८॥

पततोयस्यवैगर्तस्वप्नेद्वारपिधीयते ।  
 नचोत्तिष्ठतिय श्वभ्रात्तदन्ततस्यजीवितम् ॥२९॥  
 ऊर्ध्वाचदृष्टिर्नसप्रतिष्ठारक्तापुन सपरिवर्तमाना ।  
 मुखस्यचोष्माशिशिराचनाभि शसतिपु सामपरशरीरम् ॥३०॥  
 स्वप्नेऽग्निप्रविशेद्यस्तुनचनिष्क्रमतेपुन ।  
 चलप्रवेशादपिवातदन्ततस्यजीवितम् ॥३१॥  
 यश्चाभिहन्यतेदृष्टैर्भूतैरात्रावथोदिव ।  
 समृत्यु सप्तरात्रान्तेनर प्राप्नोत्यसशयम् ॥३२॥



स्ववस्त्रममलगुक्लरक्तपश्यत्यथोसितम् ।  
 य पुमान्मृत्युमासन्नतस्यापिहिविनिर्दिशेत् ॥३३  
 स्वभाववैपरीत्यनुप्रकृतेश्चविपर्यय' ।  
 कथयन्तिमनुष्याणासमासघ्नौयमास्तकी ॥३४

स्वप्न मे जो गढे मे गिरकर उसमे निकलने का मार्ग न पा सके या गिरकर उठने मे असमर्थ हो तो भी उसकी आयु नि.शेष समझो ॥२६॥ जिसकी दृष्टि ऊर्ध्व भाग मे नही जमती, लाल रंग की होकर बारम्बार घूर्णित या चञ्चल हो जाय, तथा जिसका मुख उष्णता मे युक्त और नाभि विस्तृत हो जाय वह शरीर त्याग कर अन्य देह धारण करता है ॥३०॥ स्वप्न मे जो अग्नि या जल मे घुम कर फिर बाहर न निकले उसका जीवन समाप्त समझो ॥३१॥ जो दिन अथवा रात्रि मे दुष्ट भूतो से नाडित हो वह सात दिन मे मर जाता है ॥३२॥ जो अपने पहिने हुए श्वेन वस्त्रो को लाल या काले रंग के देखता है उसका मरण काल समीप समझो ॥३३॥ स्वभाव के विपरीत होने तथा प्रकृति का विपर्यय होने से यम और अन्नक उस पुरुष के समीप होते है ॥३४॥

येपाविनीन मततयेऽस्यपूज्यतमामता ।  
 तानेवचावजानातितानेवचविनिन्दति ॥ ३५  
 देव।न्नार्चयतेवृद्धान्गुरुन्विप्राश्चनिन्दति ।  
 मातापित्रोर्नसत्कारजामातृणाकरोतिच ॥३६  
 योगिनाजानविदुषामन्येषाचमहात्मनाम् ।  
 प्राप्तेतुकाले पुरुषस्तद्विज्ञेयविचक्षणौ ॥३७  
 योगिनारुततयत्नादरिष्टान्यवनीपते ।  
 सवत्सरान्तेतज्ज्ञेयफलदनिशिवासरम् ॥३८  
 विलोक्याविशदाचैषाफलपक्ति सुभीपरा ।  
 विज्ञायकार्योमनमिसचकालोनरेश्वर ॥३९  
 ज्ञात्वाकालचतसम्यनभःस्थानममाश्रित ।  
 युञ्जीतयोगीकालोऽसौयथानान्याफलोभवेत् ॥४०

दृष्टारिष्टतथायोगीत्यक्त्वामरणजभयम् ।  
 तत्स्वभावतदालोक्यकालोयावद्विपाकद ॥४१॥  
 तस्यभागेनथैवाह्नोयोगयुञ्जीतयोगवित् ।  
 पूर्वाह्नेचापराह्नेचमध्याह्नेचापिनद्दिने ॥४२॥  
 यत्रवारजनीभागेतदरिष्टनिरीक्षितम् ।  
 तत्रैवतावद्युञ्जीतयावत्प्राप्तहितदिनम् ॥४३॥

काल के प्राप्त होने पर ही मनुष्य पूजनीय पुरुषो का निरादर तथा निंदा करना है ॥३५॥ देव—पूजन से विमुख होता, वृद्धो और विप्रो की निन्दा करना तथा माता—पिता और जामाता का सत्कार ॥३६॥ नहीं करता और योगी, जानी तथा अन्य साधु—सन्तो के सत्कार से विमुख होता है, उसकी भी आयु नि शेष समके ॥३७॥ हे राजन् ! योगियो को यह ज्ञान रखना चाहिये कि यह सभी अग्नि सबत्सर के अन्त मे रात्रि हो या दिन, फल देते है ॥३८॥ इन सभी भीषण फलो पर दृष्टि रखे, इनका ज्ञान सहज मे ही होजाता है, इन्हे भले प्रकार जान कर उनके उपस्थित-काल का ध्यान रखे ॥३९॥ उनके उपस्थिति काल को जान कर भय रहित स्थान का आश्रय लेकर योग मे निमग्न हो, जिससे काल का वश न चल सके ॥४०॥ अग्निष्ट को देखकर उससे होने वाले मृत्यु भय को त्याग कर अग्निष्ट के स्वभाव पर विचार करे और जब वह समय उपस्थित हो ॥४१॥ दिन के उसी भाग मे योगी योग निमग्न हो, दिन के पूर्वाह्ने अथवा अपराह्ने मे ॥४२॥ अथवा रात्रि मे, जिस समय भी अग्निष्ट दिखायी पडा, उसी समय योग मग्न होना चाहिये, जब तक वह मृत्यु का दिन न आवे, तब तक इसी प्रकार योग क्रिया मे लगा रहे ॥४३॥

ततस्त्यक्त्वाभयसर्वजित्वातकालमात्मवान् ।  
 तत्रैवावसथेस्थित्वायत्रवास्थैर्यमात्मन ॥४४॥  
 युञ्जीतयोगनिर्जित्यत्रीन्गुणान्परमात्मनि ।  
 तन्मयश्चात्मनाभूत्वाच्चिद्वृत्तिमपिसत्यजेत् ॥४५॥  
 तत परमनिर्वाणमतीन्द्रियमगोचरम् ।  
 यद्बुद्धेर्यन्नचाख्यातु शक्यतेतत्तममश्नुते ॥४६॥

एतत्सर्वसमाख्याततवाल्क्यथार्थवत् ।  
 प्राप्स्यसेयेनवद्ब्रह्मासक्षेपात्तन्निबोधमे ॥४७  
 २॥शाङ्करश्मिसयोगाच्चन्द्रकान्तमणि पय ।  
 समुत्सृजतिनायुक्त सोपमायोगिन स्मृता ॥४८  
 यथार्करश्मिसयोगादर्ककान्तोहुताशनम् ।  
 आविष्करोतिनैक सन्नुपमासापियोगिन ॥४९

वह आत्मवान् होकर सम्पूर्ण भय को छोड़कर और उस समय को जीतकर उसी गृह में या जहाँ भी मन स्थिर रह सके ॥४४॥ निवाम करता हुआ तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करके, एकान्तिक चित्त से योग युक्त होकर परब्रह्म में अभिनिविष्ट हो तथा आत्मा की तन्मयता पूर्वक चित्त वृत्ति का सर्वथा त्याग करे ॥४५॥ ऐसा करके ही वह इन्द्रियातीत, बुद्धि द्वारा अगम्य और वाणी द्वारा अकथनीय परम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं ॥४६॥ यह सब यथार्थ रूप से मैंने तुम्हें बताया है, अब जिम प्रकार ब्रह्म पदार्थ की उपलब्धि हो सकती है, उसे सक्षिप्त रूप से कहता हूँ, श्रवण करो ॥४७॥ चन्द्रमा की किरणों के सयोग से ही चन्द्रकान्त मणि से जल निकलता है योगियों की योग सिद्धि का उपाय भी यही है अर्थात् योग में मन न लगाने से आनन्द का सञ्चार कभी नहीं हो सकता ॥४८॥ सूर्य रश्मियों के सयोग में चन्द्रकान्त मणि से जैसे अग्नि निकलनी है, वैसे ही योग युक्त न होने से ब्रह्म का साक्षात्कार सम्भव नहीं ॥४९॥

पिपीलिकाखुनकुलगृहगेघाकपिजला ।  
 वसन्तिस्वामिवद्गोहेध्वस्तेयान्तिततोऽन्यत ॥५०  
 दु खतुस्वामिनोध्वसेतम्यतेषानकिचन ।  
 वेश्मनोयत्रराजेन्द्रसोपमायोगसिद्धये ॥५१  
 मृद्देहिकाल्पदेहापिमुखाश्रेणाप्यणीयसा ।  
 करोतिमृद्भारचयमुपदेश सयोगिन ॥५२  
 पशुपक्षिमनुष्याद्यै पत्रपुष्पफलान्वितम् ।  
 वृक्षविलुप्यमानतुदृष्ट्वासिध्यन्तियोगिन ॥५३

रुशावविषाणाग्रमालक्ष्यतिलकाकृतिम् ।  
 सहतेनविवर्द्धन्तयोगीसिद्धिमवाप्नुयात् ॥५४  
 द्रवपूर्णमुपादायपात्रमारोहतोभुव ।  
 तुङ्ग विलोक्योच्चैर्विज्ञातकियोगिना ॥५५  
 सर्वस्वेजीवनायालनिखाते पुरुषभ्यया ।  
 चेष्टातातत्त्वतोज्ञात्वायोगिन कृतकृत्यता ॥५६

चीटी, मूपक, नकुल, गोधा, कपिञ्जल और कपोत यह सब गृहस्वामी के समान ही वहाँ रहते हैं और घर के नष्ट होने पर ही अन्यत्र जाते हैं ॥५०॥ गृहस्वामी के न रहने से उन्हें कुछ प्रयोजन नहीं है इसी प्रकार स्वभाव से ही देह के पीछे देह का आविर्भाव और तिरोभाव होता है, इसलिए उसके प्रति ममता के वश में नहीं पडना चाहिये, ऐसा जानकर सब छोड़कर योग-साधन में ही चित्त लगावे ॥५१॥ सूक्ष्म शरीर वाली चीटी अपने अत्यन्त सूक्ष्म मुख से ही सञ्चय करती है, योगियों के लिए यह भी एक दृष्टान्त है कि ब्रह्म साधन जैसा कठिन कार्य योग रूप साधारण उपाय से वश में कर लिया जाता है ॥५२॥ पशु, पक्षी, मनुष्यादि फल, पुष्प, पत्र से युक्त वृक्ष को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार काल के हाथ में सबको नष्ट होना पडता है, यह जानकर योग-साधन पूर्वक मोक्ष लाभ करे ॥५३॥ रुरु मृग के बालक के सींग का अग्र भाग तिलक के आकार का होकर भी उमी के साथ बढ़ता है, इसी प्रकार योगी की कठिन योगचर्या भी अभ्यास से सुलभ हो जाती है ॥५४॥ जब मनुष्य द्रव से भरा हुआ पात्र हाथ में लेकर ऊँचे स्थान में चढता है, उस समय उसके अग्र पर दृष्टि डालने से योगी को कोई बात अज्ञात नहीं रहती ॥५५॥ मनु य जीवन के लिए जो अपने सर्वस्व को नष्ट करने में लगा है, उसे भले प्रकार जानकर योगी कृतकृत्य हो जाता है ॥५६॥

तद्गृहयत्रवसतितद्भोज्ययेनजीवति ।  
 येनसम्पद्यतचार्थस्तत्सखममतात्रका ॥५७  
 अभ्यर्थितोऽपितै कार्यकरोतिकरौर्यथा ।  
 तथाबुद्ध्यादिभिर्योगीपारक्यै साधयेत्परम् ॥५८

तत् प्रणम्यान्निपुत्रमलर्कं समहीपति ।  
 प्रश्नयावनतोवाक्यमुवाचातिमुदान्वित ॥५६  
 दिष्ट्यादेवैरिदब्रह्मन्पराभिभवसम्भवम् ।  
 उपपादितमत्युग्रं प्राणसदेहदभयम् ॥६०  
 दिष्ट्याकाशिपतेर्भूर्निखिलसम्पत्पराक्रम ।  
 यदुच्छेदादिहायात् सयुष्मत्सङ्गदोमम ॥६१  
 दिष्ट्यामदबलश्चाहदिष्ट्याभृत्याश्चमेहता ।  
 दिष्ट्याकोष क्षययातोदिष्ट्याहभीतिमागतः ॥६२  
 दिष्ट्यात्वत्पादयुगुलममस्मृतिपथगतम् ।  
 दिष्ट्यात्वदुक्तय सर्वाममचेतसिसंस्थिता ॥६३

जहाँ निवास करे वही गृह, जिससे प्राण धारण हो वह भोज्य और जिमसे विषय की निष्पत्ति हो वही सुख है, इमलिये, इस विषय मे ममता क्यों करे ? ॥५७॥ जिम प्रकार कारण से कार्य सिद्ध होता है उमी प्रकार योगी पारलौकिक बुद्धि आदि कारण रूप से ब्रह्म को सिद्धि लाभ करते है ॥५८॥ जड बोला—इसके पश्चात् राजा अलर्क विनय पूर्वक भुक्त कर दत्तात्रेयजी को प्रणाम करने हुए आनन्द सहित बोले ॥५९॥ हे ब्रह्मन् ! मुझे सौभाग्य से अत्युग्र, प्राणो को सगयप्रद एव भयदायक तिरस्कार शत्रु से मिला है ॥६०॥ सौभाग्य से ही काशीराज इतने समृद्धिशील हुए, जिसके कारण मैं आपके सत्सग का लाभ कर सका ॥६१॥ सौभाग्य से ही मेरा बल क्षीण होगया, सौभाग्य से ही मेरे भृत्य मारे गये है और सौभाग्य से ही मेरा कोप नष्ट होगया और भय का संचार हुआ ॥६२॥ सौभाग्य से ही आपके दोनो चरण मेरे स्मृति मार्ग मे उदय हुए है तथा आपके वचन मेरे हृदय मे निवास प्राप्त कर सके है ॥६३॥

दिष्ट्याज्ञानममोत्पन्नभवतश्चसमागमात् ।  
 भवताचैवकारुण्यदिष्ट्याब्रह्मन्कृतमयि ॥६४  
 अनर्थोऽप्यर्थतायातिपुरुषस्यशुभोदये ।  
 तथेदमुपकारायव्यसनसगमात्तव ॥६५

सुबाहुरूपकारीमेसचकाशिपति प्रभो ।  
 तयो कृतेऽहसप्रामोयोगीशभवतोऽन्तिकम् ॥६६  
 सोऽहतवप्रसादाग्निनिर्दग्धाज्ञानकिल्बिष ।  
 तथायतिष्येनेदृङ्नभूयोदु खभाजनम् ॥६७  
 परित्यजिष्येगार्हस्थ्यमार्तिपादपकाननम् ।  
 त्वत्तोऽनुज्ञासमासाद्यज्ञानदातुर्महात्मन ॥६८  
 गच्छराजेन्द्रभद्र तेयथातेकथितमया ।  
 निर्ममोनिरहङ्कारस्तथाचरत्रिमुक्तये ॥६९

सौभाग्य से ही आपका समागम पाकर ज्ञान का मुझ में उदय हुआ है और सौभाग्य से ही आपने मुझ पर दया की है ॥६४॥ शुभादय हो तो अनर्थ भी अर्थ होजाता है, इस भीषण विपत्ति ने आपसे मिला कर मेरा उपकार ही किया है ॥६५॥ हे प्रभो ! मैं जिनके लिये यहाँ आया हूँ, वह सुबाहु और काशी-नरेण दोनो ही मेरे लिए परमोपकारी सिद्ध हुए हैं ॥६६॥ आपकी कृपा रूप अग्नि ने मेरे अज्ञान रूपो पापो को भस्म कर दिया है, जिसे ऐसे दुखो की प्राप्ति पुन न हो सके, अब मैं उसी के अनुष्ठान में लगूँगा ॥६७॥ आप ज्ञान-दाता महात्मा हैं, आपकी अनुमति पाकर ही मैं गृहस्थाश्रम को छोड़ूँगा, क्योंकि यह आश्रम दुख रूपी वन ही है ॥६८॥ दत्तात्रेयजी ने कहा—हे राजन् ! तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया है, ममता और अहंकार छोड़ कर मोक्ष लाभार्थ उसी पर चलो ॥६९॥

एवमुक्त प्रणम्यैनमाजगामत्वरान्वित ।  
 यत्रकाशिपतिभ्रंतासुबाहुश्चास्यसोऽग्रज ॥७०  
 समुत्पत्यमहाबाहु सोलर्क काशिभूपतिम् ।  
 सुबाहोरग्रतोवीरमुवाचप्रहसन्निव ॥७१  
 राज्यकामुककाशीशभुज्यताराज्यमूर्जितम् ।  
 यथाचरोचतेतद्वत्सुबाहो.सप्रयच्छवा ॥७२  
 किमलर्कपरित्यक्त राज्यतेसयुगविना ।  
 क्षत्रियस्यनधर्मोऽयभवाश्चक्षत्रधर्मवित् ॥७३

निर्जितामात्यवर्गस्तुत्यक्त्वामरणजंभयम् ।  
 सदधीतशरजालक्ष्यमुद्दिश्यवैरिणम् ॥७४  
 तजित्वानृपतिर्भोगान्यथाभिलषितान्वरान् ।  
 भुञ्जीतपरमसिद्धयै यजेतचमहामखः ॥७५  
 एवमीदृशकवीरममाप्यासीन्मन.पुरा ।  
 साम्प्रतविपरीतार्थश्रृणुचाप्यत्रकारणम् ॥७६

जड ने कहा—दत्तात्रेयजी की यह आज्ञा सुनकर अलर्क ने उन्हें प्रणाम किया और शीघ्रता से अपने भाई सुबाहु और काशीनरेश के पास पहुँचे ॥७०॥ उन्होंने काशीनरेश के समीप जाकर सुबाहु के सामने हँसते हुए कहा ॥७१॥ हे काशिराज ! तुमने राज्य की अभिलाषा की है, इसलिए इस समृद्धिशाली राज्य का उपभोग करो या सुबाहु को देदो, जो चाहो, वही करो ॥७२॥ काशिराज बोले—हे अलर्क ! तुम युद्ध के बिना राज्य को क्यों छोड़ते हो, तुम तो क्षात्रधर्म-विशारद हो, यह क्षत्रियो का धर्म नहीं है ॥७३॥ अमात्यो को वश में रखकर राजा मृत्यु के भय को छोड़कर शत्रु को लक्ष्य बनाकर बाण सभान करे ॥७४॥ तथा शत्रु को जीत कर सिद्धि के लिए इच्छित भोगो का उपभोग करते हुए श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करे ॥७५॥ अलर्क बोले—हे वीर ! मैं भी पहिले यही सोचता था, किन्तु अब उसके विपरीत सोचता हूँ, उसका कारण सुनो ॥७६॥

यथायभौतिक.सघस्तथान्तःकरणानृणाम् ।  
 गुणास्तुमकलास्तद्वशशेषेष्वेवजन्तुषु ॥७७  
 त्विच्छक्तिरेकएवाययदानान्योऽस्मिक्श्चन ।  
 तदाकानृपतेज्ञानान्मित्रारिप्रभुभृत्यता ॥७८  
 तन्मयादु खमासाद्यत्वद्दयोद्भवमुत्तमम् ।  
 दत्तात्रेयप्रसादेनज्ञानप्राप्तनरेश्वर ॥७९  
 निर्जितेन्द्रियवर्गस्तुत्यक्त्वासगमशेषत ।  
 मनोब्रह्मणिसघास्येत ज्ञयेपरमोजय ॥८०

ससाध्यमन्यत्तत्सिद्धयै यत किञ्चिन्नविद्यते ।  
 इन्द्रियारिणचसयम्यतत-सिद्धिनियच्छति ॥८१॥  
 सोहनतेऽरिर्नममासिशत्रु सुबाहुरेषोनममापकारी ।  
 दृष्टमयासर्वमिदयथात्माअन्विष्यतांभूपरिपुस्त्वयान्य ॥८२॥  
 इत्थसतेनाभिहितोनरेन्द्रोदृष्ट समुत्थायततःसुबाहु ।  
 दिष्टयै तितभ्रातरमाभिनन्द्यकाशीश्वरवाक्यमिदबभाषे ॥८३॥

जैसे मनुष्य मात्र का सग भौतिक है, उसी प्रकार उनका अन्त करण और गुणगण भी भूत की समष्टि है ॥७७॥ हे राजन् ! केवल चिच्छक्ति रूप ब्रह्म ही सत्य है, अन्य सब असत्य है ऐसा ज्ञान मुझे मिला है तब शत्रु, मित्र, प्रभु या भृत्य की कल्पना ही कैसी ? ॥७८॥ हे नरेश्वर ! तुम्हारे भय से अत्यंत दुःखित होकर दत्तात्रेयजी की कृपा से यह ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ ॥७९॥ अब जितेन्द्रिय होकर समस्त सग का त्याग करके केवल परब्रह्म में ही मन को लगाऊँगा, ब्रह्म के जीतते ही सबकुछ जीत लिया समझो ॥८०॥ एकमात्र वही विद्यमान है उसके लिए अन्य साधना उचित नहीं है, जितेन्द्रिय हुए बिना सिद्धि लाभ नहीं हो सकता ॥८१॥ हे राजन् न मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, न तुम मेरे शत्रु हो, सुबाहु ने भी मेरा कोई अपकार नहीं किया, इसलिए अब दूसरे शत्रु की खोज करो ॥८२॥ अलर्क के इन वचनों से काशिराज अत्यन्त सन्तुष्ट हुए और सुबाहु भी हर्ष से 'परम सौभाग्य' कहते हुए उठकर भाई को अभिनन्दन करते हुए काशिराज से बोले ॥८३॥

### ३६—अलर्क की यांगसिद्धि

यदर्थं नृपशादूर्लत्वामर्हशरणगतः ।  
 तन्मयासकलंप्राप्तं यास्यामित्वसुखीभव ॥१॥  
 किनिमित्तभवान्प्राप्तोनिष्पन्नोऽर्थश्चकस्तव ।  
 सुबाहोतन्ममाचक्ष्वपरकौतूहलहिमे ॥२॥





समाक्रान्तमलर्केणपितृपैतामहंमहत् ।  
 राज्यदेहीतिनिर्जित्यत्वयाहमभिचोदित ॥३  
 ततोमयासमाक्रम्यराज्यमस्यानुजस्यते ।  
 एतत्तेबलमानीततद्भुङ्क्षस्वकुलोचितम् ॥४  
 काशिराजनिबोधत्वयदर्थमयमुद्यम ।  
 कृतोमयाभवाश्चैवकारितोऽत्यन्तमुद्यमम् ॥५  
 भ्राताममायग्राभ्येषुतत्त्ववित् ?भोगतत्परः ।  
 विमूढौबोधवन्तौचभ्रातरावग्रजौमम ॥६  
 तयोर्ममचयन्मात्रावात्येस्तन्ययथामुखे ।  
 तथावबोधोविन्यस्तःकर्णयोरवनीपते ॥७  
 तयोर्ममचविज्ञेया पदाथम्यिमतानृभिः ।  
 प्राकाश्यमनसोनीतास्तेमात्रानास्यपार्थिव ॥८

सुबाहू ने कहा—हे नृपशार्दूल ! जिस लिये मैं आपकी शरण में गया था, वह सब मुझे मिल गया, अब मैं जाता हूँ, आप भी सुखी रहें ॥१॥ काशी-नरेश ने कहा—हे सुबाहो ! आप मेरी शरण में किस लिये आये थे और आपका कौन-सा कार्य सम्पादित होगया, यह बताओ, इसके प्रति मुझे अत्यन्त कुतूहल हुआ है ॥२॥ अलर्क अपने परपरागत राज्य को भोगता था, आपने उस राज्य को जीतने के लिये मुझे उत्तेजित किया था ॥४॥ सुबाहू बोला—हे काशिराज ! मैंने उद्यम पूर्वक आपको इस कार्य में क्यो प्रवृत्त किया, उसे सुनो ॥५॥ मेरे यह छोटे भ्राता तत्त्वज्ञानी होकर भी भोगों में आसक्त थे तथा मेरे दो अग्रज विमूढ होते हुए भी तत्त्वज्ञानी हुए हैं ॥६॥ हे राजन् ! मेरी माता ने शिशुकाल में जैसे हमको दूध पिलाया था, वैसे ही हमारे कानों में तत्त्वज्ञान का उपदेश किया था ॥७॥ मनुष्यों के लिए जो-जो विषय ज्ञातव्य है, वह सभी हमारी माता ने हम सब भाइयों के हृदयगत कर दिये थे, किन्तु अलर्क उन्हें भूल गया ॥८॥

यथैकमर्थोयातानामेकस्मिन्नवसीदति ।  
 दुखभवतिसाधूनातथास्माकमहीपते ॥९

गार्हस्थ्यमोहमापन्नं सीदत्यस्मिन्नरेश्वर ।  
 सम्बन्धिन्यस्यदेहस्यबिभ्रातिभ्रातृकल्पनाम् ॥१०॥  
 ततोमयाविनिश्चित्यदुःखाद्वैराग्यभावना ।  
 भविष्यतीत्यस्यभवानित्युद्योगायसश्रित ॥११॥  
 तदस्यदुःखाद्वैराग्यसंबोधादवनीपते ।  
 समुद्धूतकृतकार्यभद्रं तेस्तुव्रजाम्यहम् ॥१२॥  
 उष्णमदालसागर्भेपीत्वातस्यास्तथास्तनम् ।  
 नान्यनारीसुतैर्यातवर्त्मयात्वितिपार्थिव ॥१३॥  
 विचार्यतन्मयासर्वयुष्मत्सश्रयपूर्वकम् ।  
 कृततच्चापिनिष्पन्नं प्रयास्येसिद्धयेपुनः ॥१४॥

हे राजन् ! जैसे एक साथ जाने वालों में एक मनुष्य के दुःखित होने से सभी साथी दुःखित होते हैं, वैसे ही मेरी अवस्था थी ॥१०॥ क्योंकि अलर्क से मेरा सम्बन्ध बहुत्व का है और यह गृहस्थी के मोह में पड़ कर दुःखित हो रहे थे ॥१०॥ इसलिए दुःख होने पर ही विरक्त होगी, ऐसा विचार करके ही मैंने आपकी शरण ग्रहण की थी ॥११॥ हे राजन् ! उससे वह दुःखी हुआ और उसी दुःख से उसमें तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति हुई और विरक्ति का उदय हुआ इसलिए अब मैं अपने कार्य में सफल हो गया हूँ, आपका मंगल हो, मैं जाता हूँ ॥१२॥ यह अलर्क मदालसा के गर्भ से उत्पन्न है उसी का इसने दूध पिया है, इसलिए अन्य नारी से उत्पन्न पुत्र जिस मार्ग से नहीं जा पाते, यह उस श्रेष्ठ मार्ग पर चले ॥१३॥ यही विचार कर मैंने आपका आश्रय लिया और तदनु रूप कार्य किया मेरा कार्य पूरा हो गया अब पुनः सिद्धि की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ ॥१४॥

उपेक्षयतेसीदंभान् स्वजनोबान्धव सुहृत् ॥  
 यैर्नरेन्द्रनतान्मन्येसेन्द्रियाविकलाहिते ॥१५॥  
 सुहृदिस्वजनेबन्धौसमर्थोऽवसीदति ।  
 धर्मार्थकाममोक्षेभ्योवाच्यास्तेतत्रनत्वसौ ॥१६॥

एतत्त्वत्सङ्गमाद्भ्रूपमयाकार्यमहत्कृतम् ।  
 स्वस्तितेऽस्तुगमिष्यामिज्ञानभागभवसत्तम ॥१७  
 उपकारस्त्वयासाधोरलर्कस्यकृतोमहान् ।  
 ममोपकारायकथ नकरोषिस्वमानसम् ॥१८  
 फलदायीसत्तासिद्धि सगमोनाफलोयत ।  
 तस्मात्त्वत्संश्रयाद्युक्तामयाप्राप्तासमुन्नति ॥१९  
 धर्मार्थकाममोक्षाख्यपुरुषार्थचतुष्टयम् ।  
 तत्रधर्मार्थकामास्तेसकलोहीयतेऽपर ॥२०  
 तत्तेसक्षेपतोवक्ष्येतदिहैकमना शृणु ।  
 श्रुत्वाचसम्यगालोच्ययतेथाश्रयसेनृप ॥२१

हे राजन् ! स्वजन, सुहृदजन और बाँधवो के दुःखित होने पर, उनके प्रति उपेक्षा करने वाला मनुष्य मेरे विचार में विकलेन्द्रिय है ॥१५॥ तथा स्वजन, सुहृदजन और बाँधवजन के समर्थ होते हुए भी जो दुःख पाता है, उससे वे स्वजनादि निन्दनीय एव धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से वंचित होते हैं ॥१६॥ आपके सग-लाभ से मैंने इस महान् कार्य को सम्पन्न किया है, आपका कल्याण ही और आप ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हो, मैं अब गमन करता हूँ ॥१७॥ काशिराज बोले—आपने अलर्क का अत्यन्त उपकार किया है, परन्तु मेरा उपकार करने से विमुख क्यों है ? ॥१८॥ साधु-सग या सत-मिलन फल देने वाला होता है, इसलिये आपका सत्सग होने में मेरी भी उन्नति ही होगी ॥१९॥ सुवाहु बोले—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह चार पदार्थ पुरुषार्थ कहे गये हैं, इनमें धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि तो आपको हो चुकी है, केवल मोक्ष का ही अभाव है ॥२०॥ इसलिए आपसे जो कहता हूँ उसे एकाग्र मन से श्रवण करो और उस पर भले प्रकार विचार करके अपने कल्याणार्थ प्रयत्नशील होओ ॥२१॥

ममेतिप्रत्ययोभूपनकाद्यर्थोऽहमित्त्वया ।  
 सम्यगालोच्यधर्मोहिधर्माभावनिराश्रय ॥२२  
 कोवाहमितिसज्ञेयमित्यालोच्यत्वयात्मना ।  
 बाह्यान्तर्गतमालोच्यमालोच्यापररात्रिषु ॥२३

अव्यक्तादिविशेषान्तमविकारमचेतनम् ।  
 व्यक्ताव्यक्तत्वयाज्ञेयज्ञाताकश्चाहमित्युत ॥२४  
 एतस्मिन्नेवविज्ञातैर्विज्ञातमखिलत्वया ।  
 अनात्मन्यात्मविज्ञानमस्वेस्वमितिमूढता ॥२५  
 सोऽहसर्वगतोभूपलोकसव्यवहारतः ।  
 मयेदमुच्यतेसर्वत्वयापृष्टोत्रजाम्यहम् ॥२६  
 एवमुक्त्वाययौधीमान्सुबाहु काशिभूमिपम् ।  
 काशिराजोऽपिसपूज्यसोऽलर्कस्वपुरंययौ ॥२७  
 अलर्कोऽपिसुतज्येष्ठमभिषिच्यनराधिपम् ।  
 वनजगामसन्त्यक्तसर्वसङ्ग स्वसिद्धये ॥२८

हे राजन् ! यह मेरा है, यह मैं हूँ इत्यादि ममता और अहंकार पूर्ण  
 विचार के वश में न पडना और भले प्रकार धर्म की आलोचना करना, क्योंकि  
 धर्म नहीं तो आश्रय भी नहीं मिलता ॥२२॥ विचार करने पर ही 'मैं किसका  
 हूँ ?' इसका ज्ञान होता है, रात्रि के शेष भाग में इस पर भले प्रकार विचार  
 करो ॥२३॥ अव्यक्त से प्रकृति तक विकार-रहित, चेतना-रहित, और व्यक्त-  
 अव्यक्त जो कुछ है उसे जानते हुए, ज्ञाता, ज्ञेय और अपने विषय में भी जाने  
 ॥२४॥ इसके जान लेने पर ही आप सब कुछ जान लेंगे शरीरादि आत्मा से  
 पृथक् वस्तु में आत्मबोध तथा पराये को अपना मानना ही मूर्खता है ॥२५॥ हे  
 राजन् ! 'वही मैं' सासारिक ज्ञान में सम्पन्न हूँ, जो आपने प्रश्न किया, उसका  
 समाधान कर चुका, अब मैं गमन करता हूँ ॥२६॥ मेधावी सुबाहु ऐसा कह कर  
 चले गये, तब काशिराज ने अलर्क का भले प्रकार पूजन किया और अपने नगर  
 को गये ॥२७॥ अलर्क ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर समस्त सग परित्याग  
 करके आत्म सिद्धि के लिए बनवास किया ॥२८॥

तत कालेनमहतानिर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहः ।  
 प्राप्ययोगार्द्धिमतुलापरनिर्वाणमाप्तवान् ॥२९  
 पश्यञ्जगदिदसर्वसदेवासुरमानुषम् ।  
 पारौगुणमथैर्बद्धवध्यमानचनित्यशः ॥३०

पुत्रादिभ्रातृपुत्रादिस्वपारषयादिभवान्वितैः  
 आकृष्यमाणंकरणैर्दुःखार्त्ताभिन्नदर्शनम् ॥३१  
 अज्ञानपङ्कगर्भस्थमनुद्धारंमहामतिः ।  
 आत्मानचसमुत्तीर्णमाथामेतामगायत ॥३२  
 अहोकष्टयदस्माभिःपूर्वराज्यमनुष्ठितम् ।  
 इतिपश्चान्मयाज्ञातयोगान्नास्तिपरंसुखम् ॥३३  
 तातैनत्वसमातिष्ठमुक्तयेयोगमुत्तमम् ।  
 प्राप्स्यसेयेनतद्ब्रह्मयत्रगतवानशोचसि ॥३४  
 ततोऽहमपियास्यामिर्कियञ्चै किजपेनमे ।  
 कृतकृत्यस्यकरणब्रह्मभावायकल्पते ॥३५  
 ततोऽनुज्ञामवाप्याहनिर्द्वन्द्वोनिष्परिग्रहः ।  
 प्रयतिष्येतथामुक्तौयथायास्यामिनिर्वृतिम् ॥३६

फिर बहुत समय व्यतीत होने पर उन्होंने अनुलित योग-ऐश्वर्य को प्राप्त कर परम मोक्ष का लाभ किया ॥२६॥ सुर, असुर, मनुष्यादि से परिपूर्ण यह विश्व गुणमय पाश से बद्ध होकर नित्य ही वध्यमान रहता है ॥३०॥ यह पाश पुत्र आदि, भ्रातृ-पुत्रादि तथा अपने पराये के मोह से बनी हुई है, भिन्न दिखायी पडने वाला विश्व उसी पाश में आकृष्ट होकर दुःख में डूब रहा है ॥३१॥ इस पर भी अज्ञान रूपी पक में फँसने पर मुक्ति का उपाय नहीं है, बुद्धिमान् अलर्क ने इस पर विचार करके 'मेरा उद्धार हो गया' इस प्रकार गाथा का गान किया ॥३२॥ 'अहो कौसा कष्ट है ? पहिले मैं राज्य भोगता था, परन्तु अन्त में मुझे ज्ञान हो गया कि योग की अपेक्षा अन्य कोई परम सुख नहीं है ॥३३॥ पुत्र ने कहा—हे तात ! मोक्ष लाभ के लिए आप उस श्रेष्ठ योग का आचरण करें तो ब्रह्म को प्राप्त हो सकेंगे क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त होकर पुन शोक में नहीं पडना होगा, अब मैं भी जाऊँगा ॥३४॥ मुझे यज्ञ या जप की आवश्यकता नहीं है, कृतकृत्य मनुष्य का कार्य तो ब्रह्म प्राप्ति के लिये ही है ॥३५॥ इसलिये आपकी आज्ञा पाकर मैं द्वन्द्व और परिग्रह का त्याग कर मोक्ष लाभ के लिए सम्यक् प्रयत्न करूँगा ॥३६॥

एवमुक्त्वासपितरप्राप्यानुज्ञाततश्चस ।  
 ब्रह्मस्त्रगाममेधावीपरित्यक्तपरिग्रह ॥३७  
 सोऽपितस्यपितातद्वत्क्रमेणसुमहामति ।  
 वानप्रस्थसमास्थायचतुर्थाश्रममभ्यगात् ॥३८  
 तत्रात्मजसमासाद्यहित्वाबन्धगुणादिकम् ।  
 प्रापसिद्धिपरांप्राज्ञस्तत्कालोपात्तसन्मति ॥३९  
 एतत्तेकथितब्रह्मन्यत्पृष्ठाभवतावयम् ।  
 सुविस्तरयथावच्चकिमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥४०  
 यश्चैतच्छ्रुत्वाद्विप्रपठेद्वासुसमाहित ॥४१  
 यदश्रमेधावभृथस्नात.प्राप्नोतिवैफलम् ।  
 सकलतदवाप्नोतिश्रुत्वैतन्मुनिसत्तम ॥४२  
 एतत्ससारभ्रमणपरित्राणमनुत्तमम् ।  
 अलकत्रियसवादमशुभान्मुच्यतेनरः ॥४३

पक्षियो ने कहा—हे ब्रह्मन् ! वह महामति जब अपने पिता से ऐसा कह कर और उनकी आज्ञा लेकर परिग्रह-रहित होकर चला गया ॥३७॥ उसके पिता ने भी वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय लेते हुए चतुर्थ आश्रम में प्रवेश किया ॥३८॥ वह पुत्र की संगति से गुणादि बन्धन को त्याग कर तत्काल उत्पन्न हुई बुद्धि के बल से परम सिद्धि को प्राप्त हुए ॥३९॥ हे विप्र ! आपका पूछा हुआ सभी विस्तार पूर्वक कह दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो, सो बताओ ॥४०॥ हे ब्रह्मन् ! इस वार्ता को जो सावधानी से पढ़ता अथवा श्रवण करता है ॥४१॥ वह अश्रमेध के अश्रुभृथ स्नान के फल को पाता है, हे मुनीश्वर ! इसके श्रवण से ही सब कुछ प्राप्त होता है ॥४२॥ संसार में विचरण करने वालों की श्रेष्ठ रक्षा यही है, इस अलक-दत्तात्रेय सवाद को श्रवण करके मनुष्य अशुभ से मुक्त हो जाता है ॥४३॥

### ३७ - ब्रह्माण्ड और ब्रह्मोत्पत्ति

सम्यगेतन्ममाख्यातभवद्भिर्द्विजसत्तमा ।  
 प्रवृत्त चनिवृत्त चद्विविध कर्मवैदिकम् ॥१॥  
 अहोपितृप्रसादेनभवताज्ञानमीदृशम् ।  
 येनतिर्यक्त्वमप्येतत्प्राप्यमोहस्तिरस्कृत ॥२॥  
 धन्याभवन्त ससिद्धयै प्रागवस्थास्थितयत ।  
 भवताविषयोद्भूतैर्नमोहैश्चाल्यतेमन ॥३॥  
 दिष्ट्याभगवतातेनमार्कण्डेयेनधीमता ।  
 भवन्तोवैसमाख्याता सर्वसन्देहहृत्तमा ॥४॥  
 ससारेऽस्मिन्मनुष्याणाभ्रमतामतिसङ्कटे ।  
 भवद्विधैःसमसङ्गोजायतेनातपस्विनाम् ॥५॥  
 यद्यहसङ्गमासाद्यभवद्भिर्ज्ञानदृष्टिभिः ।  
 नस्याकृतार्थस्तन्नूननमेऽन्यत्रकृतार्थता ॥६॥  
 प्रवृत्तेचनिवृत्तेचभवताज्ञानकर्मणि ।  
 मतिमस्तमलामन्येयथानान्यस्यकस्यचित् ॥७॥

जैमिनी बोले—हे श्रेष्ठ द्विजो ! वैदिक कर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति भेद से दो प्रकार का है, आपने वह सब मेरे प्रति भले प्रकार कहा है ॥१॥ आपने पिता के अनुग्रह से ऐसा ज्ञान पाया है, उसी ज्ञान के प्रभाव से, तिर्यक् योनि को पाकर भी आप का मोह नष्ट हो चुका है ॥२॥ आपका मन सिद्धि लाभ के लिये पूर्वावस्था में स्थित रहता है, अतः आप धन्य हैं, आपके मन को विषयों से उत्पन्न मोह चलायमान नहीं कर सकता ॥३॥ महामति मार्कण्डेयजी ने सौभाग्य से ही आपका वृत्तान्त कहा था, आप सब सन्देहों को दूर करने वाले हैं ॥४॥ इस सङ्कटमय विश्व में जो भ्रमते हैं, उनके भाग्य में आप जैसे तपस्वियों से मिलना दुर्लभ ही है ॥५॥ आप ज्ञानद्वेषी हैं, यदि आपके सग लाभ से भी मेरा मनोरथ पूर्ण न हुआ तो अन्यत्र कहीं भी नहीं हो सकता ॥६॥ आपको प्रवृत्ति और निवृत्ति के ज्ञान और कर्म में जो विश्व बुद्धि प्राप्त हुई है, वह मेरे विचार में अन्य किसी को नहीं हो सकती, ॥७॥

यदित्वनुग्रहवतीमयिबुद्धिर्द्विजोत्तमा ।  
 भवतातत्समाख्यातुमर्हंतेदमशेषत ॥८  
 कथमेतत्समुद्भूतजगत्स्थावरजङ्गमम् ।  
 कथंचप्रलयकालेपुनर्यास्यतिसत्तमा ॥९  
 कथंचवशादेवर्षिपितृभूतादिसम्भवाः ।  
 मन्वन्तराणिचकथवशानुचरितचयत् ॥१०  
 यावत्यसृष्टयश्चैवयावन्तप्रलयास्तथा ।  
 यथाकल्पविभागश्चयाचमन्वन्तरस्थिति ॥११  
 यथाचक्षितिसस्थानयत्प्रमाराचवैभुव ।  
 यथास्थितिसमुद्राद्रिनिम्नगा काननानिच ॥१२  
 भूर्लोकानिश्चलोकानागराः पातालसश्रय ।  
 गतिस्तथार्कसोमादिग्रहर्क्षज्योतिषामपि ॥१३  
 श्रोतुमिच्छाम्यहसर्वमेतदाभूतसप्लवम् ।  
 उपसहृतेचयच्छेषजगत्यस्मिन्भविष्यति ॥१४

हे श्रेष्ठ द्विजो ! यदि आपकी मति मेरे प्रति अधिक अनुग्रह वाली हुई है, तो मेरे प्रश्न का विस्तार सहित समाधान करिये ॥८॥ इस स्थावरजगम युक्त विश्व की सृष्टि किस प्रकार हुई और यह प्रलय काल मे किस प्रकार लीन होगी ? ॥९॥ देव, ऋषि, पितर, भूतादि की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, और मन्वन्तरो का प्राकट्य कैसे होता है ? ॥१०॥ सम्पूर्णा सृष्टि, समस्त प्रलय, कल्प का विभाग, मन्वन्तरो की स्थिति ॥११॥ पृथिवी का संस्थान और परिमारा पर्वत, शैल, सरिता और वनो का विवरण ॥१२॥ मर्त्यलोक, स्वर्ग और पाताल का विवरण तथा सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि की गति ॥१३॥ इन सबका प्रलय पर्यन्त वर्णन सुनने की अभिलाषा है तथा प्रलयकाल मे उपसहृति होने पर जो जगत् अवशिष्ट रहता है, वह सुनना चाहता हूँ ॥१४॥

प्रश्नभारोऽयमतुल्योयस्त्वयामुनिसत्तम ।

पृष्टस्ततेप्रवक्ष्यामस्तच्छृणुष्वेहजैमिने ॥१५



मार्कण्डेयेनकथितपुराक्रौष्टुकयेयथा ।  
 द्विजपुत्रायशान्तायव्रतस्नातायधीमते ॥१६  
 मार्कण्डेयमहात्मानमुपासीनद्विजोत्तमै ।  
 क्रौष्टुकि परिपप्रच्छयदेतत्पृष्टवान्प्रभो ॥१७  
 तस्यचाकथयत्प्रीत्यायन्मुनिर्भृगुनन्दन ।  
 तत्तो प्रकथयिष्याम शृणुत्वंद्विजसत्तम ॥१८  
 प्रणिपत्यजगन्नाथपद्मयोनिपितामहम् ।  
 जगद्योनिंस्थितसृष्टौस्थितौविष्णुस्वरूपिणम् ।  
 प्रलयेचान्तकर्त्ताररौद्र रुद्रस्वरूपिणम् ॥१९  
 उत्पन्नमात्रस्यपुराब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मन ।  
 पुराणमेतद्वेदाश्रमुखेभ्योऽनुविनि सृताः ॥२०  
 पुराणसहिताश्चक्रुर्बहुलापरमर्षय ।  
 वेदानाप्रविभागश्चकृतस्तैस्तुसहस्रशः ॥२१

पक्षियो ने कहा—हे जैमिने ! आपने यह अत्यन्त प्रश्न भार हम पर डाला है, फिर भी हम उसका वर्णन करते हैं, सुनो ॥१५॥ मार्कण्डेयजी ने जिस प्रकार क्रौष्टुकी के प्रति कहा था, उसे ही कहते हैं ॥१६॥ आपने जो प्रश्न किया, वही क्रौष्टुकी ने मार्कण्डेयजी से किया था ॥१७॥ हे द्विजवर ! भृगुपुत्र ने प्रसन्न चित्त से जो कुछ कहा था, वही सब कहते हैं, सुनो ॥१८॥ जगत् के कारण कमलयोनि पितामह स्वरूप से जो इस-सस्मर को उत्पन्न करते हैं, विष्णु रूप से स्थित करते और रौद्र रूप से प्रलय काल में सहार करते हैं, उन्हीं जगन्नाथ को प्रणाम पूर्वक हम सब कहते हैं ॥१९॥ मार्कण्डेयजी ने कहा पुराकाल में ब्रह्माजी के उत्पन्न होने पर उनके चार मुखों से वेद-पुराण प्रकट हुए ॥२०॥ उम पुराण सहिता को ऋषियो ने अनेक अश में विभाजित किया तथा वेद के भी हजार-हजार विभाग किये ॥२१॥

धर्मज्ञानचवैराग्यमैश्वर्य्यचमहात्मन ।

तस्योपदेशेनविनातानहिसिद्ध चतुष्टयम् ॥२२॥

- वेदान्सप्तर्षयस्तस्माज्जगृह्णस्तस्यमानसा ।  
 पुराणजगृह्णश्चाद्यामुनयस्तस्यमानसा ॥२३  
 भृगो सकाशाच्च्यवनस्तेनोक्त चद्विजन्मनाम् ।  
 ऋषिभिश्चापिदक्षायप्रोक्तमेतन्महात्मभि ॥२४  
 दक्षेणचापिकथितमिदमासीत्तदामम ।  
 तत्तुभ्यकथयाम्यद्यकलिकल्मषनाशनम् ॥२५  
 सवमेतन्महाभागश्रूयतामेसमाधिना ।  
 यथाश्रुतमयापूर्वदक्षस्यगदतोमुने ॥२६  
 प्रणिपत्यजगद्योनिमजमव्ययमाश्रयम् ।  
 चराचरस्यजगतोधातारपरमपदम् ॥२७  
 ब्रह्माणामादिपुरुषमुत्पत्तिस्थितिसयमे ।  
 यत्कारणमनौपम्ययत्रसर्वप्रतिष्ठितम् ॥२८

उनके उपदेश बिना धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ईश्वरीय भाव सिद्ध नहीं हो सकते ॥२२॥ उनके मन से सप्तर्षियों की उत्पत्ति हुई, जिनके समस्त वेद पुराण उनके मानसोत्पन्न अन्य ऋषियों ने ग्रहण किये ॥२३॥ भृगु से उस पुराण को लेकर च्यवन ऋषि ने अन्य ऋषियों पर प्रकट किया और उन ऋषियों ने उसे दक्ष के प्रति कहा ॥२४॥ दक्ष ने ही उसे हमें प्रदान किया है, तभी से यह हमारे पास है, इसके प्रभाव से कलियुग में पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी को तुमसे कहते हैं ॥२५॥ हे मुने ! हम ने दक्ष से जो सुना, वही दत्तचित्त होकर हम से सुनो ॥२६॥ जो जगत् कारण, अजन्मा, अव्यय, चराचर विश्व के एक मात्र आश्रय, धाता एव परमपद रूप है ॥२७॥ जो सृष्टि स्थिति और प्रलय के कारण, आदि पुरुष, अनुपम है तथा सब कुछ उन्हीं में प्रतिष्ठित रहता है ॥२८॥

तस्मैहिरण्यगर्भायलोकतन्त्रायधीमते ।  
 प्रणम्यसम्यग्वक्ष्यामिभूतवर्गमनुत्तमम् ॥२९  
 महदाद्य विशेषान्तसवैरूप्यसलक्षणम् ।  
 प्रमाणौ पचभिर्गम्यस्त्रोतोभिःषड्भिरन्वितम् ॥३०

पुरुषाधिष्ठितनित्यमनित्यमिवचस्थितम् ।  
तच्छ्रूयतामहाभागपरमेणसमाधिना ॥३१  
प्राधानकारणयत्तदव्यक्ताख्यमहर्षयः ।  
यदाहु प्रकृतिसूक्ष्मानित्यासदसदात्मिकाम् ॥३२  
ध्रुवमक्षय्यमजरममेयनान्यसश्रयम् ।  
गन्धरूपरसैर्हीनशब्दस्पर्शविर्वर्जितम् ॥३३  
अनाद्यंतजगद्योनित्रिगुणप्रभवाप्ययम् ।  
असाम्प्रतमविज्ञैर्यब्रह्माग्रे समवर्तत ॥३४  
प्रलयस्यानुतेनेदव्याप्तमासीदशेषतः ।  
गुणसाम्यात्ततस्तस्मात्क्षेत्रज्ञाधिष्ठितान्मुने ॥३५

उन्ही हिरण्य गर्भ को प्रणाम करके अनुपम प्रपच को कहते है ॥२६॥ महत् से विशेष पर्यन्त जो भी भौतिक सृष्टि के विकार और लक्षण है उन सभी को पाँच प्रकार के प्रमाण और षट्छोत सहित कहेंगे ॥३०॥ पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण यह भूत सृष्टि नित्य होकर भी अनित्य के समान अवस्थान करती है, उसे भी कहते हैं, सावधान चित्त से सुनो ॥३१॥ सत्-असत् वाली अव्यक्त कही जाने वाली को महर्षियो ने नित्य सूक्ष्मा प्रकृति कहा है ॥३२॥ जो नित्य, अक्षय, अजर, अपरिमेय, अनाश्रित, निर्गन्ध तथा रूप, रस, शब्द और स्पर्श से परे है ॥३३॥ जो अनादि, अनन्त एव विश्व के उत्पत्ति स्थान है, जिनसे तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई है, जो अविनाशी, अविज्ञेय, सदा विद्यमान और सर्व कारण है, वही प्रधान स्वरूप ब्रह्म सबके समक्ष विराजमान रहकर ॥३४॥ प्रलय के पश्चात् अखिल विश्व को प्राप्त करके स्थित रहते है उन्ही मे परस्पर अनुकूल और अव्याहत रूप से तीनों गुण विद्यमान रहते है ॥३५॥

गुणभावात्सृज्यमानात्सर्गकालेतत पुनः ।  
प्राधानतत्त्वमुद्धूतमहान्ततत्समावृणोत् ॥३६  
यथाबीजत्वचातद्वदव्यक्तेनावृतोमहान् ।  
सात्त्विकोराजसश्चैवतामसश्चित्रिधोदित ॥३७



सम्भवन्तिततो ह्यापश्चासन्वैतारसात्मिका ।  
 रसमात्रन्तुता ह्यापोरूपमात्रसमावृणोत् ॥४४  
 अपश्चापिविकुर्वत्योगन्धमात्रससजिरे ।  
 सघातो जायततस्मात्तस्यन्धोगुणोमत ॥४५  
 तस्मिस्तस्मिस्तुतन्मात्रतेनतन्मात्रतास्मृता ।  
 अविशेषवाचकत्वावविशेषास्ततश्चते ॥४६  
 नशान्तानापिघोरास्तेनमूढाश्चाविशेषत ।  
 भूततन्मात्रसर्गोऽयमहङ्कारात्तुतामसात् ॥४७  
 वैकारिकादहकारात्सत्त्वोद्विक्तात्तुसात्त्विकात् ।  
 वैकारिकससर्गस्तुयुगपत्सप्रवर्तते ॥४८ ।

स्पर्श मात्र वायु मे रूपमात्र ढका रहता है, इससे ज्योति के विकृत होने पर रसमात्र की उत्पत्ति होती है ॥४३॥ इसी के द्वारा रसात्मक जल उत्पन्न होता है जो रूपमात्र से ढका रहता है ॥४४॥ फिर रसमात्र जल की विकृति से गन्धमात्र की उत्पत्ति होती है, उसी से गन्धात्मिका पृथिवी उत्पन्न होती है ॥४५॥ इसी प्रकार जिस-जिस पदार्थ में जो तन्मात्र है, उस-उस के द्वारा ही तन्मात्र की गणना होती है, इसके लिए कोई विशेष वाचक नहीं होता, इसलिए यह भी अविशेष है ॥४६॥ अविशेष होने के कारण वह शान्त, घोर अथवा मूढ नहीं है, इस प्रकार भूत तन्मात्र की उत्पत्ति अहङ्कार से ही होती है ॥४७॥ सत्त्वोद्विक्त सात्त्विक और वैकारिक अहङ्कार से एक संग ही वैकारिक सृष्टि की प्रवृत्ति है ॥४८॥

( बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैव पचकर्मन्द्रियाणि च ।  
 तैजसानीन्द्रियाण्याहुर्देवा वैकारिका दश ॥४९  
 एकादशं मनस्तत्र देवा वैकारिकाः स्मृताः ।  
 श्रोत्रत्वक्चक्षुषी जिह्वानासिका चैव पचमी ॥५०  
 शब्दादीनामावाप्त्यर्थं बुद्धियुक्तानिवक्ष्यते ।  
 पादौ पायुरस्थश्च हस्तौ वाक्पचमी भवेत् ॥५१

गतिर्विसर्गोह्यानन्द शिल्पवाक्यचकर्मतत् ।  
 आकाशशब्दमात्रनुस्पर्शमात्रसमाविशत् ॥५२  
 द्विगुणोजायतेवायुस्तस्यस्पर्शोगुणोमतः ।  
 रूपतथैवाविशत शब्दस्पर्शगुणावुभौ ॥५३  
 त्रिगुणस्तुततश्चाग्नि सशब्दस्पर्शरूपवान् ।  
 शब्द स्पर्शश्चरूपचरसमात्रसमाविशत् ॥५४  
 तस्माच्चतुर्गुणाह्यापोविज्ञेयास्तारसात्मिकाः ।  
 शब्द स्पर्शश्चरूपचरसोगन्धसमाविशत् ॥५५  
 सहतागन्धमात्रेणावृण्वस्तेमहीमिमाम् ।  
 तस्मात्पचगुणाभूमि स्थूलाभूतेषुदृश्यते ॥५६

पच ज्ञानेन्द्रिय और पच कर्मेन्द्रिय तैजस इन्द्रिय कही गयी है, यह वैका-  
 रिक दश देवता होते हैं ॥४६॥ ग्यारहवाँ मन मिलाकर ग्यारह देवता हुए,  
 श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, रसना और नासिका ॥५०॥ इनसे शब्दादि का बोध होता है  
 इसीलिये इन्हे बुद्धीन्द्रिय कहा गया है, चरण, गुद, उपस्थ, हाथ और जिह्वा  
 ॥५१॥ इत्यादि कर्मेन्द्रिय कही गयी है, इनके द्वारा चलना, मल त्यागना, मैथुन,  
 शिल्प और कथन यह कार्य होते हैं, शब्द मात्र आकाश स्पर्श मात्र मे समाविष्ट  
 होकर ॥५२॥ द्विगुण वायु को उत्पन्न करता है, उसका विशेष गुण वायु ही  
 है, शब्द और स्पर्श यह दोनो गुण रूप मे समाविष्ट होकर ॥५३॥ त्रिगुण  
 अग्नि की उत्पत्ति करते हैं, यह अग्नि, शब्द और रूप गुण से युक्त है, शब्द,  
 स्पर्श और रूप रसमात्र मे समावेश करके ॥५४॥ चतुर्गुण रसात्मक जल की  
 सृष्टि करते हैं और अन्त मे शब्द, स्पर्श, रूप और रस के गन्धमात्र मे समावेश  
 करने से ॥५५॥ उनके साथ मिलकर इस पृथिवी की आवृत्ति करते हैं, इसीलिये  
 भूतो मे पचगुणात्मिका स्थूलाकार वाली पृथिवी दिखायी देती है ॥५६॥

शान्ताघोराश्चमूढाश्चर्विशेषास्तेनतेस्मृता ।

परस्परानुप्रवेशाद्वासयन्तिपरस्परम् ॥५७

भूमेरन्तस्त्वमंसर्वलोकालोकघनावृतम् ।

विशेषाश्चेन्द्रियग्राह्यानियतत्वाच्चतेस्मृताः ॥५८

गुणपूर्वस्यपूर्वस्यप्राप्नुवन्त्युत्तरोत्तरम् ।  
 नानावीर्या पृथग्भूता सप्ततेसर्हतविना ॥५९  
 नागक्नुवन्प्रजा स्रष्टुमसमागम्यकृत्स्नश ।  
 सयेत्यान्योन्यसयोगमन्योन्याश्रयिणाश्रते ॥६०  
 एकसघातचिह्नाश्रसप्राप्यैक्यमशेषत ।  
 पुरुषाधिष्ठित्वाच्चभव्यक्तानुग्रहेणच ॥६१  
 महदाद्याविशेषान्ताह्यण्डमुत्पादयन्तिते ।  
 जलबुद्बुदवत्तत्रक्रमाद्बृद्धिमागतम् ॥६२  
 भूतेभ्योऽण्ड महाबुद्धे बृहत्तदुदकेशयम् ।  
 प्रकृतेऽण्डेविवृद्धे सन्क्षेत्रज्ञाब्रह्मसंज्ञित ॥६३

इसी कारण वह शान्त, घोर और मूढ कहे गये है, यह परस्पर एक दूसरे को धारण करते है ॥५७॥ यह सभी लोकालोक भूमि के अन्तर मे निविष्ट रह कर, नियन्त्र के कारण इन्द्रिय ग्राह्य विशेष' कहे गये है ॥५८॥ पहिले-पहिले के गुण उत्तरोत्तर मे प्रविष्ट होते है, जब तक यह अनेक वीर्य वाले सात पदार्थ परस्पर नही मिलते, ॥५९॥ तब तक सृष्टि करने मे समर्थ नही होते, जब यह परस्पर मिल कर एक दूसरे के अवलम्बन से ॥६०॥ भले प्रकार से एकता को पाते है और जब पुरुष का अधिष्ठान और प्रकृति का अनुग्रह प्राप्त करते है ॥६१॥ तभी महत् से विषय तक इन सब मे अण्ड की उत्पत्ति करते है, यह अण्ड जल के बुलबुले के समान जल मे रह कर ही क्रमश बढता रहता है ॥६२॥ जन मे स्थित यह अण्ड भूतो से बृहत् है, ब्रह्म संज्ञा वाले क्षेत्रज्ञ भी उस प्राकृत अण्ड मे बढते है ॥६३॥

सर्वैशरीरीप्रथम सर्वैपूरुषउच्यते ।  
 आदिकर्त्ताचिभूतानाब्रह्माग्रेसमवर्तत ॥६४  
 तेनसर्वमिदव्याप्तत्रैलोक्यसचराचरम् ।  
 मेरुस्तस्यःनुसभूतोजरायुश्चापिपर्वता ॥६५  
 समुद्रागर्भसलिलतस्याण्डस्यमहात्मन ।  
 तस्मिन्नण्डेजगत्सर्वसदेवासुरमानुषम् ॥६६

द्वीपाद्यद्रिसमुद्राश्चसज्योतिर्लोकसग्रह ।  
जलानिलानलाकाशैस्ततोभूतादिनाबहि ॥६७  
वृतमण्ड दशगुणैरेकं कत्वेनतै पुन ।  
महतातत्प्रमाणेनसहैवानेनवेष्टित ॥६८  
महास्तैसयुतः सर्वैरव्यक्तेनसमावृत ।  
एभिरावरणैरण्ड सप्तभिः प्रकृतैर्वृतम् ॥६९

वही प्रथम देह और पुरुष नाम वाले है, वही भूतो के आदिकर्ता ब्रह्मा है, वही इन सब से आगे प्रतिष्ठित होते है ॥६४॥ वही चराचर तीन लोको को व्याप्त कर रहे है, उस बृहद् अण्ड मेरु पर्वत जरायु ॥६५॥ और समुद्र गर्भजल है, सुर असुर, मनुष्यादि से परिपूर्ण सम्पूर्ण विश्व उस अण्ड मे है ॥६६॥ द्वीप, पर्वत, समुद्र, ज्योति आदि के सहित सभी लोक उममे स्थित है, जल, वायु, अग्नि और आकाश भूतादि के सहित ॥६७॥ प्रत्येक ही उत्तरोत्तर दशगुण के नियम से बाहर के भाग मे उस अण्ड को घेरे रहते है, इसके अतिरिक्त महत्त्व ने इसी प्रमाण से उनके साथ अण्ड का आच्छादन किया हुआ है ॥६८॥ इस महत्त्व के सहित अण्ड को ढक कर प्रकृति सुशोभित हाती है, इस प्रकार सात प्राकृतिक आवरणो द्वारा वह अण्ड ढका हुआ है ॥६९॥

अन्योन्यमावृत्यचताग्रष्टौप्रकृतय स्थिताः ।  
एषासाप्रकृतिर्नित्यातदन्त पुत्सुषश्चस ॥७०  
ब्रह्माख्य कथितोयस्तेसमासाच्छ्र यतापुन ।  
यथामग्नोजलेकश्चिदुन्मज्जलसम्भवम् ॥७१  
वलयक्षिपतिब्रह्मासतथाप्रकृतीर्विभु ।  
अव्यक्त क्षेत्रमुद्दिष्टब्रह्माक्षेत्रज्ञउच्यते ॥७२  
एतत्समस्तजानीयात्क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणम् ।  
इत्येषप्राकृत सर्गं क्षेत्रज्ञाधिष्ठितस्तनुस ।  
अबुद्धिपूर्व प्रथम प्रादुर्भूतस्तडिद्यथा ॥७३

इसी प्रकार आठ प्रकृति परस्पर को ढक कर विद्यमान है, इन प्रकृतियो को नित्य स्वरूप समझो, इनके अन्त मे वह पुरुष विद्यमान है ॥७०॥ तुमसे



जिस ब्रह्म सजक पुरुष का वर्णन किया, उसका विषय अब सक्षिप्त रूप से कहता हूँ, जल में डुबा हुआ मनुष्य जैसे जल में से उठने समय जल में प्रकट ॥७१॥ द्रव्य को फैकता है, उसी प्रकार ब्रह्मा को प्रकृति का स्वामी समझो, क्योंकि प्रकृति क्षेत्र और ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ है ॥७२॥ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के लक्षण यही है, इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ से अधिष्ठित प्राकृत सृष्टि अबुद्धि सहित प्रथम विद्यत् के समान प्रकट हुई ॥७३॥

### ३८— ब्रह्माजी की आयु का परिमाण

भगवस्त्वण्डसभूर्तिर्यथावत्कथितामम ।  
 ब्रह्माण्डेब्रह्मणोजन्मतथाचोक्तमहात्मन ॥१  
 एतदिच्छाम्यहथोतु त्वत्तोभृगुकुलोद्भव ।  
 यदानसृष्टिभूर्तानामस्तिकिनुनचास्तिवा ।  
 कालेवंप्रलयस्यान्तेसर्वस्मिन्नुपसहृते ॥२  
 यदानुप्रकृतौयातिलयविश्वमिदजगत् ।  
 तदोच्यतेप्राकृतोऽयविद्वद्भिःप्रतिसचर ॥३  
 स्वात्मन्यवस्थितेऽव्यक्तेविकारेप्रतिसहृते ।  
 प्रकृति पुरुषश्चैवसाधर्म्येणावतिष्ठत ॥४  
 तदातमश्रसत्त्वचसमत्वेनगुणौस्थितौ ।  
 अनुद्विक्तावनूनौचओतप्रोतौपरस्परम् ॥५  
 तिलेषुवायथातैलधृतपयसिवास्थितम् ।  
 तथातमसित्वेचरजोऽप्यनुसृतस्थितम् ॥६

कौण्डिकि ने कहा—हे भगवन् ! आपने अणु की सृष्टि और ब्रह्माण्ड में ब्रह्माजी के जन्म को यथावत् कहा है ॥१॥ हे भृगुवशोत्पन्न ! जब प्रलय के अवमान में तब हुई सृष्टि अविद्यमान थी, तब फिर भूतो की उत्पत्ति किम प्रकार हुई ? वही सब मुनना चाहता हूँ ॥२॥ मार्कण्डेयजी ने कहा—जब यह सप्तर

प्रकृति मे लीन हो जाता है, उसी अवस्था को विद्वानो ने प्रलय कहा है ॥३॥  
जब आत्मा मे अवस्थित हो जाती है, तब सब पदार्थ अदृश्य हो जाते है, जब  
प्रकृति-पुरुष दोनो साधर्म्य मे प्रतिष्ठित होते है ॥४॥ उस समय सत्व और तम  
दो ही गुण समान भाव से अधिष्ठान करते हे, उस समय उनमे से कोई बढता  
या घटता नही, वे दोनो ताने-बाने के समान समभाव से परस्पर सयुक्त अधि-  
ष्ठित रहते है ॥५॥ जैसे तिल मे तेल और दूध मे घी विद्यमान है, वैसे ही  
सतोगुण और तमोगुण मे रजोगुण विद्यमान रहता है ॥६॥

उत्पत्तिर्ब्रह्मणोयावदायुर्वेद्विपरार्द्धिकम् ।

तावद्दिनपरेशस्यतत्समासयमेनिशा ॥७

(अष्टौयुगसहस्राणिअहोरात्रप्रजापते ।

अनेनैवतुमानेनशतब्रह्मासजीवति ।

पितामहशतेनैवविष्णोर्मानिविधीयते ।

निमेषार्धेनशभोस्तुसहस्राणिचतुर्दश ।

विनश्यतितथाविष्णोरसख्यातापितामहा ।)

अहमुखेप्रबुद्धस्तुजगदादिरनादिमान् ।

सर्वं हेतुरचिन्त्यात्मापरकोऽप्यपरक्रिय ॥८

प्रकृतिपुरुषचैवप्रविश्याशुजगत्पति ।

क्षोभयामासयोगेनपररेणपरमेश्वर ॥९

यथामदोनत्रस्त्रीणा यथावामाधवानिल ।

अनुप्रविष्टक्षोभायतथासौयोगमूर्त्तिमान् ॥१०

प्रधानेक्षोभ्यमाणेतुसदेवोब्रह्मासजित ।

समुत्पन्नोऽण्डकोषस्थोयथातेकथितमया ॥११

सएवक्षोभकपूर्वसक्षोभ्यप्रकृतेपति ।

ससकोचविकाशाभ्याप्रधानत्वेऽपिसस्थित ॥१२

उत्पन्नसजगद्योनिरगुराोऽपिरजोगुणम् ।

भुञ्जन्प्रवर्ततेसर्गेब्रह्मत्वसमुपाश्रित ॥१३

ब्रह्माजी की आयु का परिमाण द्विपराद्धं पर्यन्त है, जो परिमाण उनके दिन का है, उतना ही उनकी रात्रि का है ॥७॥ (आठ हजार का प्रजापति का एक अहोरात्र होता है, इसी परिमाण से ब्रह्माजी की आयु सौ वर्ष की है, ब्रह्माजी की सौ आयुओं के बराबर विष्णु की आयु होती है, शिव के अर्द्ध-निमेष में चौदह हजार विष्णु होजाते हैं ब्रह्मा कितने होते हैं ? इसकी सख्या नहीं है) वह विश्व के आदि है, उनका आदि नहीं, वह सब के कारण, अचिन्त्यात्मा परमेश्वर और क्रियातीत है ॥८॥ वह जगदीश्वर परम योग के निमित्त प्रकृति और पुरुष में प्रवेश करके उनका विशोभ करते हैं ॥९॥ जिस प्रकार मद अथवा वसत समीर नवयुवतियों के हृदय को क्षोभित करते हैं, वैसे ही ब्रह्माजी प्रकृति और पुरुष को क्षोभित करते हैं ॥१०॥ प्रकृति को क्षोभित कर वह ब्रह्मा सन्नक देव अण्डकोप में स्थिर होकर समुत्पन्न होते हैं, यह मैंने तुम्हारे प्रति वर्णन किया है ॥११॥ पहिले तो वे क्षोभित करते हैं फिर प्रकृति के स्वामी होकर स्वयं क्षोभित होते हैं, इस प्रकार सञ्चोच और विकास से वह प्रकृति में प्रतिष्ठित रहते हैं ॥१२॥ वह जगद्धीनि निर्गुण होते हुए भी प्रकट होकर रजोगुण के अवलम्ब से ब्रह्मा के रूप में आविर्भूत होकर सृष्टि के उद्यम में लगते हैं ॥१३॥

ब्रह्मत्वेसप्रजा सृष्ट्वातत सत्त्वातिरेकवान् ।

विष्णुत्वमेत्यधमरणकुरुतेपरिपालनम् ॥१४

ततस्तमोगुणोद्रिक्तोरुद्रत्वेचाखिलजगन् ।

उपसहृत्यवैशेतेत्रैलोक्यत्रिगुणोऽगुण ॥१५

यथाप्रागव्यापक क्षेत्री पालकोलावकस्तथा ।

तथाससन्नामाप्नोतिब्रह्मविष्णुहरात्मिकाम् ॥१६

ब्रह्मत्वेसृजतेलोकान् रुद्रत्वेसहृत्यपि ।

विष्णुत्वेचाप्युदासीनस्तिस्त्रोऽवस्था स्वयम्भुवः ॥१७

रजोब्रह्मातमोरुद्रोविष्णु सत्त्वजगत्पति ।

एतएवत्रयोदेवाएतएवत्रयोगुणाः ॥१८

अयोन्यमिथुनाह्ये तेग्रन्योन्याश्रयिणस्तथा ।  
 क्षणवियोगो न ह्योपानत्यजन्ति परस्परम् ॥१६  
 एव ब्रह्मा जगत्पूर्वो देवदेवश्चतुर्मुखः ।  
 रजोगुणसमाश्रित्य स्रष्टृत्वे सव्यवस्थित ॥२०

ब्रह्मा रूप सृजन कार्य करके सतोगुण के आधिक्य से विष्णु रूप होकर प्रजा-पालन करते है ॥१४॥ फिर तमोगुण का उद्वेग होने पर रुद्र रूप धारण कर सहार करके शयन करते है, इस प्रकार वह निर्गुण ब्रह्म तीनो काल मे तीनो गुणो का अवलम्बन करते है ॥१५॥ सर्व जनक, सर्वव्यापी ईश्वर इस प्रकार, सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के कारण ही उनकी सज्ञा ब्रह्मा, विष्णु और शिव होती है ॥१६॥ वह ब्रह्म रूप मे सब लोको को उत्पन्न, रुद्र रूप मे सहार और विष्णु रूप मे उदासीन होकर रहते है, स्वयम् भगवान् की यह तीन अवस्था है ॥१७॥ ब्रह्मा रजोगुण, रुद्र तमोगुण और विष्णु सतोगुण है ॥१८॥ यह त्रिदेव तीन गुण रूप मे परस्पर के आश्रय पूर्वक स्थित रहते है, यह क्षण भर को भी विद्युक्त नही होते ॥१९॥ इस प्रकार जगत् के आदि देव चतुर्मुखी ब्रह्मा रजोगुण के आश्रय मे सृष्टि कार्य मे प्रवृत्त होते है ॥२०॥

हिरण्यगर्भो देवादि रनादिरुपचारतः ।

भूपद्मकर्णिकासस्थो ब्रह्माग्रे समजायत ॥२१

तस्य वर्षशतत्वेकपरमायुर्महात्मन ।

ब्राह्मचर्यगौवहिमानेन तस्य सख्यान्यनिबोधमे ॥२२

निमेषैर्दशभिः काष्ठा तथा पञ्चभिरुच्यते ।

कलास्त्रिंशच्च वैकाष्ठा मुहूर्त्ती त्रिंशद्देवता ॥२३

अहोरात्रमुहूर्त्तानां नृणां त्रिंशत्तु वै स्मृतम् ।

अहोरात्रैश्च त्रिंशद्भिः पक्षौ द्वौ मास उच्यते ॥२४

तै षड्भिरयनवर्षद्वयेनेदक्षिणोत्तरे ।

तद्देवानामहोरात्रदिनतत्रोत्तगयणम् ॥२५

दिव्यैर्वर्षसहस्रैस्तु कृतत्रेतादिसंज्ञितम् ।

चतुर्गुणाद्वा दशभिस्तद्विभागशृणुष्वमे ॥२६

चत्वारित्सहस्राणिवर्षाणाकृतमुच्यते ।  
 शतानिसन्ध्याचत्वारिसन्ध्याशश्रतथाविध ।  
 त्रेतात्रीणिसहस्राणिदिव्याब्दानाशनत्रयम् ।  
 तस्यसन्ध्यासमाख्यातामध्याशश्रतथाविध ॥२८

वह देवताओं के आदि रूप हिरण्य गर्भ एक प्रकार से आदि रहित है ॥२१॥ वह भूपद्मकणिका का आश्रय करके मब से पहिले प्रकट होते है ॥२२॥ उनकी परमायु ब्राह्म मान से सौ वर्ष की है, उनकी सख्या का वर्णन करता हूँ, मुनो ॥२२॥ पन्द्रह निमेष की काष्ठा, तीस काष्ठा की एक कला, तीस कला का एक मुहूर्त्त ॥२३॥ और तीस मुहूर्त्त का मनुष्यो का एक अहोरात्र होना है, तीस अहोरात्र अथवा दो पखवा १ का एक माम होना है ॥२४॥ छ मास का एक अयन और दो अयन का एक वर्ष होना है, दक्षिणायन और उत्तरायण के भेद से अयन दो प्रकार का है, इस प्रकार मानव-मान से एक वर्ष का देवताओं का एक अहोरात्र होना है, उसमे उत्तगयण देवताओं का दिन है ॥२५॥ देवताओं के परिमाण से बारह वर्ष की एक चतुर्युगी होती है, अब उन चारो युगो का विभाग वर्णन करता हूँ ॥२६॥ चार हजार दिव्य वर्षों का सत्ययुग तथा उमकी सध्याश के चार-चार सौ वर्ष होने है ॥२७॥ तीन हजार दिव्य वर्षों का त्रेतायुग और उसकी माय तथा सध्याश के तीन-तीन सौ वर्ष होते है ॥२८॥

द्वापरद्वेसहस्रेतुवर्षाणाद्वेगतेतथा ।  
 तस्यसन्ध्यासमाख्याताद्वेशताब्देनदशक ॥२९  
 कलिसहस्रदिव्यानामब्दानाद्वित्रसत्तम ।  
 सन्ध्यासन्ध्याशकञ्चैत्रशनकौममुदाहृतौ ॥३०  
 एपाद्वादशसाहस्रीयुगाख्याकविभि कृता ।  
 एतत्सहस्रगुणितमहोब्राह्ममुदाहृतम् ॥३१  
 ब्रह्मणोदिवसेब्रह्मन्मनवस्युश्चतुर्दश ।  
 भवन्तिभागशस्तेपासहस्रतद्विभज्यते ॥३२

देवा सप्तर्षय सेन्द्रामनुस्तत्सूनवोनृपा ।  
 मनुनासहसृज्यन्तेसह्यन्तेचपूर्ववत् ॥३३  
 चतुर्युगानासख्यातासाधिकाह्येकसप्ततिः ।  
 मन्वन्तरतस्यसख्यामानुषाब्दैर्निबोधमे ॥३४  
 त्रिंशत्कोऽयस्तुसम्पूर्णासख्याता सख्ययाद्विज ।  
 सप्तषष्टिस्तथान्यानिनियुतानिचसख्यया ॥३५  
 विशतिश्चसहस्राणिकालोऽयसाधिकविना ।  
 एतन्मन्वन्तरप्रोक्तदिव्यैर्वर्षैर्निबोधमे ॥३६

दो हजार दिव्य वर्षों का द्वापर, उसकी सध्या-सध्याश के दो-नो सौ वर्ष होते हैं ॥२९॥ एक हजार दिव्य वर्ष का कलियुग तथा उसकी सध्या-सध्याश के एक एक सौ वर्ष होते हैं ॥३०॥ इस प्रकार से चारो युग का परिमाण कवियों ने बारह हजार दिव्य वर्षों में विभक्त किया है, इसको सहस्र गुणा करने पर जो समय होता है, वही ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है ॥३१॥ ब्रह्मा के इस एक दिन में चौदह मनु हो जाते हैं, उनका सहस्र विभाग कहा गया है ॥३२॥ इन्द्रादि देव, सप्तर्षि, मनु और मनुपुत्र राजा मन्वन्तर सहित उत्पन्न होते और पहिले के समान नष्ट होजाते हैं ॥३३॥ इकहत्तर चतुर्चुंगियों का एक मन्वन्तर होता है, इसकी सख्या मानव मान के अनुसार कहता हूँ ॥३४॥ तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार मानव वर्ष का एक मन्वन्तर होता है, अब दिव्य मान के अनुसार सुनो ॥३५-३६॥

अष्टौवर्षसहस्राणिदिव्ययासख्ययायुतम् ।  
 द्विपञ्चाशत्तथान्यानिसहस्राण्यधिकानितु ॥३७  
 चतुर्दशगुणोऽह्येषकालोब्राह्मण्यमहस्मृतम् ।  
 तस्यान्तेप्रलयप्रोक्तोब्राह्मणोऽनैमित्तिकोबुधैः ॥३८  
 भूर्लोकोऽथभुवर्लोकस्वर्लोकस्तन्निवासिनः ।  
 तद्वासिनोऽपितापेनजनलोकप्रयान्तिवै ।  
 एकार्णवेचत्रैलोक्येब्रह्मास्वपितिवैनिशि ॥४०

तत्प्रमाणैवसारात्रिस्तदन्तेसृज्यतेपुन ।  
 एवतुब्रह्माणोवर्षमेकवर्षशततुतत् ॥४१  
 शतहितस्यवर्षाणापरमित्यभिधीयते ।  
 पचाशद्भिस्तथावर्षे परार्द्धमितिकीर्त्यते ॥४२  
 एकमस्यपरार्द्धं तुव्यतीतद्विजसत्तम ।  
 यस्यान्तेऽभून्महाकल्प पाद्मइत्यभिविश्रुत ॥४३  
 द्वितीयस्यपरार्द्धं स्यवर्त्तमानस्यवैद्विज ।  
 वाराहइतिकल्पोऽयप्रथम परिकल्पित ॥४४

आठ लाख बावन सहस्र दिव्य वर्ष का परिमाण एक मन्वन्तर को होता है ॥३७॥ इतने काल को चौदह गुणा करने पर एक करोड़ उन्नीस लाख अष्टा-ईस हजार दिव्य वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन होता है, इस ब्रह्म दिवस के अन्त में जो प्रलय होता है, उसी को ज्ञानीजन नैमित्तिक प्रलय कहते हैं ॥३८॥ भूलोक, भुवलोक और स्वलोक में निवास करने वाले जीव, इन लोको के नष्ट होने पर महलोक में जाकर निवास करते हैं ॥३९-४०॥ जो परिमाण ब्रह्माजी के दिन का है, उतना ही उनका रात्रि का है, रात्रि के अन्त में सृजन कार्य का पुनरारम्भ होता है, इस प्रकार से ब्रह्मा का एक वर्ष होता है ॥४१॥ एक सौ वर्ष का पर और पाच सौ वर्ष का एक परार्द्ध होता है ॥४२॥ हे द्विजोत्तम ! इस प्रकार ब्रह्माजी का एक परार्द्ध बीत चुका है, उसी के अन्त में 'पाद्म' सजक महाकल्प उपस्थित हुआ था ॥४३॥ अब यह 'वाराह कल्प' नामक द्वितीय परार्द्ध है, यही प्रथम कल्प कहा गया है ॥४४॥

### ३९—प्राकृत और वैकृत सृष्टि

यथाससर्जवैब्रह्माभगवानादिकृत्प्रजा ।  
 प्रजापति पतिर्देवस्तन्मेविस्तरतोवद ॥१  
 कथयाम्येषतेब्रह्मन्ससर्जभगवान्यथा ।  
 लोककृच्छ्राश्वत कृत्स्नजगत्स्थावरजगमम् ॥२

पाद्मावसानसमयेनिशासुमौत्थित प्रभुः ।  
 सत्त्वोद्विक्तस्तदाब्रह्माशून्यलोकमवैक्षत ॥३  
 इमचोदाहरन्त्यत्रलोकनारायणप्रति ।  
 ब्रह्मस्वरूपिणादेवजगत प्रभवाप्ययम् ॥४  
 आपो नाराइतिप्रोक्ताआपोवैनरसूनव ।  
 तासुशेतेसयस्माच्चतेनानानायण स्मृत ॥५  
 विबुद्ध सलिलेतस्मिन्विधाग्रान्तर्गतामहीम् ।  
 अनुमानात्समुद्धारकर्तुकामस्तदाक्षिते ॥६  
 अकरोत्सतनूरन्या कल्पादिषुयथापुरा ।  
 मत्स्यकूर्मादिकास्तद्बद्धाराहवपुरास्थित ॥७

क्रौष्टुकि बोले—जिस प्रकार आदि स्रष्टा ब्रह्माजी ने प्रजा की उत्पत्ति की, वह मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइये ॥१॥ मार्कण्डेयजी ने कहा—अनादि भगवान् श्री ब्रह्माजी ने इस स्थावर जगममय विश्व की जिस प्रकार रचना की वह आपके प्रति वर्णन करना हूँ ॥२॥ पादम नामक प्रलय के अवसान होने पर सत्त्वगुण उद्रेक वाले ब्रह्माजी रात्रि के व्यतीत होने पर शयन से जाग्रत हुए तब उन्होंने सम्पूर्ण भुवन को शून्य देखा ॥३॥ उस समय जगत्कारण नारायण के विषय में यह कहा जाता है ॥४॥ जल शब्द को नार कहा गया है, उस नार में यह शयन करते हैं, इस लिये वह नारायण कहे जाते हैं ॥५॥ नारायण ने जाग कर पृथिवी को जल में डूबा हुआ जाना और उसे निकालने की इच्छा से ॥६॥ पूर्व कल्पो में मत्स्य या कूर्म आदि के समान बाराह रूप धारण किया ॥७

वेदयज्ञमयदिव्यवेदयज्ञमयोविभु ।  
 रूपकृत्वाविवेशापसुसर्वग सर्वसम्भवः ॥८  
 समुद्धृत्यचपातालान्मुमोचसलिलेभुवम् ।  
 जनलोकस्थितै सिद्धैश्चिन्त्यमानोजगत्पति ॥९  
 तस्योपरिजलौघस्यमहतीनौरिवस्थिता ।  
 विस्तृतत्वात्तुदेहस्यनमहीयातिसप्लवम् ॥१०



तत क्षितिसमीकृत्यपृथिव्यांसोऽसृजद्गिरीन् ।  
 प्राक्सर्गेदह्यमानेनुतदासवर्तकाग्निना ॥११  
 तेनाग्निनाविशीर्णास्तेपर्वताभुविसर्वशः ।  
 शलाएकार्णावेमग्नावायुनापस्तुसहता ॥१२  
 निपक्तायत्रयत्रासस्तत्रतत्राचलाभवन् ।  
 भूविभागतत कृत्वासप्तदीपोपशोभितम् ॥१३  
 भूराद्याश्चतुरोलोकान्पूर्ववत्समकल्पयत् ।  
 सृष्टिचिन्तयतस्तस्यकल्पादिषुयथापुरा ॥१४

वह वेदमय प्रभु दिव्य वेदमय स्वरूप को धारण करके बाराह रूप से जल में घुसे ॥८॥ श्री पाताल से निकाल कर पृथिवी को जल पर स्थापित किया और फिर देखने लगे ॥९॥ कि वह नौका के समान जल पर डोलती है, विस्तृत होने के कारण स्थिर नहीं होती ॥१०॥ फिर उन्होंने पृथिवी को समान करके पर्वतों की रचना की, पहिले सृष्टि को सम्बर्तक अग्नि से दग्ध किया था ॥११॥ वह सभी पर्वत उस अग्नि के ताप से विशीर्ण हो कर समुद्र में मग्न हो गये थे, उस समय वहा का जल भी वायु के द्वारा एकत्र हो गया था ॥१२॥ हम लिये पर्वत जहा जहा पडे थे, वही-वही अचल हो गये, फिर सप्त द्वीप के रूप में पृथिवी को विभक्त करके ॥१३॥ पहिले के समान ही भूलोक आदि चार लोको का विभाग किया, और पूर्व कल्पो के समान ही सृष्टि विषयक विचार करने लगे ॥१४॥

अबुद्धिपूर्वकस्तस्मात्प्रादुर्भूतस्तमोमय ।  
 तमोमोहोमहामोहस्तामिस्त्रोह्यन्धसञ्जित ॥१५  
 अविद्यापचपूर्वेषाप्रादुर्भूतामहात्मन ।  
 पचधावस्थित सर्गोऽध्यायतोऽप्रतिबोधवान् ॥१६  
 बहिरन्तश्चाप्रकाशः स तृतात्मानगात्मक ।  
 मुख्यानगायतश्चोक्तामुख्यसर्गस्ततस्त्वयम् ॥१७  
 तदृष्ट्वासाधकसर्गमन्यदपरपुन ।  
 तस्याभिध्यायत सर्गतिर्यक्स्रोतोह्यवर्तत ॥१८

यस्मात्तिर्यक्प्रवृत्ति सातिर्यक्स्रोतस्ततःस्मृत ।  
 पश्चादयस्तेविख्यातास्तम प्रायाह्यवेदिन ॥१६  
 उत्पथग्राहिणश्चैवतेऽज्ञानेज्ञानमानिन ।  
 अहकृता अहमानाअष्टाविशद्विधात्मकाः ॥२०

तव तमोयुक्त तम, मोह तामिस्र, अन्धतामिस्र नामक ॥१५॥ पाच अविद्या उनसे उत्पन्न हुई, इम प्रकार के चिन्तन से अप्रतिबोध वाली सृष्टि की की पाच प्रकार से स्थिति हुई ॥१६॥ वह सवृत्तात्मक और पर्वत स्वरूप अपने भीतर बाहर सर्वत्र अप्रकाशित थी, पर्वत प्रधान होने के कारण वह सृष्टि मुख्य सर्ग सजा वाली कही गई है ॥१७॥ इस असाधक सृष्टि को देख कर उन्होंने अन्य सृष्टि की इच्छा की तो उनके ध्यान से तिर्यक्स्रोत की प्रवृत्ति हुई ॥१८॥ उस तिर्यक्स्रोत के प्रवाहित होने से इसके द्वारा अधिक तमोगुणी सृष्टि अर्थात् पशु आदि अज्ञानी उत्पन्न हुए ॥१९॥ वह उन्मार्गी अज्ञान को ही ज्ञान मानने लगे, अहकारी अहमानी वे अठ्ठाईस प्रकार के हुए ॥२०

अन्त प्रकाशास्तेसर्वेऽवृतास्तुपरस्परम् ।  
 तमप्यासाधकमत्वाध्यायतोऽन्यस्ततोऽभवत् ॥२१  
 ऊर्ध्वस्रोतस्तृतीयस्तुसात्त्विकोर्ध्वमवर्तत ।  
 तेसुखप्रोतिबहुलावहिरन्तस्त्वनावृता ॥२२  
 प्रकाशाबहिरन्तश्चऊर्ध्वस्रोत समुद्भवः ।  
 तुष्टात्मनस्तृतीयस्तुदेवसर्गोऽहिस स्मृतः ॥२३  
 तस्मिन्सर्गेऽभवत्प्रीतिर्निष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा ।  
 ततोऽयमतदादध्यौसाधकसर्गमुत्तमम् ॥२४  
 तथाभिध्यायतस्तस्यसत्याभिध्यायिनस्तत ।  
 प्रादुर्वभौतदाव्यक्तादवक्स्रोतस्तुसाधक ॥२५  
 यस्मादवर्गव्यवर्तन्तततोऽवक्स्रोतसस्तुते ।  
 तेचप्रकाशबहुलास्तमोद्रित्कारजोऽधिका ॥२६  
 तस्मात्ते दु खबहुलाभूयोभूयश्चकारिणः ।  
 प्रकाशाबहिरन्तश्चमनुष्या साधकाश्चते ॥२७

पञ्चमोऽनुग्रह सर्ग सचतुर्धाव्यवस्थित ।

विपर्ययेणसिद्ध्याचशान्त्यातुष्ट्यातथैवच ॥२८

यह सब अन्त प्रकाश और एक दूसरे को ढक कर स्थित है, इस सृष्टि को उन्होंने असाधक समझ कर और चिन्तन किया तो ॥२१॥ ऊर्ध्व पथ गामी तृतीय स्रोत प्रवाहित होने लगा, उससे जिनकी उत्पत्ति हुई, वह सुख और प्रीति की अधिकता वाले तथा बाहर और अन्तर में अनावृत्त ॥२२॥ बाह्याभ्यन्तर में प्रकाश वाले और तुष्टात्मा थे, यह तीसरी सृष्टि देव सर्ग कही गयी ॥२३॥ इस सृष्टि को उत्पन्न करके ब्रह्माजी अत्यन्त सन्तुष्ट हुए और फिर उन्होंने श्रेष्ठ साधक सर्ग का चिन्तन किया ॥२४॥ उनके चिन्तन करने पर अव्यक्त से अर्वा-क्स्रोत नामक साधक सर्ग की उत्पत्ति हुई ॥२५॥ ऊर्ध्व से उग्र होने के कारण ही इसे अर्वाक्स्रोत सर्ग कहा गया है, इनमें प्रकाश की अधिकता, तम की न्यूनता तथा रजोगुण का आधिक्य है ॥२६॥ इस लिये इनमें दुःख की अधिकता है, यह बारम्बार कार्य वाले तथा बाह्याभ्यन्तर में प्रकाश वाले साधक मनुष्य रूप है ॥२७॥ फिर अनुग्रह नाम की पाँचवीं सृष्टि हुई, यह विपर्यय, सिद्धि, शान्ति और सृष्टि रूप चार भागों में विभाजित है ॥२८॥

निवृत्त वर्तमानचतेऽर्थजानन्तिवैपुन ।

भूतादिकानाभूतानापष्ठ सर्ग सउच्यते ॥२९

तेपरिग्रहिण सर्वेसविभागरतास्तथा ।

चोदनाश्राप्यशीलाश्रजं याभूतादिकाश्रते ॥३०

प्रथमोमहत सर्गोविज्ञो योब्रह्माणस्तुस ।

तन्मात्राणाद्वितीयस्तुभूतसर्ग सउच्यते ॥३१

वैकारिकस्तृतीयस्तुसगश्र्वंन्द्रियक स्मृत ।

इत्येषप्राकृत सर्ग सभूतोबुद्धिपूर्वक ॥३२

मुख्य सर्गश्चतुर्थस्तुमुख्यावैस्थावरा स्मृता ।

तिर्तक्स्रोतस्तुय प्रोक्तस्तिर्यग्योन्य सपञ्चम ॥३३

तथोर्ध्वस्रोतसाषष्ठोदेवसर्गस्तुसस्मृत ।

ततोर्वाक्स्रोतसासर्ग सप्तम सतुमानुषः ॥३४

अष्टमोऽनुग्रह सर्ग सात्त्विकस्तामसश्चस ।  
 पचैतेवैकृता सर्गा प्राकृतास्तुत्रय स्मृता ॥३५  
 प्राकृतोवैकृतश्चैवकौमारोनवम स्मृत ।  
 इत्येतेवैसमाख्यातानवसर्गा प्रजापते ॥३६  
 प्राकृतावैकृताश्चैवजगतोमूलहेतव ।  
 सृजतोजगदीशस्यकिमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥३७

भूत और वर्तमान के सब अर्थ को जानने वाले भूतादि तथा अन्य समस्त भूतो की सृष्टि षष्ठ सर्ग कही गयी है ॥२६॥ वह सभी स्त्री युक्त, विषय मे लगे हुए, प्रेरणा मे निपुण, अशील स्वभाव के भूतादि कहे जाते है ॥३०॥ जिससे ब्रह्माजी का अविर्भाव होता है, वह प्रथम महत् सृष्टि है, ब्रह्मा द्वारा होने वाली सृष्टि द्वितीय है, वह भूत सर्ग कही जाती है ॥३१॥ ऐन्द्रिक वैकारिक जो तृतीय सृष्टि है, वह प्राकृत सर्ग बुद्धि पूर्वक माना गया है ॥३२॥ चतुर्थ सर्ग मुख्य है, स्थावरो को मुख्य कहा है, तिर्यक् योनि रूप तिर्यक्स्त्रोत जो कहा गया है, वह पञ्चम सर्ग है ॥३३॥ ऊर्ध्व स्रोत की छठी सृष्टि देव सर्ग कही जाती है, इसके पश्चात् समम सृष्टि अर्वाक् स्रोत मानवी सृष्टि है ॥३४॥ आठवाँ अनुग्रह सर्ग सात्त्विक और तामसिक दो प्रकार का है, यह पाँच वैकृत सर्ग और पहिले कहे हुए तीन प्राकृत सर्ग है ॥३५॥ प्राकृत और वैकृत सयुक्त एक नवम सृष्टि कौमार नाम की है, इस प्रकार प्रजापति की यह नौ सृष्टि कही गयी है ॥३६॥ यह प्राकृत और वैकृत ही समार के मूल कारण है, जिनकी रचना जगदीश्वर ने की है, अब और क्या सुनना चाहते हो ? ॥३७॥

### ४०-देवादि की सृष्टि

समासात्कथितासृष्टि सम्यग्भगवतामम ।  
 देवादीनाभवब्रह्मन्विस्तरात्तुब्रवीहिमे ॥१  
 कुशलाकुशलैर्ब्रह्मन्भावितापूर्वकर्मभि ।  
 ख्यात्यातयाह्यनिर्मुक्ता प्रलयेह्यपसहृता ॥२

देवाद्या स्थावरान्ताश्चप्रजाब्रह्म श्रुतुविधा ।  
 ब्रह्मण कुर्वत सृष्टिजज्ञिरेमानसास्तदा ॥३  
 ततोदेवासुरपितृन्मानुषाश्चचतुष्टयम् ।  
 सिमृक्षुरम्भस्येतानिस्वमात्मानमयूयुजत् ॥४  
 युक्तात्मनस्तमोमात्राउद्विक्ताभूत्प्रजापते ।  
 सिसृक्षोर्जघनात्पूर्वमसुराजज्ञिरेतत ॥५  
 उत्ससर्जततस्तातुतमोमात्रात्मिकातनुम् ।  
 सापविद्धातनुस्तेनसद्योरात्रिरजायत ॥६  
 अन्यातनुमुपादायसिसृक्षु प्रीतिमापस ।  
 सत्त्वोद्रकास्ततोदेवामुखतस्तस्यजज्ञिरे ॥७  
 उत्ससर्जचभूतेशस्तनु तामप्यसौविभु ।  
 साचापविद्धादिवससत्त्वप्रायमजायत ॥८

कौण्डिक बोले—हे प्रभो ! आपने जिस प्रकार से सृष्टि प्रकरण कहा, वह अति सक्षिप्त है, इसलिए अब देवता आदि की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये ॥१॥ मार्कण्डेयजी ने कहा—हे विप्र ! पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्म से ही उत्पत्ति होती है, क्योंकि वह प्रलय में लीन होते हैं, मुक्त नहीं होते ॥२॥ देवतादि से स्थावर तक चार प्रकार की प्रजा जब प्रलय काल में नष्ट हो गई तब ब्रह्माजी ने उनकी सृष्टि की पुन इच्छा की और अपने मन से ॥३॥ सुर, असुर, पितर और मनुष्य की सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने अश को जल में डाला ॥४॥ सृष्टिकामी ब्रह्माजी ने तमोगुण का उद्रेक होने से, उनकी जघा से प्रथम असुरों की उत्पत्ति हुई ॥५॥ इसीलिए उन्होंने उन असुरों को तमोगुणी शरीर दिया, वही शरीर त्यागा जाकर तमोगुणात्मिका रात्रि के नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥६॥ फिर ब्रह्माजी ने दूसरा शरीर धारण किया, उससे वे प्रसन्न हुए, उसमें सतोगुण का उद्रेक होने से उनके मुख में देवताओं की उत्पत्ति हुई ॥७॥ उनको सात्त्विक शरीर दिया, वही व्यक्त देह सत्वगुणात्मक दिवस नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥८॥

सत्त्वमात्रात्मिकामेवतयोऽन्याजगृहेतनुम् ।  
 पितृवन्मन्यमानस्यपितरस्तस्यजज्ञिरे ॥६  
 सृष्ट्वापितृनुत्ससर्जतनु तामपिसप्रभु ।  
 साचोत्सृष्टाभवत्सन्ध्यादिननक्तान्तरस्थिता ॥१०  
 रजोमात्रात्मिकामन्यातनु भेजेऽथसप्रभु ।  
 ततोमनुष्या सम्भूतारजोमात्रसमुद्भवा ॥११  
 सृष्ट्वा मनुष्यान्सविभुरुत्ससर्जतनु ततः ।  
 ज्योत्स्नासमभवत्साचनक्तातेऽहर्मुखेचया ॥१२  
 इत्येतास्तनवस्तस्यदेवदेवस्यधीमत ।  
 ख्यातारात्र्यहनीचैवसन्ध्याज्योत्स्नाचवैद्विज ॥१३  
 ज्योत्स्नासन्ध्यातथेवाह सत्त्वमात्रात्मकत्रयम् ।  
 तमोमात्रात्मिकागत्रि सावैतस्मात्तमोधिका ॥१४

फिर उन्होंने अन्य सत्वमय शरीर धारण कर पितरो की सृष्टि की ॥६॥  
 पितरो को शरीर देने पर, वह व्यक्त शरीर दिवस रात्रि के भीतर स्थित सध्या  
 रूपात्मक हुआ ॥१०॥ इसके पश्चात् रजोगुण युक्त अन्य देह धारण करके  
 उन्होंने रजोगुण की अधिकता वाले मनुष्यो को उत्पन्न किया ॥११॥ मनुष्यो को  
 उत्पन्न करके उस शरीर का भी परित्याग कर दिया, वह व्यक्त शरीर ज्योत्स्ना  
 हुआ, रात्रि के षोडशे में और दिवस में प्रथम भाग में आविर्भूत होती है ॥१२॥  
 हे द्विज ! मेधावी देवदेव के यह सब विग्रह ही दिवस, रात्रि, सध्या और ज्योत्स्ना  
 के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं ॥१३॥ ज्योत्स्ना, सध्या और दिवस यह तीन सतोगुणी  
 हैं और रात्रि तामसिक होने से अधकार मयी है ॥१४॥

तस्माद्देवादिवारान्नावसुरास्तुबलान्विताः ।  
 ज्योत्स्नागमेचमनुजास्सन्ध्यायापितरस्तथा ॥१५  
 भवन्तिबलिनोऽधृष्याविपक्षारानसशयः ।  
 तद्विपर्ययमासाद्यप्रयान्तिचविपर्ययम् ॥१६  
 ज्योत्सनारात्र्यहनीसन्ध्याचत्वार्येतानिवैप्रभो ।  
 ब्रह्मणस्तुशरीराणित्रिगुणोपसृतानितु ॥१७

चत्वार्येतान्यथोत्पाद्यतनुमन्याप्रजापतिः ।  
 रजस्तमोमयीरात्रौजगृहेक्षुत्तृडन्वितः ॥१८  
 तदन्धकारेक्षुत्क्षामामगृह्णाद्भ्रगवानज ।  
 विरूपाञ्छमथ्रुलानत्तुमारब्धास्तेचतातनुम् ॥१९  
 रक्षामइतितेभ्योऽन्येयउचुस्तेतुराक्षसाः ।  
 खादामइतियेचोचुस्तेयक्षायक्षणाद्विज ॥२०  
 तान्हृष्ट्वाह्यप्रियेणास्यकेशाःशीर्यन्तवेधस ।  
 समारोहणाहीनाश्चशिरसोब्रह्माणस्तुते ॥२१  
 सर्पणात्तोऽभवन्सर्पाहीनत्वादहय स्मृता ।  
 सर्पान्हृष्ट्वातन क्रोधात्क्रोधात्मानोविनिर्ममे ॥२२

पूर्वोक्त गुणों की अधिकता से दिन में देवता, रात्रि में असुर, ज्योत्स्ना में मनुष्य और सध्या काल में पितर ॥१५॥ अधिक बलवान् होकर शत्रुओं द्वारा नहीं जीते जाते, इस प्रकार विपरीत काल में विपरीत बलवान् हो जाते हैं ॥१६॥ प्रजापति ने दिवम, रात्रि, सध्या और ज्योत्स्ना रूप जो चार प्रकार के देह उत्पन्न किये, वही ब्रह्माजी का त्रिगुणात्मक देह है ॥१७॥ चारों देहों को प्रजापति ने उत्पन्न करके क्षुधा पिपासा से युक्त रज-नम युक्त रात्रि को ग्रहण किया ॥१८॥ उन अंधेरे में ब्रह्माजी ने क्षुधा से कृश हुए विरूप दाढ़ी मूँछ वालों की रचना की तब वे उस देह को भक्षण करने को ही प्रवृत्त हुए ॥१९॥ जब वह उस देह को भक्षण करने को उद्यत हुए तब जिन्होंने 'रक्षा करो' कहा वे राक्षस और जिन्होंने 'खाऊँगा' कहा वह यक्ष कहे गये ॥२०॥ उन्हें देख कर अप्रसन्नता उत्पन्न हुई इससे ब्रह्माजी के सब केश मस्तक से पतित हुए ॥२१॥ और विचरणा करने से सप सज्ञक हुए, हीन होने से यह अहि भी कहे जाते हैं, सर्पों को देख कर क्रोध युक्त होने से उन्हें क्रोधा म्ना बनाया ॥२२॥

वरुणोऽनकपिलेनोग्रास्तेभूता पिशिताशना ।  
 ध्यायतोगाततस्तस्यगन्धर्वाजज्ञिरेसता ॥२३  
 जज्ञिरेपिततोवाचगन्धर्वास्तेनतेस्मृता ।  
 अष्टास्वेतासुसृष्टासुदेवयोविषुसप्रभु ॥२४

तत स्वदेहतोऽन्यानिवयासिपशवोऽसृजत् ।

मुखतोऽजाःससज्जथिवक्षसश्चावयोऽसृजत् ॥२५

गाश्चैवोदरतोब्रह्मापाश्वभ्याचविनिर्ममे ।

पद्भ्याचाश्चान्समातङ्गात्रासभाञ्छशकान्मृगान् ॥२६

उष्ट्रानश्वतराश्चैवनानारूपाश्चजातय ।

श्रोषध्य फलमूलिन्योरोमभ्यतस्यजज्ञिरे ॥२७

एवपश्रोषधी सृष्ट्वाह्यजच्चाध्वरेविभुः ।

तस्मादादौतुकल्पस्यत्रेतायुगमुखेतदा ॥२८

कपिल वर्ण से प्रकट कर्कश स्वभाव वाले आमिष भोजी गरुो की उत्पत्ति हुई, गौ का चिन्तन करते समय गधर्व उत्पन्न हुए ॥२३॥ वाक्य को ग्रहण करते करते उत्पत्ति को प्राप्त होने से उनका नाम गधर्व हुआ, इस प्रकार आठ प्रकार की देवयोनि को प्रकट करके ॥२४॥ अपने शरीर से अन्य सभी पशु पक्षी प्रकट किये, मुख से बकरा और हृदय से पक्षी उत्पन्न किये ॥२५॥ उदर और शश्व से गौ, दोनो चरणो से अश्व, हाथी, गधा, खरगोश, मृग ॥२६॥ ऊँट और खच्चर उत्पन्न किये तथा रोम से फल मूल युक्त विभिन्न प्रकार की श्रोषधियाँ उत्पन्न की ॥२७॥ इस प्रकार त्रेतायुग के आरभ मे ब्रह्माजी पशु ओर श्रोषधियो की रचना करके यज्ञ सृजन मे लगे ॥२८॥

गौरज पुरुषोमेषोअश्वाश्वतरगर्दभा ।

एतान्ग्राम्यान्पशूनाहुराण्याश्चनिबोधमे ॥२९

श्रापदद्विखुरहस्तीवानरा पक्षिपचमा ।

औदका पशव षष्ठा सप्तमास्तुसरीसृपा ॥३०

गायत्रीश्चतृचचैवत्रिवृत्सामरथन्तरम् ।

अग्निष्टोमचयज्ञानानिर्ममेप्रथमान्मुखात् ॥३१

यजूंषित्रैष्टु भच्छन्द स्तोमपचदशतथा ।

बृहत्सामतथोक्त चदक्षिणादसृजन्मुखात् ॥३२

सामानिजगतीच्छन्द स्तोमपचदशतथा ।

वैरूपमतिरात्रचनिर्ममेपश्चिमान्मुखात् ॥३३



एकविंशमथवर्णमाप्तोर्यामारागमेवच ।  
 आनुष्टुभसवैराजमुत्तरादसृजन्मुखात् ॥३४  
 विद्युतोऽशनिमेघाश्चरोहितेन्द्रधनूषिच ।  
 वयासिचससज्जिदौकल्पस्यभगवान्विभु ॥३५

गौ, बकरा, भैंसा, मेढा, घोडा, खच्चर और गधा इन पशुओं को ग्राम्य कहा गया है, अब आरण्य पशुओं का वर्णन करता हूँ ॥२६॥ श्वापद, द्विखुर, हाथी, बन्दर, पक्षी, जल के जीव, पशु और सर्पदि यह सात आरण्य अर्थात् वन के जीव कहे गये हैं ॥३०॥ ब्रह्मा ने पहिले अपने मुख से गायत्री, त्रिवृत्, साम रथन्तर और अग्निष्टोम की उत्पत्ति की ॥३१॥ दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रैष्टुभ छन्द, पचदश स्तोम, बृहत् साम और उक्थ को प्रकट किया ॥३२॥ पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छन्द, पचदश स्तोम, वैरूप और अतिरात्र को प्रकट किया ॥३३॥ उत्तर मुख के द्वारा इक्कीस अथर्व, आहोर्याम, आनुष्टुभ और वैराज की उत्पत्ति की ॥३४॥ उन विभु ने कल्प के प्रथम विद्युत्, वज्र, मेघ, रोहित इन्द्र धनुष और पक्षियों को उत्पन्न किया ॥३५॥

उच्चावचानिभूतानिगात्रेभ्यस्तस्यजज्ञिरे ।  
 सृष्ट्वानुष्टुभस्यदेवासुरपितृन्प्रजा ॥३६  
 ततोऽसृजत्सभूतानिस्थावराणिचराणिच ।  
 यक्षान्पिशाचान्गन्धर्वास्तथैवाप्सरसागणान् ॥३७  
 नरकिन्नररक्षासिवयपशुमृगोरगान् ।  
 अव्ययचव्ययचेत्रयदिदस्थारुजङ्गमम् ॥३८  
 तेषामेयानिकर्माणिप्राक्सृष्टेप्रतिपेदिरे ।  
 तान्येवप्रतिपद्यन्तेसृज्यमाना पुन पुन ॥३९  
 हिस्नाहिस्नेमृदुक्रूरेधर्मधर्मादृतानृते ।  
 तद्भाविता प्रपद्यन्तेतस्मात्तत्तन्मयोचते ॥४०  
 इन्द्रियार्थेषुभूतेषुशरीरेषुचसप्रभुः ।  
 नानात्वविनियोगचधातवव्यदधात्स्वयम् ॥४१

नामरूपचभूतानाकृत्यानाचप्रयचनम् ।  
 वेदशब्देभ्यएवादौदेवादीनाचकारस ॥४२  
 ऋषीणानामधेयानियाश्चदेवेषुसृष्टयः ।  
 शर्वर्यन्तेप्रसूतानामन्येषाचददातिसः ॥४३  
 यथार्त्तावृतुलिङ्गानिनानारूपाणिपर्यये ।  
 दृश्यन्तेतानितान्येवतथाभावायुगादिषु ॥४४  
 एवविधा सृष्टयन्तुब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मन ।  
 शर्वर्यन्तेप्रबुद्धस्यकल्पेकल्पेभवन्तिवै ॥४५

फिर सुर, असुर, पितर, मनुष्य उत्पन्न करके विभिन्न प्रकार के अन्य प्राणियों को उत्पन्न किया ॥३६॥ फिर स्थावर, जगम, भूतगण, यक्ष, पिशाच, गधर्व और अप्सराएँ ॥३७॥ नर, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, तथा नाग इत्यादि सब नाशवान् और स्थायी स्थावर जगम पदार्थों की उत्पत्ति हुई ॥३८॥ सृष्टि के प्रथम ही जिनका जो कर्म है, वह निर्दिष्ट हो गया, इसलिए वह बारबार उत्पन्न होकर भी अपने नियत कर्मों को प्राप्त होते हैं ॥३९॥ पूर्व जन्म में जीव जिस अहिंसा, मृदुता, क्रूरता, धर्म, सत्य, मिथ्या आदि का आश्रय लेता है, उसे परजन्म में उसी की प्राप्ति होती है ॥४०॥ जीवों में इन्द्रियों के विषय और देहों में इंद्रियों उनके कर्मानुसार ही उन विभु ब्रह्माजी ने निर्मित की है ॥४१॥ उनके नाम, रूप, कृत्य, अकृत्य, प्रपच और देव-कर्म आदि का निर्माण वेद शब्द से किया ॥४२॥ प्रलय के पश्चात् पहिले के समान ही उन्होंने ऋषियों के नाम और देवताओं की रचना की ॥४३॥ जैसे ऋतु परिवर्तन के समय उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, वैसे ही युग-युग में उनके आगामी लक्षण प्रकट होने लगते हैं ॥४४॥ अव्यक्त जन्मा ब्रह्माजी प्रलयान्त के समय इसी प्रकार सृजन कार्य करते हैं ॥४५॥

## ४१--मिथुन सृष्टि और स्थान कथन

अर्वाक्स्रोतस्तुर्कथितोभवतायस्तुमानुषः ।  
 ब्रह्मन्विस्तरतोब्रूहिब्रह्मासमसृजद्यथा ॥१

यथा च वर्णानि सृजद्यद्गुणाश्च महामते ।  
यच्च येषां स्मृतकर्मविप्रादीनावदस्वतत् ॥२  
ब्रह्मण मृजत पूर्वसत्याभिध्यायिनस्तथा ।  
मिथुनानासहस्रं तुमुखात्सोऽथासृजन्मुने ॥३  
जातास्ते ह्युपपद्यन्ते सत्त्वोद्रिक्ता स्वतेजसः ।  
सहस्रमन्यद्वक्षस्तो मिथुनानाससर्जह ॥४  
ते सर्वे रजसोद्रिक्ताः शुष्मिणश्चाप्यमर्षिणः ।  
ससर्जान्यत्सहस्रं तु द्वानामूरुत पुन ॥५  
रजस्तमोभ्यामुद्रिक्ता ईहाशीलास्तुते स्मृता ।  
पद्भ्यासहस्रमन्यच्च मिथुनानाससर्जह ॥६  
उद्रिक्तास्तमसा सर्वे नि श्रीकाह्यल्पतेजसः ।  
तत सघर्षमाणास्ते द्वन्दोत्पन्नास्तु प्राणिनः ॥७

क्रौण्डिकि बोले— हे भगवान् ! आपने अर्वाकस्रोत वाले मनुष्यो का जो वर्णन किया, उसी विषय को विस्तार पूर्वक कहिये ॥१॥ हे महामते ! गुण वाली सब वर्णों की सृष्टि जिस प्रकार हुई तथा ब्राह्मणादि का जो-जो कर्तव्य है, वह सभी मुझे बताइये ॥२॥ मार्करण्डेयजी ने कहा— सृष्टि के पहिले ही ध्यान शील ब्रह्माजी के मुख से सहस्र मिथुन की सृष्टि हुई थी ॥३॥ यह सब तेजस्वी तथा सतोगुण की अधिकता वाले हुए उनके वक्षस्थल से और दूसरे सहस्र मिथुन उत्पन्न हुए ॥४॥ वह सब क्रोधमय स्वभाव के तथा रजोगुणी थे, उनके ऊरुदेश से जो सहस्र मिथुन उत्पन्न हुए ॥५॥ वह रजोगुण और तमो-गुण के उद्रेक से युक्त, ईर्ष्यावान् हुए तथा जो सहस्र मिथुन दोनों चरणां से उत्पन्न हुए ॥६॥ वह लक्ष्मीहीन तमोगुणी तथा तेजहीन हुए, तदनन्तर सघर्षण से जो द्वन्द्वरूप जीव उत्पन्न हुए ॥७॥

अन्योन्यहृच्छया विष्टामैथुनायोपचक्रमु ।  
तत प्रभृतिकल्पेऽस्मिन्मिथुनानाहिसम्भव ॥८  
मासिमास्यार्तवयत्तुनतदासीत्तुयोषिताम् ।  
तस्मात्तदानसुषुवु सेदितैरपिमैथुने ॥९

आयुषोन्तेप्रसूयन्तेमिथुनान्येवता सकृत् ।  
 (कुलिककुलिकाचैवउत्पद्य तेमुमूर्षता) ।  
 तत प्रभृतिकल्पेऽस्मिन्मिथुनानाहिसम्भव ॥१०  
 ध्यानेनमनसातासाप्रजानाजायतेसकृत् ।  
 शब्दादिविषय शुद्ध प्रत्येकपचलक्षण ॥११  
 इत्येषामानुषीसृष्टिर्यापूर्ववैप्रजापते ।  
 तस्यान्ववायसम्भूतायैरिदपूरितजगत् ॥१२  
 सरित्सर समुद्राश्चसेवन्तेपर्वतानपि ।  
 तास्तदाह्यल्पशीतोष्णायुगेतस्मिश्चरन्तिवै ॥१३  
 तृतिस्वाभाविकीप्राप्ताविषयेषुमहामते ।  
 नतासाप्रतिघातोऽस्तिनद्वेषोनापिमत्सर ॥१४  
 पर्वतोदधिसेविन्योह्यनिकेतास्तुमर्वग ।  
 तावेनिष्कामचारिण्योनित्यमुदितमानसा ॥१५

वह द्वन्द्व से उत्पन्न प्राणी प्रसन्न चित्त से मैथुन में प्रवृत्त हुए, इस प्रकार इस कल्प में मिथुन की सृष्टि हुई ॥६॥ पूर्वकाल में स्त्रियों को मासिक रजोधर्म का अभाव था, इसलिए वह अन्य समय में मैथुन करके भी ॥६॥ मन्तति उत्पादन में समर्थ नहीं थी केवल अवस्था के अन्त में एक ही बार सन्तति होती थी (अन्त अवस्था में ही कुलिक और कुलिका उत्पन्न होते थे) तब से इसी प्रकार इस कल्प में मिथुन की उत्पत्ति होती आयी है ॥१०॥ ब्रह्माजी ने जब प्रजा का चिन्तन किया, तब उनके मन से पच महाभूत और शब्दादि विषय एक साथ उत्पन्न हुए ॥११॥ यही प्रजापति की मानसी सृष्टि कही जाती है, इस समय यह विश्व उसी सृष्टि से परिपूर्ण होरहा है ॥१२॥ पहिले युग में अल्प शीतोष्ण हुए प्रजागण सरित्, सरोवर और समुद्र के निकट अथवा पर्वतो में घूमते थे ॥१३॥ हे महामते ! वह उपभोग में स्वाभाविक रूप से तृप्त रहते थे, उनमें किसी भी प्रकार का विघ्न, द्वेष और मत्सर नहीं था ॥१४॥ वह पर्वत में या समुद्र के किनारे रहते हुए सदा कामना रहित आचरण करते थे और प्रसन्न चित्त रहते थे ॥१५॥

पिगाचोरगरक्षासितथामत्सरिणोजना ।  
 पशव पक्षिण इचैवनक्रामत्स्या सरीसृपा ॥१६  
 अवारकाह्यण्डजावातेह्यधर्मप्रसूतय ।  
 नमूलफलपुष्पाणिनार्तवावत्सराणिच ॥१७  
 सर्वकालसुख कालोनात्यर्थघर्मशीतता ।  
 कालेनगच्छनातेषापित्रासिद्धिरजायत ॥१८  
 ततश्चतेषापूर्वाह्नेमध्याह्नेचवितृप्तता ।  
 पुनस्तथेच्छतातृप्तिरनायासेनसाभवत् ॥१९  
 इच्छताचतथाथायासोमनससमजायत ।  
 अपासौध्म्यततस्तासासिद्धिर्नाम्नारसोल्लसा ॥२०  
 समजायतचैवान्यासर्वकामप्रदायिनी ।  
 असस्कार्ये शरीरैश्चप्रजास्ता स्थिरयौवना ॥२१

पिशाच, उरग, राक्षस, मत्सर युक्त मनुष्य पशु, पक्षी, नक्र, मत्स्य, बिच्छू ॥१६॥ अवारक और अण्डज प्राणियों की उत्पत्ति अधर्म से हुई है, उस समय मूल, फल, पुष्प, ऋतु और वर्ष इत्यादि कुछ भी नहीं था ॥१७॥ उस समय उष्णता या शीत भी नहीं था, सब काल अत्यन्त सुख ही था, काल क्रम से उन्हे अद्भुत सिद्धि प्राप्त थी ॥१८॥ पूर्वाह्न या मध्याह्न में उनको तृप्ति नहीं होती थी तो वह इच्छा करके सहज में ही तृप्ति को प्राप्त कर लेते थे ॥१९॥ तथा इच्छा करते ही जल के सूक्ष्म होने के कारण उनकी विभिन्न प्रकार की रस और उल्लास वाली अन्य सिद्धि ॥२०॥ उपस्थित होकर सब इच्छा पूर्ण कर देती, वह सम्कार-हीन होते हुए भी स्थिर यौवन से सम्पन्न थे ॥२१॥

तासाविनातुसकल्पजान्तेमिथुना प्रजाः ।

समजन्मचरूपचअग्र्यन्तेचैवता समम् ॥२२

अनिच्छाद्वेषसयुक्तावर्तन्तेतुपरस्परम् ।

तुल्यरूपायुषसर्वाअधमोत्तमताविना ॥२३

चत्वारितुसहस्राणिवर्षाणामानुपाणितु ।

आयु प्रमाणजीवन्तिनचक्लेशाद्विपत्तय ॥२४

क्वचित्क्वचित्पुनःसाभूत्क्षितिर्भाग्येनसर्वश ।  
 कालेनगच्छतानाशमुपयान्तियथाप्रजा ॥२५  
 तथाताःक्रमशोनाशजग्मु सर्वत्रसिद्धय ।  
 तासुसर्वासुनष्टासुनभस प्रच्युतारसा ॥२६  
 पयस कल्पवृक्षास्तेसभूतागृहसस्थिता ।  
 सर्वंप्रत्युपभोगाश्चतासातेभ्य प्रजापते ॥२७  
 वर्तयन्तिस्मतेभ्यस्तास्त्रेतायुगमुखेतदा ।  
 तत कालेनवैरागस्तथासामाकस्मिकोऽभवत् ॥२८

बिना सकल्प ही उनकी मिथुन प्रजा जैसे एक साथ उत्पन्न होती वसे ही रूप आदि मे समता प्राप्त करके एक साथ ही मृत्यु को प्राप्त होती थी ॥२२॥ उनमे पारस्परिक इच्छा या द्वेष न था, सभी समान भाव से समय को व्यतीत करते थे, उनमे कोई ऊँच-नीच भी न था, क्योंकि सभी आयु और रूपादि मे समान होते थे ॥२३॥ यह मिथुन सृष्टि चार हजार मानवी वर्ष तक जीवित रहती थी और बिना विपत्ति अथवा क्लेश के ही प्राण छोडती थी ॥२४॥ कहीं कहीं पृथिवी दैववशात् ऐसी होजाती थी, जिसके कारण प्रजा को क्रमानुसार जीवन समाप्त करना होता था ॥२५॥ वह सभी सिद्धियों क्रमानुसार नाश को प्राप्त होगयी और उनके समाप्त होते ही आकाश से रस बरसने लगे ॥२६॥ तब जल और दुग्ध की प्राप्ति हुई, गृहो मे कल्पवृक्षो की उत्पत्ति हुई और उन कल्पवृक्षो से ही सम्पूर्ण भोगो की उपलब्धि होने लगी ॥२७॥ त्रेता के प्रारम्भ मे अपने जीवन का निर्वाह मनुष्य इस प्रकार किया करते थे, फिर समय पाकर उनमे आकस्मिक राग की उत्पत्ति हुई ॥२८॥

मासिवास्यार्तवोत्पत्त्यागर्भोत्पत्ति पुन पुन ।  
 रागोत्पत्त्यातस्तसावृक्षास्तेगृहसस्थिता ॥२९  
 प्रगोशुरपरेचासश्चतु शाखामहीरुहाः ।  
 वस्त्राणिचप्रसूयन्तेफलेष्वामरणातिच ॥३०  
 तेष्वेवजायतेतेषागन्धवर्णरसान्वितम् ।  
 अमाक्षिकमहावीर्यपुटकेपुटकेमधु ॥३१

तेनतावर्तयन्तिस्ममुखेत्रेतायुगस्यवै ।  
 तत कालान्तरेणैवपुनर्लोभान्वितास्तुता ॥३२  
 वृक्षास्ता पर्यगृह्णन्तममत्वाविष्टचेतस ।  
 नेशुस्तेनापचारेणतेहितासामहीरुहा ॥३३  
 (मूलेषुचापरवासचक्रु शालामहीरुहाम् ।)  
 ततोद्वन्द्वान्यजायन्तशीतोष्णक्षुन्मुखानिवै ।  
 तास्तद्वन्द्वोपघातार्थचक्रु पूर्वपुराणितु ॥३४

इस प्रकार राग के उत्पन्न होने से ही मासिक ऋतुकाल और बारबार गर्भधारणादि होने लगा और उनके गृह मे स्थित कल्पवृक्ष भी रागदुक्त हो गये ॥२९॥ इससे वह कल्पवृक्ष नाश को प्राप्त हुए और चार शाखो वाले अन्य वृक्षो की उत्पत्ति हुई, उनके फलो मे वस्त्राभरण प्रकट होते थे ॥३०॥ फलो के प्रत्येक पुट मे श्रेष्ठ गन्ध और वरुण वाला बलप्रद मधु मन्त्रियो के बिना ही उत्पन्न होता था ॥३१॥ त्रेता के प्रारभ काल की प्रजा इस मधु को पीकर ही जीवन धारण करती थी, फिर वह कालक्रम से लोभान्वित होकर ॥३२॥ ममता वाले मन से उन वृक्षो के ग्रहण किये जाने के कारण सभी वृक्ष नष्ट होगये ॥३३॥ (वृक्षो की निवास योग्य शाला बनानी थी) फिर शीत, उष्णता क्षुधा आदि सभी द्वन्द्व उत्पन्न हुए, तब उन्हें निवारण करने के लिये पुरो का निर्माण किया ॥३४॥

मरुधन्वसुदुर्गेषुपर्वतेषुदरीषुच ।  
 सश्रयन्तिचदुर्गाणिवाक्षपार्वतमौदकम् ॥३५  
 कृत्रिमचतथादुर्गमित्वामित्वात्मनोऽगुलै ।  
 मानार्थानिप्रमाणानितास्तुपूर्वप्रचक्रिरे ॥३६  
 परमाणु परसूक्ष्मत्रसरेणुर्महीरज ।  
 वालाग्र चैवलिक्षाचयूकाचाथयवोदरम् ॥३७  
 क्रमादष्टगुणान्याहुर्यवानष्टौतथागुलम् ।  
 षडगुलपदतच्चवितस्तिद्विगुणंस्मृतम् ॥३८

द्वे वितस्तीतथाहस्तोब्राह्म्यतीर्थादिवेष्टित ।  
 चतुर्हस्तधनुर्दण्डोनाडिकायुगमेवच ॥३९  
 क्रोगोधनु सहस्रे द्वौगव्यूतिस्तच्चतुर्गुणम् ।  
 प्रोक्तचयोजनप्राज्ञै सख्या नार्थमिदपरम् ॥४०  
 चतुर्णामिथदुर्गाणास्वसमुत्थानित्रीणिनु ।  
 चतुर्थकृत्रिमदुर्गतच्चक्रुर्यत्नतस्तुवै ॥४१

तब मरुभूमि, पर्वत, गुफा इत्यादि मे दुर्ग आदि के बनने पर वह उन वृक्षो, पर्वतो और जल आदि मे बने दुर्गो मे रहने लगे ॥३५॥ तथा अपनी अंगुली आदि के परिणाम से सब कृत्रिम दुर्ग बना कर परिमाण निश्चित करने के लिये प्रमाण बनाया ॥३६॥ अत्र सूक्ष्म प्रमाण के लिये परमाणु जाली के छेदो मे किरण पडने से सूक्ष्म रज दिखायी देती है, उसके तुनीयाश को परमाणु कहते है, त्रसरेणु और धूल तथा स्थूल प्रमाण के लिये केशाग्र, निष्क, यूका और यव निश्चित किया ॥३७॥ आठ यव मे एक अगुल, छ अगुल मे एक पद, दो पद मे एक वितस्ति ॥३८॥ दो वितस्ति मे एक हाथ, ब्राह्मतीर्थ तक चार हाथ मे धनुर्दण्ड अथवा नाडिका युग ॥३९॥ दो हजार धनु मे एक गव्यूति और चार गव्यूति मे एक योजन होता है, सख्या निरूपणार्थ पडितजनो ने इस प्रकार निर्धारित किया है ॥४०॥ पहिले कहे हुए चार प्रकार के दुर्ग मे तीन स्वाभाविक और अन्य कृत्रिम है, दुर्ग कर्म यही है ॥४१॥

पुरचखेटकचैवतद्वद्रोणीमुखद्विज ।  
 शाखानगरकचापितथाखर्वटकद्रमी ॥४२  
 ग्रामसघोषविन्यासतेषुचावसथान्पृथक् ।  
 सोत्सेधवप्रणारचसर्वत परिखावृतम् ॥४३  
 योजनाद्धर्द्धि विष्कम्भमष्टममायतपुरम् ।  
 प्रागुदक्प्रवणशस्तशुद्धवशबहिर्गमम् ॥४४  
 तदद्धेनतथाखेटतत्पादेनचखर्वटम् ।  
 न्यूनद्रोणीमुखतस्मादष्टभागेनचोच्यते ॥४५



प्राकारपरिखाहीनपुरखर्वटमुच्यते ।  
 शाखानगरकचान्यन्मन्त्रिसामन्तभुक्तिमत् ॥४६॥  
 तथाशूद्रजनप्राया स्वसमृद्धकृषीवला ।  
 क्षेत्रोपभोग्यभूमध्येवसतिर्ग्रामसञ्ज्ञिता ॥४७॥  
 अन्यस्मान्नगरादेर्याकार्यमुद्दिश्यमानवै ।  
 क्रियतेवसति सावैविज्ञेयावसतिर्नरै ॥४८॥  
 दुष्टप्रायोविनाक्षेत्रै परभूमिचरोबली ।  
 ग्रामएवद्रमीसज्ञोगजवल्लभसश्रय ॥४९॥

फिर उन्होंने उन स्थानों में पुर, खेटक, द्रोणीमुख, शाखानगर, खर्वटक, द्रमी ॥४२॥ ग्राम सघोष की रचना की और उनमें पृथक् पृथक् आवास गृह बनाये, जिनके चारों ओर प्राचीर और खाइयाँ थी ॥४३॥ लम्बाई में दो कोश और उसके अष्टाश चौड़े को पुर कहते हैं, इसका पूर्व और उत्तर भाग जल प्लाविन होने के कारण उममें बाहर जाने का मार्ग (पुल) होना चाहिये ॥४४॥ पुर के अर्ध लक्षण वाले को खेटक, उससे अर्ध लक्षण वाले को खर्वटक तथा पुर के अष्टमाश लक्षण वाले को द्रोणमुखी कहते हैं ॥४५॥ जिस पुर में दीवार तो है, परन्तु खाई नहीं है, उसे खर्वट कहा गया है, जिसमें मन्त्रिगण और सामन्तादि रहते हों, उस विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थ वाले को शाखानगर कहते हैं ॥४६॥ जहाँ शूद्र अथवा अपनी-अपनी समृद्धि वाले कृषक रहते हों और जिसके चारों ओर खेत आदि हैं, उसे ग्राम कहा गया है ॥४७॥ किसी कार्य में अन्यान्य नगरादि से जहाँ आकर लोग रहते हैं, उसे वसति कहते हैं ॥४८॥ जिस ग्राम के मनुष्य दुष्ट प्रकृति के बलवान् और अपना खेत न होने पर पराये खेत पर अधिकार कर लेते हैं और जहाँ राजा के प्रिय लोग रहते हैं, वह ग्राम द्रमी कहा गया है ॥४९॥

शकटारूढभाण्डैश्चगोपालैर्विपणविना ।  
 गोसमूहैस्तथाघोषोयत्रेच्छाभूमिकेतन ॥५०॥  
 तएवनगरादीस्तुकृत्वावासाथमात्मन ।  
 निकेतनानिद्व द्वानाचक्रुश्चोपशमायवै ॥५१॥

गृहाकारायथापूर्वतेषामासन्महीरुहा ।  
 तथासस्मृत्यतत्सर्वचक्रुर्वेश्मानिता प्रजा ॥५२  
 वृक्ष्यस्यैवङ्गताःशाखास्तथैवचपरागता ।  
 नताञ्चैवोन्नताश्चैवतद्वच्छाखा प्रचक्रिरे ॥५३  
 या शाखा कल्पवृक्षाणापूर्वमासन्द्विजोत्तम ।  
 ताएवशाखागेहानाशालात्वतेनतासुतत् ॥५४  
 कृत्वाद्द्वोपघाततेवार्तोपायमचितयन् ।  
 नष्टेषुमधुनासाद्धकल्पवृक्षेष्वशेषत ॥५५

जहाँ ग्वाले अपने बर्तन आदि को गाड़ी पर लाद कर रखते हैं, जहाँ गौएँ अधिक रहती हैं, जहाँ बाजार न हो और भूमि धन के बिना ही मिल जाती हो, उसे घोष कहते हैं ॥५०॥ इस प्रकार इन्होंने अपने निवासार्थ स्थान बना कर द्वन्द्वो का शमन करने और व्यापार आदि के लिए गृहो का निर्माण किया, पहिले जो वृक्ष घरों के समान थे, उन्हीं के आधार पर घर बनाये गये ॥५१-५२॥ जैसे वृक्ष की शाखाएँ एक के पीछे दूसरी तथा ऊँची नीची होती हैं, उसी प्रकार घरों की रचना की गई ॥५३॥ पहिले जो कल्प वृक्ष की शाखाएँ थी, उन शाखाओं ने सब घरों का शालात्व प्राप्त किया ॥५४॥ जब इन शालाओं द्वारा उनके शीत उष्ण आदि दुःख नष्ट हुए, तब वह अपनी जीविका के निर्वाहार्थ चिन्ता करने लगे, उस समय मधु के सहित सब कल्पवृक्ष नष्ट हो गये ॥५५॥

विषादव्याकुलास्तावैप्रजास्तृष्णाक्षुर्धादिता ।  
 तत प्रादुर्वभौतासासिद्धिस्त्रेतामुखेतदा ॥५६  
 वार्त्तास्वसाधिताह्यन्यावृष्टिस्तासानिकामतः ।  
 तासावृष्ट्युदकानीह्याननिनिम्नगतानिवै ॥५७  
 वृष्ट्यावरुद्धैरभवन्स्रोत खातानिनिम्नगा ।  
 येषुरस्तादपास्तोकाप्रापन्ना पृथिवीतले ॥५८  
 ततोभूमेश्चसयोगादोषध्यस्तादाभवन् ।  
 अफालकृष्टाश्रानुदाग्राम्यारण्याश्रतुर्दश ॥५९

ऋतुपुष्पफलाश्र्ववृक्षागुल्माश्रजज्ञिरे ।  
 प्रादुर्भाविस्तुत्रेतायामाद्योऽयमौषधस्यतु ॥६०  
 तेनौषधेनवर्तन्तेप्रजास्त्रेतायुगेमुने ।  
 रागलोभौसमासाद्यप्रजाश्राकस्मिकौतदा ॥६१  
 ततस्ता.पर्यगृह्णन्तनदीक्षेताणिपर्वतान् ।  
 वृक्षगुल्मौषधीश्चैवमात्सयाच्चयथाबलम् ॥६२  
 तेनदोषेणतानेशुरोषध्योमिषताद्विज ।  
 अग्रसद्भूर्युगपत्तास्तदौषध्योमहामते ॥६३

तब वह सम्पूर्ण प्रजा विषाद और क्षुधा, पिपासा से अत्यन्त व्याकुल हो गई, क्यो कि त्रेता के प्रारम्भ मे ही उनमे इस प्रकार की सिद्धि थी ॥५६॥ उस समय उनके इच्छा करते ही वृष्टि होती और वर्षा का जल नीचे को गमन करता था ॥५७॥ वर्षा का रुका हुआ जल स्रोत द्वारा गहराई करता हुआ नदी स्वरूप होगया तथा प्रथम जो सामान्य जल पृथिवी मे गिरा ॥५८॥ उस समय वह जल मिट्टी से मिल कर निर्दोष हो गया, इसमे ग्राम्य और आरण्य जो चौदह वृक्ष थे, वे सभी स्वय उत्पन्न हुए थे ॥५९॥ वह सब ऋतु मे फल, पुष्प उत्पन्न करते थे, इस प्रकार त्रेता के प्रारम्भ मे सब औषधियाँ उत्पन्न हुईं ॥६०॥ हे मुने ! अकस्मात् राग और लोभ से युक्त हुए प्रजागरण उन औषधियो से उत्पन्न हुए पदार्थो से ही त्रेता के प्रारम्भ मे जीवन धारण करते थे ॥६१॥ फिर जिससे देह अधिक बलशाली हो सके, इस लिये नदी, खेत, पर्वत, वृक्ष, गुल्म एव सब औषधियो का अवलम्बन करने लगे ॥६२॥ इसी दोष के कारण वह सभी औषधिया नष्ट हो गई अर्थात् एक सयय मे ही वह सब औषधियाँ पृथिवी द्वारा ग्रस कर ली गई ॥६३

पुनस्तासुप्रणाश्रासुविभ्रान्तास्ता.पुन प्रजा ।  
 ब्रह्माणगरणजग्मु क्षुधात्ताःपरमेष्ठिनम् ॥६४  
 सत्तापितत्वतोज्ञात्वातदाग्रस्तावसुन्धराम् ।  
 वत्सकृत्वामुमेरु तुदुदोहभगवान्विभु ॥६५

दुग्धेयगौस्तदातेनसस्यानिपृथिवीतले ।  
 जज्ञिरेतानिबीजानिग्राम्यारण्यास्तुताःपुनः ॥६६  
 ओपध्य फलपाकान्तागणा सप्तदशस्मृता ।  
 व्रीह्यश्चयवाश्चवगोधूमाग्रणवस्तिला ॥६७  
 प्रियङ्गव कोविदारा कोरदूषासतीनका ।  
 मापामुद्गामसूराश्चनिष्पावासकुलत्थका ॥६८  
 आढक्यश्चणकाश्चैवशणा सप्तदशस्मृता ।  
 इत्येताओषधीनातुग्राम्यारणाजतय पुरा ॥६९

इस प्रकार सब औषधियों के ग्रसित होने पर सम्पूर्ण प्रजा भ्रान्त हुई और क्षुधातुर हो कर ब्रह्माजी की शरण में गयी ॥६४॥ तब उन ब्रह्माजी ने पृथिवी को ग्रस करने वाली जान कर सुमेरु पर्वत को बछड़ा बना कर दोहन किया ॥६५॥ तब पृथिवी अपने तल में समस्त धान्यों का दोहन कराने लगी, उसमें सब बीजों की उत्पत्ति हुई और ग्राम तथा वन के वृक्ष उत्पन्न हुए ॥६६॥ फल पकने पर सूखने वाली मन्त्रह प्रकार की औषधियों उत्पन्न हुईं उनके नाम व्रीहि, जौ, गेहूँ, तिला कोदो ॥६७॥ प्रियगुफल, राई, कोविदार, लाल कचनार, मटर, उडद, मूँग, मसूर, लोबिया, कुलथी ॥६८॥ अरहर और चना इन सबह जातियों की यह ग्राम्यौषधि उत्पन्न हुई ॥६९॥

औषध्योयज्ञियाश्चैवग्राम्यारण्याश्चतुर्दश ।  
 व्रीह्यश्चयवाश्चैवगोधूमाग्रणवस्तिला ॥७०  
 प्रियगुपत्तौ वै ह्येतेसप्तमास्तुकुलत्थकाः ।  
 श्यामाकास्त्वथनीवारायत्तिला सगवेधुका ॥७१  
 कुरुविन्दामर्कटकास्तथावेरगुयथाश्चये ।  
 ग्राम्यारण्या स्मृताह्येताओपध्यश्चचतुर्दश ॥७२  
 यदाप्रसृष्टाओषध्योनप्ररोहन्तिता पुनः ।  
 तत सतासावृद्धयर्थवार्त्तोपायचकारह ॥७३  
 ब्रह्मास्वयम्भूर्भगवान्हस्तसिद्धिचकर्मजाम् ।  
 तत प्रभृत्यथौषध्य कृष्टपच्यास्तुजज्ञिरे ॥७४

ससिद्धायानुवार्त्तियाततस्तासास्वयप्रभु ।  
 मर्यादास्थापयामासयथान्याययथागुणम् ॥७५  
 वर्णानामाश्रमाणाचधर्मान्धर्मभृतावर ।  
 लोकानासर्ववर्णानासम्यग्धर्मार्थपालिनाम् ॥७६

जो चौदह प्रकार की ग्राम्य और आरण्यक औषधियाँ हैं, वह यज्ञ में व्यवहृत होती हैं, ब्रीहि, जौ, गेहूँ, अण्ड, तिल ॥७०॥ प्रियगु, कुलथी, श्यामक, अलसी, तिल तथा गवेधुक ॥७१॥ कुलथी, मर्कटक, वेणु, यव, चावल यह चौदह प्रकार की औषधियाँ ग्राम्यारण्यक मानी गई हैं ॥७२॥ इस प्रकार जब उन श्रेष्ठ औषधियों का उत्पादन रुक गया तब ब्रह्माजी उनके जीवन यापन का उपाय सोचने लगे ॥७३॥ तब उन्होंने कर्म द्वारा सिद्ध होने वाली हस्त-सिद्धि को उत्पन्न किया, तभी से जोतने से उत्पन्न होने वाली औषधियों की उत्पत्ति हुई ॥७४॥ इस प्रकार उनके जीवन का साधन हो जाने पर स्वयं ब्रह्माजी ने न्याय और गुण के अनुसार उनकी मर्यादा बनायी ॥७५॥ उस समय सब वर्णाश्रमों का धर्म तथा धर्म और अर्थ का पालन करने वाले लोक-धर्म का निरूपण किया ॥७६॥

प्राजापत्यब्राह्मणानामृतस्थानक्रियावताम् ।  
 स्थानमैन्द्र क्षत्रियाणासामेष्वपलानिनाम् ॥७७  
 वैश्यानामारुतस्थानस्वधर्ममनुवतताम् ।  
 गन्धर्वशूद्रजातीनापरिचर्यानुवतिनाम् ॥७८  
 अष्टाशीतिसहस्राणामृषीणामूर्ध्वरेतसाम् ।  
 स्मृततेषान्तुयत्स्थानतदेवगुरुवासिनाम् ॥७९  
 सप्तर्षीणानुयत्स्थानस्मृततद्वैवनौकसाम् ।  
 प्राजापत्यगृहस्थानान्यासिनाब्रह्मणक्षयम् ।  
 योगिनाममृतस्थानमितिवैस्थानकल्पना ॥८०

कर्मवान् ब्राह्मणों के लिये उन्होंने प्राजापत्य स्थान की कल्पना की और युद्ध से विमुख न होने वाले क्षत्रियों के लिये ऐन्द्र स्थान नियत किया ॥७७॥ स्वधर्म परायण वैश्यों के लिये मारुत स्थान और सेवा करने वाले शूद्रों के लिए

गाधर्व स्थान बनाया ॥७८॥ अट्ठासी महस्र ऊर्ध्वरेता ऋषियो के लिये जो स्थान नियत किये गये, वही स्थान गुरु-गृह मे निवास करने वाले ब्राह्मणो के लिये निश्चित हुए ॥७९॥ सप्तऋषियो के लिये जिन स्थानो की कल्पना हुई वही स्थान बनवासियो के लिये नियत किये गये, गृहस्थ के लिये प्राजापत्य, सन्यासियो के लिये अक्षय ब्राह्मणपद तथा योगियो को अमृत स्वरूप मोक्ष स्थान कल्पित किया गया ॥८०॥

## ४२—यक्षानुशासन

ततोऽभिध्यायस्तस्यजज्ञिरेमानसी प्रजा ।  
 तच्छ्रीपसमुत्पन्नै कार्यैस्तै कारणै सह ॥१॥  
 क्षेत्रज्ञा समवर्तन्तगात्रेभ्यस्तस्यधीमत ।  
 तेसर्वेसमवर्तन्तयेमयाप्रागुदाहृता ॥२॥  
 देवाद्या स्थावराताश्चत्रैगुण्यविषया स्मृता ।  
 एव भूतानिसृष्टानिस्थावराणिचराणिच ॥३॥  
 यदास्यता प्रजा सर्वानव्यवद्धं तधीमतः ।  
 अथान्यान्यमानसान्पुत्रान्सदृशानात्मनोऽसृजत् ॥४॥  
 भृगु पुलस्त्यपुलहकृतुमङ्गिरसतथा ।  
 मरीचिदक्षमन्त्रिचवसिष्ठं चैवमानसम् ॥५॥  
 नवब्रह्मण इत्येतेपुरारोनिश्चयङ्गता ।  
 ततोऽसृजत्पुनर्ब्रह्मारुद्रं क्रोधात्मसम्भवम् ॥६॥  
 सङ्कल्पचैवधर्मचपूर्वेषामपिपूर्वजम् ।  
 सनन्दनादयोयेचपूर्वसृष्टा स्वयभुवा ॥७॥  
 नतेलोकेषुसज्जन्तौनिरपेक्षा समाहिता ।  
 सङ्घोतेऽन्यग्नतज्ञानावीतरागाविमत्सरा ॥८॥

मार्कार्ण्डेयजी ने कहा—फिर ब्रह्माजी के दुबारा चिन्तन करने पर उन के देह से कार्य कारण वाली मानसी प्रजा की उत्पत्ति हुई ॥१॥ उन ब्रह्माजी के शरीर से सब क्षेत्रज्ञ उत्पन्न हुए और जो इनके अतिरिक्त उत्पन्न हुए उनका उल्लेख पहिले ही किया जा चुका है ॥२॥ देवताओं से स्थावर तक सभी जीव त्रिगुणान्मक है, इस प्रकार स्थावर जगम चराचर प्राणियों की ब्रह्माजी ने उत्पत्ति की ॥३॥ परन्तु जब ब्रह्माजी ने अपनी समस्त प्रजा की वृद्धि होती हुई न देखी, तब उन्होने अपने जैसे ही मानस पुत्रों की सृष्टि की ॥४॥ उन्होने भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वसिष्ठ इन मानस पुत्रों को उत्पन्न किया ॥५॥ ब्रह्माजी के यह नौ मानस पुत्र माने गये हैं, फिर उन्होने क्रोधात्मक रुद्र की उत्पत्ति की ॥६॥ फिर सङ्कल्प और धर्म को उत्पन्न किया, जो कि पहिले से ही प्रकट है, उन्होने पूर्व सृष्टि में ही सनन्दनादि तथा स्वायम्भुव को उत्पन्न किया ॥७॥ यह सभी भविष्य के जानने वाले, राग-रहित मात्सर्यहीन, निरपेक्ष और समाधि युक्त होकर प्रजा-सृजन के विषय में लगे ॥८॥

तेष्वेव निरपेक्षेषु लोकसृष्टीमहात्मनः ।

ब्रह्माणोऽभून्महाक्रोधस्तत्रोत्पन्नोऽर्कसन्निभः ॥९

अर्द्धनारीनरवपु पुरुषोऽतिशरीरवान् ।

विभजात्मानमित्युक्त्वासतदान्तर्दधेततः ॥१०

सच्चंक्तोवैपृथक्स्त्रीत्व पुरुषत्व तथाकरोत् ।

विभेदपुरुषत्व चदशधाचैकधातुसः ॥११

सौम्यासौम्यैस्तथाशान्तै पु स्त्व स्त्रीत्व चसप्रभु ।

विभेदबहुधादेव.पुरुषैरमितै शितैः ॥१२

ततोब्रह्मात्मसम्भूतपूर्व स्वायम्भुवं प्रभु ।

आत्मनःसदृशकृत्वाप्रजापाल्येमनु द्विज ॥१३

शतरूपाचतानारीतपोनिर्धूतकल्मषाम् ।

स्वायम्भुवोमनुर्देव पत्नीत्वेजगृहेविभु ॥१४

सृष्टि कार्य में उनके इस प्रकार लग जाने पर ब्रह्माजी अत्यन्त क्रोधित हुए और उस क्रोध से सूर्य के समान तेजस्वी एक पुरुष आविर्भूत हुआ ॥९॥

उसके शरीर का अर्द्धाङ्ग पुरुष और अर्द्धाङ्ग स्त्री था, फिर ब्रह्माजी उससे 'अपने देह को विभाजित कर' कहते हुए अन्तर्धान हो गये ॥१०॥ ब्रह्माजी की ऐसी आज्ञा पाकर उस पुरुष ने अपने शरीर के दो विभाग किये, जिससे स्त्रीत्व और पुरुषत्व पृथक्-पृथक् हो गये, उसमें पुरुषाकार भाग को सौम्य, असौम्य, शान्त, असित, सित आदि के भेद से ग्यारह भागों में बाटा ॥११-१२॥ फिर ब्रह्माजी ने अपने समान पूर्वोत्पन्न उस पुरुष का नाम स्वायम्भुव मनु रखा और उसे प्रजा पालक बनाया ॥१३॥ और जिस स्त्री ने तप के द्वारा अपने पापों का क्षय किया था, उसका नाम 'शतरूपा' रखा, तब देव एव विभु स्वायम्भुव मनु ने उस शतरूपा को अपनी भार्या बनाया ॥१४॥

तस्माच्चपुरुषात्पुत्रौशतारूपाव्यजायत ।

प्रियव्रतोत्तानपादौप्रख्यातान्नात्मकर्मभिः ॥१५

कन्येद्वेचतथाकृतिप्रसूतिचतत पिता ।

ददौप्रसूतिदक्षायतथाकृतिरुचे पुरा ॥१६

प्रजापति सजग्राहतयोर्यज्ञ सदक्षिणा ।

पुत्रोजज्ञे महाभागदम्पतीमिथुनतत ॥१७

यज्ञस्यदक्षिणायान्तुपुत्राद्वादशजज्ञिरे ।

यामाइतिसमाख्यातादेवा स्वायम्भुवेऽन्त रे ॥१८

तस्यपुत्रास्तुयज्ञस्यदक्षिणायामुभास्वरा ।

प्रसूत्याचतथादक्षश्चतस्रोविशतिस्तथा ॥१९

ससर्ज्जकन्यास्तासाचसम्यङ्नामानिमेऽष्टरागु ।

श्रद्धालक्ष्मीर्घृतिस्तुष्टिःपुष्टिर्मेघाक्रियातथा ॥२०

बुद्धिर्लज्जावपु शान्तिःसिद्धि कीर्तिस्त्रयोदशी ।

पत्न्यर्थेऽप्रपिजग्राहधर्मोदाक्षायणीःप्रभु ॥२१

उस पुरुष के द्वारा शतरूपा के दो पुत्र हुए, उनमें से एक का नाम प्रियवत और दूसरे का नाम उत्तानपाद हुआ, इन दोनों की प्रसिद्धि अपने-अपने कर्म से हुई ॥१५॥ और शतरूपा के दो कन्याएँ आकृती और प्रसूती नाम की हुईं, स्वयम्भुव मनु ने प्रसूती को दक्ष के लिए और आकृती तो प्रजापति रुचि



के लिये ॥१६॥ अर्पण कर दिया, उनके एक पुत्र और एक पुत्री हुई उनका नाम यज्ञ और दक्षिणा रखा गया, वे दोनों दाम्पत्य सूत्र में बँध गये ॥१७॥ उस दक्षिणा से यज्ञ के जिन बारह पुत्रों की उत्पत्ति हुई, वह स्वायम्भुव मन्वन्तर में 'याम' देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए ॥१८॥ उसी दक्षिणा से भास्वर आदि अन्य अनेक पुत्र उत्पन्न हुये थे, उधर दक्ष ने प्रसूती के गर्भ से चौबीस ॥१९॥ कन्याएँ उत्पन्न कीं, उनके नाम सुनो—श्रद्धा, लक्ष्मी, वृत्ति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया ॥२०॥ बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि इन तेरह दक्षसुताओं को धर्म ने अपनी पत्नी बना डाला ॥२१॥

ताभ्य शिष्टायवीयस्यएकादशसुलोचना ।

ख्याति सत्यथसम्भूति स्मृति.प्रीतिस्तथाक्षमा ॥२२

सन्ततिश्चानसूयाचऊर्जास्वाहास्वधातथा ।

भृगुर्भवोमरीचिश्चतथाचैवाङ्गिरामुनि ॥२३

पुलस्त्य.पुलहश्चक्रतुश्चऋष्यस्तथा ।

वसिष्ठोऽत्रिस्तथावह्नि पितरश्चयथाक्रमम् ॥२४

ख्यात्याद्याजगृह्ण कन्यामुनियोमुनिसत्तमा ।

श्रद्धाकामश्रीश्चदर्पनियमधृतिरात्मजम् ॥२५

सन्तोषचतथातुष्टिलोभंपुष्टिरजायत ।

मेघाश्रुतक्रियादण्डनयविनयमेवच ॥२६

बोधंबुद्धिस्तथालज्जाविनयवपुरात्मजम् ।

व्यवसायप्रजज्ञे वैक्षेमशान्तिरसूयत ॥२७

सुखंसिद्धिर्यश.कीर्तिरित्येतेधर्मयोऽनयः ।

कामादतिमुदहर्षधर्मपौत्रमसूयत ॥२८

और ग्यारह—ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा ॥२२॥

सन्तति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नाम से प्रसिद्ध थीं, उन्हें भृगु इत्यादि ने क्रमशः ग्रहण किया ॥२३॥ भृगु, शङ्कर, मरीचि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वसिष्ठ, अत्रि, वह्नि और पितर गए ॥२४॥ इन मुनियों, मुनि-सत्तमों और ऋषियों ने ख्याति इत्यादि ग्यारह दक्ष सुताओं को यथाक्रम ग्रहण

किया, श्रद्धा ने काम को उत्पन्न किया, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को ॥२५॥ तुष्टि ने सन्तोष को, पुष्टि ने लोभ को, मेधा ने श्रुत को, क्रिया ने दण्ड को ॥२६॥ बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने व्यवसाय को, शान्ति क्षेम को ॥२७॥ सिद्धि ने सुख को और कीर्ति ने यश को जन्म दिया, धर्म की यही सन्तान है, काम से हर्ष नामक धर्म के पौत्र की उत्पत्ति हुई ॥२८॥

हिंसाभार्यात्वधर्मस्यतस्याजज्ञेतथानृपम् ।

कन्याचनिर्ऋतिस्तस्यासुतैर्द्वौनरकभयम् ॥२९

मायाचवेदनाचैवमिथुनद्वयमेतयोः ।

तयोजज्ञेऽथवैमायामृत्युभूतापहारिणम् ॥३०

वेदनात्मसुतचापिदुःखजज्ञेऽथरौरवात् ।

मृत्योर्व्याधिजराशोकतृष्णाक्रोधश्चजज्ञिरे ॥३१

दुःखोद्भवास्मृताह्येतेसर्वेवाधर्मलक्षणाः ।

नैषाभार्यास्तिपुत्रोवासवतेह्यूर्ध्वरेतस ॥३२

निर्ऋतिश्चतथाचान्यामृत्योर्भार्याभवनमुने ।

अलक्ष्मीर्नामतस्याचमृत्योपुत्राश्चतुर्दश ॥३३

अलक्ष्मीपुत्रकाह्येतेमृत्योरादेशकारिणः ।

विनाशकालेषुनरान्भजन्त्येतेऽशृणुष्वतान् ॥३४

अधर्म की पत्नी का नाम अहिंसा हुआ, उससे अनृत की उत्पत्ति हुई, अनृत ने निर्ऋत नाम की पत्नी के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम 'नरक' और 'भय' हुए ॥२९॥ तथा माया और वेदना नामक दो कन्याएँ हुई, इन पुत्र पुत्रियों में परस्पर मिथुन भाव की सृष्टि हुई, माया के गर्भ से जीवो का सहारक 'मृत्यु' नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३०॥ तथा वेदना के गर्भ से नरक ने दुःख नामक पुत्र उत्पन्न किया, मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई ॥३१॥ दुःख के यह सभी पुत्र महा अधर्मी हुए, यह सब ऊर्ध्वरेता है, इसलिये इनके पत्नी या पुत्र नहीं है ॥३२॥ हे मुने ! मृत्यु की निर्ऋति नामक जो पत्नी थी, वह अलक्ष्मी भी कही जाती है, उससे मृत्यु ने चौदह पुत्रों की उत्पत्ति की ॥३३॥ मृत्यु की आज्ञा में रहने वाले सब पुत्र 'अलक्ष्मी' ही

कहे जाते हैं, मृत्यु के समय यह मनुष्यों के जिस-जिस अंग में स्थित रहते हैं, उनके नाम बताता है ॥३४॥

इन्द्रियेषुदशस्वेतेतथामनसिचस्थिता ।  
स्वेस्वेनरस्त्रियवापिविषयेयोजयन्तिहि ॥३५  
अथेन्द्रियारिणाक्रम्यरागक्रोधादिभिर्नरान् ।  
योजयन्तियथाहानियान्त्यधर्मादिभिर्द्विज ॥३६  
अहङ्कारगताश्चान्येतथान्येबुद्धिसस्थिताः ।  
विनाशायनरस्त्रीणायतन्तेमोहसश्रिता ॥३७  
तथैवान्योगृहेषु सादु सहोनामविश्रुतः ।  
धुत्क्षामोऽधोमुखो नग्नीरीकाकसमस्वन ॥३८  
ससर्वान्खादितुं सृष्टो ब्रह्मणा तमसो निधिः ।  
दष्टाकरालमत्यर्थं विवृतास्यसुभैरवम् ॥३९  
तमत्तुकाममाहेदब्रह्मालोकपितामह ।  
सर्वब्रह्ममयः शुद्ध कारणजगतोऽव्ययः ॥४०  
नात्तव्यतेजगदिदजहिकोपशमन्नज ।  
त्यजंकातामसीवृत्तिमपास्यरजसःकलाम् ॥४१  
धुत्क्षामोऽस्मिजगन्नाथपिपासुश्चापि दुर्बल ।  
कथतृप्तिमियानाथभवेयबलवान्कथम् ।  
कश्चाश्रयोममाख्याहिवर्तयेयत्रनिवृत्तः ॥४२

इनमें से प्रथम दश तो दसो इन्द्रियो मे निवास करते हैं, ग्यारहवाँ मन के ऊपर रहता है और स्त्री-पुरुषों को अपने-अपने विषय में संयुक्त करता है ॥३५॥ फिर रागादि के द्वारा सब इन्द्रियो को आक्रान्त कर अधर्म आदि से मिला देता है, जिससे उनकी अत्यंत हानि होती है ॥३६॥ मृत्यु का बारहवाँ पुत्र अहकार में रहता है, तेरहवाँ पुत्र जीवों की बुद्धि पर रहता है इससे मोहित हुए मनुष्य स्त्रियों को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं ॥३७॥ और चौदहवाँ अलक्ष्मी-पुत्र जिसे दुःसह करते हैं, यह घर-घर में रह कर सदा क्षुधातुर, अधो-मुख, नग्न, चीरधारी और कौए के समान शब्द करता है ॥३८॥ प्रतीत होता है

कि ब्रह्माजी ने इस तपोनिधि को सर्व पदार्थों का भक्षण करने के लिए ही उत्पन्न किया है, फिर उस दुःसह को कराल दष्टा, फँसे हुए मुख से भयकर शब्द करते हुए ॥३६॥ तथा सबको भक्षण करने के लिये तत्पर देख कर जगत् के कारण रूप अविनाशी पितामह ब्रह्माजी बोले ॥४०॥ ब्रह्माजी ने कहा—हे दुःसह ! संसार को भक्षण करना तुम्हारे लिए अनुचित है, तुम क्रोध को छोड़ कर शान्त होओ, इस तमोगुणी वृत्ति और रजोगुण के अश का परित्याग करो ॥४१॥ दुःसह ने कहा—हे जगन्नाथ ! मैं क्षुधा के कारण अत्यन्त क्रुश और पिपासा के कारण दुर्बल हो गया हूँ, मैं किस प्रकार तृप्त, तथा बलवान् होऊँ और किसके आश्रय में सुख पूर्वक रहूँ, यह कृपा पूर्वक बताइये ॥४२॥

तवाश्रयोगृहपु साजनश्राधार्मिकोबलम् ॥

पुष्टिर्नित्यक्रियाहान्याभवान्वत्सगमिष्यति ॥४३॥

लूता स्फोटाश्चतैवस्त्रमाहारचददामिते ।

क्षुतकीटावपन्न चतथाश्वभिरवेक्षितम् ॥४४

भग्नभाण्डगतंतद्वन्मुखवातोपशामितम् ।

उच्छिष्टापकमस्विन्नमवलीढमसंस्कृतम् ॥४५

भगनासनस्थितैर्भुक्तमासन्नागतमेवच ।

विदिङ्मुखसन्ध्ययोश्चनृत्यवाद्यस्वनाकुलम् ॥४६

उदक्योपहतमुक्तमुदक्यादृष्टमेवज ।

यच्चोपघातवर्तिकचिद्भूक्ष्यपेयमथापिवा ॥४७

एतानितवपुष्ट्यर्थमन्यच्चापिददामिते ।

अश्रद्धयाहुतदत्तमस्नार्तैर्यदवज्ञया ॥४८

यन्नाम्बुपूर्वकक्षिप्तमनात्मीकृतमेवच ।

त्यक्तुमाविष्टकृतयत्तुदत्तंचैवातिविस्मयात् ॥४९

ब्रह्माजी ने कहा—हे वत्स ! पुरुषो का घर तुम्हारा आश्रय स्थान, अधर्मी मनुष्य तुम्हारा बल तथा नित्यकर्म की हानि ही तुम्हारे लिए पुष्टि होगी ॥४३॥ मकड़ी के जाले और सब स्फोट तुम्हारे वस्त्र हैं, अब मैं तुम्हें आहार देता हूँ, जिस ध्रुव में कीड़े उत्पन्न हो गये और जिसे कुत्ते ने देख लिया है, ऐसे

ब्रह्म का स्वामी तुम्हारे आहार स्वरूप है ॥४४॥ फूटे पात्र में रखा हुआ पदार्थ अथवा जो पदार्थ अथवा मुख की फूँक से ठडा किया गया हो, उच्छिन्न या या कच्चा अथवा सस्कार रहित हो ॥४५॥ अथवा जो मनुष्य फटे आसन पर बैठ कर या अतिथि को भोजन दिये बिना अथवा दक्षिण की ओर मुख करके या सध्या के समय, नृत्य, के समय, गायन-वादन के समय जो पदार्थ खाया जाय ॥४६॥ अथवा रजस्वला स्त्री द्वारा देखा या छुआ, किसी का भूटा अथवा दोष युक्त पका हुआ भोजन ॥४७॥ यह सब पदार्थ तुम्हारे खाने के योग्य और पुष्टि करने वाले होंगे, तुम्हारी पुष्टि के लिये और भी प्रदान करता हूँ, जो स्नान किये बिना अश्रद्धा से हवन किया जाय या अज्ञानी मनुष्यों के द्वारा दान किया जाय ॥४८॥ जो वस्तु जल स्पर्श के बिना दी गयी हो, ध्यर्थ पडी हुई हो, जो विस्तार की गयी हो या भय से दी गयी हो ॥४९॥

दुष्टकृद्द्वार्तदत्तचयक्ष्मन्प्राप्स्यसितत्फलम् ।  
यच्चपौनर्भव.किञ्चित्करोत्यामुष्मिकक्रमम् ॥५०॥  
यच्चपौनर्भवायोषित्तद्यक्ष्मतवतृप्तये ।  
कन्याशुल्कोपधानायसमुपास्तेघनक्रिया ॥५१॥  
तथैवयक्ष्मपुष्ट्यर्थमसच्छास्त्रक्रियाश्चया ।  
यच्चार्थनिवृत्तौकिञ्चिद्धीतयन्नसत्यत ॥५२॥  
तत्सर्वतवकामाश्चददामितवसिद्धये ।  
गुर्विष्यभिगमेसन्ध्यानित्यकार्यव्यतिक्रमे ॥५३॥  
असच्छास्त्रक्रियालापद्वेषितेषुचदु सह ।  
तवाभिभवसामर्थ्यभविष्यतिसदानृषु ॥५४॥  
पङ्क्तिभेदेवृथापाकेपाकभेदेतथाकृते ।  
नित्यचगेहकलहेभवितावसतिस्तव ॥५५॥  
अपोष्यमारीचतथाभृत्यगोवाहनादिके ।  
असन्ध्याभ्युक्षितागारेकालेत्वत्तोभयनृणाम् ॥५६॥

दुष्ट, क्रोधित या आर्त मनुष्यों द्वारा दी गयी हो, ऐसी सब वस्तुओं का भोग करो, हे यक्ष । यह तुम्हारे वश मे की गयी, जो कार्य दूसरी बार विवाहित

हुई स्त्री के पुत्र द्वारा परलोक की सिद्धि के लिये किया गया हो ॥५०॥ अथवा दूसरी बार विवाहित स्त्री जो कर्म करे, उससे तुम्हारी ही तृप्ति होगी अथवा जो कन्या पर द्रव्य लेने में जो धर्म-कार्य किया जाय ॥५१॥ या जो क्रिया मिथ्या धर्मशास्त्र द्वारा संपादन की जाय, वह भी तुम्हारी ही पुष्टि के लिये दिया, असत्यता से पढा हुआ अर्थ प्राप्ति के लिए जो कार्य है ॥५२॥ वह भी तुम्हारी पुष्टि का कारण बनेगा, अब तुम्हारी सिद्धि का समय कहता हूँ—जब गर्भवती नारी से समागम किया जाता है, तब संध्या और नित्य कर्म का व्यतिक्रम होता है ॥५३॥ तथा जब मिथ्या शास्त्र द्वारा कहे गये कार्य द्वारा मनुष्य दोष युक्त होते हैं, तब उनका तिरस्कार करने में तुम समर्थ होंगे ॥५४॥ जहाँ पक्ति में भेद किया जाय, जहाँ वृथा पाक बनाया जाय और जहाँ सदैव क्लेश रहता हो तुम्हारा निवास वही होगा ॥५५॥ जिन गृहों में गौ अश्वदि अन्न तृण के बिना भूखे बधे रहते हैं और सूर्यास्त से पहिले बुहारी नहीं लगती, उन घरों के मनुष्य तुम से डरेगे ॥५६॥

नक्षत्रग्रहपीडामुत्रिविधोत्पातदर्शने ।

अशान्तिकपरान्यक्षमन्नरानभिभविष्यसि ॥५७

वृथोपवासिनोमर्त्याद्यूतस्त्रीषुसदारता ।

त्वद्भाषणोपकर्त्तारोबैडालव्रतिकाश्चये ॥५८

अब्रह्मचारिणाधीतमिज्याचाविदुषाकृता ।

तपोवनेग्राम्यभुजातशैवानिर्जितात्मनाम् ॥५९

ब्राह्मणक्षत्रियविशाशूद्राणांचस्वकर्मत ।

परिच्युतानांयाचेष्टापरलोकार्थमीप्सताम् ॥६०

तस्याश्चयत्फलसर्वतत्तोयक्षमन्भविष्यति ।

अन्यच्चतेप्रयच्छामिपुष्ट्यर्थं सनिबोधतत् ॥६१

भवतोवैश्वदेवान्तेनामोच्चारणपूर्वकम् ।

एतत्तवेतिदास्यन्तिभवतोबलिमूर्जितम् ॥६२

यसस्कृताशीविधिवच्छुचिरन्तस्यथाबहि ।

अलोलुपोजितस्त्रीकस्तद्गोहमपवर्ज्य ॥६३

नक्षत्र या ग्रह की पीडा या त्रिविध उत्पातों के दिखायी देने पर जो उनकी शान्ति का उपाय नहीं करते, तुम उन मनुष्यों को घेरे रहोगे ॥५७॥ वृथा उपवास करने वाले, द्यूत और स्त्री में आसक्ति रखने वाले तुम्हारे ही उपकारी है, जो बिल्ली के समान अपने प्रयोजन में लगे रहते हैं ॥५८॥ या जो ब्रह्मचर्य के बिना ही वेदपाठ करते हैं, मूर्ख होते हुए भी यज्ञ करते हैं तथा तपोवन में गृहस्थ धर्म जैसा आचरण करते हैं, चञ्चल चित्त और असयम पूर्वक अध्ययन ॥५९॥ तथा अपने कर्म से भ्रष्ट होकर पारलौकिक सुख की इच्छा वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों द्वारा तपोवन में किये जाने वाले कर्म ॥६०॥ तथा इन कार्यों का जो फल है, वह सभी तुम्हारे वश में है, तुम्हारी पुष्टि के लिये और भी प्रदान करता हूँ ॥६१॥ जो वैश्वदेव के अन्त में तुम्हारा नाम लेकर 'यह तुम्हारा है' ऐसा कहते हुए तुम्हें अजित बलि देते हैं ॥६२॥ परन्तु जो मनुष्य संस्कार युक्त पदार्थों का भोजन करते और बाहर भीतर से पवित्र तथा निर्लोभ हैं, जिन्हें स्त्रियाँ अपने वश में नहीं कर सकती, उनके घरों को तुम छोड़ दो ॥६३॥

पूज्यन्तेहव्यकव्याभ्यादेवताःपितरस्तथा ।  
जामयोऽतिथयश्चापितद्गेहयक्षमवर्जय ॥६४  
यत्रमैत्रीगृहेबालवृद्धयोषिन्नरेषुच ।  
तथास्वजनवर्गेषुगृहतञ्जापिवर्जय ॥६५  
योषिताऽभिमतायत्रनबहिर्गमनोत्सुका ।  
लज्जान्विताःसदागेहयक्षमतत्परिवर्जय ॥६६  
वय सम्बन्धयोग्यानिशयनान्यशनानिच ।  
यत्रगेहेत्वयायक्षमतद्वर्ज्यवचनान्मम ॥६७  
यत्रकारुणिकानित्यसाधुकर्मण्यवस्थिता ।  
सामान्योपस्करैर्युक्तास्त्यजेथायक्षमतद्गृहम् ॥६७  
यत्रासनस्थास्तिष्ठत्सुगुह्वृद्धद्विजातिषु ।  
नतिष्ठन्तिगृहतच्चवर्ज्ययक्षमत्वयासदा ॥६९

तरुगुल्मादिभिर्द्वारनविद्धंयस्यवेश्मन ।  
मर्मभेदोनवापु सस्तस्त्रेयोभवननते ॥७०

जिस घर मे देवता और पितर सदा हृव्य कव्य द्वारा तृप्त रहते है और जहाँ अतिथियो की पूजा है, उस घर का भी परित्याग कर दो ॥६४॥ जिस घर मे बालक, वृद्ध, युवक, युवती और स्वजन आदि सदा मैत्री भाव से रहते है, उस घर को भी छोड दो ॥६५॥ जिस गृह की नारिया अनुरक्ता है तथा घर से बाहर जाने की इच्छा नहीं करती और सदा लज्जावती रहती है, वह घर भी तुम्हारे रहने योग्य नहीं ॥६६॥ हे यक्ष्म ! जिस घर के लोग अपनी अवस्था और वैभव के अनुसार ही शयन या भोजन करते हो, वह घर भी तुम्हारे लिये त्याज्य है ॥६७॥ जिस घर के मनुष्य करुणा युक्त, सत्कार्य मे तत्पर और सामान्य सामग्री से परिपूर्ण है, वह भी तुम्हे त्याग देना चाहिये । ॥६८॥ जहाँ के मनुष्य गुरु, वृद्ध, और ब्राह्मणो के आसन पर बैठ जाने पर भी आसन ग्रहण नहीं करते उस घर को सदा के लिये छोड दो ॥६९॥ जिस गृह का द्वार वृक्ष गुल्मादि के द्वारा अवरुद्ध न हो और जहाँ कोई किसी के प्रति मर्मभेदी वाक्यो का उच्चारण न करता हो, उस श्रेष्ठ गृह मे भी तुम्हे न जाना चाहिये ॥७०॥

देवतापितृभृत्यानामतिथीनाचवर्तनम् ।  
यस्यावशिष्टेनान्नेनपुंसस्तस्यगृहत्यज ॥७१  
सत्यावाक्यान्क्षमाशीलानहिस्त्रान्नानुतापिनः ।  
पुरुषानीदृशान्यक्ष्मत्यजेश्चान्नसूयकान् ॥७२  
भर्तृशुश्रूषणोयुक्तासमत्स्त्रीसङ्गवर्जिताम् ।  
कुटुम्बभर्तृशेषान्नपुष्टाचत्यजयोषितम् ॥७३  
यजनाध्ययनाभ्यासदानासक्तमति सदा ।  
याजनाध्यापनादानकृतवृत्तिद्विजत्यज ॥७४  
दानाध्ययनयज्ञेषुसदोद्युक्तचदुःसह ।  
क्षत्रियत्यजसच्छुल्कशस्त्राजीवात्तवेतनम् ॥७५



त्रिभि पूर्वगुर्युक्त पाशुपाल्यवणिज्ययोः ।

कृषेश्चावाप्तवृत्तिचत्यजवैश्यमकल्मषम् ॥७६

दानेज्याद्विजशुश्रूषातत्परंयक्षमसंत्यज ।

शूद्रचब्राह्मणादीनाशुश्रूषावृत्तिपोषकम् ॥७७

जो पुरुष देव, पितर, मनुष्य और अतिथि को भोजन कराकर ही शेष अन्न का भोजन करता है, उसका घर भी तुम्हे त्याग देना चाहिये ॥७१॥ हे यक्ष ! जो सत्यभाषी, क्षमावान्, अहिंसक, अनुतापहीन तथा असूयारहित हैं, उन मनुष्यों के यहाँ मत जाना ॥७२॥ जो नारी सदैव पतिसेवा में तत्पर है और असती स्त्री के संग में नहीं रहती और कुटुम्ब तथा पति के अन्न से पुष्टि को प्राप्त होती है ऐसी स्त्री के पास कभी मत जाना ॥७३॥ जो ब्राह्मण यजन, अध्ययन, अभ्यास और दानादि के विषय में दत्तचित्त है तथा यज्ञ, अध्यापन और दान के प्रतिग्रह से जीविकोपार्जन करते हैं, उन ब्राह्मणों को भी परित्याग करो ॥७४॥ जो क्षत्रिय सदा दान, अध्ययन और यज्ञ में तत्पर रहते हैं तथा शस्त्रजीविका से प्रजा रक्षण करते हुए वेतन मात्र ग्रहण करते हैं, वे भी तुम्हारे द्वारा त्याज्य हैं ॥७५॥ जो वैश्य पहिले कहे गये तीन प्रकार के गुणों से युक्त हैं, पशुपालन, व्यापार और कृषि कर्म द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उन निष्पाप वैश्यों का भी परित्याग करो ॥७६॥ जो शूद्र, दान, यज्ञ और ब्राह्मण-सेवा में तत्पर और ब्राह्मणादि की सेवा-वृत्ति से निर्वाह करने वाले हैं, उन शूद्रों को भी त्याग दो ॥७७॥

श्रुतिस्मृत्यविरोधेनकृतवृत्तिर्गृहेगृही ।

यत्रयत्रतत्पत्नीचतस्यैवानुगतात्मिका ॥ ७८

यत्रपुत्रो गुरो पूजादेवानाचतथापितु ।

पत्नीचभर्तु कुरुतेतत्रालक्ष्मीभयकृत ॥७९

सदानुलिप्तसन्ध्यासुगृहमम्बुसमुक्षितम् ।

कृतपुष्पवलियक्षमनत्वशकनोषिवीक्षितुम् ॥८०

भास्करादृष्टशय्यानिनित्याग्निसलिलानिच ।

सूर्यातलोकदीपानिलक्ष्म्यागेहानिभाजनम् ॥८१

यत्रोक्षाचन्दनवीणाआदशोमधुसर्पिषी ।  
 विषाज्यताम्रपात्राणितद्गृहनतवाश्रय ॥८२  
 यत्रकण्टकिनोवृक्षायत्रनिष्पाववल्लरी ।  
 भार्यापुनर्भूर्वल्मीकस्तद्यक्षमतवमन्दिरम् ॥८३  
 यस्मिन्गृहेनरा पचस्त्रीत्रयतावतीश्रगा ।  
 अन्धकारेन्धनाग्निश्रतद्गृहवसतिस्तव ॥८४

जो मनुष्य घर में रह कर श्रुति स्मृति सम्मत जीवन निर्वाह करते हैं और उनकी भार्या भी उन्ही का अनुसरण करती है ॥७८॥ जिस गृह में पुत्र अपने देवता, पितर और गुरु की पूजा तथा स्त्रियाँ पति सेवा करती हैं, वहाँ अलक्ष्मी का भय किस प्रकार हो सकता है ? ॥७९॥ तीनो सध्याओं के समय जो घर लीपा जाय या जल छिड़क कर पवित्र किया जाय और जहाँ सुगन्धित पुष्पो द्वारा देवताओं को बलि दी जाय, तुम उस गृह को देख भी न सकोगे ॥८०॥ जिस घर की शय्या को सूर्य न देखते हो अर्थात् सूर्योदय के समय तक जहाँ कोई शयन न करता हो, तथा जो घर सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहता हो और जिस घर में अग्नि और जल विद्यमान रहते हो, वह घर लक्ष्मी का ही निवास स्थान है ॥८१॥ जिस घर में चन्दन, वीणा, दर्पण, मधु, घृत, विप और ताम्रपात्र विद्यमान हो वह घर तुम्हारा आश्रय स्थान कदापि नहीं हो सकता ॥८२॥ जिस घर में कांटेयुक्त वृक्ष, निष्पाववल्लरी, दुबारा व्याही हुई पत्नी और वल्मीक (बाँबी) हो, उस घर को तुम अपना ही समझो ॥८३॥ जिस घर में पाँच पुरुष और तीन स्त्री तथा तीन गौ, श्रंधेरा, काष्ठ और अग्नि हो, वही घर तुम्हारा निवास स्थान होगा ॥८४॥

एकच्छागद्विबालेयत्रिगवपञ्चमाहिषम् ।  
 षडश्वसप्तमातङ्ग गृहयक्षमाशुशोषय ॥८५  
 कुद्दालदात्रपिटकतद्वत्स्थाल्यादिभाजनम् ।  
 यत्रतत्रैवक्षिप्तानितवदद्भु प्रतिश्रयम् ॥८६  
 मुशलोलूखलेस्त्रीणामास्यातद्बहुदुम्बरे ।  
 अवस्करेमन्त्रणचयक्षमतदुपकृत्तव ॥८७

लंघ्यन्तेयत्रधान्यानिपक्वानिवेश्मनितथा ।  
 तद्वच्छास्त्राणितत्रत्वयथेष्टचरदु सह ॥८८  
 स्थालीपिधानेयत्राग्निर्दत्तोदर्वीफलेनवा ।  
 गृहेतत्रह्यग्निष्टानामशेषाणासमाश्रय ॥८९  
 मानुषास्थिगृहेयत्रदिवारात्रमृतस्थिति ।  
 यत्रयक्ष्मतववासस्तथान्येषाचरक्षसाम् ॥९०  
 अदत्त्वाभुञ्जतेयेवैवन्धोःपिड तथोदकम् ।  
 सपिण्डान्सोदकाश्चैवतत्कालेतान्नरान्भज ॥९१

हे यक्ष ! जिस घर में एक बकरी, दो स्त्री, तीन गौ, पाँच भैंस, छ अश्व, सात हाथी हों, उस घर का शीघ्र ही शोषण करो ॥८५॥ जिस घर में कुदाल, दर्राँत, पीढा, थाली इत्यादि वस्तुएँ-इधर-उधर बिखरी पड़ी रहती हों, वहाँ के मनुष्य तुम्हें निवास देना चाहते हैं ॥८६॥ जिस घर में स्त्री मूसल या ओखली पर बैठ कर या आँगन में गूलर के नीचे बैठ कर घर के पीछे रहने वाली स्त्री से बातें करने में बगी रहती है, उसके वे कार्य तुम्हारा उपकार करने वाले हैं ॥८७॥ जिस घर में पक्के या कच्चे धान का अनादर और सत्शास्त्र का निरस्कार होता है, उस घर में स्वेच्छा पूर्वक भ्रमण करो ॥८८॥ जिस घर में थाली, ढकना अथवा करछुली से स्त्री किसी को अग्नि देती हो, वह घर सम्पूर्ण अरिष्ट का निवास स्थान है ॥८९॥ जिस घर में मृत पदार्थ या मनुष्य की हड्डी रातदिन विद्यमान रहे, वहाँ सभी राक्षसों का निवास होगा ॥९०॥ जब मनुष्य बन्धु, सर्पिड या सामानोदक पुरुषों को पिण्ड या जल नहीं देते, तुम उस समय उनकी कामना करो ॥९१॥

यत्रपद्ममहापद्मीसुरभिर्मोदकाशिनी ।  
 वृषभैरावतौयत्रकल्प्यतेतद्गृहत्यज ॥९२  
 अशस्त्रादेवतायत्रसशस्त्राश्चाहवविना ।  
 कल्प्यन्तेमनुजैरर्च्यास्तत्परित्यजमन्दिरम् ॥९३  
 पौरजानपदैर्यत्रप्राक्प्रसिद्धमहोत्सवा ।  
 क्रियन्ते पूर्ववद्गोहेनत्वतत्रगृहेचर ॥९४

शूर्पवातघटाम्भोभि स्नानवस्त्राम्बुविप्रुषै ।

पखाग्रसलिलैश्चैवतानाहिहतलक्षणान् ॥६५

देशाचारान्समयाञ्ज्ञातिधर्मजपहोममङ्गलदेवतेष्टिम् ।

सम्यक्छौचविधिवल्लोकवापान्पु सस्त्वयाकुर्वतोमाऽस्तुसङ्ग ॥६६

इत्युक्त्वातु सहब्रह्मातत्रैवान्तरधीयत ।

चकारशासनसोऽपितथापकजजन्मन ॥६७

जिस घर मे पद्म और महापद्म विद्यमान है, स्त्रियों सदा मोदक खाती है तथा जहाँ बैल और ऐरावत भी है, तुम उस घर को छोड़ दो ॥६२॥ जहाँ अशस्त्र देवता बिना पुद्म के ही अशस्त्र देवता के समान पूजे जाते है, तुम उस मन्दिर को भी छोड़ दो ॥६३॥ जिन घरों या पुरों मे तथा जनपदों मे सदा महोत्सव होते रहते हैं, वहाँ तुम कभी मत जाना ॥६४॥ जो मनुष्य सूप की वायु, कलश के जल, वस्त्र के निचोडे हुए जल तथा पादाग्र से स्पर्श जल से स्नान करते हैं उन हीनलक्षणों के पास जाओ ॥६५॥ जो मनुष्य देशाचार, समय, जाति, धर्म, जप, हवन, मङ्गल कार्य, देव पूजन विधिवत् शौच अथवा सब लोकाचार का पालन करते हैं, उनसे तुम्हारा सग नही हो सकता ॥६६॥ मार्कण्डेयजी ने कहा—हे विप्रवर ! इस प्रकार दु सह को आदेश देकर ब्रह्माजी वही पर अन्तर्धान होगये और वह दु सह भी उनकी आज्ञा को उसी प्रकार पालने लगा ॥६७॥

### ४३—दौःसहोत्पत्ति

दु सहस्याभवद्भार्यानिर्माष्टिर्नामनामत ।

जाताकलेस्तुभार्यायामृतौचाण्डालदर्शनात् ॥१

तयोरपत्यान्यभवञ्जगन्ध्यापीनिषोडश ।

अष्टौकुमारा.कन्याश्चतथाष्टावतिभीषणा. ॥२

दन्ताकृष्टिस्तथोक्तिश्चपरिवर्तस्तथापरः ।

अङ्गध्रुक्लकुनिश्चैवगण्डप्रान्तरतिस्तथा ॥३

गर्भहाशस्यहाचान्यःकुमारास्तनयास्तयोः ।  
 कन्याश्चान्यास्तथैवाष्टौतासानामानिभेशृणु ॥४  
 नियोजिकागौप्रथमातथैवान्याविरोधिनी ।  
 स्वयहारकरीचैवभ्रामणीऋतुहारिका ॥५  
 स्मृतिबीजहरेचान्येतयो कन्येसुदारुणो ।  
 विद्वेषण्यष्टमीनामकन्यालोकभयावहा ॥६  
 एतासांकर्मववक्ष्यामिदोषप्रशमनंचयत् ।  
 अष्टानाचकुमाराणाश्रूयताद्विजसत्तम ॥७

मार्कण्डेयजी ने कहा—दु सह की पत्नी निर्मांष्टि थी, वह यम की पुत्री थी, जब यमपत्नी ऋतुमती हुई, उस समय उसने चारण्डाल को देखा, उस गर्भ से निर्मांष्टि उत्पन्न हुई ॥१॥ फिर निर्मांष्टि के गर्भ से दु सह के द्वारा अन्यन्त भीषण आकार वाली सोलह सन्ताने हुईं, जिनमें आठ पुत्र, आठ कन्याएँ हुईं ॥२॥ दन्ताकृष्टि, तथोक्ति, परिवर्त्त, अङ्गधुक्, शकुनि, गड, प्रान्तरति ॥३॥ गर्भहा, और शस्यहा नामक आठ पुत्र हुए, अब आठ कन्याओं के नाम सुनो ।४। नियोजिका, विरोधिनी, स्वयहारकरी, भ्रामणी, ऋतुहारिका ॥५॥ स्मृतिहरा और बीजहरा यह दोनो अन्यन्त भयङ्कर हुई तथा आठवीं विद्वेषिणी थी, वह लोको के लिये अत्यन्त भयावह थी ॥६॥ हे द्विजोत्तम ! अब उन आठ पुत्रों के कर्म और उनकी दोष-शक्ति का उपाय कहता हू, उसे सुनो ॥७॥

दन्ताकृष्टि प्रसूतानाबालानादशनस्थित ।  
 करोतिदंतसघर्षचिकीर्षुर्दुःसहागमम् ॥८  
 तस्योपशमनकार्यसुप्तस्यसितसर्षपैः ।  
 शयनस्योपरिक्षिप्तैर्मानुषैर्दशनोपरि ॥९  
 सौवर्चलोषधीस्नानात्तथासच्छास्त्रकीर्त्तनात् ।  
 उष्ट्रगण्टकगात्रास्थिक्षौमवस्त्रविधारणात् १०  
 तिष्ठत्यन्यकुमारस्तुतथास्त्वयसकृद्ब्रुवन् ।  
 शुभाशुभेनृणापुङ्क्तैतथोक्तिस्तच्चनान्यथा ॥११

तस्माददुष्टमङ्गल्यमुक्त्वायपरिडितै सदा ।  
 दुष्टेश्चुते तथैवोक्ते कीर्त्तनीयोजनार्दन ॥१२  
 चराचरागुरुर्ब्रह्मायामस्यकुलदेवता ।  
 अन्यगर्भेपरान्गच्छन्सदैवपरिवर्तयन् ॥१३  
 रतिमाप्नोतिवाक्यचविवक्षोरन्यदेवयत् ।  
 परिवर्त्तकसज्ञोऽयतस्यापिसितसर्षपै ॥१४

दन्ताकृष्टि उत्पन्न हुए बालक के दाँतो को किडकिडाता है और दु महु भी दन्ताकृष्टि के आश्रय से वहाँ आजाता है ॥८॥ इसकी शान्ति का उपाय कहते है—सोते हुए बालक के दाँतो और शय्या पर सरसो डाले ॥९॥ अथवा औषधि-जल से स्नान करावे, सत् शास्त्रो का कीर्त्तन करावे तथा ऊँट या गेडे की अस्थि का यत्र बना कर बालक के कठ मे डाले अथवा रेगमी वस्त्र धारण करावे ॥१०॥ दूसरा पुत्र तथोक्ति 'यही हो' कहता हुआ सब मनुष्यो के शुभ अशु<sup>५</sup> मे लगता है, इसमे असत्य नही है ॥११॥ इसकी शान्ति के लिये श्रेष्ठत्व और मङ्गल का प्रकाश करते हुए भगवान् जनार्दन का नाम-सकीर्त्तन करे ॥१२॥ अथवा चराचर विश्व के गुरु श्री ब्रह्माजी का नाम-कीर्त्तन अथवा अपने कुल-देवता का ही स्मरण करे, परिवर्त्तक नामक तृतीय पुत्र अन्य गर्भ मे अपर गर्भ स्थापन ॥१३॥ और एक प्रकार के वचनो को अन्य प्रकार से कहने से प्रसन्न होता है, उसकी शान्ति के लिये भी श्वेत सरसो बिखेरनी चाहिये ॥१४

रक्षोघ्नमन्त्रजप्यैश्चरक्षाकुर्वीततत्त्ववित् ।  
 अन्यश्चानिलवन्तृणामङ्गेषुस्फुरणोदितम् ॥१५  
 शुभाशुभसमाचष्टेकुशैस्तस्याङ्गताडनम् ।  
 काकादिपक्षिसस्थोऽन्य श्वादेरगतोऽपिवा ॥१६  
 शुभाशुभचशकुनि कुमारोऽन्योब्रवीतिवै ।  
 तत्रापिदुष्टेव्याक्षेप प्रारम्भत्यागएवच ॥१७  
 शुभेद्द्रुततरकार्यमितिप्राहप्रजापतिः ।  
 गरुडान्तेषुस्थितश्चान्योमुहूर्ताद्ध्विजोत्तम ॥१८

सर्वारभान्कुमारोऽत्तिशमंतस्यनिशामय ।

विप्रोक्त्यादेवतास्तुत्यामूलोत्खातेनचद्विज ॥१६

गोमूत्रसर्षपस्नानैस्तदृक्षग्रहपूजनै ।

पुनश्चधर्मोपनिषत्करणै शास्त्रदर्शनै ॥२०

श्रवज्ञयाजन्मनश्चप्रशमयातिगण्डवान् ।

गर्भेस्त्रीगातथाऽन्यस्तुकललाशीसुदारुण ॥२१

अथवा ज्ञानीजन रक्षोघ्न मन्त्र के जप से रक्षा करे, चौथा अंगघुक् नामक पुत्र मनुष्य के अंग में वायु के समान स्पंदन ॥१५॥ और लोम-हर्षण करके शुभाशुभ बताता है, उसकी शान्ति के लिये शरीर में कुशा से आघात करे, पाँचवाँ पुत्र शकुनी काकादि पक्षी तथा श्वान या गीदड के देह में प्रविष्ट रह कर ॥१६॥ मनुष्य के शुभ-अशुभ को व्यक्त करता है, यदि अशुभ लक्षण प्रकाशित हो तो सभी कार्य का आरम्भ छोड़ दे ॥१७॥ और यदि शुभ लक्षण दिखायी पड़े तो कार्यारम्भ में अत्यंत शीघ्रता करे, छठवाँ पुत्र गरुडान्तरित आधे मुहूर्त गण्डान्त में निवास कर ॥१८॥ सभी मंगलमय कार्य, अनिन्दना आदि को नष्ट कर देता है, उसके शमनार्थ ब्राह्मण का आशीर्वाद, देव-स्तुति या मूल नक्षत्र की शान्ति ॥१९॥ गोमूत्र और श्वेत सरसो से स्नान, नक्षत्र और ग्रह का पूजन, धर्मोपनिषद का श्रवण और शास्त्रों का दर्शन ॥२०॥ तथा जन्म का तिरस्कार करे इस गरुडदोष का शमन होता है, तथा सातवाँ गर्भहा नामक भयकर पुत्र, स्त्रियों के गर्भस्थ कलल को नष्ट करता है ॥२१॥

तस्यरक्षासदाकार्यानित्यशौचनिषेवणात् ।

प्रसिद्धमन्त्रलिखनाच्छस्तमाल्यादिधाग्ग्यात् ॥२२

विशुद्धगेहावसनादनायासाच्चवैद्विज ।

तथैवशस्यहाचान्य शस्यर्द्धिमुपहन्तियः ॥२३

तस्यापिरक्षाकुर्वीतजीर्णोपानद्विधारणात् ।

तथापसव्यगमनाच्चण्डालस्यप्रवेशनात् ॥२४

बहिर्बलिप्रदानाच्चसोमाम्बुपरिकीर्तनात् ।

परदारपरद्रव्यहरणादिषुमानवान् ॥२५

नियोजयतिचैवान्याङ्कन्यासाचनियोजिका ॥२७

नियोजयत्येनमितिगच्छेत्तद्वशबुध ।

परदारादिससर्गेचित्तमात्मानमेवच ॥२८

नियोजयत्यत्रसामामितिप्राज्ञोविचिन्तयेत् ।

विरोधकुरुतेचान्यादम्पत्यो प्रीयमारागयोः ॥२९

बन्धूनासुहृदापित्रो पुत्रै सावर्णिकैश्चया ।

विरोधिनीसातद्रक्षाकुर्वीतबलिकर्मणा ॥३०

उसके शमनार्थं सदैव पवित्र भाव से रहे, प्रसिद्ध मन्त्र लिख कर माल्यादि धारण पूर्वक ॥२२॥ शुद्ध गृह मे निवास करे तथा आयास को त्यागे, हे विप्र । इसी प्रकार आठवाँ शस्यहा नामक पुत्र सम्पूर्ण शस्य का नाश करता है ॥२३॥ खेत मे पुराना जूता रखे और बाँई ओर से खेत मे जाकर चण्डाल का प्रवेश करावे ॥२४॥ बहिर्बलि प्रदान तथा सोमाम्बु के पाठ से उसका शमन होता है, प्रथम पुत्री नियोजिका मनुष्यो को परनारी गमन और पराये द्रव्य के हरण आदि मे नियोजित करती है, इसके शमनार्थं पुराण ग्रन्थो का पाठ और क्रोध लोभादि का त्याग करे ॥२५-२६॥ किसी के द्वारा दुर्वर्चन कहने पर भी क्रोधित न हो और नियोजिका के उपर्युक्त कर्म का चिन्तन करके उस असत् वृत्त से अपने को रोके, जो विरोधिनी नाम वाली द्वितीय पुत्री है, वह अत्यंत प्रेम युक्त दम्पति मे ॥२७-२८-२९॥ तथा सुहृद बधु, पिता, माता, पुत्र आदि मे विवाद उत्पन्न कराती है, उसके शमनार्थं बलि कर्म करे ॥३०॥

तथातिवादसहनाच्छास्त्राचारनिषेवणात् ।

धान्यखलाद्गृहाद्गोष्ठात्पय सर्पितथापरा ॥३१

समृद्धिमृद्धिमद्द्रव्यादपहन्तिचकन्यका ।

सास्त्रयहारिकेत्युक्तासदान्तर्धानतत्परा ॥३२

महानसादद्धं सिद्धमन्नागारस्थिततथा ।

परिविष्यमाराणचसदासाद्धंभुङ्क्तेचभुञ्जता ॥३३

उच्छेषरामनुष्याणाहरत्यन्न चदुर्हरा ।

कर्मान्तागारशालाभ्य सिद्धचूद्धहरतिद्विज ॥३४



गोस्त्रीस्तनेभ्यश्चपय क्षीरहारीसदैवसा ।

दध्नोघृततिलालसुरागारात्तथासुराम् ॥३५॥

इस प्रकार सब प्रकार के अतिवाद को परित्याग कर शास्त्रानुसार पवित्र कर्मों को करे, और जो तीसरी खरिहान नाम की पुत्री है, वह घर के अन्न, गौ दूध, घी ॥३१॥ तथा द्रव्यादि की हानि और समस्त ऋद्धि सिद्धि का हरण करती है और जिसका नाम स्वयहारिणी है, वह सदा छिपे रूप में रहती है ॥३२॥ तथा रसोई की वस्तुओं या अन्य वस्तुओं में प्रविष्ट होकर अन्न का संचर नहीं होने देती तथा खाने वालों के साथ स्वयं भी खाती है ॥३३॥ जिस घर में अन्न के ढेर में से जो चोरी होती है उस अन्न के चुराने वाली वही है, जिस घर में श्रेष्ठ कर्म नहीं होते, उस घर की ऋद्धि-सिद्धि का वही हरण करती है ॥३४॥ गौओं और स्त्रियों के स्तन से दूध, दही में से घी, तिल में से तेल और सुरा कं भट्टी में से सुरा को वही पीती है ॥३५॥

रागकुसुम्भकादीनांकार्पासात्सूत्रमेवच ।

सास्वयहारिकानामहरत्यविरतद्विज ॥३६॥

कुर्याच्छिखण्डिनोर्द्वन्द्वंरक्षार्थंकृत्रिमास्त्रियम् ।

रक्षाश्चैवगृहेलेख्यावर्ज्याचोच्छिष्टतातथा ॥३७॥

होमाग्निदेवताधूपभस्मनाचपरिष्किया ।

कार्याक्षीरादिभाण्डानामेवतद्रक्षणस्मृतम् ॥३८॥

उद्वगजनयत्यन्याएकस्थाननिवासिनः ।

पुरुषस्यतुयाप्रोक्ताभ्रामणीसातुकन्यका ॥३९॥

तस्याथरक्षाकुर्वीतविक्षिप्तै सितसर्षपै ।

आसनेशयनेचोर्व्यायत्रास्तेसतुमानवः ॥४०॥

चिन्तयेन्नर पापामामेषादुष्टचेतना ।

भ्रामयत्यसकृज्जप्यभुवःसूक्त समाधिना ॥४१॥

स्त्रीणांपुष्पंहरत्यन्याप्रवृत्तसातुकन्यका ।

तथाप्रवृत्तंसाज्ञेयादु सहाऋतुहारिका ॥४२॥

कुसुम्भादि पुष्प से रंग तथा कपास से सूत्र को हरती है, इसलिये इसे स्वय-हारिका कहा गया है ॥३६॥ इसका शमन करने के लिये अपने घर में एक स्त्री और दो मोरो के चित्र बनावे, वे चित्र सदा व्यक्त रहे, मिटे नहीं ॥३७॥ होम करे, देवताओं के लिए धूप दिखावे फिर उसी अग्नि की भस्म को दुग्धादि के पात्रों पर लगावे, स्त्री अपने स्तनों पर मले, इससे सब दोषों की शान्ति होती है ॥३८॥ तथा आमरणी नामक चौथी कन्या एक स्थान पर रहने वाले मनुष्यों के हृदय में प्रविष्ट होकर उद्वेग उत्पन्न कराती है ॥३९॥ इसका शमन करने के लिये आसन, शय्या और पृथिवी में श्वेत सरसों बिखेरे, किसी पाप कर्म में चित्त के लगने पर उसी दुष्टात्मा की प्रेरणा समझ कर समाधि युक्त होकर भूमि सूक्त का जप करे ॥४१॥ पाँचवी कन्या ऋतु-हारिका ऋतुमती स्त्रियों के रज का हरण करती है ॥४२॥

कुर्वीततीर्थदेवौकश्चैत्यपर्वतसानुषु ।

नदीमगमखातेषुस्नपनतत्प्रशान्तये ॥४३

मन्त्रविद्धूततत्त्वज्ञपर्वसूषसिचद्विज ।

तेषातुपूजनकार्यधूपवत्युपहारकै ।

चिकित्साज्ञश्चवैद्यसप्रयुक्तैर्वरौषधै ॥४४

स्मृतिचापहरत्यन्याप्रवृत्तासातुकन्यका ।

अथाप्रवृत्तासाज्ञेयानृणासास्मृतिहारिका ॥४५

विविक्तदेशसेवित्वात्तस्याश्चोपशमोभवेत् ।

बीजापहारिणीचान्यास्त्रीपुसोरतिभीषणा ।

मेघ्यान्नभोजनैस्नानैस्तस्याश्चोपशमोभवेत् ॥४६

दारुणासादुराचारादारुणकुरुतेभयम् ।

तत्प्रशांत्यैप्रकुर्वीतद्विजानामर्चनशुभम् ॥४७

अष्टमीद्वेषणीनामकन्यालोकभयावहा ।

याकरोतिजनद्विष्टनरनारीमथापिवा ॥४८

मधुक्षीरघृताक्तास्तुशान्त्यर्थहोमयेत्तिलान् ।

कुर्वीतमित्रविन्दाचतथेष्टितत्प्रशान्तये ॥४९

इसके शमनार्थ तत्त्वज्ञानी पंडित पर्वत की कन्दराओं और तीर्थों में मन्दिर बनवावे तथा नदी के सगम स्थल पर स्नान करे ॥४३॥ मंत्रविद् इन सब कर्मों को प्रातः काल करे तथा धूपादि से उपहार का पूजन और चतुर वैद्य से चिकित्सा करावे ॥४४॥ छटवी कन्या स्मृति हारिका स्त्रियो और पुरुषो की स्मृति को हर लेती है ॥४५॥ इसके शमन के लिये श्रेष्ठ, परिष्कृत और रमणीक स्थान का सेवन करे, सातवी पुत्री बीजाप-हारिणी स्त्री-पुरुषों की रति को विनष्ट करती है, इसकी शान्ति के लिये पवित्र अन्न का भोजन और स्नान करे ॥४६॥ यह दुराचारिणी घोर भय को उत्पन्न करने वाली है, उसकी शान्ति के लिये ब्राह्मण-पूजन श्रेष्ठ कर्म है ॥४७॥ आठवीं पुत्री द्वेषिणी स्त्री-पुरुषो मे द्वेष कराने वाली है ॥४८॥ इसका शमन करने के लिये मधु, दुग्ध, घृत और तिल की आहुति देकर मित्रविन्दा नामक यज्ञ करे ॥४९॥

एतेषांतुकुमाराणाकन्यानाद्विजसत्तम ।

अष्टत्रिंशदपत्यानितेषांनामानिमेशृणु ॥५०

दन्ताकृष्टेरभूत्कन्याविजल्पाकलहातथा ।

अवज्ञानृतदुष्टोक्तिर्विजल्पात्प्रशान्तये ॥५१

तामेवचिन्तयेत्प्राज्ञ प्रयतश्चगृहीभवेत् ।

कलहाकलहोहेकरोत्यविरतंतृणाम् ॥५२

कुटुम्बनाशहेतु सातप्रशान्तिनिशामय ।

दूर्वाकुरान्मधुघृतक्षीराक्तान्बलिकर्मणि ॥५३

विक्षिपेज्जुहुयान्चैवानलमित्रचकीर्तयेत् ।

भूतानामातृभिःसाद्ध बालकानांतुशान्तये ॥५४

विद्यानांतपसांचैवसयमस्ययमस्यच ।

कृष्यावारिण्यलाभेचशांतिर्कुर्वन्तुमेसदा ॥५५

पूजिताश्चयथान्यायतुष्टिगच्छन्तुसर्वश ।

कूष्माण्डायानुधानाश्चयेचान्येगणसंज्ञिता ॥५६

इन सब पुत्र पुत्रियो की अदतीस सताने हुईं, उनके नाम बताते हैं, सुनो

॥५०॥ दन्ताकृष्टि के विजल्पा और कलहा नाम की दो कन्याएँ हुईं, विजल्पा

अवज्ञा करने वाली तथा मिथ्या और दुष्ट भाषिणी है, उसके शमनार्थ ॥५१॥  
 गृहस्थ को सयत चित्त होकर उसी का चिन्तन करना चाहिये और कलहा सदा  
 घरों में कलह कराती है ॥५२॥ तथा उनके कुटुम्ब का नाश कराने वाली है,  
 इसकी शान्ति के लिये दूब के अकुर, मधु, दूध की बलि देकर ॥५३॥ अग्नि में  
 होम करे तथा सम्पूर्ण गृह में जल छिड़के, मित्रविन्दा का जप करे और यक्ष  
 वर्गान तथा विनती सहित भूतों का पूजन करे, इससे बालको की शान्ति हो  
 जायगी ॥५४॥ फिर कहे कि विद्या, तप, सयम, यम, कृषि और व्यापार में तुम  
 लाभार्थ हमारी सहायता करो ॥५५॥ तथा सभी कूष्माण्ड और यातुधान आदि  
 गण है वे सब भी मेरे इस पूजन को स्वीकार कर संतुष्टि को प्राप्त हों ॥५६॥

महादेवप्रसादेनमहेश्वरमतेनच ।

सर्वेतेनृणांनित्यतुष्टिमाशुक्रजन्तुते ॥५७

तुष्टाःसर्वनिरस्यन्तुदुष्कृतदुरनुष्ठितम् ।

महापातकजसर्वयच्चान्यद्विघ्नकारणम् ॥५८

तेषामेवप्रसादेनविघ्नानश्यन्तुसर्वश ।

उद्राहेषुचसर्वेषुवृद्धिकर्मसुचैवहि ॥५९

घुष्यानुष्ठानयोगेषुगुरुदेवार्चनेषुच ।

जपयज्ञविधानेषुयात्रासुचचतुर्दश ॥६०

शरीरारोग्यभोग्येषुसुखदानधनेषुच ।

वृद्धबालातुरेष्वेवशांतिकुर्वतुमेसदा ॥६१

सोमाम्बुपौतथाम्भोभिःसविताचानिलानलौ ।

तथोक्तैःकलिजिह्वोऽभूत्पुत्रस्तालनिकेतन ॥६२

सयेषारनासस्थस्तानसाधून्विवाद्येत् ।

परिवर्तसुतौद्वैतुविरूपविकृतौद्विज ॥६३

तौतुवृक्षाद्रिपरिखाप्राकाराभोघिसश्रयौ ।

गुविण्यापरिवर्ततौक्रूरतपादपादिषु ॥६४

महादेव के प्रसाद और महेश्वर की अनुमति के अनुसार सब मनुष्यों पर  
 क्षीघ्र प्रसन्न होकर नित्य ही रक्षा करो ॥५७॥ तथा संतुष्ट होकर मेरे सब

पाप, दूषित कर्म तथा महापाप जनित सब कष्टों और विघ्न के कारणों को वित्त करो ॥५८॥ यदि विवाहादि शुभ कार्यों की वृद्धि में विघ्न उपस्थित हो तो वह सब भी आपके प्रसाद से नष्ट हो जाय ॥५९॥ पुण्य कार्य के अनुष्ठान, गुरु-देवता के पूजन, जप, यज्ञ, कर्त्तव्य और चौदह यात्रा में ॥५९॥ शारीरिक मारोग्य, भोग, सुख, दान, धन के विषय में तथा वृद्ध, बालक और पीडित व्यक्ति के विषय में भी सदैव शान्ति की स्थापना करो ॥६१॥ सोम, वरुण, सूर्य, सागर, वायु, अग्नि आदि भी मेरी रक्षा करे, तथोक्ति का कालजिह्व नामक मालवृक्ष में रहने वाला एक पुत्र है ॥६२॥ वह कालजिह्व जिस स्त्री को जिह्वा पर बैठ जाता है, उसके बालक को अत्यन्त पीडाप्रद होता है, परिवर्त्तक के दो पुत्र विरूप और विकृत नामक हुए ॥६३॥ वह वृक्ष के अग्रभाग में, खाई में, आँचीर में निवास करके गर्भिणी का परिवर्त्तन किया करते हैं ॥६४॥

क्रोष्टुकेपरिवर्तःस्याद्गर्भस्यान्योदरात्तत ।

नवृक्षचैवनैवाद्ग्निस्राकारमहोदधिम् ॥६५

परिखावासमाक्रामेदवलागर्भधारिणी ।

अङ्गध्रुक्तनयलेभेपिशुननाम नामतः ॥६६

सोऽस्थिमज्जागतःपु सांबलमत्यजितात्मनाम् ।

श्येनकाकपोतांश्चगृध्रोलूकौचवैसुतान् ॥६७

अवापशकुनिःपचगृह्स्तान्सुरासुराः ।

श्येनजग्राहमृत्युश्चकाकंकालोगृहीतवान् ॥६८

उलूकनिःश्रुतिश्चैवजग्राहातिभयावहम् ।

गृध्रं व्याघ्रिस्तदीशोऽथकपोतचस्वययमः ॥६९

एतेषामेवचैवोक्ताभूता पापोपपादने ।

तस्माच्छयेनादयोयस्यनिलीयेयुःशिरस्यथ ॥७०

तेनात्मरक्षणायालशातिकुर्याद्द्विजोत्तम ।

गेहे प्रसूतिरेनेषातद्विन्नीडनिवेशनम् ॥७१

नरस्तर्जयेद्गेहकपोताक्रांतमस्तकम् ।

श्येन कपोतो गृध्रश्चकाकोलूकौ गृहे द्विज ॥७२

प्रविष्ट कथयेदंतवसतांतत्रवेश्मनि ।

ईदृक्परि त्यजेद्गोहशातिकुर्याच्चपण्डित ॥७३

हे क्रौण्डिक ! गर्भिणी स्त्री को वृक्षो मे, कोठे पर, नदी तट पर न जाना चाहिये ॥६५॥ तथा खाई मे भी न जाय, अगध्रुक के पिशुन नामक पुत्र हुआ ॥६६॥ वह अज्ञान मे अन्धे हुए मनुष्यों की हड्डी और मज्जा मे घुस कर बल का भक्षण करता है श्येन, काक, कपोत, गृध्र और उलूक ॥६७॥ यह पाच पुत्र शकुनि के हुए, इनको सुर, असुर ने ग्रहण किया है, श्येन को मृत्यु ने, काक को काल ने, ॥६८॥ उलूक को नैऋति ने, गृध्र को व्याधि ने और कपोत को स्वयं यम ने ग्रहण किया ॥६९॥ यह सभी पापो के उत्पन्न करने वाले हैं, इस लिए बाज इत्यादि के सर पर बैठने से ॥७०॥ आत्मरक्षा के निमित्त शांति [ कर्म करे, जिस घर मे यह घोसला बनावे अथवा शिशु उत्पादन करे ॥७१॥ उस घर का भी मनुष्य परित्याग कर दे, श्येन, कपोत, गृध्र, काक और उलूक ॥७२॥ घर मे प्रविष्ट हो कर उस घर मे रहने वाले के अन्त की सूचना देते हैं, इसलिये ज्ञानियों को ऐसे घर को छोड़ कर शान्ति कर्म करना उचित है ॥७३॥

स्वप्नेऽपि हि कपोतस्य दर्शनन प्रशस्यते ।

षडपत्यानिकथ्यन्ते गण्डप्रातरतेस्तथा ॥७४

स्त्रीणां रजस्यवस्थानतेषां कालाश्रमे शृणु ।

चत्वार्यर्हानि पूर्वांगितथैवान्यत्रयोदशम् ॥७५

एकादशतथैवान्यदपत्यतस्य वै दिने ।

दिनाभिगमनेश्चाद्धदानेतथापरे ॥७६

पर्वस्वथान्यत्तस्मात्तुवर्ज्यान्येतानि पण्डितै ।

गर्भहन्तुः सुतोर्निध्नो मोहनीचापिकन्यका ॥७७

कबूतर का स्वप्न मे देखना भी अमङ्गल जनक है, गण्ड प्रान्तरिक के जो छः पुत्र कहे गये ॥७४॥ वह स्त्रियों के रज मे रहते हैं, उनका समय सुनी, पहिले चार दिन, तेरहवाँ दिन ॥७५॥ ग्यारहवाँ दिन, दिन का अन्त समय, श्राद्ध का दिन अथवा दान कर्म का दिन ॥७६॥ और पर्व दिवस यह सब उनके रहने का समय समझे, इन सब दिनों का ज्ञानियों को परित्याग करना

चाहिये, गर्भहन्ता के एक विघ्न नामक पुत्र और मोहिनी नामक एक कन्या उत्पन्न हुई ॥७७॥

प्रविश्यगर्भमत्येक्तोभुक्त्वामोहयतेऽपरा ।  
जायन्तेमोहनात्तस्या सर्पमण्डूककच्छपा ॥७८  
सरीसृपाणिचान्यानिपुरीषमथावापुनः ।  
षण्मासाद्गुर्विणीमासमश्रुवानामसयताम् ॥७९  
वृक्षच्छायाश्रयारात्रावथवात्रिचतुष्पथे ।  
श्मशानकटभूमिष्टामुत्तरीयविर्वजिताम् ॥८०  
सद्यमानानिशीथेऽथआविशेत्तामिमौस्त्रियम् ।  
शस्यहन्तुस्तथैवैक क्षुद्रकोनामनामतः ॥८१  
सस्यद्विससदाहन्तिलब्धवारध्र शृगुष्वतत् ।  
अमङ्गल्यदिनारम्भेसुतृप्तोवपतेचयः ॥८२  
क्षेत्रेष्वनुप्रवैशवैकरेत्यन्तोपसगिषु ॥८३

यह कन्या गर्भ में प्रविष्ट होती है और विघ्न स्वच्छ गर्भ का आहार करता है, मोहिनी मोह को उत्पन्न करती है, उसी मोह से सर्प भेड, कछए ॥७८॥ तथा बिच्छू आदि जन्तु और पुरीष उत्पन्न होते हैं, गर्भवती छ महीने मास भक्षण से, असयम से ॥७९॥ रात्रि में वृक्ष के नीचे, तिराहे या चौराहे पर जाने से अथवा श्मशान में जाने से या नग्न होने से ॥८०॥ अथवा रात्रि के समय रोने से उस स्त्री में विघ्न प्रविष्ट होता है, शस्यहन्ता के क्षुद्रक नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥८१॥ वह छिद्र मिलते ही धान्य की वृद्धि को रोक देता है, जो मनुष्य मङ्गल रहित दिवस में तृप्त रह कर धान्य का बीजारोपण करता है उसके खेत में क्षुद्रक घुस जाता है ॥८२-८३॥

अमङ्गल्यादिनारंभमंगलानाचवर्जयेत् । ( महद्भयप्रयच्छतियत्र  
वैतत्प्रसगिषु ।) तस्माकल्पःसुप्रशस्तेदिनेऽभ्यर्च्यनिशाकरम् ॥८४  
कुर्यादारम्भमुत्तिचहृष्टस्तुष्टसहायवान् ।  
नियोजिकेतियाकन्यादुःसहस्यमयोदिता ॥८५

जातप्रचोदिकासज्ञं तस्या कन्याचतुष्टयम् ।  
 मत्तोन्मत्तप्रमत्तास्तुनरान्नारीस्तुता सदा ॥८६  
 समाविशन्तिनाशायचोदयन्तीहदारुणम् ।  
 अधर्मधर्मरूपेणकामचाकामरूपिणाम् ॥८७  
 अनर्थचार्यरूपेणमोक्षचामोक्षरूपिणाम् ।  
 दुर्विनीतान्विनाशौचदर्शयन्तिपृथङ्नरान् ॥८८  
 भ्र शत्याभि प्रविष्टाभि पुरुषार्थात्पृथङ्नराः ।  
 तासाप्रवेशश्चगृहेसन्ध्यक्षेषुह्य दुम्बरे ॥८९  
 धात्रेविधात्रेचबलिर्यत्रकालेनदीयते ।  
 भुञ्जतापिबतावापिसगिभिर्जलविप्रुषै ॥९०  
 नरनारीषुसक्रान्तिस्तासामाश्रभिजायते ।  
 विरोधिन्यास्त्रय पुत्राश्चोदकोग्राहकस्तथा ॥९१

वह मगलो को बाधा देकर अमगल का आरम्भ करता है ( घोर भय प्रस्तुत करता है ) इसकी शान्ति के लिये शुभ पवित्र दिन में चन्द्रमा का पूजन करके ॥८४॥ प्रसन्न चित्त होकर कृषि कार्य का आरम्भ करे, दुसह की जिस नियोजिका नाम वाली कन्या का पहिले वर्णन कर चुका हूँ ॥८५॥ उसके प्रचोदिका नाम की चार कन्याएँ हुईं, वे अत्यन्त मद मत्त यौवन सम्पन्न स्त्री पुरुषों में प्रवेश करके ॥८६॥ उनको नष्ट करने के लिये बुरे रूप से प्रेरित करती है और धर्म और अधर्म तथा अकाम में काम को ॥८७॥ अर्थ में अनर्थ को, अमोक्ष में मोक्ष को प्रेरणा पूर्वक पृथक्-पृथक् भावों का दर्शन कराती और अत्यन्त दारुण रूप उनके विनाशार्थ प्रविष्ट होती है ॥८८॥ पूर्वोक्त आठ कन्याओं द्वारा पुरुषार्थ हत हो कर पुरुष घूमते फिरते हैं, यह गृहों में स्थित गूलर में नक्षत्र के अधिकाल में प्रविष्ट होती है ॥८९॥ जब धाता विधाता का पूजन नहीं किया जाता, उसी समय घर में घुसती है, साथियों सहित भोजन, जलपान या कुल्ला करने के समय ॥९०॥ स्त्री पुरुषों को उनका संक्रमण होता है, विरोधिनी के तीन पुत्र उत्पन्न हुए—एक का नाम चोदक, दूसरे का ग्राहक ॥९१॥



तम प्रच्छादकश्चान्यस्तत्स्वरूपंशृणुष्वमे ।  
 प्रदीपतैलससर्गदूषितेलघितेखले ॥६२  
 मुसलोलूखलेयत्रपादुकेवासनेस्त्रिय ।  
 शूर्पदात्रादिकयत्रपदाकृष्टतथासनम् ॥६३  
 यत्रोपलिप्तोनाभ्यर्च्यविहार क्रियतेगृहे ।  
 दर्वीमुखेनयत्राग्निराहृतोऽन्यत्रनीयते ॥६४  
 विरोधिनीसुतास्तत्रविजृम्भन्तेप्रचोदिता ।  
 एकोजिह्वागत पु सास्त्रीणाचालीकसत्यवान् ॥६५  
 चोदकोनामसप्रोक्त पैशुन्यकुरुतेगृहे ।  
 श्रवधानगतश्चान्य श्रवणस्थोऽतिदुर्मति ॥६६  
 करोतिग्रहणतेषावचसाग्राहकस्तुसः ।  
 आकृम्यान्योमनोनृणां तमताच्छाद्यदुर्मति ॥६७  
 क्रोधजनयतेयस्तुतम प्रच्छादकस्तुस ।  
 स्वयहार्यास्तुचौर्येणजनिततनयत्रयम् ॥६८

... तीसरे तामाच्छादक पुत्र का स्वरूप सुनो, जहा मूसल या ओखली  
 बीपक के तेल से दूषित की जाती अथवा उलौधी जाती है ॥६२॥ अथवा जहा  
 मूसल और ओखली स्त्रियो की चरण पादुका अथवा आसन होता है, जहा  
 स्त्रिया पैरो से सूप दराती, आसन आदि को हटाती है ॥६३॥ लिपे हुए स्थान  
 मे जहाँ पूजन किये बिना ही बिहार किया जाता है, अथवा जहाँ कंछुली से  
 अग्नि निकाल कर दी जाती है ॥६४॥ उन सभी स्थानो मे विरोधिनी के पुत्र  
 अपना विक्रम दिखाते है और जो स्त्री पुरुषो की रसना पर बैठ कर झूठ-सत्य  
 कहलवाता है ॥६५॥ उसे चोदक कहते हैं, वही कुटिलता तथा अन्य नीच कर्म  
 कराने वाला है, अति दुर्मति कानो मे रह कर ॥६६॥ उन सब वाक्यो को  
 ग्रहण करता है तथा तमाच्छादक मनुष्यो के मन पर अधिकार करके ॥६७॥  
 तम से आच्छादित कर क्रोध को उत्पन्न करता है, स्वयहारी के तीन पुत्र  
 उत्पन्न हुए ॥६८॥

सर्वहार्यं हरीचवीर्यं हारीतथैव च ।  
 अनाचान्तगृहेष्वेते मन्दाचारगृहेषु च ॥६६  
 अप्रक्षालितपादेषु प्रविशत्सु महानसम् ।  
 खलेषु गोष्ठेषु च वैदोहोयेषु गृहेषु वै ॥१००  
 तेषु सर्वे यथान्यायं विहरन्ति रमन्ति च ।  
 भ्रामण्यास्तनयस्त्वेक काकजघइति स्मृत ॥१०१  
 तेनाविष्टोरति सर्वो नैव प्राप्नोति वैमुने ।  
 भुञ्जन्यो गायते मैत्रे गायते हसते च यः ॥१०२  
 सन्ध्यामैथुनिन चैव नरमाविशति द्विज ।  
 कन्यात्रयप्रसूतासाया कन्या ऋतुहारिणी ॥१०३  
 एका कुचहरा कन्या अन्या व्यञ्जनहारिका ।  
 तृतीया तु समाख्याता कन्यका जातहारिणी ॥१०४  
 यस्यानक्रियते सर्वः सम्यग् वैवाहिको विधिः ।  
 कालातीतोऽथवा तस्याहस्त्येका कुचद्वयम् ॥१०५

सर्वाहारी, अर्द्धाहारी और वीर्यहारी, यह अपवित्र अथवा मन्द आचरण वाले घर में ॥६६॥ बिना चरण धोये पाकशाला में घुसने वालों के घर या खलियान में विद्रोह उपस्थित करता है ॥१००॥ यह उन सभी स्थानों में विभिन्न रीति से बिहार करते हैं, भ्रामणी के काकजघ्न नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई ॥१०१॥ वह जिस घर में घुस जाता है, उसमें कोई प्रसन्न नहीं रहता, जो जो मनुष्य भोजन के समय गाते और मित्रों से वार्त्तालाप, हास-परिहास करते हैं ॥१०२॥ अथवा जो सन्ध्या काल में मैथुन करते, उन पर काकजघ्न का आक्रमण होता है, ऋतुहारिणी के तीन कन्याएँ उत्पन्न हुईं ॥१०३॥ प्रथम कन्या का नाम कुचहरा, द्वितीय का व्यञ्जनहारिका तथा तृतीय का जातहारिणी नाम हुआ ॥१०४॥ जिस कन्या का विवाह सम्यक् विधि विधान से नहीं होता या विवाह की लभ्य व्यतीत होने पर होता है, उस कन्या के स्तनद्वय को वह कुचहरा हरण कर लेती है ॥१०५॥

सम्यक्श्राद्धमदत्त्वाचतथानभ्यर्च्यमातृका ।  
 विवाहिताया कन्यायाहरतिव्यञ्जनतथा ॥१०६  
 अग्न्यम्बुशून्येचतथाविधूपेसूतिकागृहे ।  
 अदीपशस्त्रमुसलेभूतिसर्षपवर्जितः ॥१०७  
 अनुप्रविश्यसाजातमपहृत्यात्मसम्भवम् ।  
 क्षणप्रसविनीबालतत्रैवोत्सृजतेद्विज ॥१०८  
 साजातहारिणीनामसुधोरापिशताशना ।  
 तस्मात्सरक्षणकार्ययत्नतःसूतिकागृहे ॥१०९  
 स्मृतिचाप्रयतानाचशून्यागारनिषेवणात् ।  
 अपहन्तिसुतस्तस्या प्रचण्डोनामनामत. ॥११०  
 पौत्रेभ्यस्तस्यसम्भूतालीकाशतसहस्रश ।  
 चण्डालयोनयश्चाष्टौदण्डपाशातिभीषणा. ॥१११  
 क्षुधाविष्टास्तोलीकास्ताश्चचण्डालयोनयः ।  
 अभ्यधावन्तचान्योन्यमत्तुकामा.परस्परम् ॥११२

श्राद्धादि कर्म और मातृका के अर्चन बिना [जिस कन्या का विवाह किया जाता है, व्यञ्जनहारिका उसका हरण कर लेती है ॥१०६॥ सूतिकागृह मे अग्नि, जल, धूप, दीपक, शस्त्र, मूशल, भस्म, सरसो आदि के न होने से ॥१०७॥ जातहारिणी वहाँ प्रविष्ट हो कर तत्काल उत्पन्न हुए बालको का हरण करती है और उनके स्थान पर अन्य बालक रख देती है ॥१०८॥ इस लिये उस जातिहारिणी से सूतिकागृह मे बालक की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिये ॥१०९॥ उसका प्रचण्ड नाम का पुत्र है जो निर्जन घर मे रहने वाले असंयत चित्त वाले मनुष्यो की स्मृति का हरण कर लेता है ॥११०॥ उसके पौत्रो के द्वारा सौ सहस्र लोको की उत्पत्ति हुई, दण्ड और पाश को धारण करने वाली अत्यन्त भयकर चण्डालो की आठ योनियाँ भी इसी के वश से हुई है ॥१११॥ जब तोलीका और चण्डाल जातिया क्षुधातुर हो कर परस्पर के भक्षणार्थ दौड़ी ॥११२॥

प्रचण्डोवारयित्वातुयास्ताश्चण्डालयोनय ।  
 समयेस्थापयामासयादृशेतादृशश्चरुगु ॥११३  
 अद्यप्रभृतिलोकानामावासयोहिदास्यति ।  
 दड तस्याहमतुलपातयिष्येनसशय ॥११४  
 चण्डालयोन्यावसथेलीकायाप्रसविष्यति ।  
 तस्याश्चसन्तति पूर्वासाचसद्योनशिष्यति ॥११५  
 प्रसूतेकन्यकेद्वे तुस्त्रीपु सोर्वीजहारिणी ।  
 वातरूपामरूपाचतस्या प्रहरणतुते ॥११६  
 वातरूपानिशेकान्तेसायस्मैक्षिपतेसुतम् ।  
 सपुमान्वातशुक्रत्वप्रयातिवनितापिवा ॥११७  
 तथैवगच्छतःसद्योनिर्बीजत्वमरूपया ।  
 अस्नाताशीनरोयोऽसौतथाचापिवियोगिनः ॥११८  
 विद्वे षिणीतुयाकन्याभृकुटीकुटिलानना ।  
 तस्यद्वौतनयौपु सामपकारप्रकाशकौ ॥११९

तब प्रचण्ड ने उन्हें निवारण किया और जिस समय में स्थापित किया, उसे सुनो ॥११३॥ आज से जो पुरुष लीको को स्थान देगा, उसे मैं घोर दुःख दूँगा ॥११४॥ चाण्डाल के घर में या पराये घर में रह कर जो स्त्री सन्तान को जन्म देती है, वह लीक उसकी सब सन्तानों को नष्ट करने वाली होती है ॥११५॥ स्त्री-पुरुषों के वीर्य को हरण करने वाली बीजापहारिणी के वातरूपा और अरूपा नाम की दो कन्याएँ हुईं ॥११६॥ उनमें वातरूपा सिंचन के समय शुक्र को जिसमें गिराती है, वह पुरुष या स्त्री वातशुक्रत्व के रोग से पीड़ित होते हैं ॥११७॥ जो पुरुष बिना स्थान, बिना भोजन करे नारी समागम करता अथवा किसी अन्य योनि में भोग करता है, उसे अरूपा शीघ्र ही वीर्य रहित कर देती है ॥११८॥ कुटिल मुख वाली, जिसकी भौहें सदा तनी रहती हैं, उस विद्वे षिणी के दो पुत्र उत्पन्न हुए, वह सदा ही पुरुषों का अपकार करते रहते हैं ॥११९॥

निर्बीजत्वनरोयातिनारीवाशाँचवर्जिता ।  
 पैशुन्याभिरतलोलमसज्जलनिषेवणम् ॥१२०॥  
 पुरुषद्वे षिणचैतौनरमाक्रम्यतिष्ठतः ।  
 मात्राभ्रात्रातथामित्रैरभीष्टे स्वजनं परं ॥१२१॥  
 विद्विष्टोनाशमायातिपुरुषोधर्मतोऽर्थत ।  
 एकस्तुस्वगुणाल्लोकेप्रकाशयतिपापकृत् ॥१२२॥  
 द्वितीयस्तुगुणान्मैत्रीलोकस्थामपकर्षति ।  
 इत्येतेदौ सहा सर्वेयक्ष्मण सन्ततावथ ॥२३॥

अपवित्र स्त्रीन्पुरुष ही निर्वीयत्व को प्राप्त होते हैं, विद्वेषिणी के दोनो पुत्र परनिन्दा में लगे, चञ्चल, अशुद्ध एवं जलतेवी ॥१२०॥ तथा पुरुष द्वेषी पुरुष में अवस्थित होते हैं, माता भ्राता, मित्र, प्रियजन या आत्मीयजन के ॥१२१॥ विद्वेषी होने पर धर्म और अर्थ को नष्ट कर देते हैं, इस प्रकार एक पापाचारी पुत्र ने अपने गुणो को प्रकाशित किया हुआ है ॥१२२॥ दूसरा पुत्र लोको के गुणो और मैत्री भाव का आर्कषण करने में समर्थ है, इस प्रकार पाप का आचरण करने वाले दुसह के गुणो ने सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है ॥१२३॥

### ४४--रुद्रादिसृष्टि

इत्येषतामस सर्गोब्रह्माणोऽव्यक्तजन्मन ।  
 रुद्रसर्गप्रवक्ष्यामितन्मेनिगदतः शृणु ॥१॥  
 तनवश्चतर्थं वाष्टौपत्यं पुत्राश्चतेतथा ।  
 कल्पादावात्मनस्तुल्यसुतप्रध्यायत प्रभो. ॥२॥  
 प्रादुरासीदथाकेऽस्यकुमारोनीललोहितः ।  
 रुरोदसुस्वरसोऽथद्रवश्चद्विजसत्तम ॥३॥  
 किरोदिषीतितब्रह्मारुदन्तप्रत्युवाचह ।  
 नामदेहीतितसोऽथप्रत्युवाचजगत्पतिम् ॥४॥

रुद्रस्त्वदेवनाम्नासिमारोदीर्घैर्यमावह ।

एवमुक्तस्तत सोऽथसप्तकृत्वोरुरोदह ॥५

ततोऽन्यानिददौतस्मैमप्तानामानिवैप्रभु ।

स्थानानिचैषामष्टानापत्नी पुत्राश्चवैद्विज ॥६

मार्कण्डेयजी ने कहा—अव्यक्त जन्मा ब्रह्माजी की तामसी सृष्टि का यह वर्णन हुआ, अब रुद्रसर्ग का विषय वर्णन करते हैं, श्रवण करो ॥१॥ आठ पुत्र, उनकी पुत्री और सब पुत्र कल्प के आदि में अत्मतुल्य सुत का चिन्तन करने के कारण उसी प्रकार के हुए ॥२॥ हे द्विजवर ! उन आठ पुत्रों में जो एक नीललोहित वर्ण वाला पुत्र ब्रह्माजी की देह से उत्पन्न हुआ था, वह उनकी गोदी में ही सुस्वर पूर्वक रोने लगा ॥३॥ उसे रुदन करता हुआ देखकर ब्रह्माजी ने प्रश्न किया 'तू क्यों रोता है ?' तो उस बालक ने कहा 'हे जगत्पते ! मुझे नाम दीजिये ॥४॥ ब्रह्माजी ने कहा—'तुम्हारा नाम रुद्र हुआ, अब तुम रुदन बन्द करके धैर्य धारण करो, ब्रह्माजी के ऐसा कहने पर भी वह बालक सात बार पुन रोया ॥५॥ हे द्विज ! तब उन्होंने उसे क्रमशः सात नाम और दिये, तदनन्तर इन आठों को आठ स्थान, पत्नी और पुत्र भी दिये ॥६॥

भवशर्वतथेशानतथापशुपतिप्रभु ।

भीममुग्र महादेवमुवाचसपितामहः ॥७

चक्रे नामान्यथैतानिस्थानान्येषाचकारह ।

सूर्योजलमहीवह्निर्व्वायुराकाशमेवच ॥८

दीक्षितोब्रह्मणःसोमइत्येतास्तनव क्रमात् ।

सुवर्चलातथैवोमाविकेशीचापरास्वधा ॥९

स्वाहादिशस्तथादीक्षारोहिणीचयथाक्रमम् ।

सूर्यादीनाद्विजश्रेष्ठरुद्राद्यैर्नोमभि सह ॥१०

शनैश्चरस्ताशुक्रोलोहिताङ्गोमनोजव ।

स्कन्द सर्गोऽथसन्तानोबुधश्चानुक्रमात्सुता ॥११

एवम्प्रकारोरुद्रोऽसौसतीभार्यामविन्दत ।

दक्षकोपाच्चतत्याजसासतीस्वकलेवरम् ॥१२

शभोरवज्ञायत्रास्तेस्थातव्यंनैवसूरिभिः ।  
 ( एतेचब्राह्मणाः सर्वेयेद्विषतोमहेश्वरम् ।  
 भवतुतेवेदबाह्या पापोपहतचेतसः ।  
 पाखडाक्षरनिरता सर्वेनिरयगामिनः ।  
 कलौयुगेतुसप्राप्तेदरिद्रा शूद्रजापका ।  
 हिमवददुहितासाभून्मेनाताद्विजसत्तमः । )  
तस्याभ्रातातुमैनक सखाभोधेरनुत्तमः ॥१३  
उपयेमेपुनश्चैनामनन्याभगवान्भव ।  
 देवौघाताविघातारौभृगोःख्यातिरसूयत ॥१४

ब्रह्माजी नै रुद्र, भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव ॥७॥ यह आठ नाम देकर आठो स्थान का निर्देश किया—सूर्य, जल, पृथिवी, वह्नि, वायु आकाश ॥८॥ दीक्षित ब्राह्मण और सोम तथा सुवर्चला, उमा विकेशी, स्वधा ॥९॥ स्वाहा, दिक्, दीक्षा और रोहिणी यह नाम उनकी भार्याओ के हुए, अब रुद्रादि के नामो के सहित उनके पुत्रो के नामो का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो ॥१०॥ रुद्रादि के क्रमशः शनैश्चर, शुक्र, लोहिताङ्ग, मनोजव, स्कन्द, सर्ग, सन्तान और बुध यह आठ पुत्र है ॥११॥ इन रुद्र ने पत्नी रूप से सती को प्राप्त किया था और दक्ष कोप के कारण सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था ॥१२॥ ( क्यो कि जहाँ शिवजी का तिरस्कार हो वहाँ न रहे, महेश्वर से द्वेष करने वाले यह ब्राह्मण पाप से नष्टचेता हो, वेद से बहिर्मुख तथा पाखडी और नारदी हो, कलियुग के आने पर दरिद्र और शूद्रो का जप करें ) इस प्रकार शाप देकर वह मेनका के गर्भ से हिमवान् मुता बनी, उसका भाई मेनका सागर का सखा है ॥१३॥ उस पार्वती से भगवान् भव ने विवाह किया, भृगुजी की पत्नी ख्याति के घाता विघाता नामक दो पुत्र हुए थे ॥१४॥

श्रियचदेवदेवस्यपत्नीनारायणस्यया ।

आयातिनियतिश्चैवमेरोःकन्येमहात्मन ॥१५

भार्येधाताविधात्रोस्तेतयोजोतसुताशुभौ ।  
 प्राणैश्चैवमृकण्डुश्चपितामममहायशा ॥१६॥  
 मनस्विन्यामहतस्मात्पुत्रोवेदशिरामम ।  
 धूम्रवत्यासमभवत्प्राणस्यापिनिबोधमे ॥१७॥  
 प्राणस्यद्युतिमान्पुत्रउत्पन्नस्तस्प्रचात्मज ।  
 अजराश्चतयोपुत्रा पौत्राश्चबहवोऽभवन् ॥१८॥  
 पुत्रीमरीचे सभूति पौर्णमासमसूयत ।  
 विरजा पर्वतश्चैवतस्यपुत्रौमहात्मनः ॥१९॥  
 तयोपुत्रास्तु वक्ष्येहवशासकीर्त्तनेद्विज ।  
 स्मृतिश्चाङ्गिरसपत्नीप्रसूताकन्यकास्तथा ॥२०॥  
 सिनीवालीकुहूश्चैवराकाचानुमतिस्तथा ।  
 अनसूयातथैवात्रैर्जज्ञेपुत्रानकल्मषान् ॥२१॥  
 सोमदुर्वासासचैवदत्तात्रेयचयोगिनम् ।  
 प्रीत्यापुलस्त्यभार्यायादत्तो न्यस्तत्सुतोऽभवत् ॥२२॥

लक्ष्मीर्जा भगवान् नारायण की भार्या हुई और महात्मा मेरु की आयति नियति नाम की दो कन्याएँ थी ॥१५॥ वे दोनों धाता-विधाता की पत्नी हुईं, इन दोनों के एक-एक पुत्र हुआ, धाता ने आयति के पुत्र का नाम प्राण और विधाता ने नियति के पुत्र का नाम मृकण्डु रखा, महायशस्वी मुझ मार्कण्डेयजी के यही पिता है ॥१६॥ मेरे पिता मृकण्डु का विवाह मनस्विनी से हुआ, वही मेरी माता है, मैंने अपने पुत्र का नाम वेदशिरा रखा, प्राण की भार्या धूम्रवती थी, अब उसके पुत्रों का वर्णन करता हूँ ॥१७॥ धूम्रवती के द्युतिमान् और अराजक नामक दो पुत्र हुए, इनके अनेक पुत्र पौत्र हुए ॥१८॥ मरीचिकी पत्नी सम्भूति से पौर्णमास का जन्म हुआ, उसके विरजा और पर्वत नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥१९॥ हे द्विज ! इनके पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ, अगिरा-पत्नी स्मृति ने ॥२०॥ चार कन्याएँ उत्पन्न की, उनका नाम सिनीवाली, कुहू, राका अनुमति था, अत्रि से अनसूया ने निष्पाप ॥२१॥ सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय



नामक तीन योगी पुत्रो को उत्पन्न किया, पुलस्त्य-पत्नी प्रीति ने दत्त को जन्म दिया ॥२२॥

पूर्वजन्मनिसोऽगस्त्य स्मृत स्वायम्भुवेऽन्तरे ।

कर्दमश्चाव्वीरश्चसहिष्णुश्चसुतत्रयम् ॥२३

क्षमातुसुषुवेभार्यापुलहस्यप्रजापते ।

क्रतोस्तुसन्नतिभार्यावालखिल्यानसूयत ॥२४

पष्ठिर्यानिसहस्राणिऋषीणामूर्द्धरेतसाम् ।

ऊर्जायान्तुवसिष्ठस्यसप्ताजायन्तवैसुताः ॥२५

रजोगात्रोर्ध्वबाहुश्चसबलश्चानघस्तथा ।

सुतपाःशुक्लइत्येतेसर्वेसप्तर्षय स्मृता ॥२६

योसावग्निरभीमानीब्रह्मणस्तनयोऽग्रज ।

तस्मात्स्वाहासुतॉल्लेभेत्रीनुदारौजसोद्विज ॥२७

यही दत्त पूर्व जन्म मे अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध थे, प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा के कर्दम, अव्वीर और सहिष्णु नामक तीन पुत्र हुए, ऋतु की पत्नी सन्नति ने ॥२३-२४॥ साठ हजार ऊर्ध्वरेता वाल्यखिल्यो की उत्पत्ति की, वसिष्ठ के द्वारा ऊर्जा के प्रसव से सात पुत्रो की उत्पत्ति हुई ॥२५॥ यही सप्तर्षि रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, सबल, अनघ सुतपा और शुक्र नाम से प्रसिद्ध हुए ॥२६॥ हे द्विजोत्तम ! ब्रह्माजी के ज्येष्ठ पुत्र अग्नि हुए, उनका विवाह स्वाहा के साथ हुआ तथा उनके अत्यन्त प्रतापी और बली तीन पुत्र हुए ॥२७॥

पावकपवनचैवशुचिचापिजलाशिनम् ।

तेषानुसन्ततावन्येचत्वारिशङ्खपञ्चच ॥२८

कथ्यन्तेबहुशश्चैतेपितापुत्रत्रयचयत् ।

एवमेकोनपचाशद् जया परिकीर्तिता ॥२९

पितरोब्रह्मणामृष्टायेव्याख्याता मयातव ।

अग्निष्वात्ताबहिषदोऽनग्नय साग्नयश्चये ॥३०

तेभ्य स्वधासुतेजज्ञो मेनां वैधारिणीतथा ।

तेउभेब्रह्मवादिन्यौयोगिन्यौचाप्युभेद्विज ॥३१

पावक पवमान और शुचि, यह सदैव जल पीते रहते हैं, उनके पैतालीस पुत्र हुए ॥२८॥ जो अन्य तीन पुत्र पिता पुत्र नाम से कहे हैं, वह अग्नि के पौत्र हैं, अग्नि के यह उनचास पौत्र दुर्जय कहे जाते हैं ॥२९॥ पहिले मैंने इन्हीं को, पितरो के नाम से बताया था, अग्निष्वात्ता, बर्हिषद, अनग्नि और साग्नि ॥३०॥ स्वधा ने पितरो से मेना और वैधारिणी नाम की दो कन्याएँ प्राप्त की, यह दोनो ही परम ब्रह्मवादिनी और योगभ्यास परायणा हुई ॥३१॥

### ४५—स्वायम्भुव मन्वन्तर कथन (१)

स्वायम्भुवत्वयाख्यातमेतन्मन्वन्तरचयत् ।  
 तदहभगवन्सम्यक्श्रोतुमिच्छामिकथ्यताम् ॥१॥  
 मन्वन्तरप्रमाणचदेवादेवर्षयस्तथा ।  
 येचक्षितीशाभगवन्देवेन्द्रश्चैवयस्तथा ॥२॥  
 मन्वन्तराणासख्यातासाधिदाह्येकसप्ततिः ।  
 मानुषेणप्रमाणेनशृणुमन्वन्तरचमे ॥३॥  
 त्रिशत्कोट्यस्तुसख्याता सहस्राणिचविंशतिः ।  
 सप्तषष्टिस्तथान्यानियुतानिचसख्यया ॥४॥  
 मन्वन्तरप्रमाणचइत्येतत्साधिकांविना ।  
 अष्टौशतसहस्राणिदिव्ययासख्ययास्मृतम् ॥५॥  
 द्विपचाशत्तथान्यानिसहस्राण्यधिकानिच ।  
 स्वायम्भुवोमनुःपूर्वमनु स्वारोचिषस्तथा ॥६॥  
 औत्तमस्तामसश्चैवरैवतश्चाक्षुषस्तथा ।  
 षडेतेमनवोऽतीतास्तथावैवस्वतोऽधुना ॥७॥

क्रौष्टुकि बोले—हे भगवन् ! आपने जिस स्वायम्भुव मन्वन्तर का विषय कहा है, उसे भले प्रकार से सुनना चाहता हूँ ॥१॥ मन्वन्तर का प्रमाण, देवता, देवर्षि, राजा तथा देवेन्द्र के वृत्तान्त को विस्तार सहित कहिये ॥२॥

मार्करण्डेयजी ने कहा—मन्वन्तर की संख्या कुछ अधिक इकहत्तर चतुर्युगी है, मैं इसे मानव-मान से कहता हूँ ॥३॥ एक मन्वन्तर में तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार मानवी वर्ष व्यतीत होते हैं ॥४॥ मन्वन्तर का यह प्रमाण आधिक्य रहित है, दिव्य आठ लाख ॥५॥ बावन हजार वर्ष एक मन्वन्तर में होते हैं, पथम मनु स्वायम्भुव, स्वारोचिष ॥६॥ अत्रैतम, तामस, रैवत और चाक्षुष इस प्रकार छ. मनु व्यतीत हो चुके हैं, इस समय वैवस्वत मनु है ॥७॥

सावर्णा पचरौच्याश्चभौत्याश्चागामिनस्त्वमी ।

एतेषाविस्तरभूयोमन्वतरपरिग्रहे ॥८

चक्षयेदेवानृषीश्चैववेन्द्रा.पितरश्चये ।

उत्पत्तिसग्रहब्रह्मन्श्रूयतामस्यसतति ॥९

यच्चतेषामभूत्क्षेत्रतत्पुत्राणामहात्मनाम् ।

मनो.स्वायम्भुवस्यासन्दशपुत्रास्तुतत्समाः ॥१०

यैरियपृथिवीसर्वासप्तद्वीपासपर्वता ।

ससमुद्राऽऽकरवतीप्रतिवर्षंनिवेशिता ॥११

स्वायम्भुवेऽन्तरेपूर्वमाद्ये त्रेतायुगेतथा ।

प्रियव्रतस्यपुत्रैस्तैःपौत्रैःस्वायम्भुवस्यच ॥१२

प्रियव्रतात्प्रजावत्यावीरात्कन्याव्यजायत ।

कन्यासातुमहाभागाकर्द्धमस्यप्रजापते ॥१३

कन्येद्वेदशपुत्राश्चसम्राट्कुक्षीचतेउभे ।

तयोर्वैभ्रातर.सूरा प्रजापतिसमादश ॥१४

पचसावर्णि, रौच्य और भौत्य भविष्य में होंगे, इन सब का पूरा वृत्तान्त मन्वन्तरों का वर्णन करने में कहूँगा ॥८॥ हे विप्र ! मन्वन्तरों में जो जो देवता, ऋषि, इन्द्र, पितर होते हैं, उन सब की उत्पत्ति आदि का वर्णन उनकी सन्तति सहित करूँगा ॥९॥ उन महात्माओं के जो जो सन्तति हुई, उसे कहता हूँ, स्वायम्भुव के दश पुत्र उन्हीं के उत्पन्न हुए ॥१०॥ उन्होंने इस सप्त द्वीप, पर्वत, समुद्र और खान से सम्पन्न पृथिवी को वर्षों में विभाजित किया था ॥११॥ पहिले भी स्वायम्भुव मन्वन्तर में अर्थात् त्रेता के आरम्भ में स्वायम्भुव के पौत्रों

अर्थात् प्रियव्रत के पुत्रो ने भी इसी प्रकार किया था ॥१२॥ प्रजापति कर्दम की प्रजावती नाम की अत्यन्त सौभाग्यवती कन्या के भर्भ से ॥१३॥ दश पुत्र और दो कन्याएँ उत्पन्न हुई, इन दोनों कन्याओं का नाम सम्राट् और कुक्षि हुआ और उनके दशो भाई भी अत्यन्त शूर और प्रजापति के तुल्य थे ॥१४॥

आग्नीध्रोमेधातिथिश्चवपुष्मान्प्रतथापर ।  
 ज्योतिष्मान्द्युतिमान्भव्यसवनःसप्तएवते ॥१५॥  
 मेधाग्निबाहुमित्रास्तुत्रयोयोगपरायणा ।  
 शातिस्मरामहाभागानराज्यायमनोदधु ।  
 प्रियव्रतोऽभ्यषिचत्तान्सप्तसप्तसुपार्थिवान् ।  
 द्वीपेषुतेनधर्मैर्गद्वीपार्श्चैवनिबोधमे ॥१६॥  
 जम्बुद्वीपेतथाग्नीध्रराजानकृतवान्पिता ।  
 प्लक्षद्वीपेश्चरश्चापितेनमेधातिथिकृत ॥१७॥  
 शाल्मलेस्तुवपुष्मन्तज्योतिष्मन्तकुशाह्वये ।  
 क्रौचद्वीपेद्युतिमन्तभव्यशाकाह्वयेश्वरम् ॥१८॥  
 पुष्पकराधिपतिचापिसवनकृतवान्सुतम् ।  
 महावीतोघातकिश्चपुष्कराधिपतेसुतो ॥१९॥  
 द्विधाकृत्वातयोर्वर्षपुष्करेसन्यवेशयत् ।  
 भव्यस्यपुत्रासप्तसप्तमस्तान्निबोधमे ॥२०॥  
 जलदश्चकुमारश्चसुकुमारोमणीवक ।  
 कुशोत्तरोऽथमेधावीसप्तमस्तुमहाद्रुमः ॥२१॥

उन दशो के नाम अग्नीध्र, मेधातिथि, वपुष्मान्, ज्योतिष्मान्, द्युतिमान्, भव्य और सशन (यह सात) ॥१५॥ तथा सब से छोटे मेधा, अग्निबाहु और मित्र हुए यह तीनों जन्म से ही योगपरायण हुए और उन सातों को राजा प्रियव्रत ने सात द्वीपो का राज्य प्रदान किया, जहाँ यह धर्मपूर्वक राज्य करने लगे, अब उन द्वीपो के विषय में कहता हूँ ॥१६॥ अर्थात् राजा ने अग्नीध्र को जम्बू द्वीप का तथा मेधातिथि को प्लक्ष द्वीप का राज्य दिया ॥१७॥ वपुष्मान् को शातमलि द्वीप, ज्योतिष्मान् को कुश द्वीप, द्युतिमान् को क्रौचद्वीप और भव्य को शकद्वीप

का राजा बनाया ॥१८॥ और सवन को पुष्पकर द्वीप दिया, इसी सवन के दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम मेधावी और धातकी हुआ ॥१९॥ राजा सवन ने अपने दोनो पुत्रों के लिए पुष्पकर द्वीप को दो भागों में विभक्त कर दिया, शाक-के राजा भव्य के सात पुत्र हुए, अब उनके नाम कहता हूँ ॥२०॥ जो क्रमशः जलद कुमार सुकुमार, मनीवक, कुशोत्तर, मेधावी और महाद्रुम नाम के हुए ॥२१॥

तन्नामकानिवर्षाणिशाकद्वीपेचकारस ।

तथाद्युतिमतःसप्तपुत्रास्तास्तुनिबोधमे ॥२२

कुशलामनुगश्चोष्णं प्राकारश्चार्थकारक ।

मुनिश्चदुन्दुभिचैवसत्तम परिकीर्तित ॥२३

तेषास्वनामधेयानिकौचद्वीपेतथाभवन् ।

ज्योतिष्मत्त कुशद्वीपेपुत्रनामाङ्घ्रितानिवै ॥२४

(तत्रापिसप्तवर्षाणितेषानामानिमेऽश्रुगु) ।

तस्यापिसप्तपुत्रास्तुज्ञयास्तेपिमहौजस ।

उद्भिदवैणवचैवसुरथंलम्बनंतथा ॥२५

धृतिमत्प्राकरचैवकापिलचापिसत्तमम् ।

चपुष्मत् सुता सप्तशाल्मलेशस्यचाभवन् ॥२६

श्वेतश्चहरितश्चैवजीमूतोरोहितस्तथा ।

बैद्युतोमानसश्चैवकेतुमानन्सप्तमस्तथा ॥२७

तथैवशाल्मलेस्तेषासमनामानिसप्तवै ।

सप्तमेधातिथे पुत्रा प्लक्षद्वीपेश्वरस्यवै ॥२८

उस राजा ने अपने शाकद्वीप को सात भागों में विभक्त करके मातों पुत्रों में बाँट दिया, वह सात भाग ही सप्त वर्ष कह कर इन्हीं के नाम से प्रख्यात हुए, इसी प्रकार क्रौंच द्वीप के राजा द्युतिमान् के सात पुत्र उत्पन्न हुए, उनके भी नाम बताता हूँ ॥२२॥ वे क्रमशः कुशल, मनुग, उष्ण, आकार, अर्थकारक मुनि और दुन्दुभि नामक हुए ॥२३॥ क्रौंचद्वीप को भी सात भागों में बाँटा गया, ज्योतिष्मान् ने सात पुत्रों के नामानुसार ही कुश द्वीप का विभाग किया ॥२४॥

उनके नाम पर भी सात बने, जिनके नाम सुनो उद्भिद, वैष्णव, सुरथ, लम्बन ॥२५॥ धृतिमान्, प्रभाकर और कपिल यह सात नाम हुए तथा शाल्मलि द्वीप के राजा वपुष्मान् के भी सात ही पुत्र हुए ॥२६॥ उनके नाम क्रमशः श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत्, मानस और केतुमान् ॥२७॥ उस द्वीप के भी सात भाग होकर इन्हीं के नामों पर सप्त वर्ष हुए तथा प्लक्ष द्वीप के राजा मेघातिथि के भी सात पुत्र हुए ॥२८॥

येषानामाङ्घ्रितैर्वर्षैः प्लक्षद्वीपस्तुसप्तधा ।  
 पूर्वशाकभववर्षशिशिरतुसुखोदयम् ॥२९॥  
 आनन्दचशिवचैवक्षेमकचध्रुवतथा ।  
 प्लक्षद्वीपादिभूतेषुशाकद्वीपान्तिमेषुवै ॥३०॥  
 ज्ञेयपचमुधर्मश्रवर्णाश्रमविभागजः ।  
 नित्यस्वाभाविकश्चैवग्रहिसाविधिवर्जितः ॥३१॥  
 (यानिर्किंपुरुषाद्यानिवर्जयित्वाहिमाह्वयम् ।  
 सुखमायुश्चरूपचबलधर्मश्चनित्यशः) ।  
 पचस्वैतेषुवर्षेषुसर्वसाधारणस्मृत ।  
 अग्नीध्रायपितापूर्वजम्बूद्वीपददौद्विज ॥३२॥  
 तस्यपुत्राबभूवुर्हिप्रजापतिसमानव ।  
 ज्येष्ठोनाभिरितिख्यातस्तस्यर्किंपुरुषोऽनुज ॥३३॥  
 हरिवर्षस्तृतीयस्तुचतुर्थोऽभूदिलावृतः ।  
 वश्यश्चपचमपुत्रोहिरण्यषष्ठउच्यते ॥३४॥  
 कुरुस्तुसप्तमस्तेषांभद्राश्रवाष्टमस्मृत ।  
 नवमकेतुमालश्चतन्नाम्नावर्षसंस्थितिः ॥३५॥

उन्होंने भी प्लक्ष द्वीप को सात भागों में विभक्त किया, वह भी उनके नाम से वर्ष प्रसिद्ध हुए, उनके नाम थे—शाकभव, शिशिर, सुखोदय ॥२९॥ आनन्द, शिव, क्षेमक और ध्रुव तथा प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौंच और शाक इन पाँच द्वीपों में ॥३०॥ और इनके विभागों में वर्णाश्रम धर्म सदा स्थित रहता है और स्वभाव से ही वहाँ हिंसा नहीं होती ॥३१॥ (हिमालय के अति-

रिक्त किम्पुरुषादि वर्ष मे सुख, पूर्णायु, बल और धर्म सदैव स्थित रहता है ) हे विप्रवर । इन पाँचो द्वीपो मे सम्पूर्ण धर्म साधारण रूप से विद्यमान है, जिन आग्नीध्र को अपने पिता से जम्बू द्वीप मिला था ॥३२॥ उनके प्रजापति तुल्य नौ पुत्र उत्पन्न हुए थे, सबसे बडा नाभि, उससे दूसरा किम्पुरुष ॥३३॥ तीसरा हरि, चौथा इलावृत्त, पाँचवा रम्य, छठवाँ हिरण्य ॥३४॥ सातवाँ कुरु, आठवाँ भद्र और नौवाँ केतुमाल हुआ, इन सबके नामो पर ही वर्ष बने ॥३५॥

यानिकिपुरुषाद्यानिवर्जयित्वाहिमाह्वयम् ।  
 तेषास्वभावत सिद्धि सुखप्रायाह्ययत्नत ॥३६  
 विपर्ययोनतेष्वस्तिजरा मृत्युभयनच ।  
 धर्माधमौनतेष्वास्तानोत्तमाधमध्यमा ॥३७  
 नवैचतुर्युगावस्थानाश्रमाऋतवोनच ।  
 आग्नीध्रसूनोर्नाभेस्तुऋषभोऽभूत्सुतोद्विज ॥३८  
 ऋषभाद्भूरतोजज्ञेवीर. पुत्रशताद्वर. ।  
 सोऽभिषिच्यर्षभ पुत्रमहाप्रात्राज्यमास्थित ॥३९  
 तपस्तेपेमहाभाग पुलहाश्रमसश्रयः ।  
 हिमाह्व दक्षिणवर्षभरतार्यापिताददौ ॥४०  
 तस्मात्तुभारतवर्षतस्यनाम्नामहात्मन. ।  
 भरतस्यान्वभूत्पुत्रः सुमतिर्नामधार्मिक ॥४१  
 तस्मिन्प्राज्यसमावेश्यभरतोऽपिवनययौ ।  
 एतेषापुत्रपौत्रैस्तुसप्तद्वीपावसुन्धरा ॥४२  
 प्रियव्रतस्यपुत्रैस्तुभुक्तास्वायम्भुवेऽन्तरे ।  
 एषस्वायम्भुवसर्ग कथितस्तेद्विजोत्तम ।  
 पूर्वमन्वन्तरेसम्यक्किमन्यत्कथयामिते ॥४३

हिमालय के अतिरिक्त जो किम्पुरुष है, उनको सिद्ध स्वभाव से ही तथा सुख बिना यत्न के ही उपलब्ध है ॥३६॥ उनको विपर्यय अथवा वृद्धावस्था और मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भय उपस्थित नहीं होता, वहाँ धर्म, अधर्म श्रेष्ठ मध्यम या निम्न रूप मे विभाग ॥३७॥ और चारो युग की भिन्न अवस्था नहीं

होती, ऋतु विभाग भी नहीं है, आग्नीध्र के पुत्र नाभि के ऋषभ नामक पुत्र हुआ ॥३८॥ ऋषभ के पुत्र भरत हुए, ऋषभ ने अपने पुत्र भरत को राज्य देकर सन्यास ग्रहण कर लिया ॥३९॥ इन महाभाग ने पुलहाश्रम में निवास पूर्वक तप किया था, हिम नामक दक्षिण वर्षा को उनके पिता ने भरत को दिया था ॥४०॥ इसलिये उन्हीं के नाम पर भारत वर्ष हुआ है, भरत के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सुमति था ॥४१॥ भरत ने भी सुमति को राज्य देकर वन गमन किया, इस प्रकार इनके पौत्रो तथा प्रियव्रत के पुत्रो ने स्वायम्भुव मन्वन्तर में इस सप्तद्वीपा पृथिवी का निरन्तर भोग किया ॥४२॥ पूर्व मन्वन्तर में यह स्वायम्भुव सर्ग का सम्यक् वर्णन हुआ, अब और क्या कहूँ ? ॥४३॥

### ४६—जम्बूद्वीप वर्णन

कतिद्वीपाःसमुद्रावापर्वतावाकतिद्विज ।  
 कियन्तिचैववर्षाणितेषानद्यश्चक्रामुने ॥१॥  
 महाभूतप्रमाणचलोकालोकतथैवच ।  
 पर्यासपरिमाणचगतिचन्द्रार्कयोरपि ॥२॥  
 एतत्प्रब्रूहिमेसर्वविस्तरेणमहामुने ॥३॥  
 शताद्धकोटिविस्तारापृथिवीकृत्स्नशोद्विज ।  
 तस्यासस्थानमखिलकथयामिशृणुष्वतत् ॥४॥  
 येतेद्वीपामयाप्रोक्ताजम्बूद्वीपादयोद्विज ।  
 पुष्करान्तामहाभागशृण्वेषाविस्तरपुनः ॥५॥  
 द्वोपात्तुद्विगुणोद्वीपोजम्बुप्लक्षोऽथशात्मलिः ।  
 कुशक्रौंचस्तथाशाकपुष्करद्वीपएवच ॥६॥  
 लवरोक्षुसुरासर्पिर्दधिक्षीरजलाब्धिभिः ।  
 द्विगुणोद्विगुणौवृद्ध्यासर्वतपरिवेष्टिता ॥७॥

कौण्डिकी ने कहा—हे मुने ! द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियाँ



कितनी है ? ॥१॥ महाभूत एव लोकालोक का प्रमाण कितना है तथा चन्द्रमा और सूर्य के व्यास का परिमाण और गति का प्रकार क्या है ? ॥२॥ हे महा-मुने ! विस्तार सहित इनका वर्णन करिये ॥३॥ मार्कण्डेयजी ने कहा—यह सम्पूर्ण पृथिवी पचास करोड़ योजन विस्तार वाली है, उन सभी के स्थानों का विषय वर्णन करता हूँ, उसे सुनो ॥४॥ हे महाभाग ! जम्बू इत्यादि जिन सप्त-द्वीपों का वर्णन किया है, उसका पुनः विस्तार सहित वर्णन करता हूँ ॥५॥ जम्बू, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्राँच, शाक और पुष्कर यह सातों द्वीप क्रमशः एक से दूसरा विस्तार में दुगुना है ॥६॥ लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दही, दूध और जल समुद्र के द्वारा दुगुने-दुगुने भाव से बढ़ते हुए हैं ॥७॥

जम्बूद्वीपस्यसस्थानप्रवक्ष्येऽहनिबोधमे ।  
लक्ष्मैकयोजनानावृत्तोविस्तारद्वैर्घृत ॥८॥  
हिमवान्हेमकूटश्चनिषधोमेरुरेवच ।  
नील श्वेतस्तथशृङ्गीसप्तद्वर्षपर्वता ॥९॥  
द्विलक्षयोजनायामौमध्येतत्रमहाचलौ ।  
तयोर्दक्षिणतोयौतुयौतथोत्तरतोगिरी ॥११॥  
दशभिर्दशभिन्न्यूनै सहस्रैस्तेपरस्परम् ।  
द्विसाहस्रोच्छ्रयाया सर्वेतावद्विस्तारिणश्चते ॥११॥  
समुद्रान्तःप्रविष्टाश्चषडस्मिन्वर्षपर्वता ।  
दक्षिणोत्तरतोनिम्नामध्येतुङ्गायथाक्षितिः ॥१२॥  
वेद्यद्दक्षिणोत्रीणित्रीणिवर्षाणिचोत्तरे ।  
इलावृत्तयोर्मध्येचन्द्रार्द्धाकारवत्स्थितम् ॥१३॥  
ततःपूर्वेणभद्राश्वकेतुमालचपश्चिमे ।  
इलावृत्तस्यमध्येतुमेरु कनकपर्वत ॥१४॥

जम्बू द्वीप का आकार परिमाण बताता हूँ, यह विस्तार, दीर्घता और व्यास में यह एक लाख योजन का है ॥८॥ उसके वर्ष पर्वत हिमवान्, हेमकूट, शृषभ, मेरु, नील, श्वेत और शृङ्गी यह सात हैं ॥९॥ मध्य में दो लाख योजन विस्तार वाले दो महा पर्वत हैं, उनके दक्षिण और उत्तर में दो-दो-

पर्वत है ॥१०॥ वह परस्पर दस-दस हजार न्यून सख्यक है तथा अन्य पर्वत दो हजार योजन ऊँचे और इतने ही विस्तार वाले है ॥११॥ इसके मध्य समुद्र मे स्थित छ वर्ष पर्वत है, यह भूमि उत्तर दक्षिण की ओर नीची और मध्य मे ऊँची तथा विस्तृत है ॥१२॥ उत्तर और दक्षिण मे तीन-तीन वर्ष हैं, इन दोनो के मध्य इलावृत्त वर्ष अर्द्धचन्द्र के आकार मे स्थित है ॥१३॥ उसके पूर्व मे भद्राश्र और पश्चिम मे केतुमाल है, इलावृत्त के मध्य मे ही सुमेरु पर्वत है ॥१४॥

चत्त्राशीतिस्राहस्रस्त स्योच्छ्रायोमहागिरे ।  
 प्रविष्टःषोडशाधस्ताद्विस्तार गुडशैवत् ॥१५  
 शरावसास्थितत्वाच्चद्वात्रिशन्मूर्ध्निविस्तृत ।  
 शुक्लपोतोऽसितोरक्त प्राच्यादिषुयथाक्रमम् ॥१६  
 विप्रोवैश्यस्तथाशूद्र क्षत्रियश्चस्ववर्णात् ।  
 तस्योपरितथैवाष्टौपुर्वोदिक्षुयथाक्रमम् ॥१७  
 तस्योपरिसभादिव्या पूर्वादिषुक्रमेणात् ।  
 इ द्रादिलोकपालानातन्मध्येब्रह्मण सभा ।  
 योजनानासहस्राणिचतुर्दशसमुच्छ्रिता ॥१८  
 अयुतोच्छ्रायास्तस्याधस्तथाविष्कम्भपर्वतः ।  
 प्राच्यादिषुक्रमेणैवमन्दरोगन्धमादन ॥१९  
 विपुलश्चसुपाश्वंश्चकेतुपादपशोभिता ।  
 कदम्बोमन्दरेकेतुर्जम्बुवैगन्धमादने ॥२०  
 विपुलेचतथाश्वत्थ सुपाश्वंश्चवटोमहान् ।  
 एकादशशतायामायोजनानामिमेनगा ॥२१

यह महापर्वत चौरासी सहस्र योजन ऊँचा है, सोलह हजार योजन धरती मे घुमा हुआ और वहाँ से सोलह सहस्र योजन विस्तार बाला है ॥१५॥ इसकी गिखर बत्तीस सहस्र योजन चौडी है, यह पूर्व की ओर श्वेत वर्ष का दक्षिण की ओर पीला, पश्चिम मे नीला तथा उत्तर मे लाल वर्ण का है ॥१६॥ इसकी दिशाओ मे पूर्वादि के क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते हैं

॥१७॥ उसके ऊपर उक्त दिशा क्रम से ही इन्द्रादि लोकपालो तथा मध्य मे ब्रह्माजी की चौदह सहस्र योजन विस्तार वाली सभा सुशोभित है ॥१८॥ इसके नीचे पूर्वादि दिशाओ मे दश सहस्र योजन ऊँचे चार विष्कम्भ पर्वत है, उनके नाम मन्दार, गधमादन ॥१९॥ विपुल और सुपाश्वं है, इन चारो पर्वतो पर चार वृक्ष क्रमश कदम्ब, जामुन ॥२०॥ पीपल और वरगद केतु के समान स्थित है, यह पर्वत एकादश सहस्र योजन परिमाण के है ॥२१॥

जठरोदेवकूटश्चपूर्वस्यादिशिपर्वतौ ।

आनीलनिषधायतौपरस्परनिरन्तरौ ॥२२

निषध पारियात्रश्चमेरो पार्श्वेतुपश्चिमे ।

यथापूर्ववैतथाचैतावानीलनिषधायतौ ॥२३

कैलासोहिमवाश्चैवदक्षिणेनमहाचलौ ।

पूर्वपश्चायतावेतावर्णवान्तर्व्यवस्थितौ ॥२४

शृगवाञ्जारुधिश्चैवतथेवोत्तरपर्वतौ ।

यथैवदक्षिणेतद्वदर्णवान्तर्व्यवस्थितौ ॥२५

मर्यादापर्वताह्ये तेकश्यन्तेऽष्टौद्विजोत्तम ।

हिमवद्ध मकूटादिपर्व्वतानापरस्परम् ॥२६

नवयोजनसाहस्र प्रागुदग्दक्षिणोत्तरम् ।

मेरोरिलावृतेतद्वदन्तरवैचतुर्दिशम् ॥२७

पूर्व मे जठर और देवकूट पर्वत स्थित है, वह परस्पर नील से निषध तक विस्तृत है ॥२२॥ मेरु के पश्चिम पार्श्व मे निषध और पारियात्र स्थित है, पूर्व दिशा के ही समान यह भी नील से निषध तक विस्तार युक्त है ॥२३॥ दक्षिण मे कैलाश और हिमवान् नामक महान् पवत है यह पूर्व पश्चिम मे लम्बे होकर समुद्र मे प्रवेश किये हुए है ॥२४॥ उत्तर मे शृङ्गवान् और जारुधि है, यह भी दक्षिण दिशा के ही समान ही समुद्र तक विस्तार किये हुए है ॥२५॥ हे विप्र श्रेष्ठ ! आठो पर्वतो का मान यही है, जो तुम्हारे प्रति कहा है तथा हिमवान् और हेमकूट आदि पर्वत परस्पर मे ॥२६॥ नौ सहस्र योजन

तक विस्तृत है, यह मभी पर्वत मेरु के चारो ओर तथा इलावृत्त के मध्य मे है ॥२७॥

फलानियानिवोजम्बवागन्धमादनपर्वते ।  
 गजदेहप्रमाराणानिपतन्तिगिरिमूर्द्धनि ॥२८  
 तेषाम्नावात्प्रभवतिख्याताजम्बूनदीतिवै ।  
 यत्रजाम्बूनदनामकनकसम्प्राजायते ॥२९  
 सापरिक्रम्यवैमेरुजम्बूमूलपुनर्नदी ।  
 विशतिद्विजशार्दूलपीयमानाजनैश्चतैः ॥३०  
 भद्राश्वेऽश्वशिराविष्णुभरितेकूर्मसस्थिति ।  
 वराहकेतुमालेचमत्स्यरूपस्तथोत्तरे ॥३१  
 तेषुनक्षत्रविन्यासाऋषसमवस्थिता ।  
 चतुर्ष्वपिद्विजश्चेऽग्रहाभिभवपाठका ॥३२

गधमादन पर्वत से गजदेह जैसे जामुन के फल शिखर से नीचे गिरते है ॥२८॥ उनके रस से उत्पन्न होने वाली नदी जम्बू नदी कही जाती है, इसी नदी से जाम्बूनद नामक स्वर्ण उत्पन्न हुआ है ॥२९॥ सुमेरु पर्वत की चारो ओर परिक्रमा करती हुई वह नदी, उसी जामुन के वृक्ष के नीचे प्रवाहमान है, वहाँ रहने वाले मनुष्य उसी का जल पीते है ॥३०॥ भद्राश्व मे अश्वशिरा, भारत मे कूर्माकृति, विष्णुकेतु माल मे वराह और उत्तर मे मत्स्य के स्वरूप मे भगवान् नारायण प्रतिष्ठित है ॥३१॥ इन चारो पर्वतो मे नक्षत्र और ऋषि स्थित है तथा नक्षत्रो का जाना-आना रहता है और उन ग्रहो का श्रेष्ठ या निकृष्ट फल भी होता रहता है ॥३२॥

### ४७--जम्बूद्वीप के वन पर्वतादि

शैलेषुमन्दराद्येषुचतुर्ष्वपिद्विजोत्तम ।  
 वनानियानिचत्वारिसरासिचनिबोधमे ॥१

पूर्व चैत्ररथनामदक्षिणोन्नन्दनवनम् ।  
 वै भ्राजपश्चिमेशैलेसावित्रंचोत्तराचले ॥२  
 अरुणोदसर पूर्वमानसदक्षिणेतथा ।  
 शीतोदपश्चिमेशैलेमहाभद्र तथोत्तरे ॥३  
 शीतार्तश्चक्रमुजश्चकुलीरोऽथश्चकङ्कवान् ।  
 मणिशैलोऽथवृषवान्महानीलीभवाचल ॥४  
 सुबिन्दुर्मन्दरोवेगुस्तामसोनिषधस्तथा ।  
 देवशैलश्चपूर्वोऽथमन्दरस्यमहाचल ॥५  
 त्रिकूटशिखराद्रिश्चकलिङ्गोऽथपतङ्गकः ।  
 रुचकसानुमाश्चाद्रिस्ताम्रकोऽथविशाखवान् ॥६  
 श्वेतादरसमूलश्चवसुधारश्चरत्नवान् ।  
 एकशृङ्गोमहाशैलोराजशैलपिपाठक ॥७  
 पचशैलोऽथकैलासोहिमवाश्चाचलोत्तम ।  
 इत्येतेदक्षिणोपार्श्वोमेरोप्रोक्तमहाचला ॥८

मार्कण्डेय जी ने कहा—हे द्विजश्रेष्ठ ! मन्दरादि पर्वतो मे चार वन तथा सरोवर है, अब उनका वर्णन करता हूँ, सो सुनो ॥१॥ पूर्व मे चैत्ररथ, दक्षिण मे नन्दन, पश्चिम मे वैभ्राज और उत्तर मे सावित्र नामक वन मे स्थित है ॥२॥ सुमेरु के पूर्व मे अरुभेद, दक्षिण मे मानस, पश्चिम मे शीतोद तथा उत्तर मे महाभद्र नामक सरोवर है ॥३॥ मंदर के पूर्व मे शीतार्त, चक्रमुज, कुलीर, सुककवान्, मणिशैल, वृषवान्, महानीली, भवाचल ॥४॥ बिन्दु, मन्दर, वेगु, तामस, निषध और देवशैल नामक पर्वत स्थित है ॥५॥ त्रिकूट, शिखर, कर्णिक, पतंगक, रुचक, सानुमान्, ताम्रक, विशाखवान् ॥६॥ श्वेतोदर, समूल, वसुधार, रत्नवान्, एक शृङ्ग, महाशैल, पिपाठक ॥७॥ पचशैल, कैलास तथा हिमवान् यह सभी महापर्वत सुमेरु के दक्षिण ओर अवस्थित है ॥८॥

सुरक्षगिगिराक्षश्चवैदूर्यपिगलस्तथा ।  
 पिजरोऽथमहाभद्रसुरसकपिलोमधु ॥९

अञ्जन कुक्कुट कृष्ण पाण्डुरश्चाचलोत्तम ।  
 सहस्रशिखरश्चाद्रिपारियात्र.सशृ गवान् ॥१०  
 पश्चिमेनतथामेरोर्विष्कम्भात्पश्चिमाद्वहि ।  
 एतेऽचला समाख्याता शृगुष्वान्यास्तथोत्तरान् ॥११  
 शङ्खकूटोऽथवृषभोहसनाभस्तथाचलः ।  
 कपिलेन्द्रस्तथाशैल सानुमाञ्जीलएवच ॥१२  
 स्वर्गशृङ्गी शातशृग पुष्पकोमेघपर्वत ।  
 विरजाक्षोवराहाद्रिर्मयूरोजारुधिस्तथा ॥१३  
 इत्येतेकथिताब्रह्मन्मेरोरुत्तरतोनगाः ।  
 एतेषापर्वतानानुद्रोण्योतीवमनोहराः ॥१४

सुराक्ष, शिशिराक्ष, वैदूर्य, पिंगल, पिंजर, महाभद्र, सुरस, कपिल, मधु  
 ॥१॥ अजन, कुक्कुट, कृष्ण, पाण्डुर, सहस्र शिखर, पारियात्र और शृङ्गवान्  
 ॥१०॥ यह सुमेरु और विष्कम्भ के पश्चिम और बहिर्भाग मे अवस्थित है, अब  
 उत्तर दिशा के पर्वतो के विषय मे कहता हूँ, उसे सुनो ॥११॥ शखकूट, धृषभ,  
 हमनाभ, कपिलेन्द्र, सानुमान्, नील ॥१२॥ स्वर्ग शृङ्गी, शातशृङ्गी, पुष्पक,  
 मेघ पर्वत, विरजाक्ष, वराहाद्रि, मयूर और जारुधि ॥१३॥ हे विप्र ! यह सभी  
 पर्वत सुमेरु के उत्तर भाग मे स्थित बताये गये है, इन पर्वतो की गुफाएँ अत्यन्त  
 रमणीक है ॥१४॥

वनैरमलपानीयैःसरोभिरुपशोभिता ।  
 तामुपुण्यकृताजन्ममनुष्याणाद्विजोत्तम ॥१५  
 एतेभौमाद्विजश्रेष्ठस्वर्गा स्वर्गगुराधिकाः ।  
 नतासुपुण्यपापानामपूर्वाणामुपार्जनम् ॥१६  
 पुण्योपभोगएवोक्तोदेवानामपितास्वपि ।  
 शीतान्ताद्येषुचेतेषुशैलेषुद्विजसत्तम ॥१७  
 विद्याधराणायक्षाणाकिञ्चरीरगरक्षसाम् ।  
 देवानाचमहावासागन्धर्वाणाचशोभना ॥१८

सभा पुर्योमनोज्ञाश्चसदैवोपवनेर्गुता ।  
 सरासिचमनोज्ञानिसर्वतु सुखदोनिल ॥१६  
 नचैतेषुक्लमोबाधावैमनस्यचक्रुत्रचित् ।  
 तदेतत्पार्थिवपद्म चतुष्पत्रमयोदितम् ॥२०  
 भद्राश्चभारताद्यानिपत्राण्यस्यचतुर्दिशम् ।  
 भारतनामयद्वर्षदक्षिणोनमयोदितम् ॥२१  
 तत्कर्म भूमिनान्यत्रसप्राप्ति-पुण्यपापयो ।  
 एतत्प्रधानविज्ञेयत्रसर्वप्रतिष्ठितम् ॥२२  
 अस्मात्स्वर्गापवर्गाचमानुष्यनारकावपि ।  
 तिर्गक्त्वमथवाप्यन्यन्नरा प्राप्नोतिवैद्विज ॥२३

यह सभी पर्वत वन तथा निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवरो से सुशोभित है, इस परम पुण्य स्थल मे पुण्यात्मा मनुष्य ही उत्पन्न होते है ॥१५॥ हे द्विज-वर ! यह सब स्थान स्वर्ग से भी गुणवत भौम स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ अपूर्व पाप अथवा पुण्य सचित नहीं होता ॥१६॥ इन सभी शीतान्तादि पर्वतो का उपभोग हो सकना देवगणो के लिए भी युग्य भोग स्वरूप है ॥१७॥ यहाँ विद्याधर, यक्ष, किन्नर, उरग, राक्षस, देवता, गधर्व आदि का अत्यन्त सुशोभित निवास है ॥१८॥ यह भूमि अत्यन्त पुण्यरूपा, सुरम्य और देवोद्यान एव मनो-हर सरोवरो से युक्त है, यहाँ की समीर सभी ऋतुओ मे सुखदायी है ॥१९॥ यहाँ कहीं भी मनुष्य मे विद्वेष भाव दिखायी नहीं देता, इसीलिये इसे मैंने चतुष्पत्र पार्थिव पद्म कहा है ॥२०॥ भद्राश्च और भारत आदि इसके चारो ओर चार पत्ते है तथा जो दक्षिण दिशा मे भारतवर्ष कहा है ॥२१॥ वह कर्मभूमि है, अन्य किसी स्थान मे पाप-पुण्य की उपलब्धि नहीं है, सबके अव-स्थान करने से भारतवर्ष को ही प्रधान माना गया है ॥२२॥ कर्मभूमि होने के कारण ही इससे मनुष्यो को स्वर्ग, मोक्ष, मनुष्य योनि, नरक, खगयोनि अथवा अन्यान्य योनियो की प्राप्ति होती है ॥२३॥

## ४८—गंगावतार

धराधरजगद्योनेःपादंनारायणस्यच ।  
 ततःप्रवृत्तायादेवीगगात्रिपथगामिनी ॥१॥  
 साप्रविश्यसुधायोनिंसोममाधारमम्भसाम् ।  
 ततःसर्वद्वर्मानार्कंरश्मिसङ्गतिपाविनी ॥२॥  
 पपातमेरुपृष्ठेचसाचतुर्द्धातितोययौ ।  
 मेरुकूटतटान्तेभ्योनिपतन्तीविवर्तिता ॥३॥  
 विकीर्यमाणसलिलानिरालम्बापपातसा ।  
 मन्दराद्येषुपादेषुप्रविभक्तोदकासमम् ॥४॥  
 चतुर्ष्वपिपपाताम्बुविभिन्नाङ्घ्रिशिलोच्चया ।  
 पूर्वासीतेऽतिविख्याताययौचैत्ररथवनम् ॥५॥  
 तत्प्लावयित्वाचययौवरुणोदसरोवरम् ।  
 शीतान्तचगिरितस्मात्ततश्चान्यान्गिरीन्क्रमात् ॥६॥  
 गत्वाभुवसमासाद्यभद्राश्वेजलधिगता ।  
 तथैवालकनन्दाख्यादक्षिणोऽगन्धमादने ॥७॥

मार्कण्डेयजी ने कहा—जगद्योनि नारायण के ध्रुवाधार पद से ही त्रिपथगामिनी भगवती गंगा की उत्पत्ति हुई है ॥१॥ वह समस्त जल की आधार रूपिणी सुधायोनि चन्द्रमण्डल में प्रवेश करके वहाँ सम्बद्ध सूर्य-रश्मियों से सयुक्त हो कर अत्यन्त पवित्र हो कर ॥२॥ सुमेरु पर गिरी है और वहाँ के सब कूट प्रान्त से गिरती हुई चार धाराओं में वहाँ से निकली है ॥३॥ इस प्रकार जल से विस्तृत और आलम्ब से रहित गंगा मन्दरादि पर्वत में विभाजित हो कर समान भाव से निपतित हुई है ॥४॥ और पर्वत-शिखाओं को काटती हुई बढी, उनमें जो जल धारा पूर्व में बहती हुई चैत्ररथ वन की ओर गई है, उसे सोता कहते हैं ॥५॥ वह सोता नामक गंगा चैत्ररथ वन को जलयुक्त करती हुई वरुणोद सरोवर में पहुँची है, वहाँ से शीतान्त पर्वत एवं अन्य पर्वतों का अतिक्रमण करती हुई ॥६॥ पृथिवी पर उतर कर भद्राश्व वर्ष में हो कर समुद्र तक



गई है तथा सुमेरु के दक्षिण ओर से जो गगाजल गधमादन पर्वत में निपतित हुआ है, उस धारा नाम अलकनन्दा है ॥७॥

मेरुपादेवनगत्वानन्दनदेवनन्दनम् ।

मानसचमहावेगात्प्लावयित्वासरोवरम् ॥८॥

आसाद्यशैलराजानरम्यत्रिशिखरगता ।

तस्मान्नपर्वतान्सर्वान्दक्षिणोयेक्रमोदिताः ॥९॥

तान्प्लावयित्वासप्राप्ताहिमवन्तमहागिरिम् ।

दधारतत्रताश्मभुर्नमुमोचवृषध्वजः ॥१०॥

भगीरथेनोपवासैस्तुत्याचाराधितोविभुः ।

तत्रमुक्ताचशर्वेणसप्तधादक्षिणोदधिम् ॥११॥

प्रविवेशत्रिधाप्राच्याप्लावयन्तीमहानदी ।

भगीरथरथस्यानुस्रोतसैकेनदक्षिणाम् ॥१२॥

तथैवपश्चिमेपादेविपुलेसामहानदी ।

सुचक्षुरिति विख्यातावैभ्राजसावनययौ ॥१३॥

शीतोदचसरस्तस्मात्प्लावयन्तीमहानदी ।

तस्मात्क्रमेणचाद्रीणांशिखरेषुनिपत्यसा ।

सुचक्षुःपर्वतप्राप्ताततश्चत्रिशिखंगता ॥१४॥

अलकनन्दा ने सुमेरु के समीपवर्ती देवताओं को प्रसन्नताप्रद नन्दनयन मे जाकर अत्यन्त वेग से मानस सरोवर को जल से परिपूर्ण किया है ॥८॥ इस मानस सरोवर को भर कर पर्वतराज के मरम्य शिखर स्थान से तथा वहाँ से सब पर्वतों का अतिक्रमण करती हुई ॥९॥ और उन्हे जल से परिपूर्ण करती हुई हिमालय मे निपतित हुई है, वहा भगवान् शंकर ने उस गगा को धारण कर उन्हे किसी प्रकार भी नही छोडा ॥१०॥ फिर जब महाराज भगीरथ ने भगवान् शिव की उपवास और स्तुति पूर्वक आराधना की तब उन्होंने गंगा को छोडा और वहा से छूठते ही गगा सात धाराओं मे विभक्त हो कर दक्षिण समुद्र मे प्रविष्ट हुई ॥११॥ उनमे तीन भाग पूर्व की ओर प्लावित करती हुई समुद्र मे गई और एक धारा भगीरथ के रथ के पीछे-पीछे जाकर समुद्र मे

जा मिली ॥१२॥ सुमेरु के पश्चिम में विपुलपाद के रूप से जो धारा निर्गत हुई उसका नाम सुचक्षु हुआ, उसने वैभ्राज पर्वत एवं वन को पवित्र करते हुए ॥१३॥ शीतोद सरोवर को प्लावित किया और वहां से सब पर्वतों के शिखरों पर और सुचक्षु पर्वत पर हो कर त्रिशिखर पर्वत को प्राप्त हुई ॥१४॥

केतुमालसमासाद्यप्रविष्टादक्षिणोदधिम् ॥१५

( गत्वोत्तरादिशगङ्गादिव्यासाचमहानदी ।

तस्मान्च ऋषभादींश्चक्रमादुत्तरजान्नगान् ॥ )

सुपार्श्वं तु तथैवाद्रिमेरुपादहिसागता ।

भद्रसोमेतिविख्यातासाययौसवितुर्वनम् ॥१६

तत्पावयन्तीसप्राप्तमहाभद्रसरोवरम् ।

ततश्च शङ्खकूटसाप्रयातावैमहानदी ॥१७

तस्मान्च वृषभादीन्साक्रमात्प्राप्यशिलोच्चयाम् ।

महार्णवमनुप्राप्ताप्लावयित्वोत्तरान्कुरुन् ॥१८

एवमेषामयागगाकथितातेद्विजर्षभ ।

जम्बूद्वीपनिवेशश्च वर्षाणि च यथा तथम् ॥१९

बसन्ति तेषु सर्वेषु प्रजा किंपुरुषादिषु ।

सुखप्रायानिरातङ्कान्यूनतोत्कर्षवर्जिता ॥२०

नवस्वपिचवर्षेषु सप्तसप्तकुलाचला ।

एकैकस्मिन्यथादेशेन च श्राद्रिविनि सृता ॥२१

फिर केतुमाल वर्ष में प्रवेश करती हुई समुद्र में सयुक्त हुई है ॥१५॥

( फिर यह दिव्य महानदी उत्तर दिशा में होती हुई ऋषभादिक उत्तर पर्वतों को प्राप्त हुई ) यह चतुर्थ धारा सुपार्श्व और सुमेरु से सविता वन में गई, वहाँ भद्र सोमा के नाम से प्रसिद्ध हुई, उस सविता वन को ॥१६॥ पवित्र करके उसने महाभद्र सरोवर को प्लावित किया, फिर शङ्खकूट पर्वत में गई ॥१७॥ वहां से वृषभादि पर्वतों में हो कर उसने समस्त उत्तर कुरु देश को पवित्र किया और फिर महा सागर में जा मिली ॥१८॥ हे द्विजवर ! मैंने तुम्हारे प्रति गगाजी का विषय कहा तथा जम्बूद्वीप के निवेश में ॥१९॥ जिन किम्पुरुषादि